



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 26।  
No. 26।

नई दिल्ली, जून 24—जून 30, 2012, शनिवार/आषाढ़ 3—आषाढ़ 9, 1934  
NEW DELHI, JUNE 24—JUNE 30, 2012, SATURDAY/ASADHA 3—ASADHA 9, 1934

भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएँ  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 2012

का. आ. 2150.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नोक्त अपराध जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित किए जाने हैं, उन्हें विनिर्दिष्ट करती है नामतः—

(क) कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 (1964 का अधिनियम सं. 5) के अंतर्गत दंडनीय अपराध, तथा

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित अपराध के संबंध में या उससे सम्बद्ध प्रयास, दुष्प्रेरणा तथा षड्यंत्र तथा उसी संव्यवहार में किया गया या उन्हीं तथ्यों से उत्पन्न कोई अपराध या अपराधों।

[फा. सं. 228/35/2012-एवीडी-II]  
राजीव जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC  
GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 19th June, 2012

S. O. 2150.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Special Police Establishment

Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government hereby specifies the following offences to be investigated by the Delhi Special Police Establishment namely—

(a) Offences punishable under the Karnataka Forest Act, 1963 (Act No. 5 of 1964), and

(b) Attempt, abetment and conspiracies in relation to or in connection with the above mentioned offence and any other offence or offences committed in course of the same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/35/2012-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

का.आ. 2151.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षण न्यायालयों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी.बी.आई.) द्वारा संस्थापित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्र जिसमें सारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य सम्मिलित हैं, में अभियोजन मामलों का संचालन करने के लिए

निम्नोक्त वकीलों को के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

**सर्वश्री**

1. अतुल शर्मा
2. हमीद अहमद
3. गोपाल कृष्ण सारस्वत
4. हरीश कुमार गुप्ता
5. सुरेंद्र सिन्हा
6. शिव चरण लाल शर्मा

[फा. सं. 202/5/2011-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव (V-II)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 2151.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints following Advocates in Central Bureau of Investigation as Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases in the local area comprising the whole State of NCT Delhi instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law :—

1. Shri Atul Sharma,
2. Shri Hameed Ahmad,
3. Shri Gopal Krishan Saraswat,
4. Shri Harish Kumar Gupta,
5. Shri Surender Sinha,
6. Shri Shiv Charan Lal Sharma.

[F. No. 202/5/2011-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy. (V-II)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2152.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षण न्यायालयों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी.बी.आई.) द्वारा संस्थापित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्र जिसमें सारा राजस्थान राज्य सम्मिलित है में अभियोजन मामलों का संचालन करने के लिए श्री जसराज सिंह राजावत, वकील को के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 202/5/2011-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव (V-II)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 2152.**—In exercise of the powers conferred by Section (2) of Section 24 of the Code of Criminal

Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Jasraj Singh Rajawat, Advocate in Central Bureau of Investigation as Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases in the local area comprising the whole State of Rajasthan instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law.

[F. No. 202/5/2011-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy. (V-II)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2153.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षण न्यायालयों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी.बी.आई.) द्वारा संस्थापित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्र जिसमें सारा आंध्र प्रदेश राज्य सम्मिलित है, में अभियोजन मामलों का संचालन करने के लिए श्री ए. वेणु गोपाल राव वकील को के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 202/5/2011-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव (V-II)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 2153.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri A. Venu Gopal Rao, Advocate in Central Bureau of Investigation as Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases in the local area comprising the whole State of Andhra Pradesh instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law.

[F. No. 202/5/2011-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy. (V-II)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2154.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षण न्यायालयों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी.बी.आई.) द्वारा संस्थापित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्र जिसमें सारा पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित है, में

अभियोजन मामलों का संचालन करने के लिए निम्नोक्त वकीलों को के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है :—

**सर्वश्री**

1. अशीष मुखर्जी
2. मानस कुमार मोन्दल

[फा. सं. 202/5/2011-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव (V-II)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 2154.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints following Advocate in Central Bureau of Investigation as Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases in the local area comprising the whole State of West Bengal instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law:—

1. Shri Ashis Mukherjee
2. Shri Manas Kumar Mondal

[F. No. 202/5/2011-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy. (V-II)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2155.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परीक्षण न्यायालयों तथा अपीलों, पुनरीक्षणों या विधि द्वारा स्थापित पुनरीक्षण या अपीलीय न्यायालयों में इन मामलों से उत्पन्न अन्य मामलों जो कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (सी.बी.आई.) द्वारा संस्थापित किए गए हैं। स्थानीय क्षेत्र जिसमें सारा महाराष्ट्र राज्य सम्मिलित है, में अभियोजन मामलों का संचालन करने के लिए श्री प्रेम कुमार सुंदरलाल अग्रवाल, वकील को के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 202/5/2011-एवीडी-II]

राजीव जैन, अवर सचिव (V-II)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S.O. 2155.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Prem Kumar Sunderlal Agrawal, Advocate in Central Bureau of Investigation as Public Prosecutor for conducting the prosecution of cases in the local area comprising the whole State of Maharashtra instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trial courts and appeals, revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law.

[F. No. 202/5/2011-AVD-II]

RAJIV JAIN, Under Secy. (V-II)

**वित्त मंत्रालय**

( वित्तीय सेवाएं विभाग )

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2156.**—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है :—

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ बीमा कंपनियों के नाम (संलग्न सूची के अनुसार)	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ	832
	<b>कुल</b>	<b>832</b>

[सं. 11016/4/2012-हिन्दी]

चन्द्रप्रकाश ढौंडियाल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

**भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, अहमदाबाद**  
**राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत**  
**अधिसूचित कराने हेतु कार्यालयों/शाखाओं की सूची**

1. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय  
सी. एन. विद्यालय परिसर  
आंबावाडी  
अहमदाबाद-380 015
2. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय -1  
सी. एन. विद्यालय कैम्पस,  
आंबावाडी  
अहमदाबाद-380 015
3. भारतीय स्टेट बैंक  
अमराईवाडी शाखा  
क्रिस्टल इस्टेट  
39, सतनाम को-ऑप. इंडस्ट्रियल इस्टेट  
अहमदाबाद-380 026
4. भारतीय स्टेट बैंक  
अरविंद नगर सोसाइटी शाखा  
6 अरविंद नगर सोसाइटी  
संजुबा हॉस्पिटल के पास, बापूनगर  
अहमदाबाद 380 003

5. भारतीय स्टेट बैंक  
सिविल हॉस्पिटल शाखा  
स्कीम नंबर 8  
दिग्विजय लायन्स फाउंडेशन बिल्डिंग  
सिविल हॉस्पिटल गेट नंबर 3 के सामने  
अहमदाबाद-380 016
6. भारतीय स्टेट बैंक  
सीटीएम चार रास्ता शाखा  
भारती को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि.  
अमराईवाडी  
अहमदाबाद-380 026
7. भारतीय स्टेट बैंक  
घोडासर शाखा  
अन्नपूर्णा सोसाइटी  
आवकार हॉल के पास, केंनाल रोड  
अहमदाबाद-380 050
8. भारतीय स्टेट बैंक  
ओढव शाखा  
जीआईडीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट  
पेट्रोल पंप के पीछे  
अहमदाबाद-382 415
9. भारतीय स्टेट बैंक  
गिरधरनगर शाखा  
पटेल सेनेटोरियम  
शाहीबाग रोड  
अहमदाबाद-380 004
10. भारतीय स्टेट बैंक  
बेहरामपुरा शाखा  
बगमार प्लाज़ा  
जमालपुर  
अहमदाबाद-380 022
11. भारतीय स्टेट बैंक  
कांकरिया शाखा  
भूतल 1 एवं 2, विजय टॉवर्स  
आबाद डेरी के सामने  
अहमदाबाद-380 022
12. भारतीय स्टेट बैंक  
खानपुर शाखा  
पुष्पक बिल्डिंग, खानपुर  
अहमदाबाद-380 001
13. भारतीय स्टेट बैंक  
खोखरा महेमदाबाद शाखा  
राधे शॉपिंग मॉल  
मणिनगर  
अहमदाबाद-380 008
14. भारतीय स्टेट बैंक  
कुबरेनगर शाखा  
सी-153, मेन बाजार  
कुबरेनगर  
अहमदाबाद-382 340
15. भारतीय स्टेट बैंक  
माधुपुरा शाखा  
101-ए अडवाणी मार्केट  
शाहीबाग रोड  
दिल्ली दरवाजा  
अहमदाबाद-380 001
16. भारतीय स्टेट बैंक  
मेघाणीनगर शाखा  
109-110 आशीष नगर सोसाइटी  
अहमदाबाद-380 016
17. भारतीय स्टेट बैंक  
जी आई डी सी शाखा  
रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स  
जी आई डी सी  
नाना चिलोडा  
अहमदाबाद-382 330
18. भारतीय स्टेट बैंक  
नारोल सर्कल शाखा  
विंग बी, सरोवर एवेन्यू  
नारोल सर्कल  
अहमदाबाद-382 405
19. भारतीय स्टेट बैंक  
पंचकुटीर रेसिडेंसी शाखा  
सुरज बंगलोज के सामने  
कठवा रोड  
नया नरोडा  
अहमदाबाद-382 330
20. भारतीय स्टेट बैंक  
निकोल रोड शाखा  
शॉप नंबर 1 से 6  
पंचम शॉपिंग मॉल  
जीवनवाडी के पास  
अहमदाबाद-382 350
21. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रणामीनगर रोड शाखा  
आर ए एफ वस्त्राल  
101 राधे चेंबर्स  
माधव पार्क पार्ट 4 के सामने  
प्रणामीनगर रोड  
अहमदाबाद-382 418



22. भारतीय स्टेट बैंक  
केन्टोनमेंट शाखा  
पुराना एयरपोर्ट रोड  
सदर बाजार  
अहमदाबाद-380 003
23. भारतीय स्टेट बैंक  
रीगल इस्टेट शाखा  
गुजरात बॉटलिंग के पास  
रखीयाल  
अहमदाबाद-380 023
24. भारतीय स्टेट बैंक  
सैजपुर बोधा शाखा  
जी डी हाइस्कूल के पास  
कृष्णनगर रोड  
अहमदाबाद-382 345
25. भारतीय स्टेट बैंक  
सरसपुर शाखा  
तिरूपति इस्टेट  
लुहार स्ट्रीट  
सरसपुर  
अहमदाबाद-380 018
26. भारतीय स्टेट बैंक  
शाह आलम गेट शाखा  
अलका शॉपिंग सेंटर  
मंगल पार्क बस स्टैंड के सामने  
गीता मंदिर रोड  
अहमदाबाद-380 022
27. भारतीय स्टेट बैंक  
न्यू क्लॉथ मार्केट शाखा  
ए 9 एवं 10, पहला तल,  
सुमेल बिजनेस पार्क  
न्यू क्लॉथ मार्केट के पीछे  
रायपुर  
अहमदाबाद-380 022
28. भारतीय स्टेट बैंक  
ठक्करबापा नगर शाखा  
शॉप नंबर 5 से 11, पुष्पक आर्कड  
हीरावाडी, बजरंगदास बापा आश्रम  
अहमदाबाद-380 350
29. भारतीय स्टेट बैंक  
विराटनगर शाखा  
पायोनियर प्लाजा  
सोनी नी चाली के पास  
अहमदाबाद-382 415
30. भारतीय स्टेट बैंक  
विवेकानंद इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
रखीयाल चार रास्ता के पास  
अहमदाबाद-380 021
31. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2  
सी एन विद्यालय बिल्डिंग  
आंबावाडी  
अहमदाबाद-380 015
32. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टॉक एक्सचेंज शाखा  
आई ओ सी  
रेलवे क्लॉसिंग के पास, डी केबिन  
अहमदाबाद-380 005
33. भारतीय स्टेट बैंक  
अखबारनगर चार रास्ता शाखा  
एल/14, स्वतंत्रता सेनानी नगर  
नवा वाडज  
अहमदाबाद-380 013
34. भारतीय स्टेट बैंक  
आंबावाडी शाखा  
श्री मांगल्य कॉम्प्लेक्स  
भुदरपुरा रोड  
अहमदाबाद -380 006
35. भारतीय स्टेट बैंक  
आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स शाखा  
कोचरब आश्रम के सामने  
प्रगतिनगर  
पालडी  
अहमदाबाद-380 006
36. भारतीय स्टेट बैंक  
धर्मनगर शाखा  
शांति एवम्यू, पुखराज हॉस्पिटल के पास  
रामनगर  
साबरमती  
अहमदाबाद-380 005
37. भारतीय स्टेट बैंक  
घाटलोडिया शाखा  
एच ब्लॉक, देवनंदन कॉम्प्लेक्स  
चाणक्यपुरी रेलवे स्टेशन के पास  
अहमदाबाद-380 061
38. भारतीय स्टेट बैंक  
गुजरात युनिवर्सिटी शाखा  
युनिवर्सिटी लाइब्रेरी के सामने  
नवरंगपुरा  
अहमदाबाद-380 009

39. भारतीय स्टेट बैंक  
आइ आइ टी चांदखेडा शाखा  
जी 8 विट्ठल मॉल,  
आइ आइ टी के पास  
गांधीनगर हाइवे, साबरमती  
अहमदाबाद-382 424
40. भारतीय स्टेट बैंक  
आइ ओ सी रोड शाखा  
34 41 स्नेह प्लाजा कॉम्प्लेक्स  
चांदखेडा  
अहमदाबाद-382 424
41. भारतीय स्टेट बैंक  
कंसरियाजी चार रास्ता शाखा  
प्रशान्ति फ्लैट  
जीवराज मेहता हॉस्पिटल के पास  
वासणा रोड  
अहमदाबाद-380 007
42. भारतीय स्टेट बैंक  
मेमनगर शाखा  
64 हरिओम निवास  
न्यू राजदीप को-ऑप सोसाइटी  
सूर्यदीप टॉवर के सामने  
मेमनगर  
अहमदाबाद 380 052
43. भारतीय स्टेट बैंक  
लॉ गार्डन शाखा  
जॉइंट एक एवन्यू, लॉ गार्डन  
अहमदाबाद 380 006
44. भारतीय स्टेट बैंक  
मीठाखली शाखा  
नंबर 379 रसाला मार्ग  
एलिस ब्रिज, नवरंगपुरा  
अहमदाबाद 380 006
45. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटेरा शाखा  
शॉप नंबर 1 से 5  
"ए" विट्ठल स्क्वेयर कॉम्प्लेक्स  
स्टेडियम रोड  
मोटेरा  
अहमदाबाद 380 001
46. भारतीय स्टेट बैंक  
नारणपुरा शाखा  
विक्रम अपार्टमेंट  
अर्वातिका सोसाइटी के सामने,  
नारणपुरा  
अहमदाबाद 380 013
47. भारतीय स्टेट बैंक  
नवा वाडज शाखा  
सुमंगलम कॉम्प्लेक्स  
व्यासवाडी के पास  
नवा वाडज  
अहमदाबाद-380 013
48. भारतीय स्टेट बैंक  
नवरंगपुरा शाखा  
"शिल्प" टेलिफोन एक्सचेंज के पास  
नवरंगपुरा  
अहमदाबाद-380 009
49. भारतीय स्टेट बैंक  
पालडी शाखा  
देव अर्चन कॉम्प्लेक्स  
कोचरब आश्रम के सामने  
अहमदाबाद-380 007
50. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रभात सोसाइटी शाखा  
963 जैन विहार  
सुविधा शॉपिंग सेंटर के सामने  
महालक्ष्मी चार रास्ता  
अहमदाबाद-380 006
51. भारतीय स्टेट बैंक  
राणीप शाखा  
नीलकंठ भवन  
पानी की टंकी के पास  
मेन बाजार, राणीप  
अहमदाबाद 382 480
52. भारतीय स्टेट बैंक  
आर टी ओ शाखा  
1 2 3 आस्था कॉम्प्लेक्स  
अग्रवाल पेट्रोल पंप के सामने  
सुभाषब्रिज सर्कल  
अहमदाबाद 380 027
53. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष एन आर आइ शाखा  
58 श्रीमाली सोसाइटी  
मीठाखली  
नवरंगपुरा  
अहमदाबाद 380 009
54. भारतीय स्टेट बैंक  
सेंट जेवियर्स हाइस्कूल रोड शाखा  
अक्षर आर्कैड  
मेमनगर फायर स्टेशन के सामने  
नवरंगपुरा  
अहमदाबाद 380 009

55. भारतीय स्टेट बैंक  
युनिवर्सिटी कैम्पस एरिया शाखा  
नवजीवन प्लॉट नं-8  
लाजपत नगर  
अहमदाबाद-380 014
56. भारतीय स्टेट बैंक  
वासणा शाखा  
सर्वमंगल कॉम्प्लेक्स  
झलक कॉम्प्लेक्स के सामने  
वासणा  
अहमदाबाद-380 007
57. भारतीय स्टेट बैंक  
विजयनगर शाखा  
7 गोपी कुंज सोसाइटी  
आदर्श नगर के सामने  
नवरंगपुरा  
अहमदाबाद-380 013
58. भारतीय स्टेट बैंक  
वाडज शाखा  
सैफायर बिजनेस सेंटर  
सत्यवादी सोसाइटी  
चांपानेर बस स्टैंड के पास  
उस्मानपुरा  
अहमदाबाद 380 013
59. भारतीय स्टेट बैंक  
चांदलोडिया शाखा  
सिल्वर स्टार कॉम्प्लेक्स  
ओवरब्रिज के पास  
अहमदाबाद-382 481
60. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3  
सी एन विद्यालय कैम्पस, आंबावाडी  
अहमदाबाद 380 015
61. भारतीय स्टेट बैंक  
ए पी एम सी वासणा शाखा  
ए पी एम सी मार्केट  
वासणा सरखेज रोड  
अहमदाबाद-380 007
62. भारतीय स्टेट बैंक  
बदरखा शाखा  
बस स्टैंड के पास  
पटेल वास रोड  
बदरखा 382 270  
जिला अहमदाबाद
63. भारतीय स्टेट बैंक  
बगोदरा शाखा  
रामजी मंदिर के सामने  
बगोदरा-382 230  
जिला अहमदाबाद
64. भारतीय स्टेट बैंक  
बारेजा शाखा  
नीलकंठ पार्क सोसाइटी  
बारेजा चार रास्ता  
बारेज-382 425  
जिला अहमदाबाद
65. भारतीय स्टेट बैंक  
बरवाला शाखा  
खमीदाणा गेट  
बरवाला (घेलाशा)-382 450  
जिला अहमदाबाद
66. भारतीय स्टेट बैंक  
बावला शाखा  
श्रीजी भवन, मेन बाजार  
पोस्ट ऑफिस के पास  
बावला-382 220  
जिला अहमदाबाद
67. भारतीय स्टेट बैंक  
बोडकदेव शाखा  
बोडकदेव चार रास्ता  
चैबर्स हाउस  
ग्रैंड भगवती के पास  
एस जी हाइवे  
अहमदाबाद-380 054
68. भारतीय स्टेट बैंक  
चांगोदर शाखा  
सरखेज बाजवा रोड  
चांगोदर-382 213  
जिला अहमदाबाद
69. भारतीय स्टेट बैंक  
कारपोरेट रोड शाखा  
आशीर्वाद-पारस  
प्रहलादनगर बगीचे के पास  
सैटेलाइट  
अहमदाबाद-380 015
70. भारतीय स्टेट बैंक  
देन्नोज शाखा  
रामजी मंदिर के सामने  
देन्नोज-382 120  
जिला अहमदाबाद

- |  |  |
|--|--|
| <p>71. भारतीय स्टेट बैंक<br/>धंधुका शाखा<br/>स्टेशन रोड<br/>धंधुका-382 460<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>72. भारतीय स्टेट बैंक<br/>धोलका शाखा<br/>जामपीठ बाजार<br/>धोलका-387 810<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>73. भारतीय स्टेट बैंक<br/>एण्डला शाखा<br/>रामजी मंदिर के सामने<br/>एण्डला-382 130<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>74. भारतीय स्टेट बैंक<br/>गांफ शाखा<br/>गांफ -382 465<br/>तालुका धंधुला<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>75. भारतीय स्टेट बैंक<br/>घुमा रोड शाखा<br/>ब्लॉक नं 322,<br/>14/15 न्यूयार्क दर्शन<br/>बोपल<br/>अहमदाबाद-380 058</p> <p>76. भारतीय स्टेट बैंक<br/>गोला शाखा<br/>अग्रवाल मॉल<br/>सोला भागवत विद्यापीठ के सामने<br/>एस जी हाइवे<br/>अहमदाबाद 380 060</p> <p>77. भारतीय स्टेट बैंक<br/>गुजरात हाइकोर्ट शाखा<br/>प्रशासनिक बिल्डिंग<br/>न्यू हाइकोर्ट कॉम्प्लेक्स<br/>सोला<br/>एस जी हाइवे<br/>अहमदाबाद 380 060</p> <p>78. भारतीय स्टेट बैंक<br/>आइ आइ एम शाखा<br/>आइ आइ एम कैम्पस<br/>वस्त्रापुर<br/>अहमदाबाद-380 015</p> | <p>79. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जवारज शाखा<br/>पानी की टंकी के पास<br/>जवारज-382 230<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>80. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जोधपुर टेकरा शाखा<br/>इसरो कैम्पस<br/>सैटेलाइट रोड<br/>अहमदाबाद-380 001</p> <p>81. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जजीस बंगलो शाखा<br/>बोडकदेव<br/>अहमदाबाद-380 015</p> <p>82. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कटोसण रोड शाखा<br/>मेन बाजार<br/>ए पी एम सी के सामने<br/>कटोसण-382 145<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>83. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कौका शाखा<br/>बुरहाणी मंजिल<br/>कौका-382 265<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>84. भारतीय स्टेट बैंक<br/>खोरज शाखा<br/>खोरज-382 170<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>85. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कोठ शाखा<br/>एस टी बस स्टैण्ड के पास<br/>कोठ 382 240<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>86. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मुफलीपुर शाखा<br/>ए-1, धरणीधर पार्क<br/>कलिकुंड मंदिर के पास<br/>मुफलीपुर-387 810<br/>जिला अहमदाबाद</p> <p>87. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मांडल शाखा<br/>स्टेशन रोड<br/>मांडल-382 130<br/>जिला अहमदाबाद</p> |
|--|--|

88. भारतीय स्टेट बैंक  
नेहरूनगर शाखा  
सिटी स्क्वेअर  
पोस्ट ऑफिस के सामने  
जाहूवी रेस्टोरो के पास  
युनिवर्सिटी रोड  
अहमदाबाद-380 015
89. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रेरणातीर्थ रोड शाखा  
20-25, रत्नदीप कॉम्प्लेक्स-2  
सैटेलाइट  
अहमदाबाद-380 015
90. भारतीय स्टेट बैंक  
राणपुर शाखा  
क्रिष्णा कॉम्प्लेक्स  
जी ई बी रोड  
• राणपुर-363 610  
जिला अहमदाबाद
91. भारतीय स्टेट बैंक  
आंबली शाखा  
स्वागत प्लाजा-2  
आंबली-बोपल रोड  
अहमदाबाद-380 058
92. भारतीय स्टेट बैंक  
साणंद शाखा  
मोची बाजार  
साणंद-382 110  
जिला अहमदाबाद
93. भारतीय स्टेट बैंक  
सरखेज सर्कल शाखा  
शिवम इस्टेट-1, सरखेज  
अहमदाबाद-382 210
94. भारतीय स्टेट बैंक  
साइन्स सिटी शाखा  
मौर्य टाइम्स स्क्वेअर  
आर के हॉल के सामने  
अहमदाबाद-380 060
95. भारतीय स्टेट बैंक  
श्रीनंदनगर शाखा  
राधे कॉम्प्लेक्स, वेजलपुर  
अहमदाबाद-380 051
96. भारतीय स्टेट बैंक  
सोमेश्वर कॉम्प्लेक्स शाखा  
साथ-संगाथ बिल्डिंग  
शिवरंजनी चार रास्ता  
अहमदाबाद-380 015
97. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष एन आर आइ शाखा  
सार्थक 2  
राजपथ क्लब के सामने  
एस जी हाइवे  
अहमदाबाद 380 015
98. भारतीय स्टेट बैंक  
वारणा शाखा  
पंचाल फली  
वारणा 382 265  
जिला अहमदाबाद
99. भारतीय स्टेट बैंक  
वासणा केलीया शाखा  
वासणा केलीया 387 810  
जिला अहमदाबाद
100. भारतीय स्टेट बैंक  
वेजलपुर शाखा  
15, पालखी को-ऑप. हाउसिंग सोसाइटी लि.  
जीवराज पार्क रोड  
वेजलपुर  
अहमदाबाद 380 051
101. भारतीय स्टेट बैंक  
विरमगाम शाखा  
टॉवर रोड  
विरमगाम-382 150  
जिला अहमदाबाद
102. भारतीय स्टेट बैंक  
विरोचननगर शाखा  
विरोचननगर 382 170  
जिला अहमदाबाद
103. भारतीय स्टेट बैंक  
विशालपुर शाखा  
मेलडी माता के मंदिर के सामने  
विशालपुर-382 210  
जिला अहमदाबाद
104. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-4  
सी एन विद्यालय बिल्डिंग  
आंबावाडी  
अहमदाबाद-380 015
105. भारतीय स्टेट बैंक  
बोपल शाखा  
न्यूयार्क दर्शन कॉम्प्लेक्स  
अहमदाबाद-380 058

106. भारतीय स्टेट बैंक  
डाइव-इन रोड शाखा  
पंचाणी चैबर्स  
एशिया स्कूल के सामने  
अहमदाबाद-380 054
107. भारतीय स्टेट बैंक  
गुलाब टॉवर शाखा  
ए पी एम शॉपिंग मॉल  
घाटलोडिया  
अहमदाबाद-380 061
108. भारतीय स्टेट बैंक  
इस्कोन सर्कल शाखा  
10 देवार्क कॉम्प्लेक्स  
एस जी हाइवे  
अहमदाबाद-380 059
109. भारतीय स्टेट बैंक  
के के नगर रोड शाखा  
वासुकानन टॉवर  
घाटलोडिया  
अहमदाबाद-380 061
110. भारतीय स्टेट बैंक  
माणिकबाग शाखा  
नवयुग सोसाइटी  
आंबावाडी  
अहमदाबाद-380 015
111. भारतीय स्टेट बैंक  
नारायणनगर शाखा  
54 ब्रह्मक्षत्रिय सोसाइटी  
अहमदाबाद-380007
112. भारतीय स्टेट बैंक  
निर्णयनगर शाखा  
शांति रेसिडेंसी  
रत्न ज्योत फ्लैट के पास  
अहमदाबाद-382 481
113. भारतीय स्टेट बैंक  
ओ एन जी सी चांदखेडा शाखा  
आइ आर एस कैम्पस  
अवनि भवन के सामने  
अहमदाबाद-382 424
114. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रगतिनगर शाखा  
शांति आर्कड  
ए ई सी क्रॉस रोड के पास  
जय मंगल बस स्टॉप के सामने  
132 फुट रिंग रोड, नारणपुरा  
अहमदाबाद-380 013
115. भारतीय स्टेट बैंक  
रामदेवनगर रोड शाखा  
पलक-2, आनंदनगर  
रामदेवनगर रोड, सैटेलाइट  
अहमदाबाद-380 015
116. भारतीय स्टेट बैंक  
आनंदनगर शाखा  
ग्रांडमोनार्क, सीमा हॉल के पास  
सैटेलाइट  
अहमदाबाद-380 015
117. भारतीय स्टेट बैंक  
एस जी हाइवे रोड शाखा  
1, जोडिएक स्क्वेयर,  
गुरुद्वारा के सामने  
अहमदाबाद-380 054
118. भारतीय स्टेट बैंक  
सैटेलाइट शाखा  
10-11-12 आकाश कॉम्प्लेक्स  
प्रेमचंदनगर रोड  
बोडकदेव, सैटेलाइट  
अहमदाबाद-380 015
119. भारतीय स्टेट बैंक  
शाहीबाग शाखा  
स्पेक्ट्रम टॉवर  
पुलिस स्टेशन के पास  
अहमदाबाद-380 004
120. भारतीय स्टेट बैंक  
सोला रोड शाखा  
10-19, सत्य सूर्या कॉम्प्लेक्स  
सताधार क्रॉस रोड  
सोला रेल्वे ब्रिज के पास, अहमदाबाद 380 061
121. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड मणिनगर शाखा  
मोदी आर्कड, स्टेशन रोड  
मणिनगर रेल्वे स्टेशन के सामने  
अहमदाबाद-380 008
122. भारतीय स्टेट बैंक  
थलतेज सर्कल शाखा  
सिल्वर स्क्वेयर, राजीव प्लाजा  
रामबाग के सामने, शीलज रोड  
अहमदाबाद-380 059
123. भारतीय स्टेट बैंक  
वस्त्रापुर शाखा  
शिलालेख कॉम्प्लेक्स  
वस्त्रापुर तालाब के सामने  
अहमदाबाद-380 015

124. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-5  
सेक्टर 10-बी  
गांधीनगर-382 010
125. भारतीय स्टेट बैंक  
वडसर शाखा  
एयर फोर्स स्टेशन  
वडसर-382 721  
जिला गांधीनगर
126. भारतीय स्टेट बैंक  
बहियेल शाखा  
5/57 सरखेज रोड  
बहियेल-382308  
तालुका दहेगाम, जिला गांधीनगर
127. भारतीय स्टेट बैंक  
बालवा शाखा  
स्वामीनारायण मंदिर के पास  
बालवा-382 655  
जिला गांधीनगर
128. भारतीय स्टेट बैंक  
चराडा शाखा  
श्री चराडा सेवा सहकारी मंडली लि.  
चराडा-382 810  
जिला गांधीनगर
129. भारतीय स्टेट बैंक  
चिलोडा शाखा  
चिलोडा 382 260  
जिला गांधीनगर
130. भारतीय स्टेट बैंक  
सी आर पी एफ ग्रुप सेंटर शाखा  
चीलोडा रोड  
गांधीनगर 382 042
131. भारतीय स्टेट बैंक  
डभांडा शाखा  
पंचायत के सामने  
डभांडा 382 355  
जिला गांधीनगर
132. भारतीय स्टेट बैंक  
दहेगाम शाखा  
परीख सदन, स्टेशन रोड  
दहेगाम 382 305  
जिला गांधीनगर
133. भारतीय स्टेट बैंक  
जी आइ डी सी इलेक्ट्रॉनिक्स इस्टेट शाखा  
गांधीनगर 382 025
134. भारतीय स्टेट बैंक  
जी एम बी कॉम्प्लेक्स शाखा  
सेक्टर 10, एयर फोर्स के सामने  
छ रोड  
गांधीनगर-382 010
135. भारतीय स्टेट बैंक  
इन्फोसिटी शाखा  
कमर्शियल यूनिट नं. एस डब्ल्यू जी एफ/02  
सुपर मॉल-1, सेक्टर-9  
गांधीनगर-382 009
136. भारतीय स्टेट बैंक  
आई पी आर शाखा  
भाट-382 428  
जिला गांधीनगर
137. भारतीय स्टेट बैंक  
बादपुरा शाखा  
महुडी रोड  
ईश्वरपुरा, बादपुरा-382845  
जिला गांधीनगर
138. भारतीय स्टेट बैंक  
कडजोदरा शाखा  
दूध उत्पादक मंडली  
शिव मंदिर रोड  
कडजोदरा-382 315  
जिला गांधीनगर
139. भारतीय स्टेट बैंक  
पंचवटी शाखा  
ग्रीन वेली कारपोरेट हाउस  
होली स्कूल के पास  
कलोल (एन.जी.)-382 721  
जिला गांधीनगर
140. भारतीय स्टेट बैंक  
कोलवडा शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग के पास  
कोलवडा-382 625  
जिला गांधीनगर
141. भारतीय स्टेट बैंक  
लवारपुर शाखा  
मेन बाजार, लवारपुर-382 355  
जिला गांधीनगर
142. भारतीय स्टेट बैंक  
माणसा शाखा  
चितरंजन चैंबर्स स्टेशन रोड  
माणसा-382 845  
जिला गांधीनगर

143. भारतीय स्टेट बैंक  
एन एस सी शाखा  
ब्लॉक नं. 10, न्यू सचिवालय  
सेक्टर 10  
गांधीनगर-382 010
144. भारतीय स्टेट बैंक  
नारदीपुर शाखा  
श्री गुरु कृपा  
नारदीपुर-382 735  
जिला-गांधीनगर
145. भारतीय स्टेट बैंक  
रांधेजा शाखा  
जूना छोटा चबूतरा ट्रस्ट  
छीपा चकला रोड  
रांधेजा 382 620  
जिला-गांधीनगर
146. भारतीय स्टेट बैंक  
अडालज शाखा  
क्रिष्णा कॉम्प्लेक्स  
साबरमती कलोल हाइवे  
स्वागत बंगलोज के पास  
अडालज 382 421, जिला-गांधीनगर
147. भारतीय स्टेट बैंक  
च रोड शाखा  
गुजरात स्टेट सिविल सप्लाइ कारपोरेशन बिल्डिंग  
च रोड, होटल हवेली के पास,  
सेक्टर 10, गांधीनगर-382 010
148. भारतीय स्टेट बैंक  
सोजा शाखा  
स्वामीनारायण मंदिर के पास  
सोजा 383 735  
जिला-गांधीनगर
149. भारतीय स्टेट बैंक  
त्रिमंदिर शाखा  
अंबा टाउनशिप  
त्रिमंदिर के पीछे  
अहमदाबाद कलोल हाइवे  
अडालज-382 421  
जिला-गांधीनगर
150. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-6  
जोनल ऑफिस बिल्डिंग  
सेक्टर 10 बी  
नए सचिवालय, गेट नं. 1 के सामने  
गांधीनगर-382 010
151. भारतीय स्टेट बैंक  
आश्रम चोकडी शाखा  
रणासण-382 055  
जिला-महेसाणा
152. भारतीय स्टेट बैंक  
बायड शाखा  
आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स  
बिहारी पेट्रोल पंप के सामने  
बायड-383 325  
जिला-साबरकांठा
153. भारतीय स्टेट बैंक  
बहुचराजी शाखा  
मानसरोवर  
बहुचराजी-384 210  
जिला-महेसाणा
154. भारतीय स्टेट बैंक  
भीलोडा शाखा  
4 हरीश शॉपिंग सेंटर  
सहकारी जीन के सामने  
भीलोडा-383 245  
जिला-साबरकांठा
155. भारतीय स्टेट बैंक  
चोरीवाड शाखा  
चोरीवाड-383 440  
वाया ईडर  
जिला-साबरकांठा
156. भारतीय स्टेट बैंक  
देध्रोता शाखा  
नवा वास  
देध्रोता-383 220  
जिला-साबरकांठा
157. भारतीय स्टेट बैंक  
धनसुरा शाखा  
धनसुरा-383 310  
जिला-साबरकांठा
158. भारतीय स्टेट बैंक  
धरोई शाखा  
धरोई कॉलोनी  
धरोई-384 360  
जिला-महेसाणा
159. भारतीय स्टेट बैंक  
गणपत युनिवर्सिटी शाखा  
गोजारिया रोड  
खेरवा-382 711  
जिला-महेसाणा



160. भारतीय स्टेट बैंक  
गवाडा शाखा  
जैन देरासर के सामने  
गवाडा-382 815  
जिला-महेसाणा
161. भारतीय स्टेट बैंक  
गोजारिया शाखा  
पोचा नो वास  
गोजारिया-382 825  
जिला-महेसाणा
162. भारतीय स्टेट बैंक  
हथारवा शाखा  
अमीन हाईस्कूल के पास  
हथारवा-383 235  
जिला-साबरकांठा
163. भारतीय स्टेट बैंक  
हाईवे क्रॉस रोड शाखा  
प्लेटीनम प्लाजा  
कडी-382 715  
जिला-महेसाणा
164. भारतीय स्टेट बैंक  
हाईवे रोड शाखा  
युनिवर्सल कॉम्प्लेक्स  
महेसाणा-384 002
165. भारतीय स्टेट बैंक  
ईडर शाखा  
सर प्रताप हाईस्कूल के सामने  
ईडर 383 430  
जिला साबरकांठा
166. भारतीय स्टेट बैंक  
कडी शाखा  
गोपालजी की हवेली  
बस स्टैंड के सामने  
कडी (एन.जी.)-382 715  
जिला-महेसाणा
167. भारतीय स्टेट बैंक  
कडियाद्रा शाखा  
मोती भुवन  
कडियाद्रा 383 440  
जिला साबरकांठा
168. भारतीय स्टेट बैंक  
कामली शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग  
कामली-384 140  
जिला महेसाणा
169. भारतीय स्टेट बैंक  
कपडवंज हाईवे शाखा  
सहजानंद कॉम्प्लेक्स  
संजीवनी हॉस्पिटल के सामने  
बायड-383 325  
जिला-साबरकांठा
170. भारतीय स्टेट बैंक  
खांभेल शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग  
बस स्टैंड के पास  
खांभेल-384 210  
जिला-महेसाणा
171. भारतीय स्टेट बैंक  
खेडब्रह्मा शाखा  
स्टेशन रोड, खेडब्रह्मा-383 255  
जिला-साबरकांठा
172. भारतीय स्टेट बैंक  
कुकरवाडा शाखा  
शाह एस डी हाईस्कूल के पास  
राम चौक रोड  
कुकरवाडा-382 830  
जिला-महेसाणा
173. भारतीय स्टेट बैंक  
लाटी बाजार शाखा  
शामलाजी हाईवे  
भिलोडा-383 245  
जिला-साबरकांठा
174. भारतीय स्टेट बैंक  
मालपुर शाखा  
चार रास्ता, मालपुर-383 345  
जिला-साबरकांठा
175. भारतीय स्टेट बैंक  
मेघरज शाखा  
सी जी शॉपिंग सेन्टर,  
हाईस्कूल के सामने  
मेघरज-383 359  
जिला-साबरकांठा
176. भारतीय स्टेट बैंक  
मेवडा शाखा  
मेवडा-383 345  
जिला-साबरकांठा
177. भारतीय स्टेट बैंक  
मोडासा शाखा  
शामलाजी रोड, मोडासा-383 315  
जिला-साबरकांठा

- |   |   |
|---|---|
| 178. भारतीय स्टेट बैंक<br>मोढेरा शाखा<br>हाउस नंबर 1207, मेन बाजार<br>मोढेरा-384 212<br>जिला-महेसाणा                        | 187. भारतीय स्टेट बैंक<br>सतलासणा शाखा<br>शॉप नंबर-11<br>सर्वे नंबर 189/2<br>जिला-महेसाणा   |
| 179. भारतीय स्टेट बैंक<br>मोतीपुरा शाखा<br>आविष्कार कॉम्प्लेक्स<br>मोतीपुरा सर्कल<br>हिम्मतनगर-383 001<br>जिला-साबरकांठा    | 188. भारतीय स्टेट बैंक<br>सुंढिया शाखा<br>गर्ल्स हाईस्कूल के पास<br>आझाद चौक<br>सुंढिया-384 345<br>जिला-महेसाणा                           |
| 180. भारतीय स्टेट बैंक<br>नंदासण शाखा<br>कलोल महेसाणा हाईवे<br>नंदासण-382 705<br>जिला-महेसाणा                               | 189. भारतीय स्टेट बैंक<br>तलोद शाखा<br>नगर पालिका के सामने<br>तलोद-383 215<br>जिला-साबरकांठा  |
| 181. भारतीय स्टेट बैंक<br>ओएनजीसी शाखा<br>ओएनजीसी कॉम्प्लेक्स<br>पालावासणा, महेसाणा-384 003                                 | 190. भारतीय स्टेट बैंक<br>टीनटोई शाखा<br>कडवा पाटीदार समाज की वाड़ी<br>पी एम कोठारी हाईस्कूल के सामने<br>टीनटोई-383 315<br>जिला-साबरकांठा |
| 182. भारतीय स्टेट बैंक<br>पटेल दुंडा शाखा<br>पटेल दुंडा-383 350<br>जिला-साबरकांठा   | 191. भारतीय स्टेट बैंक<br>उंची धनाल शाखा<br>मेन रोड<br>उंची धनाल-383 270<br>जिला-साबरकांठा  |
| 183. भारतीय स्टेट बैंक<br>प्रांतीज शाखा<br>नगर पालिका ऑफिस के सामने<br>प्रांतीज-383 205<br>जिला-साबरकांठा                   | 192. भारतीय स्टेट बैंक<br>वडाली शाखा<br>वल्लभ हॉस्पिटल के पास<br>वडाली-383 235, जिला-साबरकांठा  |
| 184. भारतीय स्टेट बैंक<br>एप्रोच रोड शाखा<br>गोपीनाथ कॉम्प्लेक्स<br>एल आई सी के सामने<br>प्रांतीज-383 205<br>जिला-साबरकांठा | 193. भारतीय स्टेट बैंक<br>वडनगर शाखा<br>दीप कॉम्प्लेक्स<br>बी.एन. हाईस्कूल के पास<br>वडनगर, जिला-महेसाणा-384 355                          |
| 185. भारतीय स्टेट बैंक<br>सरदार चौक शाखा<br>सरदार पटेल कॉम्प्लेक्स<br>मेन बाजार<br>उझा-384 170<br>जिला-महेसाणा              | 194. भारतीय स्टेट बैंक<br>वसई शाखा<br>पटेल फलिया<br>वसई-383 450<br>जिला-साबरकांठा   |
| 186. भारतीय स्टेट बैंक<br>साठंबा शाखा<br>इंडस्ट्रियल एरिया, मेन बाजार<br>साठंबा-383 340<br>जिला-साबरकांठा                   | 195. भारतीय स्टेट बैंक<br>विजयनगर शाखा<br>हॉली चौक के पास<br>विजयनगर-383 460<br>जिला-साबरकांठा  |

196. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष सरकारी व्यवसाय शाखा  
राजमहल रोड  
महेसाणा
197. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय  
पेरैडाईज कॉम्प्लेक्स  
सयाजीगंज  
वडोदरा-390 005
198. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-1  
पेरैडाईज कॉम्प्लेक्स  
सयाजीगंज  
वडोदरा-390 005
199. भारतीय स्टेट बैंक  
एयरफोर्स स्टेशन मकरपुरा शाखा  
एकार्ड्स बिल्डिंग  
एयरफोर्स स्टेशन  
मकरपुरा  
वडोदरा-390 014
200. भारतीय स्टेट बैंक  
अक्षर चौक शाखा  
श्री साईविला  
पितांबर सोसाइटी  
ओल्ड पाव्स रोड  
वडोदरा-390 020
201. भारतीय स्टेट बैंक  
अलकापुरी शाखा  
एक्सप्रेस होटेल प्रा. लि.  
नेहा अपार्टमेंट  
अलकापुरी  
वडोदरा-390 005
202. भारतीय स्टेट बैंक  
अटलादरा शाखा  
13 से 16, पहला तल  
अक्षरद्वार कॉम्प्लेक्स  
पादरा रोड  
अटलादरा-390 012  
जिला-वडोदरा
203. भारतीय स्टेट बैंक  
भायली शाखा  
परावाडी  
पोस्ट: भायली-391 410  
जिला-वडोदरा
204. भारतीय स्टेट बैंक  
दांडिया बाजार शाखा  
जगधाने मेन्शन  
सिद्धि विनायक मंदिर के सामने  
दांडिया बाजार  
वडोदरा-390 001
205. भारतीय स्टेट बैंक  
दरबार चौकडी शाखा  
शॉप नंबर 4-13,  
श्री विनायक कॉम्प्लेक्स  
अतिथि गृह के सामने  
दरबार चौकडी  
मांजलपुर  
वडोदरा-390 011
206. भारतीय स्टेट बैंक  
इस्कॉन मंदिर रोड शाखा  
9/10 कृष्णधाम अपार्टमेंट  
वडोदरा-390 015
207. भारतीय स्टेट बैंक  
जय रत्न बिल्डिंग शाखा  
साई रचना अपार्टमेंट  
आर.बी. देसाई रोड  
वडोदरा-390 001
208. भारतीय स्टेट बैंक  
कलादर्शन चार रास्ता शाखा  
'नियति' बी 5-6-7, महावीर पार्क  
कलादर्शन चार रास्ता के पास  
बाधोडिया रोड  
वडोदरा-390 019
209. भारतीय स्टेट बैंक  
लाल बाग शाखा  
मधुवन कॉम्प्लेक्स  
रेल्वे क्रॉसिंग के पास  
लाल बाग  
वडोदरा-390 011
210. भारतीय स्टेट बैंक  
एम. एस. युनिवर्सिटी शाखा  
दयानंद बिल्डिंग  
सयाजीगंज  
वडोदरा-390 005
211. भारतीय स्टेट बैंक  
मकरपुरा इन्डस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
बीसीसीआई बिल्डिंग  
मकरपुरा इन्डस्ट्रियल इस्टेट  
वडोदरा-390 010

212. भारतीय स्टेट बैंक  
मानेजा शाखा  
पुरुषोत्तम निवास  
स्वामीनारायण मंदिर रोड  
मानेजा-390 013, जिला-वडोदरा
213. भारतीय स्टेट बैंक  
मांजलपुर शाखा  
शिव सुंदरम कॉम्प्लेक्स  
दीप चेम्बर के सामने  
कुबेरेश्वर महादेव रोड,  
मांजलपुर, वडोदरा-390 011
214. भारतीय स्टेट बैंक  
मुजमहुडा शाखा  
शॉप नंबर 8-9-10  
अश्वमेध-2  
अकोटा, मुजमहुडा रोड  
वडोदरा-390 020
215. भारतीय स्टेट बैंक  
ओल्ड पादरा रोड शाखा  
श्रीजल बिल्डिंग  
पुनीतसागर सोसाइटी  
ओल्ड पादरा रोड  
वडोदरा-390 015
216. भारतीय स्टेट बैंक  
ओ.एन.जी.सी. शाखा  
ओएनजीसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  
मकरपुरा रोड, वडोदरा-390 009
217. भारतीय स्टेट बैंक  
परिवार चार रास्ता शाखा  
9/ए परिवार सोसाइटी  
वाघोडिया  
डभोई रिंग रोड  
वडोदरा 390 019
218. भारतीय स्टेट बैंक  
पोर शाखा  
प्लॉट नं. 137, जी आई डी सी  
रमनगामडी  
पोर 391 243  
जिला-वडोदरा
219. भारतीय स्टेट बैंक  
सयाजीगंज शाखा  
डॉ. टी. वी. पटेल मेडिकल कॉलेज  
लाइब्रेरी बिल्डिंग  
आराधना सिनेमा के सामने  
सयाजीगंज  
वडोदरा 390 001
220. भारतीय स्टेट बैंक  
सेवासी शाखा  
सेवासी हाईस्कूल के पास  
सेवासी-391 101, जिला-वडोदरा
221. भारतीय स्टेट बैंक  
तांदलजा शाखा  
भूतल 1-4, शाहिल कॉम्प्लेक्स  
जी पी रोड पुलिस स्टेशन के पास  
वडोदरा-390 020
222. भारतीय स्टेट बैंक  
तरसाली शाखा, शॉप नंबर 19-25  
गंगासागर कॉम्प्लेक्स  
सुसेन-तरसाली रिंग रोड  
वडोदरा-390 009
223. भारतीय स्टेट बैंक  
उर्मो सोसायटी शाखा  
65/ए, श्रीनगर सोसायटी, प्रोडक्टिविटी रोड  
वडोदरा-390 020
224. भारतीय स्टेट बैंक  
वासणा रोड शाखा  
बी-11, श्रीजला बंग्लोज, विश्रामनगर सोसायटी  
तक्ष कॉम्प्लेक्स, वासणा रोड  
वडोदरा-390 020
225. भारतीय स्टेट बैंक  
वृंदावन चार रास्ता शाखा  
4/ए, वृंदावन सोसायटी  
वाघोडिया रोड, वडोदरा-390 019
226. भारतीय स्टेट बैंक  
वाडी शाखा  
कन्हैयालाल मेसन्स, वाडी टॉवर के पास  
वडोदरा-390 017
227. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2  
पैरेडाइज कॉम्प्लेक्स, सयाजीगंज, वडोदरा 390 005
228. भारतीय स्टेट बैंक  
अभिलाषा चौकडी शाखा  
ए-1/2 इंडस्ट्रियल को-ऑप सोसायटी  
अभिलाषा चार रास्ता के पास  
न्यू समा रोड, वडोदरा-390 024
229. भारतीय स्टेट बैंक  
एयर फोर्स स्टेशन दरजीपुरा शाखा  
वडोदरा-390 022
230. भारतीय स्टेट बैंक  
आजवा रोड शाखा  
सीलीगर सोसायटी, 1 सूर्यनगर हाउसिंग सोसायटी  
आयुर्वेद तीन रास्ता, आजवा रोड  
वडोदरा-390 019

231. भारतीय स्टेट बैंक  
बड़ौदा इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
11/12 पुष्पकुंज सोसायटी, गोरवा रोड  
बड़ौदा इंडस्ट्रियल इस्टेट  
वडोदरा- 390 016
232. भारतीय स्टेट बैंक  
बड़ौदा मुख्य शाखा  
जमनाबाई हॉस्पिटल के सामने  
मांडली, वडोदरा- 390 017
233. भारतीय स्टेट बैंक  
केन्टोनमेंट (वडोदरा) शाखा  
वडोदरा महानगर सेवा सदन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  
फतेहगंज, वडोदरा-390 002
234. भारतीय स्टेट बैंक  
छाणी रोड शाखा  
1, भगोरथ सोसायटी  
मिलिट्री बॉइज हॉस्टेल के पास  
छाणी ऑक्ट्राय नाका, वडोदरा-290 002
235. भारतीय स्टेट बैंक  
इलोरा पार्क शाखा  
चंद्र चेंबर  
6 तरुणपार्क सोसायटी  
इलोरा पार्क, वडोदरा-390 007
236. भारतीय स्टेट बैंक  
जीएसीएल रनौली शाखा  
जीएसीएल प्रोजेक्ट साइट  
रनौली, पेट्रोकेमिकल्स  
वडोदरा 390 007
237. भारतीय स्टेट बैंक  
गोत्री रोड शाखा  
भू तल 2 5, नंदीश कॉम्प्लेक्स  
न्यूक्लियर पार्क के पास  
गोत्री रोड  
वडोदरा 390 021
238. भारतीय स्टेट बैंक  
सरकारी व्यवसाय शाखा  
जमनाबाई हॉस्पिटल के सामने  
पाणीगेट रोड  
मांडवी  
वडोदरा- 390 017
239. भारतीय स्टेट बैंक  
गुजरात रिफाइनरी शाखा  
पोस्ट जवाहरनगर  
बाजवा 391 320  
जिला वडोदरा
240. भारतीय स्टेट बैंक  
हरणी रोड शाखा  
नक्षत्र बिल्डिंग  
संगम चार रास्ता के पास  
हरणी रोड  
वडोदरा-390 006
241. भारतीय स्टेट बैंक  
हरणी वरासिया रिंग रोड शाखा  
16-17 राजधानी सोसायटी  
एस्सार पेट्रोल पंप के सामने  
हरणी वरासिया रिंग रोड  
वडोदरा-390 006
242. भारतीय स्टेट बैंक  
आर आई एल कोयली शाखा  
आर आई एल परिसर, आई पी सी एल  
कोयली-391 346  
जिला-वडोदरा
243. भारतीय स्टेट बैंक  
कमलानगर शाखा  
कान्हा ड्रीम्स  
कमलानगर  
वडोदरा-390 019
244. भारतीय स्टेट बैंक  
करेलीबाग शाखा  
24 कीर्तिकुंज कॉ-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी  
आतमराम रोड  
करेलीबाग  
वडोदरा- 390 018
245. भारतीय स्टेट बैंक  
लक्ष्मीपुरा शाखा  
प्लॉट नंबर 17-20 अनमोल पार्क  
सी के प्रजापति स्कूल के पास  
लक्ष्मीपुरा रोड, गोरवा  
वडोदरा-390 023
246. भारतीय स्टेट बैंक  
नंदेसरी इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
130/4 जी आई डी सी  
नंदेसरी-391 340  
जिला-वडोदरा
247. भारतीय स्टेट बैंक  
नवजीवन हाऊसिंग सोसायटी शाखा  
महावीर हॉल के सामने  
आजवा रोड  
वडोदरा-390 019

248. भारतीय स्टेट बैंक  
न्यू समा रोड शाखा  
सेंचुरियन फ्लैट्स  
न्यू समा रोड, वडोदरा-390 024
249. भारतीय स्टेट बैंक  
पंचवटी शाखा  
शॉप नंबर 5-8, वृंदावन कॉम्प्लेक्स  
गोरवा रिफाइनरी रोड  
वडोदरा-390 016
250. भारतीय स्टेट बैंक  
रेस कोर्स रोड शाखा  
जी-1, प्रणवपुरी कॉम्प्लेक्स  
ननुभाई सेंटर के पीछे  
रेस कोर्स रोड  
वडोदरा-390 023
251. भारतीय स्टेट बैंक  
रामाकाका टेम्पल रोड शाखा  
शॉप नं. 1 से 4, आदित्य विला कॉम्प्लेक्स  
प्रभुता हॉल के पास, छाणी रोड  
वडोदरा-390 002
252. भारतीय स्टेट बैंक  
रावपुरा शाखा  
जी. पी. ओ. के पास  
मछीपीठ  
वडोदरा-390 001
253. भारतीय स्टेट बैंक  
समा-सावली शाखा  
नेमिशारण्य कॉम्प्लेक्स  
पारूल पेट्रोल पंप के पास, वडोदरा-390 024
254. भारतीय स्टेट बैंक  
समता चार रास्ता शाखा  
भूतल 9-11, आकार कॉम्प्लेक्स, समता चार रास्ता  
वडोदरा-390 023
255. भारतीय स्टेट बैंक  
सदर्न टाउनशिप शाखा  
आई ओ सी कॉलोनी  
जवाहरनगर  
वडोदरा-391 345
256. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष एन आर आई शाखा  
एसबीआई वडोदरा मुख्य शाखा बिल्डिंग  
जमनाबाई हॉस्पिटल के सामने  
पाणीगेट रोड  
मांडवी  
वडोदरा 390 017
257. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष वाणिज्यिक शाखा  
ट्राईडेन्ट कॉम्प्लेक्स  
रेस कोर्स के पास  
वडोदरा-390 017
258. भारतीय स्टेट बैंक  
टी पी-13 शाखा  
35-39 अक्षरधाम शॉपिंग सेंटर  
इंदुचाचा हॉल के पीछे  
छाणी जकात नाका के पास  
वडोदरा-390 024
259. भारतीय स्टेट बैंक  
वी आई पी रोड शाखा  
ब्लॉक नंबर 5 एवं 6  
वाघेश्वरी सोसाइटी  
वी आई पी रोड वीरनगर  
वडोदरा-390 018
260. भारतीय स्टेट बैंक  
वारसीया शाखा  
सत्यम अपार्टमेंट, संत कंवर सोसायटी  
आर टी ओ रोड  
वडोदरा-390 006
261. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3  
पैरेडाइज कॉम्प्लेक्स  
सयाजीगंज  
वडोदरा-390 005
262. भारतीय स्टेट बैंक  
भाटपुर शाखा  
तालुका संखेडा, भाटपुर-391 130  
जिला-वडोदरा
263. भारतीय स्टेट बैंक  
बोडेली शाखा, मार्केट यार्ड, स्टेशन रोड  
बोडेली-391 135  
जिला-वडोदरा
264. भारतीय स्टेट बैंक  
चलामली शाखा,  
कोसीन्द्रा रोड  
चलामली-391 141  
जिला-वडोदरा
265. भारतीय स्टेट बैंक  
चांदोद शाखा  
तृप्ति कॉम्प्लेक्स, एस टी स्टैंड के पास  
चांदोद-391 105  
जिला- वडोदरा

266. भारतीय स्टेट बैंक  
छोटा उदेपुर शाखा  
स्टेशन रोड, बस डिपो के पास  
छोटा उदेपुर-391 165  
जिला-वडोदरा
267. भारतीय स्टेट बैंक  
डभोई शाखा  
बंगलावाला चैंबर्स, लाठी बाजार  
डभोई-391 110  
जिला-वडोदरा
268. भारतीय स्टेट बैंक  
डबका शाखा  
शशी वृंद  
पंचायत हाऊस नंबर 6  
डबका-391 440  
जिला-वडोदरा
269. भारतीय स्टेट बैंक  
डेसर शाखा  
गरासिया फालियु, मेल बाजार रोड  
डेसर-391 774  
जिला- वडोदरा
270. भारतीय स्टेट बैंक  
जी आई डी सी वाघोडिया शाखा  
प्लॉट नंबर 403  
जी आई डी सी इंडस्ट्रियल इस्टेट  
वाघोडिया-391 760  
जिला-वडोदरा
271. भारतीय स्टेट बैंक  
गोरज शाखा  
मुनिसेवा आश्रम बिल्डिंग  
गोरज-391 765  
जिला- वडोदरा
272. भारतीय स्टेट बैंक  
जबुगाम शाखा  
जबुगाम-391 155  
जिला- वडोदरा
273. भारतीय स्टेट बैंक  
जरोद शाखा  
जरोद-391 510  
जिला-वडोदरा
274. भारतीय स्टेट बैंक  
जासपुर शाखा  
जासपुर-391 440  
तालुका पादरा  
जिला-वडोदरा
275. भारतीय स्टेट बैंक  
कडवाल शाखा  
कडवाल-391 160  
जिला-वडोदरा
276. भारतीय स्टेट बैंक  
करखडी शाखा  
टॉवर के पास  
करखडी-391 450  
जिला-वडोदरा
277. भारतीय स्टेट बैंक  
कवाट शाखा  
1231/2 मंगलदीप सोसायटी  
अंबिका ऑइल मिल के पास  
कवाट-390 170  
जिला-वडोदरा
278. भारतीय स्टेट बैंक  
कायावरोहण शाखा  
ब्रह्म समाज बिल्डिंग, बाजार रोड  
कायावरोहण-391 220  
जिला-वडोदरा
279. भारतीय स्टेट बैंक  
कोसिन्द्रा शाखा  
कोसिन्द्रा-391 140  
तालुका संखेडा  
जिला-वडोदरा
280. भारतीय स्टेट बैंक  
कुराली शाखा  
कुराली-391 240  
तालुका करजण  
जिला-वडोदरा
281. भारतीय स्टेट बैंक  
मांजरोल शाखा  
मांजरोल-391 110  
तालुका संखेडा  
जिला-वडोदरा
282. भारतीय स्टेट बैंक  
मंजुसर शाखा  
प्लॉट नंबर 115/116, जी आई डी सी  
सावली रोड  
मंजुसर-391 775  
जिला-वडोदरा
283. भारतीय स्टेट बैंक  
मांकणी शाखा  
मांकणी-391 240  
तालुका संखेडा  
जिला-वडोदरा

284. भारतीय स्टेट बैंक  
मियागाम शाखा, मियागाम-391 240  
तालुका मियागाम-करजण  
जिला-वडोदरा
285. भारतीय स्टेट बैंक  
नसवाडी शाखा  
हाऊस नंबर 1176  
रेलवे स्टेशन के पास  
नसवाडी-391 150  
जिला- वडोदरा
286. भारतीय स्टेट बैंक  
पादरा शाखा  
जैन मंदिर के सामने, चोकसी बाजार  
पादरा-391 440  
जिला-वडोदरा
287. भारतीय स्टेट बैंक  
पानवड शाखा  
पानवड-391 168  
तालुका छोटा उदेपुर  
जिला-वडोदरा
288. भारतीय स्टेट बैंक  
पावी जेतपुर शाखा  
हीरो होंडा शो रूम के सामने  
तीन बत्ती  
पावी जेतपुर--391 160  
जिला-वडोदरा
289. भारतीय स्टेट बैंक  
रंगपुर शाखा  
मेन रोड रंगपुर-391 165  
ता. छोटा उदेपुर  
जिला-वडोदरा
290. भारतीय स्टेट बैंक  
रसुलाबाद शाखा  
पटेल फलिया, रसुलाबाद-391 510  
तालुका वघोडिया  
जिला-वडोदरा
291. भारतीय स्टेट बैंक  
रतनपुर (हिरपरी) शाखा  
रतनपुर-390 005  
तालुका पावी जेतपुर, जिला- वडोदरा
292. भारतीय स्टेट बैंक  
साधली शाखा  
सरदारनगर सोसायटी  
साधली-391 250  
जिला- वडोदरा
293. भारतीय स्टेट बैंक  
सलाड शाखा  
सलाड-391 220  
पोस्ट रूवाड  
जिला-वडोदरा
294. भारतीय स्टेट बैंक  
संखेडा शाखा  
पोस्ट ऑफिस के पास  
बाजार रोड  
संखेडा-391 145  
जिला-वडोदरा
295. भारतीय स्टेट बैंक  
सावली शाखा  
पोलिस लाइन के पास  
स्टेशन रोड  
सावली-391 770  
जिला-वडोदरा
296. भारतीय स्टेट बैंक  
सिनोर शाखा  
राम मंदिर के पास  
देसाई रोड  
सिनोर-391 115  
जिला-वडोदरा
297. भारतीय स्टेट बैंक  
तेजगढ शाखा  
1/161 पब्लिक रोड  
तेजगढ-391 156  
जिला-वडोदरा
298. भारतीय स्टेट बैंक  
वडू शाखा  
वडू-391 460  
तालुका पादरा  
जिला-वडोदरा
299. भारतीय स्टेट बैंक  
झोज शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग  
झोज-391 165  
जिला-वडोदरा
300. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (पंचमहाल खेडा) 4  
101, शिवालिक कॉम्प्लेक्स, रेलवे क्रॉसिंग के पास  
नडियाद-387 001, जिला-खेडा
301. भारतीय स्टेट बैंक  
अकलचा शाखा, रामजी मंदिर के पास  
अकलचा-387 430  
जिला-खेडा



302. भारतीय स्टेट बैंक  
अंगाडी शाखा  
पटेल स्ट्रीट  
नेपालपुरा  
अंगाडी-388 254  
जिला-खेडा
303. भारतीय स्टेट बैंक  
बालासिनोर शाखा  
शिवम कॉम्प्लेक्स  
राजपुरी दरवाजा  
बालासिनोर-388 255  
जिला- खेडा
304. भारतीय स्टेट बैंक  
बिरपुर शाखा  
बिरपुर-388 260  
तालुका बालासिनोर  
जिला- खेडा
305. भारतीय स्टेट बैंक  
चकलासी शाखा  
सेवा सहकारी मंडली  
गायत्री सोसायटी के पास  
चकलासी-387 315  
जिला- खेडा
306. भारतीय स्टेट बैंक  
चंचलावगढ़ शाखा  
पोस्ट परवडी-389 120  
जिला पंचमहाल
307. भारतीय स्टेट बैंक  
चेतरसुंबा शाखा  
चेतरसुंबा-388 225  
तालुका ठासरा  
जिला-खेडा
308. भारतीय स्टेट बैंक  
कॉलेज रोड शाखा  
महागुजरात हॉस्पिटल के पास  
कॉलेज रोड,  
नडियाद-387 001  
जिला खेडा
309. भारतीय स्टेट बैंक  
डाकोर शाखा  
गोपालपुरा  
डाकोर 388 225  
जिला खेडा
310. भारतीय स्टेट बैंक  
देरोल रेलवे स्टेशन शाखा  
देरोल-389 320  
जिला-पंचमहाल
311. भारतीय स्टेट बैंक  
डोली संतरामपुर शाखा  
टॉवर रोड  
पुलिस स्टेशन के सामने  
संतरामपुर-389 260  
जिला-पंचमहाल
312. भारतीय स्टेट बैंक  
घोडासर शाखा  
चबूतरा के पास  
घोडासर-387 110  
जिला-खेडा
313. भारतीय स्टेट बैंक  
घोघंबा शाखा  
घोघंबा-389 365  
जिला पंचमहाल
314. भारतीय स्टेट बैंक  
गोधरा शाखा  
लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स  
एल आई सी रोड  
गोधरा-389 001  
जिला-पंचमहाल
315. भारतीय स्टेट बैंक  
इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
भुरावाव क्रॉसिंग  
लुनावाडा रोड, गोधरा-389 001  
जिला-पंचमहाल
316. भारतीय स्टेट बैंक  
हालोल शाखा  
पावागढ़ रोड  
हालोल-389 350  
जिला-पंचमहाल
317. भारतीय स्टेट बैंक  
कैरा शाखा, पुलिस स्टेशन के सामने  
लाल दरवाजा  
कैरा-387 411  
जिला-खेडा
318. भारतीय स्टेट बैंक  
कालोल (पंचमहाल) शाखा  
महालक्ष्मी चौक, दासा लाल वाडी  
कालोल-389 330  
जिला-पंचमहाल

- |   |   |
|---|---|
| <p>319. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कालसर शाखा<br/>दूध डेरी के पास<br/>चकला चौक<br/>कालसर-388 230<br/>जिला-खेडा</p> <p>320. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कठलाल शाखा<br/>कठलाल-387 630<br/>जिला- खेडा</p> <p>321. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कोथंबा शाखा<br/>1025, 1025/1 मेन बाजार रोड<br/>कोथंबा-389 220<br/>जिला- पंचमहाल</p> <p>322. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कुणी शाखा<br/>हाउस नंबर 177, पटेल स्ट्रीट<br/>कुणी-388 235, जिला-खेडा</p> <p>323. भारतीय स्टेट बैंक<br/>लिम्बासी शाखा<br/>स्टेशन रोड, लिम्बासी-387 520<br/>जिला- खेडा</p> <p>324. भारतीय स्टेट बैंक<br/>लुणावाडा शाखा<br/>ओल्ड पैलेस कम्पाउंड<br/>फुवारा के पास<br/>लुणावाडा-389 230<br/>जिला पंचमहाल</p> <p>325. भारतीय स्टेट बैंक<br/>महुधा शाखा<br/>दूध उत्पादक मंडली बिल्डिंग<br/>महुधा 387 335<br/>जिला खेडा</p> <p>326. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मलाव शाखा<br/>नीचवाडा बाजार<br/>आश्रम रोड<br/>मलाव 389 310<br/>जिला पंचमहाल</p> <p>327. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मातर शाखा<br/>एस. टी. रोड<br/>मातर 387 530<br/>जिला- खेडा</p> | <p>328. भारतीय स्टेट बैंक<br/>महेमदाबाद शाखा<br/>शॉप नंबर 19<br/>ए पी एम सी नडियाद दरवाजा<br/>महेमदाबाद-387 130<br/>जिला-खेडा</p> <p>329. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मोरवा (हडाफ) शाखा<br/>पंचायत भवन परिसर<br/>मोरवा-389 115<br/>जिला-पंचमहाल</p> <p>330. भारतीय स्टेट बैंक<br/>एम. पी.हॉस्पिटल शाखा<br/>डॉ. वीरेन्द्र देसाई मार्ग<br/>पेटलाद रोड<br/>नडियाद-387 001<br/>जिला-खेडा</p> <p>331. भारतीय स्टेट बैंक<br/>नवागाम शाखा<br/>सुहास बिल्डिंग<br/>स्वामीनारायण मंदिर के सामने<br/>नवागाम-387 540<br/>जिला खेडा</p> <p>332. भारतीय स्टेट बैंक<br/>निरमाली शाखा<br/>सरदार चौक<br/>निरमाली-387 650<br/>जिला-खेडा</p> <p>333. भारतीय स्टेट बैंक<br/>एन आर आई शाखा<br/>शिवालिक कॉम्प्लेक्स<br/>रेलवे क्रॉसिंग के पास<br/>नडियाद-387 001<br/>जिला-खेडा</p> <p>334. भारतीय स्टेट बैंक<br/>पलाणा शाखा<br/>भाईकाका की पोल<br/>स्वामीनारायण मंदिर के पास<br/>पलाणा-387 350<br/>जिला-खेडा</p> <p>335. भारतीय स्टेट बैंक<br/>पंचायत भवन शाखा<br/>अशोकनगर, पवनचक्की रोड<br/>नडियाद-387 001<br/>जिला-खेडा</p> |
|---|---|

336. भारतीय स्टेट बैंक  
राधु शाखा  
अंबा माता मंदिर के सामने  
राधु-387 560  
जिला-खेडा
337. भारतीय स्टेट बैंक  
रास्का शाखा  
दूध सहकारी मंडली बिल्डिंग  
ग्राम पंचायत रोड  
रास्का-387 120  
जिला-खेडा
338. भारतीय स्टेट बैंक  
रतनपुर(कांटडी) शाखा  
280/17 नवा पुरा  
रतनपुर-कांटडी-388 710  
जिला-पंचमहाल
339. भारतीय स्टेट बैंक  
एस. टी. बस स्टेन्ड शाखा  
संथारिया बाजार  
महात्मा गांधी रोड  
गोधरा-389 001  
जिला-पंचमहाल
340. भारतीय स्टेट बैंक  
मोरवा शाखा  
संत रोड  
प्रकाश कॉम्प्लेक्स  
रेलवे क्रॉसिंग के पास  
मोरवा-389 120  
जिला-पंचमहाल
341. भारतीय स्टेट बैंक  
संतराम मंदिर शाखा  
नडियाद-387 001  
जिला-खेडा
342. भारतीय स्टेट बैंक  
सेवालिया रेलवे स्टेशन शाखा  
डाकोर गोधरा रोड  
सेवालिया-388 245  
जिला-खेडा
343. भारतीय स्टेट बैंक  
सेहेरा शाखा  
गोयत्री सोसायटी  
बस स्टैंड के सामने  
सेहेरा-389 210  
जिला-पंचमहाल
344. भारतीय स्टेट बैंक  
ठासरा शाखा  
आशापुरी मंदिर के पास  
डाकोर गोधरा रोड  
ठासरा-388 250  
जिला-खेडा
345. भारतीय स्टेट बैंक  
थावड शाखा  
थावड-387 620  
तालुका कपडगंज  
जिला-खेडा
346. भारतीय स्टेट बैंक  
उत्तरसंडा शाखा  
बस स्टैंड के पास  
उत्तरसंडा-387 370  
जिला-खेडा
347. भारतीय स्टेट बैंक  
वेजलपुर शाखा  
जैन सोसाइटी  
मेन बाजार  
वेजलपुर-389 340  
जिला-पंचमहाल
348. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (आणंद-दाहोद)  
विट्ठल उद्योग नगर शाखा परिसर  
आणंद सोजीत्रा रोड, जनता चौकडी  
विट्ठल उद्योग नगर-388 121  
जिला-आणंद
349. भारतीय स्टेट बैंक  
आणंद रोड बोरसद शाखा  
101 सप्तऋषि कॉम्प्लेक्स  
स्टेशन रोड  
बोरसद-388 540  
जिला-आणंद
350. भारतीय स्टेट बैंक  
अंकलाव शाखा  
सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स  
बस स्टैंड के पास  
अंकलाव-388 510  
जिला-आणंद
351. भारतीय स्टेट बैंक  
भालेज शाखा  
व्यास खडकी  
शेखवाडा बाजार  
भालेज-388 205  
जिला-आणंद

352. भारतीय स्टेट बैंक  
भाटियल शाखा  
भाटियल केलवणी मंडल, पेटलाद रोड  
भाटियल-388 450  
जिला-आणंद
353. भारतीय स्टेट बैंक  
चांगा शाखा  
चांगा-388 342  
तालुका पेटलाद  
जिला-आणंद
354. भारतीय स्टेट बैंक  
दाहोद शाखा  
अब्बासी चौब, यादगार चौक  
स्टेशन रोड  
दाहोद-389 151  
जिला-दाहोद
355. भारतीय स्टेट बैंक  
देवगढ़ बारिया शाखा  
म्युनिसिपल हाऊस नंबर 200,  
चबूतरा स्ट्रीट  
देवगढ़ बारिया-389 380  
जिला-दाहोद
356. भारतीय स्टेट बैंक  
धानपुर शाखा  
बस स्टैंड के पास  
धानपुर-389 382  
जिला-दाहोद
357. भारतीय स्टेट बैंक  
धरमज शाखा  
धरमज-388 430  
जिला-आणंद
358. भारतीय स्टेट बैंक  
दुगारी शाखा  
प्राथमिक शाला के पास  
दुगारी-388 625  
जिला-आणंद
359. भारतीय स्टेट बैंक  
फतेपुर शाखा  
बस स्टैंड के पास  
फतेपुर-389 172  
जिला-दाहोद
360. भारतीय स्टेट बैंक  
फ्रीलैण्डगंज रेलवे कॉलोनी शाखा  
फ्रीलैण्डगंज  
दाहोद-389 160  
जिला-दाहोद
361. भारतीय स्टेट बैंक  
गरबाडा शाखा  
बस स्टैंड के पास  
गरबाडा-389 155  
जिला-दाहोद
362. भारतीय स्टेट बैंक  
गोदी रोड शाखा  
नीलकंठ अपार्टमेंट  
अग्रसेन भवन के सामने  
दाहोद-389 151
363. भारतीय स्टेट बैंक  
गोलाणा शाखा  
गोलाणा-388 625  
जिला-आणंद
364. भारतीय स्टेट बैंक  
झालोद शाखा  
बस स्टैंड के पास  
झालोद-389 170  
जिला-दाहोद
365. भारतीय स्टेट बैंक  
काली डुंगरी शाखा  
बस स्टैंड के पास  
काली डुंगरी-389 380  
जिला-दाहोद
366. भारतीय स्टेट बैंक  
करमसद शाखा  
सरदार पटेल हाई स्कूल के सामने  
करमसद-388 325  
जिला-आणंद
367. भारतीय स्टेट बैंक  
लीमडी शाखा (पंचमहाल)  
पडाव बाजार, लीमडी-389 180  
जिला-दाहोद
368. भारतीय स्टेट बैंक  
लिमखेडा शाखा  
धारीया फार्म के पास  
झालोद रोड  
लिमखेडा-389 140  
जिला-दाहोद
369. भारतीय स्टेट बैंक  
एन आर आई शाखा आणंद  
ए पी एम सी परिसर  
पहली मंजिल  
डी. एन. हाईस्कूल के पास  
स्टेशन रोड, आणंद-388 001

370. भारतीय स्टेट बैंक  
ओ एन जी सी खंभात शाखा  
ओ एन जी सी मुख्य द्वार के पास कंसारी  
खंभात-388 630  
जिला-आणंद
371. भारतीय स्टेट बैंक  
पल्ली शाखा  
धनपुर रोड, पल्ली-389 140  
जिला-दाहोद
372. भारतीय स्टेट बैंक  
पनसोरा शाखा  
पनसोरा-388 220  
तालुका उमरेठ, जिला आणंद
373. भारतीय स्टेट बैंक  
पेटलाद शाखा  
तालुका पंचायत कचहरी  
पेटलाद-388 450  
जिला-आणंद
374. भारतीय स्टेट बैंक  
सामरखा शाखा  
सामरखा-388 360  
जिला-आणंद
375. भारतीय स्टेट बैंक  
सारसा शाखा  
टाँवर चौक के पास  
मेन बाजार  
सारसा-388 365  
जिला-आणंद
376. भारतीय स्टेट बैंक  
सिमरडा शाखा  
सिमरडा-388 480  
तालुका पेटलाद  
जिला-आणंद
377. भारतीय स्टेट बैंक  
सिसवा शाखा  
चबूतरा के पास  
मेन बाजार  
सिसवा-388 530  
जिला-आणंद
378. भारतीय स्टेट बैंक  
सौजिन्ना शाखा  
कैलास टॉकिज के पास, नया बस स्टेण्ड  
सौजिन्ना-387 240  
जिला-आणंद
379. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष वाणिज्यिक शाखा  
जयलक्ष्मी प्लाजा  
गणेश सर्कल के पास  
आणंद-सोजीन्ना रोड  
आणंद-388 001
380. भारतीय स्टेट बैंक  
तारापुर शाखा  
रणछोडराय कॉम्प्लेक्स  
नानी चोकडी  
तारापुर-388 180  
जिला-आणंद
381. भारतीय स्टेट बैंक  
उमरेठ शाखा  
इंदिराबहन जोषी बिल्डिंग  
भट्टावाड़ा  
उमरेठ-388 220  
जिला-आणंद
382. भारतीय स्टेट बैंक  
विरसद शाखा  
विरसद-388 580  
तालुका बोरसद  
जिला-आणंद
383. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय  
नीलमबाग चौक  
भावनगर-364 001
384. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र 1)  
दूसरा तल, प्रशासनिक कार्यालय भवन  
निलमबाग चौक  
भावनगर-364 001
385. भारतीय स्टेट बैंक  
भावनगर परा शाखा  
उमरीगर बंग्लोज  
गढेची वडला  
भावनगर-364 003
386. भारतीय स्टेट बैंक  
दरबारगढ शाखा  
आंबाचौक  
भावनगर-364 001
387. भारतीय स्टेट बैंक  
कालानाला शाखा  
कालानाला  
भावनगर-364 001

388. भारतीय स्टेट बैंक  
कालियाबीड शाखा  
प्लॉट नंबर 24/25  
कालियाबीड मेन रोड  
भावनगर-364 002
389. भारतीय स्टेट बैंक  
कृष्णनगर एस एम ई शाखा  
क्रैसन्ट एरिया  
भावनगर-364 001
390. भारतीय स्टेट बैंक  
कुंभारवाडा शाखा  
प्लॉट नंबर 756  
आसुमा मंजिल बिल्डिंग  
कुंभारवाडा सर्कल के पास  
नारी रोड  
भावनगर-364 006
391. भारतीय स्टेट बैंक  
चित्रा मार्केटिंग यार्ड शाखा  
मोर्केटिंग यार्ड बिल्डिंग  
चित्रा, भावनगर-364 004
392. भारतीय स्टेट बैंक  
नारी शाखा  
प्लॉट नं 2/84  
मेन बाजार, नारी-364 055  
जिला भावनगर
393. भारतीय स्टेट बैंक  
निलमबाग शाखा  
प्रशासनिक कार्यालय बिल्डिंग  
निलमबाग चौक  
भावनगर-364 001
394. भारतीय स्टेट बैंक  
निर्मलनगर शाखा  
प्लॉट नंबर 103/बी  
डंकीवाला चौक  
निर्मलनगर  
भावनगर 364 001
395. भारतीय स्टेट बैंक  
परिमल चौक शाखा  
गंगोत्री प्लाझा  
वाघावाडी रोड  
भावनगर 364 001
396. भारतीय स्टेट बैंक  
आनंदनगर शाखा  
रूवापरी रोड  
वेलो इंडस्ट्री के सामने  
भावनगर 364 001
397. भारतीय स्टेट बैंक  
शास्त्रीनगर शाखा  
जैन देरासर के पास  
शास्त्रीनगर  
भावनगर-364 002
398. भारतीय स्टेट बैंक  
शिवाजी सर्कल शाखा  
पंचवटी चौक  
लक्ष्मीनारायण सोसाइटी  
शिवाजी सर्कल के पास  
रिंग रोड  
भावनगर-364 001
399. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
ऑनेस्ट बिल्डिंग  
साकर बाजार  
भावनगर-364 001
400. भारतीय स्टेट बैंक  
सुभाषनगर शाखा  
लक्ष्मी को-ऑप. हाऊसिंग सोसाइटी  
एयर पोर्ट रोड  
भावनगर-364 001
401. भारतीय स्टेट बैंक  
ट्रेजरी शाखा  
मरचा गली  
आंबा चौक  
भावनगर-364 001
402. भारतीय स्टेट बैंक  
वाघावाडी शाखा  
शॉप नंबर 2 एवं 3  
शुभम कॉम्प्लेक्स  
गुलिस्ता ग्राउंड के सामने  
भावनगर-364 001
403. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र 2)  
दूसरा तल  
प्रशासनिक कार्यालय भवन  
निलमबाग चौक  
भावनगर-364 001
404. भारतीय स्टेट बैंक  
चमारडी शाखा  
प्लॉट एरिया  
चमारडी-364 310  
जिला भावनगर

405. भारतीय स्टेट बैंक  
ढसा जंक्शन शाखा  
स्टेशन रोड, ढसा जंक्शन-364 740  
जिला-भावनगर
406. भारतीय स्टेट बैंक  
गुंदरणा शाखा  
गुरू कृपा  
बस स्टैंड के पास  
गुंदरणा-364 295  
जिला-भावनगर
407. भारतीय स्टेट बैंक  
खोपाला शाखा  
रामजी मंदिर के पास  
खोपाला-364 320  
जिला-भावनगर
408. भारतीय स्टेट बैंक  
कुंभण (महुवा) शाखा  
कुंभण-364 290  
तालुका महुवा  
जिला-भावनगर
409. भारतीय स्टेट बैंक  
लाठीदड शाखा  
लाठीदड-364 710  
जिला-भावनगर
410. भारतीय स्टेट बैंक  
मढडा शाखा  
मढडा 364 225  
तालुका सिहोर  
जिला-भावनगर
411. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
श्याम दर्शन कॉम्प्लेक्स  
महुवा 364 290  
जिला-भावनगर
412. भारतीय स्टेट बैंक  
मालवाव शाखा  
खरक शेरी  
दाठा रोड  
मालवाव-364 130  
जिला-भावनगर
413. भारतीय स्टेट बैंक  
मार्केटिंग यार्ड शाखा  
ए पी एम जी कंपाउंड  
महुवा 364 290  
जिला-भावनगर
414. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटी जागधार शाखा  
प्लॉट नंबर 76  
मोटी जागधार-364 295  
जिला-भावनगर
415. भारतीय स्टेट बैंक  
परवडी शाखा  
गारियाधार रोड  
परवडी-364 275  
जिला-भावनगर
416. भारतीय स्टेट बैंक  
राजपरा शाखा  
राजपरा-364 120  
वाया तणसा  
जिला-भावनगर
417. भारतीय स्टेट बैंक  
बोटद शाखा  
पुराना मार्केट यार्ड  
पालियाद रोड  
बोटद-364710  
जिला-भावनगर
418. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र-3)  
लाइब्रेरी चौक  
डॉ जीवराज मेहता रोड  
अमरेली-365 601
419. भारतीय स्टेट बैंक  
अमरेली शाखा  
नागनाथ मंदिर के सामने  
अमरेली-365 601
420. भारतीय स्टेट बैंक  
बगसरा शाखा  
सब्जी बाजार के सामने  
अमरपरा  
बगसरा-365 440  
जिला-अमरेली
421. भारतीय स्टेट बैंक  
भाडेर शाखा  
भाडेर-364 645  
जिला-अमरेली
422. भारतीय स्टेट बैंक  
दरबारगढ़ शाखा  
सावरकुंडला-364 515  
जिला-अमरेली

423. भारतीय स्टेट बैंक  
देवगाम शाखा  
4/64, जैन मंदिर के सामने  
देवगाम-365 460  
जिला-अमरेली
424. भारतीय स्टेट बैंक  
गाधकडा शाखा  
गाधकडा-364 522  
तालुका सावरकुंडला  
जिला-अमरेली
425. भारतीय स्टेट बैंक  
हामापुर शाखा  
बगसरा धारी रोड  
हामापुर-365 440  
जिला-अमरेली
426. भारतीय स्टेट बैंक  
जाफराबाद शाखा  
जगजीवन बाग  
जाफराबाद-365 540  
जिला-अमरेली
427. भारतीय स्टेट बैंक  
जेसींगपरा शाखा  
शेरी नंबर 3  
शिवाजी चौक  
अमरेली 365 601
428. भारतीय स्टेट बैंक  
जुनासावर शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग  
जुनासावर-364 521  
जिला अमरेली
429. भारतीय स्टेट बैंक  
खडाधार शाखा  
खांभा ऊना रोड  
खडाधार 365 650  
जिला अमरेली
430. भारतीय स्टेट बैंक  
खांभा शाखा  
पांडवा निवास  
चलाला रोड, खांभा-365 650  
जिला अमरेली
431. भारतीय स्टेट बैंक  
कांवाया शाखा  
एल एण्ड टी कॉलोनी  
कांवाया 365 541  
जिला अमरेली
432. भारतीय स्टेट बैंक  
कुंकावाव शाखा  
पहला तल  
शारदा शॉपिंग सेंटर  
बगसरा-गोंडल हाइवे  
कुंकावाव-365 450  
जिला-अमरेली
433. भारतीय स्टेट बैंक  
लाइब्रेरी चौक शाखा  
डॉ. जीवराज मेहता रोड  
अमरेली-365 601
434. भारतीय स्टेट बैंक  
लिलिया मोटा शाखा  
लिलिया मोटा-365 535  
जिला-अमरेली
435. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटा समढीयाला शाखा  
मोबाइल टॉवर के पास  
मोटा समढीयाला-365 635  
जिला-अमरेली
436. भारतीय स्टेट बैंक  
पिपावाव पोर्ट शाखा  
पोर्ट यूजर्स कॉम्प्लेक्स  
पिपावाव पोर्ट-365 560  
जिला-अमरेली
437. भारतीय स्टेट बैंक  
आंबरडी शाखा  
मुख्य बाजार  
आंबरडी-364 522  
जिला-अमरेली
438. भारतीय स्टेट बैंक  
सावरकुंडला शाखा  
के के मेहता हॉस्पिटल के सामने  
सावरकुंडला-364 515  
जिला-अमरेली
439. भारतीय स्टेट बैंक  
उंटवड शाखा  
उंटवड-365 421  
जिला अमरेली
440. भारतीय स्टेट बैंक  
विजपडी शाखा  
राजुला रोड  
विजपडी-364 530  
जिला-अमरेली



441. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र-4)  
मेरीगोल्ड 3  
कॉलेज रोड, जुनागढ़-362 001
442. भारतीय स्टेट बैंक  
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शाखा  
मोतीबाग गेट-1  
कर्मचारी सहकारी मंडकी बिल्डिंग  
जुनागढ़-362 001
443. भारतीय स्टेट बैंक  
बस स्टैंड एरिया (जुनागढ़) शाखा  
प्रिन्स कॉम्प्लेक्स  
एस टी रोड, जुनागढ़-362 001
444. भारतीय स्टेट बैंक  
बस स्टैंड एरिया (केशोद) शाखा  
भारत प्लास्टिक बिल्डिंग  
केशोद-362 220  
जिला-जुनागढ़
445. भारतीय स्टेट बैंक  
चोकी सोरठ शाखा  
चोकी सोरठ  
जिला-जुनागढ़
446. भारतीय स्टेट बैंक  
धंधुसर शाखा  
धंधुसर-362 012  
तालुका वंथली  
जिला-जुनागढ़
447. भारतीय स्टेट बैंक  
दिवानपरा शाखा  
गरबी चौक  
माणवदर-362 630  
जिला-जुनागढ़
448. भारतीय स्टेट बैंक  
इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
दौलतपरा रोड  
जुनागढ़-362 003
449. भारतीय स्टेट बैंक  
जुथल शाखा  
जुथल-362 245  
जिला-जुनागढ़
450. भारतीय स्टेट बैंक  
लिंबुडा शाखा  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग  
लिंबुडा-362 620  
जिला-जुनागढ़
451. भारतीय स्टेट बैंक  
लुशाला शाखा  
लुशाला-362 215  
तालुका वंथली  
जिला-जुनागढ़
452. भारतीय स्टेट बैंक  
मालिया हाटिना शाखा  
स्टेशन रोड  
मालिया हाटिना-362 245  
जिला-जुनागढ़
453. भारतीय स्टेट बैंक  
लिंबडा चौक शाखा  
राजमोती कॉम्प्लेक्स  
मांगरोल-362 225  
जिला-जुनागढ़
454. भारतीय स्टेट बैंक  
मांगरोल हार्बर शाखा  
श्री खारवा समाज बिल्डिंग, बंदर रोड  
मांगरोल-362 225  
जिला-जुनागढ़
455. भारतीय स्टेट बैंक  
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैम्पस शाखा  
मोतीबाग गेट 2  
वंथली हाइवे  
जुनागढ़-362 001
456. भारतीय स्टेट बैंक  
शील शाखा  
कन्या शाला के पास  
पुराना बस स्टैंड रोड  
शील-362 240  
जिला-जुनागढ़
457. भारतीय स्टेट बैंक  
झांझरडा रोड शाखा  
नयन सोसाइटी  
जुनागढ़-362 001
458. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-5 (जुनागढ़ दीव)  
मेरीगोल्ड 3  
कॉलेज रोड, जुनागढ़-362 001
459. भारतीय स्टेट बैंक  
भालकातीर्थ शाखा  
जी आई डी सी एरिया  
सोमनाथ रोड  
वेरावल-326 269  
जिला-जुनागढ़

460. भारतीय स्टेट बैंक  
बुचरवाडा शाखा  
बस स्टैंड के पास  
केसरिया रोड़  
बुचरवाडा-362 571  
जिला-दीव
461. भारतीय स्टेट बैंक  
छारा झापा शाखा  
शिवालय कॉम्प्लेक्स  
कोडिनार-362 720  
जिला-जुनागढ़
462. भारतीय स्टेट बैंक  
दादर गीर शाखा  
विसावदर-मेंदरडा रोड़  
दादर-गीर-362 120  
जिला-जुनागढ़
463. भारतीय स्टेट बैंक  
देलवाडा शाखा  
मेन बाजार  
देलवाडा-362 510  
जिला-जुनागढ़
464. भारतीय स्टेट बैंक  
धोकडवा शाखा  
मेन बाजार  
धोकडवा-362 565  
जिला-जुनागढ़
465. भारतीय स्टेट बैंक  
डोलासा शाखा  
कोडिनार-उना हाइवे  
डोलासा-362 720  
जिला-जुनागढ़
466. भारतीय स्टेट बैंक  
फुदम शाखा  
जवाहर चौक  
फुदम दीव-362 520  
जिला-दीव
467. भारतीय स्टेट बैंक  
गीरगढडा शाखा  
उना जामवाला रोड़  
गीरगढडा-362 530  
जिला-जुनागढ़
468. भारतीय स्टेट बैंक  
हरमडिया शाखा  
रेलवे स्टेशन रोड़, हरमडिया-362 720  
जिला-जुनागढ़
469. भारतीय स्टेट बैंक  
जामवाला शाखा  
जामवाला-362 530  
जिला-जुनागढ़
470. भारतीय स्टेट बैंक  
कोटडा मोटा शाखा  
राणा चौक  
कोटडा-362 020  
जिला-जुनागढ़
471. भारतीय स्टेट बैंक  
लोढावा शाखा  
बस स्टैंड एरिया  
लोढावा-362 277  
जिला-जुनागढ़
472. भारतीय स्टेट बैंक  
माधुपुर (गीर) शाखा  
प्राची रोड़  
माधुपुर (गीर)-362 150  
जिला-जुनागढ़
473. भारतीय स्टेट बैंक  
मेंदरडा शाखा  
सूर्य कृपा  
सासन रोड़  
मेंदरडा-362 260  
जिला-जुनागढ़
474. भारतीय स्टेट बैंक  
नवाबंदर शाखा  
नवाबंदर-362 510  
जिला-जुनागढ़
475. भारतीय स्टेट बैंक  
प्राची (घांटीया) शाखा  
कोडिनार-वेरावल हाइवे  
प्राची-362 268  
तालुका सुत्रापाडा  
जिला-जुनागढ़
476. भारतीय स्टेट बैंक  
रणपुर शाखा  
पोस्ट ऑफिस के सामने  
रणपुर (सोरठ)-362 030  
जिला-जुनागढ़
477. भारतीय स्टेट बैंक  
आद्री शाखा  
आद्री-362 255 ता वेरावल  
जिला-जुनागढ़

478. भारतीय स्टेट बैंक  
सामतेर शाखा  
भावनगर रोड़  
सामतेर-362 560  
जिला-जुनागढ़
479. भारतीय स्टेट बैंक  
सनखडा शाखा  
बस स्टैंड एरिया  
सनखडा-362 550  
जिला-जुनागढ़
480. भारतीय स्टेट बैंक  
सीमर शाखा  
देलवाडा राजपरा रोड़  
सीमर-362 550  
जिला-जुनागढ़
481. भारतीय स्टेट बैंक  
सुत्रपडा शाखा  
बस स्टैंड के पास  
सुत्रापडा 362 275  
जिला-जुनागढ़
482. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा  
बस स्टैंड के सामने  
भावनगर रोड़  
उना 360 562  
जिला-जुनागढ़
483. भारतीय स्टेट बैंक  
वेलण शाखा  
प्लॉट नंबर 1  
माधवाड रोड़  
वेलण 362 720  
जिला-जुनागढ़
484. भारतीय स्टेट बैंक  
वेरावल शाखा  
झवेरी भुवन  
रामभरोसा चौक  
वेरावल 362 265  
जिला-जुनागढ़
485. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय  
सरदार बाग सर्किट हाऊस के सामने  
राजकोट 360 001
486. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र-1)  
सरदारबाग सर्किट हाऊस के सामने  
राजकोट 360 001
487. भारतीय स्टेट बैंक  
वाणिज्यिक शाखा  
नोबल हाऊस के पास  
कालावड रोड़  
राजकोट-360 001
488. भारतीय स्टेट बैंक  
गौरीदड शाखा  
जुना दरबारगढ़, गौरीदड  
जिला-राजकोट-360 003
489. भारतीय स्टेट बैंक  
ग्रीन चौक शाखा  
मोरबी-363 641  
जिला-राजकोट
490. भारतीय स्टेट बैंक  
हलेंडा शाखा  
हलेंडा-360 032  
जिला-राजकोट
491. भारतीय स्टेट बैंक  
जागनाथ प्लॉट शाखा  
7 जागनाथ प्लॉट  
डॉ. याज्ञिक रोड़  
राजकोट-360 001
492. भारतीय स्टेट बैंक  
खरेडा शाखा  
खरेडा-363 642  
ता. मोरबी  
जिला-राजकोट
493. भारतीय स्टेट बैंक  
कोठारिया शाखा  
ठाकुरजी आर्कड  
कोठारिया रोड़  
राजकोट-360 002
494. भारतीय स्टेट बैंक  
लाखाजीराज रोड़ शाखा  
477 उजाणी, सांगणवा चौक  
लाखाजीराज रोड़, राजकोट-360 001
495. भारतीय स्टेट बैंक  
मवडी रिंग रोड़ शाखा, इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग  
मवडी, 150 फुट रिंग रोड़ के पास  
राजकोट-360 004
496. भारतीय स्टेट बैंक  
मोरबी शाखा  
भवानी चेम्बर्स, सावसार प्लॉट  
मोरबी-363 642  
जिला-राजकोट

497. भारतीय स्टेट बैंक  
पिपलियाराज शाखा  
पिपलियाराज-363 621  
तालुका वांकानेर  
जिला-राजकोट
498. भारतीय स्टेट बैंक  
भक्तिनगर शाखा  
गोंडल रोड  
राजकोट-360 002
499. भारतीय स्टेट बैंक  
मार्केट यार्ड शाखा  
ग्रीनलैंड चौकडी के पास  
राजकोट-360 003
500. भारतीय स्टेट बैंक  
आर. के. नगर शाखा  
सुरेश चेम्बर्स  
टैगोर मार्ग  
रामकृष्णनगर  
राजकोट-360 002
501. भारतीय स्टेट बैंक  
राणी टावर शाखा  
राणी टॉवर, पहली मंजिल  
न्यारी फिल्टर पंप के पास  
कालावड रोड  
राजकोट-360 005
502. भारतीय स्टेट बैंक  
राजकोट एस एस आई शाखा  
स्वामीनारायण स्कूल के पास, गोडल रोड  
राजकोट 360 002
503. भारतीय स्टेट बैंक  
रिंग रोड शाखा  
क्लासिक कॉम्प्लेक्स  
रोजरी स्कूल के सामने, 150 फुट रिंग रोड  
राजकोट 360 005
504. भारतीय स्टेट बैंक  
सिंभावदर शाखा  
सिंभावदर 363 621  
जिला राजकोट
505. भारतीय स्टेट बैंक  
एस एम ई मोरबी शाखा  
8 ए नेशनल हाइवे  
लालपर गाम  
मोरबी 363 642  
जिला राजकोट
506. भारतीय स्टेट बैंक  
मोरबी एस एस आई शाखा  
ओमशांति विद्यालय के पास  
सरदारबाग के सामने  
सनाला रोड  
मोरबी-363 641  
जिला-राजकोट
507. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष एन आर आई शाखा  
सरदारबाग सर्किट हाऊस के सामने  
राजकोट-360 001
508. भारतीय स्टेट बैंक  
वांकानेर शाखा  
हरिदास रोड  
मार्केट चौक  
वांकानेर-363 621  
जिला-राजकोट
509. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2  
(राजकोट-पोरबंदर)  
सरदारबाग सर्किट हाऊस के सामने  
राजकोट-360 001
510. भारतीय स्टेट बैंक  
बगवदर शाखा  
सहकार सोसाइटी मेन रोड  
बगवदर-360 590  
जिला-पोरबंदर
511. भारतीय स्टेट बैंक  
बखरला शाखा  
बखरला-360 579  
जिला पोरबंदर
512. भारतीय स्टेट बैंक  
भाडला शाखा  
भाडला-360 050  
जिला राजकोट
513. भारतीय स्टेट बैंक  
भोजेश्वर प्लॉट शाखा  
भोजेश्वर प्लॉट  
एसबीपी रोड  
पोरबंदर 360 575
514. भारतीय स्टेट बैंक  
दडवा मोटा शाखा  
दडवा मोटा 360 045  
जिला राजकोट

515. भारतीय स्टेट बैंक  
देवडा शाखा  
देवडा-362 652  
तालुका कुतियाणा  
जिला-पोरबंदर
516. भारतीय स्टेट बैंक  
धोराजी शाखा  
राममंदिर रोड  
धोराजी-360 410
517. भारतीय स्टेट बैंक  
गोमटा शाखा  
गोमटा-360 320  
जिला राजकोट
518. भारतीय स्टेट बैंक  
गोंडल शाखा  
कैलासबाग रोड  
बंगलावाडी एरिया  
गोंडल-360 311  
जिला राजकोट
519. भारतीय स्टेट बैंक  
जामकंडोरणा शाखा  
बापा सीताराम कॉम्प्लेक्स  
बस स्टैंड के पास  
जामकंडोरणा-360 405  
जिला राजकोट
520. भारतीय स्टेट बैंक  
जसदण शाखा  
ए पी एम सी परिसर, विंछिया रोड  
जसदण 360 050  
जिला राजकोट
521. भारतीय स्टेट बैंक  
जेतपुर शाखा  
तीन बती चौक, जुनागढ रोड  
जेतपुर 360 670  
जिला राजकोट
522. भारतीय स्टेट बैंक  
जेतपुर एस एम ई शाखा  
कर्मकिया प्लॉट, बस स्टैंड रोड  
जेतपुर 360 670  
जिला राजकोट
523. भारतीय स्टेट बैंक  
खामेश्री शाखा  
लिमडी चौक  
खामेश्री 362 650  
जिला पोरबंदर
524. भारतीय स्टेट बैंक  
खीरसरा शाखा  
खीरसरा-360 450  
तालुका-उपलेटा  
जिला-राजकोट
525. भारतीय स्टेट बैंक  
कुतियाणा शाखा  
शाही बाजार  
कुतियाणा-362 650  
जिला-पोरबंदर
526. भारतीय स्टेट बैंक  
लोधिकी शाखा  
लोधिकी-360 035  
जिला-राजकोट
527. भारतीय स्टेट बैंक  
महात्मा गांधी रोड शाखा  
महात्मा गांधी रोड  
गोंडल-360 311  
जिला-राजकोट
528. भारतीय स्टेट बैंक  
माधवपुर (घेड) शाखा  
माधवराय मंदिर के पास  
माधवपुर (घेड)-362 230  
जिला-पोरबंदर
529. भारतीय स्टेट बैंक  
पोरबंदर मुख्य शाखा  
माणिक चौक, पोरबंदर-360 575
530. भारतीय स्टेट बैंक  
मेटोडा शाखा, जी आइ डी सी, कालावड रोड  
मेटोडा-360 029  
जिला-राजकोट
531. भारतीय स्टेट बैंक  
मोढुका शाखा  
मोढुका-360 055  
तालुका जसदण  
जिला-राजकोट
532. भारतीय स्टेट बैंक  
मोकर शाखा  
मोकर-360 571  
तालुका राणावाव  
जिला-राजकोट
533. भारतीय स्टेट बैंक  
एन आर आइ शाखा  
सहयोग हॉस्पिटल के सामने  
पोरबंदर 360 575

534. भारतीय स्टेट बैंक  
पडधरी शाखा  
सर्वोदय मेडिकल कैम्पस, बस स्टैण्ड के पास  
पडधरी-360 110  
जिला-राजकोट
535. भारतीय स्टेट बैंक  
पांचपीपला शाखा  
पांचपीपला-360 370  
तालुका-जेतपुर  
जिला-राजकोट
536. भारतीय स्टेट बैंक  
पाटणवाव शाखा  
पिरवाडा रोड  
पाटणवाव-360 430  
जिला-राजकोट
537. भारतीय स्टेट बैंक  
राणावाव शाखा  
बाजार रोड  
राणावाव-360 550  
जिला-पोरबंदर
538. भारतीय स्टेट बैंक  
आटकोट शाखा  
जगड हॉल  
पंचायत रोड  
आटकोट-360 040  
जिला-राजकोट
539. भारतीय स्टेट बैंक  
पोरबंदर एस.एम. रोड शाखा  
सत्यनारायण मंदिर रोड, वाडी प्लॉट  
पोरबंदर-360 575
540. भारतीय स्टेट बैंक  
सातोदड शाखा  
सातोदड-380 405  
जिला-राजकोट
541. भारतीय स्टेट बैंक  
शापर शाखा  
शापर-वेरावल मेन रोड  
शापर-360 024  
जिला-राजकोट
542. भारतीय स्टेट बैंक  
शिवराजगढ़ शाखा  
शिवराजगढ़-360 311  
तालुका-गोंडल  
जिला-राजकोट
543. भारतीय स्टेट बैंक  
ठक्कर प्लॉट शाखा  
ठक्कर प्लॉट  
पोरबंदर-360 575
544. भारतीय स्टेट बैंक  
एस एम इ शाखा  
पेट्रोल पंप के पास, उद्योगनगर  
पोरबंदर-360 575
545. भारतीय स्टेट बैंक  
उपलेटा शाखा  
टाँवर रोड  
उपलेटा-360 490  
जिला-राजकोट
546. भारतीय स्टेट बैंक  
वरजांगजालिया शाखा  
वरजांगजालिया-360 490  
तालुका-उपलेटा  
जिला-राजकोट
547. भारतीय स्टेट बैंक  
बिंछिया शाखा  
बिंछिया-360 055  
तालुका-जसदण  
जिला-राजकोट
548. भारतीय स्टेट बैंक  
वीरपुर शाखा  
वीरपुर-360 380  
तालुका-जेतपुर  
जिला-राजकोट
549. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3  
एस एस आइ शाखा परिसर  
शंकर टेकरी, उद्योगनगर  
जामनगर-361 004
550. भारतीय स्टेट बैंक  
बेडी बंदर रोड शाखा  
बेडी बंदर रोड  
जामनगर-361 008
551. भारतीय स्टेट बैंक  
भाणवड शाखा  
आशापुरा चौक, रणजीत परा  
भाणवड-360 420  
जिला-जामनगर

552. भारतीय स्टेट बैंक  
दरेड शाखा  
दरेड रोड नंबर 376  
पटेल चौक के पास  
जामनगर-361 004
553. भारतीय स्टेट बैंक  
दिग्विजय प्लॉट शाखा  
पोलिस गेट के पास  
जामनगर 361 005
554. भारतीय स्टेट बैंक  
एस्सार रिफाइनरी खंभालिया शाखा  
खंभालिया 361 305  
जिला जामनगर
555. भारतीय स्टेट बैंक  
गुलाबनगर शाखा  
शंभु कॉम्प्लेक्स  
गुलाबनगर  
जामनगर 361 007
556. भारतीय स्टेट बैंक  
जामवंथली शाखा  
जामवंथली 361 130  
जिला जामनगर
557. भारतीय स्टेट बैंक  
कालावड शाखा  
भूमि कॉम्प्लेक्स  
सिनेमा रोड  
कालावड-361 160  
जिला-जामनगर
558. भारतीय स्टेट बैंक  
कल्याणपुर शाखा, कल्याणपुर-361 320  
जिला-जामनगर
559. भारतीय स्टेट बैंक  
खंभालिया कृषि विकास शाखा  
लोधिका रोड, खंभालिया-361 305  
जिला जामनगर
560. भारतीय स्टेट बैंक  
खोडीयार कॉलोनी शाखा  
रिलायंस पेट्रोलपंप के सामने  
जामनगर-361 006
561. भारतीय स्टेट बैंक  
लाल बंगलो शाखा  
लाल बंगलो एरिया, क्रिकेट बंगला के पास  
जामनगर-361 001
562. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटी खावडी शाखा  
रेलवे क्रासिंग के पास  
मोटी खावडी 361 140  
जिला जामनगर
563. भारतीय स्टेट बैंक  
नंदाणा शाखा  
नंदाणा 361 315  
तालुका कल्याणपुर  
जिला जामनगर
564. भारतीय स्टेट बैंक  
पोर्ट आखा शाखा  
पोर्ट आखा 361 350  
जिला जामनगर
565. भारतीय स्टेट बैंक  
रणजीत रोड शाखा  
रणजीत रोड  
जामनगर 361 001
566. भारतीय स्टेट बैंक  
रावल शाखा  
एस टी रोड सरकारी हॉस्पिटल के सामने  
रावल 361 325  
जिला जामनगर
567. भारतीय स्टेट बैंक  
एयर फोर्स स्टेशन शाखा  
एयर फोर्स स्टेशन  
जामनगर-361 003
568. भारतीय स्टेट बैंक  
आर पी एल टाउनशिप शाखा  
रिलायंस ग्रीन  
मोटीखावडी-361 142  
जिला-जामनगर
569. भारतीय स्टेट बैंक  
एस एम ई जामनगर शाखा  
गोरधनपुर रोड  
शंकर टेकरी  
जामनगर-361 004
570. भारतीय स्टेट बैंक  
तरसाई शाखा  
तरसाई-361 531  
तालुका जामजोधपुर  
जिला-जामनगर

571. भारतीय स्टेट बैंक  
ठेबा शाखा  
ठेबा 361 120  
वाया धुवा  
जिला जामनगर
572. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (कच्छ) -4  
कंडला सेड शाखा परिसर, पहला तल  
गांधीधाम-370 230  
जिला कच्छ
573. भारतीय स्टेट बैंक  
अंजार शाखा  
नगर पालिका बिल्डिंग, टाउन हॉल रोड  
अंजार 370 110  
जिला कच्छ
574. भारतीय स्टेट बैंक  
आशापुरा कॉम्प्लेक्स शाखा  
आशापुरा कॉम्प्लेक्स  
जूना बंदर रोड  
मुंद्रा 370 421  
जिला कच्छ
575. भारतीय स्टेट बैंक  
भचाऊ शाखा, नगर पालिका ऑफिस के पीछे  
भचाऊ 370 140  
जिला कच्छ
576. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा,  
कृष्णा चेंबर्स, स्टेशन रोड  
भुज 370 001  
जिला कच्छ
577. भारतीय स्टेट बैंक  
दहिसरा कच्छ शाखा  
दहिसरा 370 485  
जिला कच्छ
578. भारतीय स्टेट बैंक  
दयापर शाखा  
दयापर 370 625  
तालुका लखपत  
जिला कच्छ
579. भारतीय स्टेट बैंक  
गोपालपुरी शाखा  
गोपालपुरी 370 240  
तालुका गांधीधाम  
जिला कच्छ
580. भारतीय स्टेट बैंक  
कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र शाखा  
के. एस. ई. जेड. प्रशासनिक कार्यालय के सामने  
कंडला-370 230  
जिला कच्छ
581. भारतीय स्टेट बैंक  
कंडला पोर्ट शाखा  
होटेल सी-रॉक के सामने  
कंडला पोर्ट-370 201  
जिला कच्छ
582. भारतीय स्टेट बैंक  
केरा शाखा  
समाजवादी रोड  
केरा 370 430  
जिला कच्छ
583. भारतीय स्टेट बैंक  
लाकडिया शाखा  
लाकडिया-370 145  
जिला कच्छ
584. भारतीय स्टेट बैंक  
माधापर शाखा  
माधापर-370 020  
तालुका भुज  
जिला कच्छ
585. भारतीय स्टेट बैंक  
कच्छ मांडवी शाखा  
स्वामीनारायण मंदिर  
मांडवी-370 465  
जिला कच्छ
586. भारतीय स्टेट बैंक  
मानकुवा शाखा  
मानकुवा-370 030  
जिला कच्छ
587. भारतीय स्टेट बैंक  
मुंद्रा शाखा  
मुंद्रा पोर्ट रोड  
मुंद्रा-370 421  
जिला कच्छ
588. भारतीय स्टेट बैंक  
मुंद्रा अदाणी पोर्ट शाखा  
न्यू पोर्ट यूजर्स बिल्डिंग  
मुंद्रा-370 421  
जिला कच्छ



589. भारतीय स्टेट बैंक  
नखत्राणा शाखा  
होटल फन एण्ड फूड के पास  
नखत्राणा-370 615  
जिला कच्छ
590. भारतीय स्टेट बैंक  
नलीया शाखा  
नलीया-370 655  
तालुका अबडासा  
जिला कच्छ
591. भारतीय स्टेट बैंक  
नारणपर शाखा  
नारणपर-370 429  
जिला कच्छ
592. भारतीय स्टेट बैंक  
एन आर आइ शाखा  
193 एन के चेम्बर्स  
हॉस्पिटल रोड  
भुज-370 001  
जिला कच्छ
593. भारतीय स्टेट बैंक  
ओस्लो गांधीधाम शाखा  
ओस्लो सर्कल  
गांधीधाम-370 201  
जिला कच्छ
594. भारतीय स्टेट बैंक  
रामपर वेकरा शाखा  
रामपर वेकरा-370 445  
तालुका मांडवी  
जिला कच्छ
595. भारतीय स्टेट बैंक  
आदिपुर शाखा  
आदिपुर-370 205  
जिला कच्छ
596. भारतीय स्टेट बैंक  
आर टी ओ रिलोकेशन साइट शाखा  
आर टी ओ रिलोकेशन साइट  
भुज-370 001  
जिला कच्छ
597. भारतीय स्टेट बैंक  
समखीयाली शाखा  
स्टेशन रोड  
समखीयाली-370 170  
जिला कच्छ
598. भारतीय स्टेट बैंक  
संस्कारनगर शाखा  
कटीरा कमर्शल कॉम्प्लेक्स  
भुज-370 001
599. भारतीय स्टेट बैंक  
सुखपर शाखा  
सुखपर-370 040  
जिला कच्छ
600. भारतीय स्टेट बैंक  
सुरजपर शाखा  
सुरजपर-370 040  
पोस्ट भारापर  
जिला कच्छ
601. भारतीय स्टेट बैंक  
माधापर स्वामीनारायण मंदिर शाखा  
स्वामीनारायण मंदिर चौक  
माधापर-370 020  
जिला कच्छ
602. भारतीय स्टेट बैंक  
स्वामीनारायण मंदिर शाखा  
जुना वास  
सुखपर-370 040  
जिला कच्छ
603. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-5  
नमो पितृदेव कॉम्प्लेक्स  
आबू हाइवे  
पालनपुर-385 001
604. भारतीय स्टेट बैंक  
अमीरगढ शाखा  
अमीरगढ-385 130  
जिला बनासकांठा
605. भारतीय स्टेट बैंक  
भाभर शाखा  
भाभर-385 320  
तालुका दियोदर  
जिला बनासकांठा
606. भारतीय स्टेट बैंक  
भोलडी शाखा  
भोलडी-385 530  
तालुका सिहोरी  
जिला बनासकांठा

- |  |  |
|--|--|
| <p>607. भारतीय स्टेट बैंक<br/>बिलीया शाखा<br/>बिलीया-384 151<br/>जिला पाटण</p> <p>608. भारतीय स्टेट बैंक<br/>चाणस्मा शाखा<br/>चाणस्मा-384 220<br/>जिला पाटण</p> <p>609. भारतीय स्टेट बैंक<br/>चंडीसर शाखा<br/>चंडीसर-385 510<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>610. भारतीय स्टेट बैंक<br/>छापी शाखा<br/>छापी 385 210<br/>तालुका वडगाम<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>611. भारतीय स्टेट बैंक<br/>दांता शाखा<br/>दांता सनाली हाइवे<br/>दांता 385 120<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>612. भारतीय स्टेट बैंक<br/>दांतीवाडा शाखा<br/>सरदार कृषि नगर<br/>दांतीवाडा-385 506<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>613. भारतीय स्टेट बैंक<br/>दियोदर शाखा<br/>जलाराम पार्क<br/>दियोदर 385 330<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>614. भारतीय स्टेट बैंक<br/>भानेरा शाखा<br/>शिवाजी इस्टेट<br/>स्टेशन रोड<br/>भानेरा 385 310<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>615. भारतीय स्टेट बैंक<br/>धीमा शाखा<br/>श्री धरणीधर विष्णु महायज्ञ धर्मशाला ट्रस्ट<br/>धीमा 385 566<br/>जिला बनासकांठा</p> | <p>616. भारतीय स्टेट बैंक<br/>दुधवा शाखा<br/>दुधवा-385 565<br/>तालुका थरादु<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>617. भारतीय स्टेट बैंक<br/>हारिज शाखा<br/>ईश्वर भवन, नेहरू रोड<br/>हारिज-384 240<br/>जिला पाटण</p> <p>618. भारतीय स्टेट बैंक<br/>उत्तर गुजरात युनिवर्सिटी शाखा<br/>हेमचंद्राचार्य उत्तर गुजरात युनिवर्सिटी<br/>पाटण-384 265</p> <p>619. भारतीय स्टेट बैंक<br/>हाइवे रोड डीसा शाखा<br/>गायत्री मंदिर के पास<br/>डीसा-385 535<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>620. भारतीय स्टेट बैंक<br/>हाइवे रोड पालनपुर शाखा<br/>आयकर भवन के सामने<br/>पालनपुर-385 001<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>621. भारतीय स्टेट बैंक<br/>इकबालगढ शाखा<br/>इकबालगढ-385 135<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>622. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जालोत्रा शाखा<br/>जालोत्रा 385 002<br/>तालुका बडगाम<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>623. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जेलाना शाखा<br/>जेलाना-385 575<br/>तालुका वाव<br/>जिला बनासकांठा</p> <p>624. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कुंघेर शाखा<br/>बस स्टेन्ड के पीछे<br/>कुंघेर-385 255<br/>जिला पाटण</p> |
|--|--|

625. भारतीय स्टेट बैंक  
लाखणी शाखा  
लाखणी-385 541  
तालुका डीसा  
जिला बनासकांठा
626. भारतीय स्टेट बैंक  
लुवाणा शाखा  
लुवाणा-385 565  
तालुका थराद  
जिला बनासकांठा
627. भारतीय स्टेट बैंक  
मलाणा शाखा  
मलाणा-385 002  
जिला बनासकांठा
628. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटा काप्रा शाखा  
मोटा काप्रा-385 535  
तालुका डीसा  
जिला बनासकांठा
629. भारतीय स्टेट बैंक  
न्यू मार्केट यार्ड शाखा  
पाटण-385 265
630. भारतीय स्टेट बैंक  
पथवाडा शाखा  
डीसा हाइवे  
पथवाडा-385 545  
जिला बनासकांठा
631. भारतीय स्टेट बैंक  
राधनपुर शाखा  
धीरज चैम्बर्स, लालबाग  
राधनपुर-385 340, जिला पाटण
632. भारतीय स्टेट बैंक  
अंबाजी शाखा  
अंबाजी-385 110, तालुका दांता  
जिला बनासकांठा
633. भारतीय स्टेट बैंक  
एस. जे. रोड सिद्धपुर शाखा  
अंबालाल एवेन्यु, एस. जे. रोड  
सिद्धपुर-384 151  
जिला पाटण
634. भारतीय स्टेट बैंक  
समी शाखा  
समी-385 245  
जिला पाटण
635. भारतीय स्टेट बैंक  
शिरोही शाखा  
शिरोही-385 550  
जिला बनासकांठा
636. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
लक्ष्मी निवास, स्टेशन रोड  
पाटण-385 265
637. भारतीय स्टेट बैंक  
थरा शाखा  
थरा-385 555  
जिला बनासकांठा
638. भारतीय स्टेट बैंक  
थराद शाखा  
थराद-385 565  
जिला बनासकांठा
639. भारतीय स्टेट बैंक  
बडावली शाखा  
बडावली-384 221  
जिला पाटण
640. भारतीय स्टेट बैंक  
बडगाम शाखा  
बडगाम-385 410  
जिला बनासकांठा
641. भारतीय स्टेट बैंक  
वागडोद शाखा  
वागडोद-384 285  
जिला पाटण
642. भारतीय स्टेट बैंक  
वाराही शाखा  
धन बाजार  
पोस्ट ऑफिस के पास  
वाराही-385 360  
जिला पाटण
643. भारतीय स्टेट बैंक  
वाव शाखा  
बस स्टेन्ड के पास  
वाव-385 575, जिला पाटण
644. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-6  
बिजनेस व्यू  
दूधरेज रोड,  
सूरेंद्रनगर-363 001

- |  |  |
|--|--|
| 645. भारतीय स्टेट बैंक<br>दसाडा शाखा<br>10/13-14 मेन बाजार<br>दसाडा-382 750<br>जिला सुरेन्द्रनगर                     | 654. भारतीय स्टेट बैंक<br>मालणियाद शाखा<br>मालणियाद 363 330<br>तालुका हलबद<br>जिला सुरेन्द्रनगर                              |
| 646. भारतीय स्टेट बैंक<br>देवलिया शाखा<br>देवलिया-382 775<br>जिला सुरेन्द्रनगर                                       | 655. भारतीय स्टेट बैंक<br>मालवण शाखा<br>रामजी मंदिर के पास<br>मालवण 363 310<br>जिला सुरेन्द्रनगर                             |
| 647. भारतीय स्टेट बैंक<br>भ्रांगभ्रा शाखा<br>झालावाड मैदान के सामने<br>भ्रांगभ्रा-363 310<br>जिला सुरेन्द्रनगर       | 656. भारतीय स्टेट बैंक<br>माथक शाखा<br>माथक 363 330<br>तालुका हलबद<br>जिला सुरेन्द्रनगर                                      |
| 648. भारतीय स्टेट बैंक<br>वढवाण शाखा<br>शेड नं. सी-1-178, जी आइ डी सी<br>वढवाण-363 035<br>जिला सुरेन्द्रनगर          | 657. भारतीय स्टेट बैंक<br>मोजीदड शाखा<br>मोजीदड 363 411<br>जिला सुरेन्द्रनगर   |
| 649. भारतीय स्टेट बैंक<br>हडालाभाल शाखा<br>ग्राम पंचायत बिल्डिंग<br>हडालाभाल-363 425<br>जिला सुरेन्द्रनगर            | 658. भारतीय स्टेट बैंक<br>पाणशीणा शाखा<br>पाणशीणा-363 423<br>जिला सुरेन्द्रनगर   |
| 650. भारतीय स्टेट बैंक<br>हलबद शाखा<br>हलबद मालिया हाइवे<br>हलबद-363 330<br>जिला सुरेन्द्रनगर                        | 659. भारतीय स्टेट बैंक<br>राजसीतापुर शाखा<br>राजसीतापुर 363 320<br>जिला सुरेन्द्रनगर   |
| 651. भारतीय स्टेट बैंक<br>जुना देवलिया शाखा<br>ग्राम पंचायत आफिस के पास<br>जुना देवलिया-363 330<br>जिला सुरेन्द्रनगर | 660. भारतीय स्टेट बैंक<br>रंगपुर शाखा<br>रंगपुर-363 421<br>तालुका चुडा, जिला सुरेन्द्रनगर                                    |
| 652. भारतीय स्टेट बैंक<br>खाराघोडा शाखा<br>नवागाम<br>खाराघोडा-382 760<br>जिला सुरेन्द्रनगर                           | 661. भारतीय स्टेट बैंक<br>रतनपुर शाखा<br>यदुनंदन कॉम्प्लेक्स<br>रामेश्वर मंदिर के पास<br>रतनपुर-363 020<br>जिला सुरेन्द्रनगर |
| 653. भारतीय स्टेट बैंक<br>लिंबडी शाखा<br>लिंबडी-363 421<br>जिला सुरेन्द्रनगर   | 662. भारतीय स्टेट बैंक<br>थानगढ़ बाजार शाखा<br>वासुकी कॉम्प्लेक्स<br>सती वाव के पास<br>थानगढ़-363 530<br>जिला सुरेन्द्रनगर   |

663. भारतीय स्टेट बैंक  
सरा शाखा  
मुख्य रोड  
सरा 363 310  
जिला सुरेन्द्रनगर
664. भारतीय स्टेट बैंक  
सरला शाखा  
सरला 363 510  
तालुका मुली  
जिला सुरेन्द्रनगर
665. भारतीय स्टेट बैंक  
सुरेन्द्रनगर शाखा  
कोठारी बालमंदिर रोड  
अपना बाजार, समय कार्यालय के पास  
सुरेन्द्रनगर 363 001
666. भारतीय स्टेट बैंक  
थानगढ़ शाखा  
सिटी रेलवे क्रॉसिंग के पास, तरणोतर रोड  
थानगढ़ 363 530, जिला सुरेन्द्रनगर
667. भारतीय स्टेट बैंक  
वडगाम शाखा  
जय जडेश्वर दूध उत्पादक सहकारी मंडली बिल्डिंग  
वडगाम 382 750, जिला सुरेन्द्रनगर
668. भारतीय स्टेट बैंक  
वादीपरा शाखा  
तालुका स्कूल के पास  
स्वामी नारायण मंदिर के सामने  
वादीपरा  
सुरेन्द्रनगर 363 001
669. भारतीय स्टेट बैंक  
बडोद शाखा  
मुख्य बाजार  
बडोद 363 421  
जिला सुरेन्द्रनगर
670. भारतीय स्टेट बैंक  
बगडिया शाखा  
बगडिया 363 530  
वाया थानगढ़  
जिला सुरेन्द्रनगर
671. भारतीय स्टेट बैंक  
वणा शाखा  
वणा 363 110  
तालुका लखतर  
जिला सुरेन्द्रनगर
672. भारतीय स्टेट बैंक  
बढवोण सिटी शाखा  
कंसारा बाजार, खारवा चौक  
बढवाण सीटी-363 030  
जिला सुरेन्द्रनगर
673. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय शाखा  
स्टेट बैंक भवन, पांजरा पोल के पास  
घोड दौड़ रोड  
सूरत-395 001
674. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-1  
प्रीतमनगर शाखा परिसर, पहला तल  
1, प्रीतमनगर सोसाइटी  
कसक सर्कल के पास  
भरूच-392 001
675. भारतीय स्टेट बैंक  
अंभेठा शाखा  
दहेज रोड  
अंभेठा-392 130  
जिला भरूच
676. भारतीय स्टेट बैंक  
अमलेठा शाखा  
तालुका नंदोद  
अमलेठा-393 140  
जिला नर्मदा
677. भारतीय स्टेट बैंक  
अमोद शाखा  
न्यू मार्केट, स्टेशन रोड  
अमोद-392 110  
जिला भरूच
678. भारतीय स्टेट बैंक  
अंकलेश्वर शाखा  
मामलतदार कार्यालय के पास  
अंकलेश्वर-393 001, जिला भरूच
679. भारतीय स्टेट बैंक  
जी आइ डी सी शाखा  
अंकलेश्वर औद्योगिक क्षेत्र  
अंकलेश्वर-393 002, जिला भरूच
680. भारतीय स्टेट बैंक  
अविधा शाखा  
बस स्टैंड के पास,  
अविधा-393 017  
जिला भरूच

681. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
जिला पंचायत के सामने  
भरूच-392 001
682. भारतीय स्टेट बैंक  
दहेज शाखा  
तालुका वागरा  
दहेज 392 130  
जिला भरूच
683. भारतीय स्टेट बैंक  
डेडीयापाडा शाखा  
मेन रोड चार रास्ता  
डेडीयापाडा 393 040  
जिला नर्मदा
684. भारतीय स्टेट बैंक  
हांसोट शाखा  
अंकलेश्वर रोड  
हांसोट 393 030  
जिला भरूच
685. भारतीय स्टेट बैंक  
जंबुसर शाखा  
उपलीवाट  
जंबुसर 392 150  
जिला भरूच
686. भारतीय स्टेट बैंक  
झगडीया शाखा  
गांधी स्ट्रीट  
झगडीया 393 110  
जिला भरूच
687. भारतीय स्टेट बैंक  
कर्मद शाखा  
पोस्ट कर्मद 392 160  
जिला भरूच
688. भारतीय स्टेट बैंक  
कटोपोर दरवाजा शाखा  
जुमा मस्जिद रोड, भरूच 392 001
689. भारतीय स्टेट बैंक  
कंवडीया कॉलोनी शाखा  
नर्मदा प्रोजेक्ट प्रशासनिक भवन  
गरुडेश्वर 393 151  
जिला नर्मदा
690. भारतीय स्टेट बैंक  
कुडादरा शाखा, ग्राम पंचायत भवन  
कुडादरा 393 030  
जिला भरूच
691. भारतीय स्टेट बैंक  
मोहम्मदपुरा शाखा  
होलसेल सब्जी मार्केट के पास  
मोहम्मदपुरा, भरूच-392 001
692. भारतीय स्टेट बैंक  
मुक्तिनगर शाखा  
शक्तिनाथ सर्कल के पास  
भरूच-392 001
693. भारतीय स्टेट बैंक  
नंदेलाव शाखा  
भरूच ब्रिज व्यू कॉम्प्लेक्स  
होटल माधुली के पास  
नंदेलाव  
भरूच-392 001
694. भारतीय स्टेट बैंक  
नेत्रंग शाखा  
जीन बाजार  
नेत्रंग-393 130  
जिला भरूच
695. भारतीय स्टेट बैंक  
झानोर शाखा  
एन टी पी सी टाउनशिप, ऊर्जनगर  
झानोर 392 215  
जिला भरूच
696. भारतीय स्टेट बैंक  
ओ एन जी सी शाखा  
ओ एन जी सी परिसर  
अंकलेश्वर-393 001  
जिला भरूच
697. भारतीय स्टेट बैंक  
पालेज शाखा  
पंचायत कार्यालय के सामने  
पालेज 392 220  
जिला भरूच
698. भारतीय स्टेट बैंक  
पानोली शाखा  
जी ए सी एल कंपाउण्ड  
जी आइ डी सी, पानोली-394 116  
जिला भरूच
699. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रतापनगर शाखा  
मुख्य बाजार  
प्रतापनगर 393 140  
जिला भरूच

700. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रीतमनगर शाखा  
कसक सर्कल के पास  
1, प्रीतमनगर सोसाइटी  
भरुच-392 002
701. भारतीय स्टेट बैंक  
राजपारडी शाखा  
पोस्ट ऑफिस के सामने  
राजपारडी-393 115  
जिला भरुच
702. भारतीय स्टेट बैंक  
राजपीपला शाखा  
"कीर्ति भुवन"  
राजपीपला-393 145  
जिला नर्मदा
703. भारतीय स्टेट बैंक  
सागबारा शाखा  
सागबारा-393 050  
जिला नर्मदा
704. भारतीय स्टेट बैंक  
साजोद शाखा  
साजोद-393 020  
जिला भरुच
705. भारतीय स्टेट बैंक  
सारोद शाखा, सारोद-392 180  
जिला भरुच
706. भारतीय स्टेट बैंक  
टंकारी शाखा, टंकारी-392 040  
जिला भरुच
707. भारतीय स्टेट बैंक  
तिलकवाडा शाखा  
तिलकवाडा-391 120  
जिला नर्मदा
708. भारतीय स्टेट बैंक  
वागरा शाखा  
वागरा-392 140  
जिला भरुच
709. भारतीय स्टेट बैंक  
वालिया शाखा  
1, आदित्यनगर सोसाइटी  
महिला कॉलेज के पास  
वालिया-393 135  
जिला भरुच
710. भारतीय स्टेट बैंक  
जाडेश्वर शाखा  
43-47, श्री रंग पैलेस  
जाडेश्वर-392 012  
जिला भरुच
711. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-2  
स्टेट बैंक भवन  
पंजारा पोल के पास  
घोड दौड़ रोड, सूरत-395 001
712. भारतीय स्टेट बैंक  
अश्विनीकुमार रोड शाखा  
पहला तल, धारा रेसिडेंसी, हरीबाग  
सूरत-395 010
713. भारतीय स्टेट बैंक  
आइ माता रोड शाखा  
ब्लॉक नंबर 121, सुदर्शन कॉम्प्लेक्स  
आइ माता रोड, सूरत-395 010
714. भारतीय स्टेट बैंक  
अभिक्रम कॉम्प्लेक्स शाखा  
भुलका भवन स्कूल के सामने  
हजीरा रोड, अडाजन  
सूरत-395 009
715. भारतीय स्टेट बैंक  
अडाजन शाखा  
भूतल, माधव आर्कैड  
प्राइम मार्केट के सामने  
सूरत-395 009
716. भारतीय स्टेट बैंक  
अमरोली शाखा  
गुजरात शॉपिंग सेन्टर  
अमरोली  
सूरत-394 107
717. भारतीय स्टेट बैंक  
बमरोली शाखा  
14-15, वृत्ति नगर सोसाइटी  
जीइबी ऑफिस के सामने  
बमरोली  
सूरत-394 210
718. भारतीय स्टेट बैंक  
भाठेना शाखा  
रिद्धि सिद्धि कॉम्प्लेक्स  
भाठेना, सूरत-394 210

719. भारतीय स्टेट बैंक  
भटार रोड शाखा  
हरिकृष्ण बिल्डिंग, भटार रोड  
सूरत-395 017
720. भारतीय स्टेट बैंक  
भेस्तान शाखा  
साई कृपा के पास  
भेस्तान  
सूरत-395 006
721. भारतीय स्टेट बैंक  
बॉम्बे मार्केट शाखा  
"उमरवाडा"  
बॉम्बे मार्केट  
सूरत-395 010
722. भारतीय स्टेट बैंक  
सिटीलाइट शाखा  
शीतल पार्क, पद्माकृति  
सिटीलाइट  
सूरत-395 007
723. भारतीय स्टेट बैंक  
घोडदौड रोड शाखा  
मेघ मयूर प्लाजा  
घोडदौड रोड  
सूरत-395 007
724. भारतीय स्टेट बैंक  
गोधा स्ट्रीट शाखा  
प्रमुख चेम्बर्स  
टीमलियावाड, नानपुरा  
सूरत-395 001
725. भारतीय स्टेट बैंक  
गोपीपुरा शाखा  
पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट  
हनुमान चार रास्ता, गोपीपुरा  
सूरत-395 001
726. भारतीय स्टेट बैंक  
हनी पार्क शाखा  
डेजल आर्कड, छत्रपति शिवाजी मार्ग,  
हनी पार्क  
सूरत-395 005
727. भारतीय स्टेट बैंक  
जी आई डी सी कतारगाम शाखा  
जी आई डी सी, कतारगाम  
सूरत-395 008

728. भारतीय स्टेट बैंक  
कापोदरा शाखा  
कापोदरा चार रास्ता  
कापोदरा  
सूरत-395 006
729. भारतीय स्टेट बैंक  
मोरा भागल शाखा  
न्यू सुभाष सोसाइटी  
मोरा भागल  
सूरत-395 005
730. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटा वराछा शाखा  
कृष्णा टाउनशिप  
मोटा वराछा  
सूरत-395 006
731. भारतीय स्टेट बैंक  
नानपुरा शाखा  
101, रामेश्वर अपार्टमेन्ट  
अधुगर शेरी, नानपुरा  
सूरत-395 001
732. भारतीय स्टेट बैंक  
पालनपुर जकातनाका शाखा  
शांतम रेसिडेंसी,  
पालनपुर जकातनाका  
सूरत-395 001
733. भारतीय स्टेट बैंक  
पांडेसरा इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
पांडेसरा इंडस्ट्रियल इस्टेट  
सूरत-394 221
734. भारतीय स्टेट बैंक  
पारले पॉइन्ट शाखा  
अमिजरा शॉपिंग सेंटर  
अठवा लाइन्स  
सूरत-395 007
735. भारतीय स्टेट बैंक  
पर्वत पाटीया शाखा  
सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स  
कडोदरा रोड  
पर्वत पाटीया  
सूरत-395 010
736. भारतीय स्टेट बैंक  
पीपलोद शाखा  
स्वास्तिक हाउस के सामने  
पीपलोद, सूरत-395 007



737. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रकाश सोसायटी शाखा  
सेन्ट जेवियर्स स्कूल के पास  
घोडदौड़ रोड  
सूरत-395 001
738. भारतीय स्टेट बैंक  
रांदेर रोड शाखा  
16-17 शिवम कॉम्प्लेक्स  
रांदेर रोड  
सूरत-395 009
739. भारतीय स्टेट बैंक  
रिद्धि रेसिडेंसी(अंबिका निकेतन) शाखा  
एल पी सवाणी रोड  
सूरत-393 009
740. भारतीय स्टेट बैंक  
सलाबतपुरा शाखा  
श्रीकृष्ण मार्केट, भूतल  
सलाबतपुरा  
सूरत-395 002
741. भारतीय स्टेट बैंक  
सरथाणा शाखा  
सरथाणा जकात नाका के पास  
सरथाणा  
सूरत-395 006
742. भारतीय स्टेट बैंक  
सोसियो सर्कल शाखा  
12-13 नवरंग इन्डस्ट्रियल सोसाइटी  
उधना -मगदल्ला रोड  
सूरत-395 002
743. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष वाणिज्यिक शाखा  
किरण चेम्बर्स, रिंग रोड  
सगरामपुरा  
सूरत-395 002
744. भारतीय स्टेट बैंक  
चौक बाजार शाखा  
स्टेट बैंक भवन, चौक बाजार  
सूरत-395 001
745. भारतीय स्टेट बैंक  
एस वी आर कॉलेज शाखा  
एस वी आर कॉलेज परिसर  
सूरत-डुमस रोड  
सूरत-395 007
746. भारतीय स्टेट बैंक  
उधना सिटी शाखा  
401-407. अरिहंत कॉम्प्लेक्स  
उधना मेन रोड  
सूरत-394 210
747. भारतीय स्टेट बैंक  
उधना उद्योगनगर शाखा  
एम जी रोड नं. 14, गोपी कंपाउंड  
उधना उद्योग नगर  
सूरत-394 210
748. भारतीय स्टेट बैंक  
वराछा रोड शाखा  
पोद्दार आर्कैड, वराछा रोड  
सूरत-395 006
749. भारतीय स्टेट बैंक  
वेद रोड शाखा  
सिद्धेश्वर सोसाइटी  
डभोई चार रास्ता, वेद रोड  
सूरत-395 004
750. भारतीय स्टेट बैंक  
पाल शाखा  
रेखा पार्क, सूरत-हजीरा रोड, पाल  
सूरत-395 007
751. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
उना पानी रोड  
स्टेशन रोड  
सूरत-395 002
752. भारतीय स्टेट बैंक  
वेसु शाखा  
वेसु मेन रोड  
सूरत-395 007
753. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-3  
स्टेट बैंक भवन  
पांजरापोल के पास  
घोड दौड़ रोड  
सूरत-395 001
754. भारतीय स्टेट बैंक  
महुवा कृषि विकास शाखा  
विघ्नेश्वर स्ट्रीट, बस स्टैंड रोड  
महुवा-394 250  
जिला सूरत

- |   |  |
|---|--|
| <p>755. भारतीय स्टेट बैंक<br/>आहवा शाखा<br/>रंग उपवन के सामने, सर्किट हाउस रोड<br/>अहवा 394 710<br/>जिला सूरत</p> <p>756. भारतीय स्टेट बैंक<br/>अपरेल पार्क शाखा<br/>सूरत नवसारी रोड, अपरेल पार्क<br/>सचिन 394 230<br/>जिला सूरत</p> <p>757. भारतीय स्टेट बैंक<br/>असनाद शाखा<br/>असनाद 394 540<br/>तालुका ओलपाड<br/>जिला सूरत</p> <p>758. भारतीय स्टेट बैंक<br/>बारडोली शाखा<br/>पितृस्मृति, भंडारी चार्ड<br/>बारडोली 394 601<br/>जिला सूरत</p> <p>759. भारतीय स्टेट बैंक<br/>भाठा शाखा<br/>फोल हजीरा रोड<br/>भाठा 394 510<br/>जिला सूरत</p> <p>760. भारतीय स्टेट बैंक<br/>भाटपोर शाखा<br/>ओ एन जी सी कॉम्प्लेक्स, प्रशासनिक भवन<br/>भाटपोर, हजीरा 394 518<br/>जिला सूरत</p> <p>761. भारतीय स्टेट बैंक<br/>एना शाखा<br/>एना 394 310<br/>जिला नर्मदा</p> <p>762. भारतीय स्टेट बैंक<br/>फोर्ट सोनगढ शाखा<br/>नवागाम रोड<br/>फोर्ट सोनगढ 394 670<br/>जिला सूरत</p> <p>763. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जी आइ डी सी शाखा<br/>डायमंड इंडस्ट्री पार्क<br/>सचिन 394 230<br/>जिला सूरत</p> | <p>764. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कडोदरा शाखा<br/>स्वागत कॉम्प्लेक्स<br/>कडोदरा-394 327<br/>जिला सूरत</p> <p>765. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कामरेज चार रास्ता शाखा<br/>सृष्टि कॉम्प्लेक्स<br/>कामरेज-394 185<br/>जिला सूरत</p> <p>766. भारतीय स्टेट बैंक<br/>के ए पी एस टाउनशिप शाखा<br/>अणुमाला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स<br/>काकरापार 394 650<br/>जिला तापी</p> <p>767. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कपुरा शाखा<br/>कपुरा 394 655<br/>तालुका व्यारा<br/>जिला तापी</p> <p>768. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कवास शाखा<br/>सूरत हजीरा रोड<br/>कवास 394 510<br/>जिला सूरत</p> <p>769. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कीम शाखा<br/>कीम 394 110<br/>जिला सूरत</p> <p>770. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कोसंबा मार्केट यार्ड शाखा<br/>कोसंबा 394 120<br/>जिला सूरत</p> <p>771. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कोसंबा शाखा<br/>हथुरन रोड<br/>कोसंबा 394 120<br/>जिला सूरत</p> <p>772. भारतीय स्टेट बैंक<br/>मढी शाखा<br/>मढी 394 240<br/>तालुका बारडोली<br/>जिला सूरत</p> |
|---|--|

773. भारतीय स्टेट बैंक  
मांडवी शाखा  
सुथार फलिया  
मांडवी-394 160  
जिला सूरत
774. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटामिया मांगरोल शाखा  
टेलिफोन एक्सचेंज के सामने  
मांगरोल मोटामिया-394 410  
जिला सूरत
775. भारतीय स्टेट बैंक  
नानी नारोली शाखा  
यूटिलिटी भवन, जी आई पी सी एल  
नानी नारोली 394 110  
जिला सूरत
776. भारतीय स्टेट बैंक  
निजर शाखा  
निजर 394 370  
जिला तापी
777. भारतीय स्टेट बैंक  
एन आर आई बारडोली शाखा  
पितृस्मृति, भंडारी वार्ड  
बारडोली 394 601  
जिला सूरत
778. भारतीय स्टेट बैंक  
ओलपाड शाखा  
ओलपाड 394 540  
जिला सूरत
779. भारतीय स्टेट बैंक  
पलसाणा शाखा  
पलसाणा 394 315  
जिला सूरत
780. भारतीय स्टेट बैंक  
पिंपरी शाखा  
तालुका आहवा  
पिंपरी 394 715  
जिला डांग
781. भारतीय स्टेट बैंक  
सायण शाखा  
तालुका ओलपाड  
सायण 394 130  
जिला सूरत
782. भारतीय स्टेट बैंक  
शामगहन शाखा  
तालुका आहवा  
शामगहन-394 715  
जिला डांग
783. भारतीय स्टेट बैंक  
उच्छल शाखा  
उच्छल-394 375  
जिला तापी
784. भारतीय स्टेट बैंक  
ऊकाई शाखा  
जी एस ई सी एल कॉलोनी के सामने  
ऊकाई-394 680  
जिला तापी
785. भारतीय स्टेट बैंक  
उमरपाडा शाखा, उमरपाडा-394 445  
जिला सूरत
786. भारतीय स्टेट बैंक  
वालोद शाखा  
वालोद 394 640  
जिला तापी
787. भारतीय स्टेट बैंक  
व्यारा शाखा  
महादेव गली, व्यारा-394 650  
जिला तापी
788. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय-4  
डी एन शॉपिंग सेंटर  
गांधी लाइब्रेरी के सामने  
वलसाड 396 001
789. भारतीय स्टेट बैंक  
अमलसाड शाखा  
स्टेशन रोड  
अमलसाड 396 310  
जिला नवसारी
790. भारतीय स्टेट बैंक  
अटगाम शाखा  
अटगाम 396 045  
जिला वलसाड
791. भारतीय स्टेट बैंक  
अतुल शाखा, अतुल कैम्पस  
अतुल 396 020  
जिला वलसाड

- |  |  |
|--|--|
| <p>792. भारतीय स्टेट बैंक<br/>बांसदा शाखा<br/>शंकर फलिया<br/>बांसदा-396 580<br/>जिला नवसारी</p> <p>793. भारतीय स्टेट बैंक<br/>भदेली शाखा<br/>भदेली-396 030<br/>जिला वलसाड</p> <p>794. भारतीय स्टेट बैंक<br/>भीलाड इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा<br/>उमरगांव रोड<br/>भीलाड 396 105<br/>जिला वलसाड</p> <p>795. भारतीय स्टेट बैंक<br/>बिलीमोरा शाखा<br/>कॉलेज रोड<br/>बिलीमोरा 396 321<br/>जिला नवसारी</p> <p>796. भारतीय स्टेट बैंक<br/>चनवई शाखा<br/>देसाई वाड<br/>चनवई 396 020<br/>जिला वलसाड</p> <p>797. भारतीय स्टेट बैंक<br/>छापरा रोड शाखा<br/>छापरा रोड 396 445<br/>जिला नवसारी</p> <p>798. भारतीय स्टेट बैंक<br/>चिखली शाखा<br/>खत्रीवाड<br/>चिखली 396 521<br/>जिला नवसारी</p> <p>799. भारतीय स्टेट बैंक<br/>दमण शाखा<br/>कं कं मार्ग<br/>दमण 396 210<br/>जिला दमण</p> <p>800. भारतीय स्टेट बैंक<br/>देहगाम शाखा<br/>नासिक रोड<br/>देहगाम 394 650<br/>जिला वलसाड</p> | <p>801. भारतीय स्टेट बैंक<br/>देवसर शाखा<br/>नर्सरी रोड, सरदार मार्केट<br/>देवसर-396 380<br/>जिला नवसारी</p> <p>802. भारतीय स्टेट बैंक<br/>धरमपुर शाखा<br/>जेल रोड<br/>धरमपुर-396 050<br/>जिला वलसाड</p> <p>803. भारतीय स्टेट बैंक<br/>डुंगरी शाखा<br/>लिंक रोड, रेल्वे क्रॉसिंग के पास<br/>डुंगरी-396 375<br/>जिला वलसाड</p> <p>804. भारतीय स्टेट बैंक<br/>गणदेवी शाखा<br/>नगरपालिका परिसर<br/>गणदेवी-396 360<br/>जिला नवसारी</p> <p>805. भारतीय स्टेट बैंक<br/>जी आई डी सी शाखा<br/>उमरगांव -396 171<br/>जिला वलसाड</p> <p>806. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कबीलपोर शाखा<br/>प्लॉट नंबर 37<br/>जी आई डी सी<br/>कबीलपोर-396 424<br/>जिला नवसारी</p> <p>807. भारतीय स्टेट बैंक<br/>गुंडलाव शाखा<br/>गुंडलाव इंडस्ट्रियल इस्टेट<br/>गुंडलाव 396 350<br/>जिला वलसाड</p> <p>808. भारतीय स्टेट बैंक<br/>कापरडा शाखा<br/>कापरडा 395 210<br/>जिला वलसाड</p> <p>809. भारतीय स्टेट बैंक<br/>खेरगांव शाखा<br/>खेरगांव-396 040<br/>जिला नवसारी</p> |
|--|--|

810. भारतीय स्टेट बैंक  
कोसंबा शाखा  
कोसंबा चार रास्ता  
कोसंबा-396 445  
जिला नवसारी
811. भारतीय स्टेट बैंक  
मागोद शाखा  
मागोद मंदिर, महादेव मंदिर के पास  
मागोद-396 020  
जिला बलसाड
812. भारतीय स्टेट बैंक  
मरोली शाखा  
बाजार राजा रोड  
मरोली-396 436  
जिला नवसारी
813. भारतीय स्टेट बैंक  
मोटी दमण शाखा  
फुटबॉल ग्राउंड के सामने  
मोटी दमण-396 220  
जिला दमण
814. भारतीय स्टेट बैंक  
नानापोडा शाखा  
वापी रोड, लुहार फलिया  
नानापोडा-396 126  
जिला नवसारी
815. भारतीय स्टेट बैंक  
नवसारी शाखा  
1865, श्रीराम सोसाइटी, फुवारा के पास  
नवसारी-396 445
816. भारतीय स्टेट बैंक  
नवसारी कृषि विश्वविद्यालय परिसर शाखा  
नवसारी 396 450
817. भारतीय स्टेट बैंक  
पारडी शाखा  
श्रीफ स्ट्रीट  
पारडी-396 125  
जिला नवसारी
818. भारतीय स्टेट बैंक  
रणकुवा शाखा  
डोल्हा शॉपिंग सेंटर  
बलसाड रोड  
रणकुवा-396 560  
जिला नवसारी
819. भारतीय स्टेट बैंक  
रूमला शाखा  
उपासना शॉपिंग सेंटर, मेन रोड  
रूमला-396 060  
जिला नवसारी
820. भारतीय स्टेट बैंक  
सरीगाम शाखा  
ब्राह्मण स्ट्रीट  
सरीगाम-396 155  
जिला बलसाड
821. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेष वाणिज्यिक शाखा  
प्लॉट नंबर 135, बाय हाउस, भूतल  
जी आई डी सी  
वापी-396 195  
जिला बलसाड
822. भारतीय स्टेट बैंक  
सिलवासा शाखा  
निसर्ग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स  
किलवणी रोड  
सिलवासा-396 230  
जिला दादरा एवं नगर हवेली
823. भारतीय स्टेट बैंक  
सोमनाथ इंडस्ट्रियल इस्टेट शाखा  
सोमनाथ इंडस्ट्रियल इस्टेट  
दमण 396 210
824. भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेशन रोड शाखा  
साकार बिल्डिंग, मामलतदार कार्यालय परिसर  
बलसाड 396 001
825. भारतीय स्टेट बैंक  
उभराट शाखा  
पंचाट रोड, उभराट-396 436  
जिला नवसारी
826. भारतीय स्टेट बैंक  
उदवाडा शाखा  
उदवाडा रेलवे स्टेशन के पास  
उदवाडा 396 185  
जिला बलसाड
827. भारतीय स्टेट बैंक  
उमरसाडी शाखा  
वेनीनारायण निवास, देसाई फालिया  
उमरसाडी-396 175  
जिला बलसाड

828. भारतीय स्टेट बैंक  
उमरगांव टाउन शाखा  
गोपाल कृपा, उमरगांव टाउन  
उमरगांव-396 170  
जिला वलसाड
829. भारतीय स्टेट बैंक  
वलसाड शाखा  
मार्केट एरिया  
वलसाड-396 001
830. भारतीय स्टेट बैंक  
वापी इंडस्ट्रियल टाउनशिप शाखा  
जी आईडीसी  
वापी-396 195  
जिला वलसाड
831. भारतीय स्टेट बैंक  
वेस्मा शाखा  
बाजार स्ट्रीट  
वेस्मा-396 475  
जिला नवसारी
832. भारतीय स्टेट बैंक  
एस पी बी बी लुंसीकुई  
चिमनाबाई रोड, बसंत टाकिज के पास  
लुंसीकुई-396 445  
जिला नवसारी

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Financial Services)**

New Delhi, the 11th June, 2012

**S.O. 2156.**—In pursuance of sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987) the Central Government hereby notifies following branches/Offices of Banks/Financial Institutions/Insurance companies under the control of Department of Financial Services, M/O Finance, whereof more than 80% officers/staffs have acquired working knowledge of Hindi.

Sl. No.	Name of Banks/Financial Institutes/Insurance companies (As per enclosed list)	Number of branches/Offices
1.	State Bank of India	832
	Total	832

[No. 11016/4/2012-Hindi]  
C.P. DHAUNDIYAL, Jt. Director (O.L.)

State Bank of India Local Head Office, Ahmedabad List of Offices/ Branches to be Notified Under Rule 10 (4) of Official Language Rules, 1976

- State Bank of India  
Administrative Office  
C.N.Vidyalaya Complex, Ambawadi  
Ahmedabad-380015
- State Bank of India  
Regional Business Office-1  
C N Vidyalaya Campus, Ambawadi  
Ahmedabad- 380 015
- State Bank of India  
Amraiwadi Branch  
Crystal Estate  
39,Satnam Co.-op. ind Est.  
Ahmedabad-380 026
- State Bank of India  
Arvind Nagar Society Branch  
6, Arvind Nagar Society  
Near Sanjuba Hospital  
Bapunagar  
Ahmedabad-380 024
- State Bank of India  
Civil Hospital Branch  
Scheme No. 8  
Digvijay Lions Foundation Building  
Opp. Civil Hospital Gate No.3  
Ahmedabad- 380 016
- State Bank of India  
C.M Char Rasta Branch  
Bharvi Co-op. Housing Society LTD  
Amraiwadi  
Ahmedabad-380 026
- State Bank of India  
Ghodasar Branch  
Annapurna Society  
Near Aavkar Hall  
Canal Road  
Ahmedabad-380 050
- State Bank of India  
Odhav Branch  
GIDC Industrial Estate.  
B/H Petrol Pump  
Ahmedabad-382 415
- State Bank of India  
Girdharnagar Branch  
Patel Sanatorium  
Shahibaug Road  
Ahmedabad-380 004
- State Bank of India  
Behrampur Branch  
Bagmar Plaza  
Jamalpur  
Ahmedabad-380 022

- |   |   |
|---|---|
| 11. State Bank of India<br>Kankaria Branch<br>Ground Floor 1 & 2, Vijay Towers<br>Opp. Abad Dairy<br>Ahmedabad-380 022  | 22. State Bank of India<br>Cantonment Branch<br>Old Airport Road<br>Sadar Bazar<br>Ahmedabad-380 003  |
| 12. State Bank of India<br>Khanpur Branch<br>Pushpak Building<br>Khanpur Ahmedabad -380 001   | 23. State Bank of India<br>Regal Estate Branch<br>Near Gujarat Bottling<br>Rakhial<br>Ahmedabad-380 023   |
| 13. State Bank of India<br>Khokhra Mehmadahad Branch<br>Radhe Shopping Mall<br>Maninagar<br>Ahmedabad-380 008   | 24. State Bank of India<br>Saijpur Bogha Branch<br>Near G D High School<br>Krishnanagar Road<br>Ahmedabad-382 345                                       |
| 14. State Bank of India<br>Kubernagar Branch<br>C-153, Main Bazar<br>Kubernagar<br>Ahmedahad-384 340  | 25. State Bank of India<br>Saraspur Branch<br>Tirupati Estate, Luhar Street, Saraspur<br>Ahmedabad-380 018  |
| 15. State Bank of India<br>Madhupura Branch<br>101-A Adwani Market<br>Shahibaug Road, Dilli Darwaja<br>Ahmedabad-380 001  | 26. State Bank of India<br>Shah Alam Gate Branch<br>Alka Shoping Centre<br>Opp, Mangal Park Bus Stand,<br>Geeta Mandir Road<br>Ahmedabad-380 022        |
| 16. State Bank of India<br>Meghaninagar Branch<br>109-110 Ashish Nagar Society<br>Ahmedabad-380 016   | 27. State Bank of India<br>New Cloth Market Branch<br>A-9 & 10, First Floor, Sumel Business Park<br>B/H New Cloth Market<br>Raipur<br>Ahmedabad-380 022 |
| 17. State Bank of India<br>G.I.D.C. Branch<br>Riddhi Siddhi Complex<br>G.I.D.C.<br>Nana Chiloda<br>Ahmedahad-382 330  | 28. State Bank of India<br>Thakkarbapa Nagar Branch<br>Shop No. 5 to 11<br>Pushpak Arcade<br>Hirawadi<br>Bajrangdas Bapa Ashram<br>Ahmedabad-382 350    |
| 18. State Bank of India<br>Narol Circle Branch<br>Wing B, Sarover Avenue<br>Narol Circle<br>Ahmedabad-382 405   | 29. State Bank of India<br>Viratnagar Branch<br>Pioneer Plaza<br>Near Soni Ni Chali<br>Ahmedabad-382 415  |
| 19. State Bank of India<br>Panchkutir Residency Branch<br>Opp. Suraj Bunglows, Kathwa Road<br>nava Naroda<br>Ahmedabad-382 330                                  | 30. State Bank of India<br>Vivekanand Industrial Estate Branch<br>Near Rakhail Char Rasta<br>Ahmedabad-382 021  |
| 20. State Bank of India<br>Nikol Road Branch<br>Shop No.1 to 6, Pancham Shopping Mall<br>Near Jeevan Vadi<br>Ahmedabad-382 350                                  | 31. State Bank of India<br>Regional Business Office 2<br>C.N. Vidyalaya Building<br>Ambawadi<br>Ahmedabad-380 015                                       |
| 21. State Bank of India<br>Pranami Nagar Road Branch<br>RAF Vastral 101<br>Radhe Chambers<br>Opp. Madhav Park Part-4<br>Pranami Nagar Road<br>Ahmedabad-382 418 |   |

- |   |  |
|---|--|
| 32. State Bank of India<br>Stock Exchange Branch<br>IOC<br>Near Railway Crossing, D Cabin<br>Ahmedabad-380 005                          | 41. State Bank of India<br>Kesariyaji Char Rasta Branch<br>Prashanti Flat<br>Near Jivraj Mehta Hospital<br>Vasna Road<br>Ahmedabad-380 007       |
| 33. State Bank of India<br>Akharnagar Char Rasta Branch<br>I. 14, Swatantra Senani Nagar<br>Nava Wadaj<br>Ahmedabad-380 013             | 42. State of India<br>Memnagar Branch<br>64 Hariom Nivas<br>New Rajdeep Co-Up. Society<br>Opp. Suryadeep Tower.<br>Memnagar<br>Ahmedabad-380 052 |
| 34. State Bank of India<br>Ambawadi Branch<br>Shree Mangalya Complex<br>Bhudarpura Road<br>Ahmedabad-380 006                            | 43. State Bank of India<br>Law Garden Branch<br>Zodiac Avenue, Law Garden<br>Ahmedabad-380 006   |
| 35. State Bank of India<br>Ashirvad Complex Branch<br>Opp. Kochrah Ashram<br>Pragatinagar<br>Paldi<br>Ahmedabad-380 006                 | 44. State Bank of India<br>Mithakhali Branch<br>No.379, Rasala Marg<br>Ellisbridge<br>Navarangpura<br>Ahmedabad-380 006                          |
| 36. State Bank of India<br>Dharmnagar Branch<br>Shanti Avenue, Near Pukhraj Hospital<br>Ramnagar<br>Sabarmati<br>Ahmedabad-380 005      | 45. State Bank of India<br>Motera Branch<br>Shop No. 1 to 5<br>"A" Vitthal Square Complex<br>Stadium Road<br>Motera<br>Ahmedabad-380 001         |
| 37. State Bank of India<br>Ghatlodia Branch<br>"II"- Block. Devnandan Complex<br>Near Chanakyapuri Railway Station<br>Ahmedabad-380 061 | 46. State Bank of India<br>Narangpura Branch<br>Vikram Appartment<br>Opp. Avántika Society<br>Narangpura<br>Ahmedabad-380 013                    |
| 38. State Bank of India<br>Gujarat University Branch<br>Opp. University Library<br>Navrangpura<br>Ahmedabad-380 009                     | 47. State Bank of India<br>Nava Wadaj Branch<br>Sumangalam Complex<br>Near Vyas Vadi, Nava Vadaj<br>Ahmedabad-380 013                            |
| 39. State Bank of India<br>IIT Chandkheda Branch<br>G-8. Vithal Mall. Near IIT<br>Gandhinagar Highway<br>Sabarmati<br>Ahmedabad-382 424 | 48. State Bank of India<br>Navarangpura Branch<br>"Shilp" - Near Telephone Exchange<br>Navarangpura<br>Ahmedabad-380 009                         |
| 40. State Bank of India<br>IOC Road Branch<br>34-41 Sneh Plaza Complex<br>Chandkheda<br>Ahmedabad-382 424                               |  |



- |  |  |
|--|--|
| <p>49. State Bank of India<br/>Paldi Branch<br/>Dev Archan Complex<br/>Opp. Kocharab Ashram<br/>Ahmedabad-380 007</p> <p>50. State Bank of India<br/>Prabhat Society Branch<br/>963 Jain Vihar<br/>Opp. Suvidha Shopping Centre<br/>Mahalaxmi Char Rasta,<br/>Ahmedabad-380 006</p> <p>51. State Bank of India<br/>Ranip Branch<br/>Neelkanth Bhavan<br/>Near Water Tank, Main Bazar, Ranip<br/>Ahmedabad-382 480</p> <p>52. State Bank of India<br/>RTO Branch<br/>1-2-3 Astha Complex<br/>Opp. Agrawal Petrol Pump<br/>Subhash Bridge Circle<br/>Ahmedabad-380 027</p> <p>53. State Bank of India<br/>Specialised NRI Branch<br/>58 Shrimali Society<br/>Mithakhali<br/>Navarangpura<br/>Ahmedabad-380 009</p> <p>54. State Bank of India<br/>St. Xavier's High School Road Branch<br/>Akshar Arcade<br/>Opp. Memnagar Fire Station<br/>Navarangpura<br/>Ahmedabad-380 009</p> <p>55. State Bank of India<br/>University Campus Area Branch<br/>Navjivan Plot No. 8<br/>Lajpat Nagar<br/>Ahmedabad-380 014</p> | <p>56. State Bank of India<br/>Vasna Branch<br/>Sarvamangal Complex<br/>Opp. Zahlak Complex<br/>Vasna<br/>Ahmedabad-380 007</p> <p>57. State Bank of India<br/>Vijaynagar Branch<br/>7 Gopikunj Society<br/>Opp. Adarshnagar<br/>Navarangpura<br/>Ahmedabad-380 013</p> <p>58. State Bank of India<br/>Wadaj Branch<br/>Saphire Business Centre<br/>Satyawadi Society<br/>Near champaner Bus Stand,<br/>Usmanpura, Ahmedabad-380 013</p> <p>59. State Bank of India<br/>Chandlodia Branch<br/>Silver Star Complex<br/>Near Overbridge<br/>Ahmedabad-382 481</p> <p>60. State Bank of India<br/>Regional Business Office-3<br/>C N Vidyalaya Campus<br/>Ambawadi<br/>Ahmedabad-380 001</p> <p>61. State Bank of India<br/>APMC Vasna Branch<br/>APMC Market<br/>Vasna Sarkhej Road<br/>Ahmedabad-380 007</p> <p>62. State Bank of India<br/>Badarkha Branch<br/>Near Bus Stand. Patel Vas Road<br/>Badarkha-382 270<br/>Dist. Ahmedabad</p> |
|--|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>63. State Bank of India<br/>Bagodara Branch<br/>Opp. Ramji Mandir<br/>Bagodara-382 230<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>64. State Bank of India<br/>Bareja Branch<br/>Nilakanth Park Society<br/>Bareja Char Rasta<br/>Bareja-382 425<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>65. State Bank of India<br/>Barwala Branch<br/>Khamidana Gate<br/>Barwala(Ghelasha)-382 450<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>66. State Bank of India<br/>Bavla Branch<br/>Shreeji Bhavan<br/>Main Bazar<br/>Near Post Office<br/>Bavla-382 220<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>67. State Bank of India<br/>Bodakdev Branch<br/>Bodakdev Char Rasta<br/>The Chambers House<br/>Near Grand Bhagvati<br/>S G Highway<br/>Ahmedabad-380 054</p> <p>68. State Bank of India<br/>Changodar Branch<br/>Sarkhej Bajva Road<br/>Changodar-382 213<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>69. State Bank of India<br/>Corporate Road Branch<br/>Ashirvad Paras Complex<br/>Near Prahaladnagar Garden<br/>Satellite<br/>Ahmedabad-380 015</p> <p>70. State Bank of India<br/>Detroj Branch<br/>Opp. Ramji Mindir<br/>Detroj-382 120<br/>Dist. Ahmedabad</p> | <p>71. State Bank of India<br/>Dhandhuka Branch<br/>Station Road, Dhandhuka-382 460<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>72. State Bank of India<br/>Dholka Branch (364)<br/>Jampeeth Market, Dholka-387 810<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>73. State Bank of India<br/>Endla Branch<br/>Opp. Ramji Mandir<br/>Endla-382 130<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>74. State Bank of India<br/>Gamph Branch<br/>Gamph-382 465<br/>Taluka Dhandhuka<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>75. State Bank of India<br/>Ghuma Road Branch<br/>Block No. 322 14/15<br/>New York Darshan<br/>Bopal<br/>Ahmedabad-380 058</p> <p>76. State Bank of India<br/>Gota Branch<br/>Agrawal mall<br/>Opp. Sola Bhagal Vidyapith<br/>S G Highway<br/>Ahmedabad-380 060</p> <p>77. State Bank of India<br/>Gujarat High Court Branch<br/>Administrative Building<br/>New High Court Complex<br/>Sola, S G Highway,<br/>Ahmedabad-380 060</p> <p>78. State Bank of India<br/>IIM Branch, IIM Campus, Vastrapur<br/>Ahmedabad- 380 015</p> <p>79. State Bank of India<br/>Jawaraj Branch<br/>Near Water Tank<br/>Jawaraj-382 230<br/>Dist. Ahmedabad</p> <p>80. State Bank of India<br/>Jodhpur Tekara Branch<br/>I.S. R. O. Campus<br/>Satellite Road<br/>Vejalpur<br/>Ahmedabad-380 015</p> |
|---|--|

- |  |  |
|--|--|
| 81. State Bank of India<br>Judges Bungalow branch<br>Bodakdev<br>Ahmedabad-380 015   | 91. State Bank of India<br>Ambli Branch<br>Swagat Plaza-2<br>Bopal Road<br>Ahmedabad-380 058   |
| 82. State Bank of India<br>Katosan Road Branch<br>Main Bazar<br>Opp. APMC Katosan-382 145<br>Dist. Ahmedabad                                       | 92. State Bank of India<br>Sanand Branch<br>Mochi bazar<br>Sanand-382 110<br>Dist. Ahmedabad   |
| 83. State Bank of India<br>Kauka Branch<br>Burhani Manzil<br>Kauka-382 265<br>Dist. Ahmedabad  | 93. State Bank of India<br>Sarkhej Circle Branch<br>Shivam Estate-I<br>Sarkhej<br>Ahmedabad-382 210                                  |
| 84. State Bank of India<br>Khoraj Branch<br>Khoraj-382 170<br>Dist. Ahmedabad  | 94. State Bank of India<br>Science City Branch<br>Maurya Times Square<br>Opp- R K Hall<br>Ahmedabad-380 060                          |
| 85. State Bank of India<br>Koth Branch<br>Near S T Bus Stand<br>Koth-382 240<br>Dist. Ahmedabad  | 95. State Bank of India<br>Shrinandnagar Branch<br>Radhe Complex<br>Vejalpur<br>Ahmedabad-380 051                                    |
| 86. State Bank of India<br>Mufliapur Branch<br>A-I.Dharmidhar Park<br>Near Kalikud Temple<br>Mufliapur-387 810<br>Dist.-Ahmedabad                  | 96. State Bank of India<br>Someswar Complex Branch<br>Sath Sangath Building Shivrangni Char Rasta<br>Ahmedabad-380 015               |
| 87. State Bank of India<br>Mandai Branch<br>Station Road<br>Mandal-382 130<br>Dist. Ahmedabad  | 97. State Bank of India<br>Special NRI Branch<br>Sarthak-II<br>Opp. Rajpath Club<br>S.G. Highway<br>Ahmedabad-380 015                |
| 88. State Bank of India<br>Nehrunagar Branch<br>City square<br>Opp Post Office<br>Near Jahanvi Restaurant<br>University Road<br>Ahmedabad- 380 015 | 98. State Bank of India<br>Varana Branch<br>Panchal Fali<br>Varana-382 265<br>Dist. Ahmedabad  |
| 89. State Bank of India<br>Prernatirth Road Branch<br>20-25 Ratnadeep Complex-2<br>Satellite<br>Ahmedabad- 380 015                                 | 99. State Bank of India<br>Vasna Keliya Branch<br>Vasna Keliya-387 810<br>Dist Ahmedabad   |
| 90. State Bank of India<br>Ranpur Branch<br>Krishna Complex, G I B Road<br>Ranpur-363 610, Dist. Ahmedabad   | 100. State Bank of India<br>Vejalpur Branch<br>15 Palkhi Co.Op. Housing Society<br>Vejalpur<br>Jivraj Park Road<br>Ahmedabad-380 051 |

- |   |   |
|---|---|
| 101. State Bank of India<br>Viramgam Branch<br>Tower Road<br>Viramgam-382 150<br>Dist. Ahmedabad                | 112. State Bank of India<br>Nimaynagar Branch<br>Shanti Residency, Near ratna Jyot Flats<br>Ahmedabad-382481  |
| 102. State Bank of India<br>Virochannagar Branch<br>Virochannagar-382 170<br>Dist. Ahmedabad                    | 113. State Bank of India<br>ONGC Chandkheda Branch<br>IRS Campus<br>Opp. Avni Bhavan<br>Ahmedabad-382 424   |
| 103. State Bank of India<br>Vishalpur Branch<br>Opp. Meladi Mata Mandir<br>Vishalpur-382210, Dist. Ahmedabad    | 114. State Bank of India<br>Pragatinagar Branch<br>Shanti Arcade<br>Near AEC Crossing<br>Opp. Jay Mangal Bus Stop<br>132 Feet Ring Road<br>Naranpura<br>Ahmedabad-380 013 |
| 104. State Bank of India<br>Regional Business Office-4<br>C N Vidyalaya Building<br>Ambawadi, Ahmedabad-380 015 | 115. State Bank of India<br>Ramdevnagar Road Branch<br>Palak-2, Anandnagar<br>Ramdevnagar Road<br>Satellite<br>Ahmedabad-380 015  |
| 105. State Bank of India<br>Bopal Branch<br>New York Darshan Complex<br>Ahmedabad-380 058                       | 116. State Bank of India<br>Anandnagar Branch<br>Grand Monarch<br>Near Seema Hall<br>Satellite<br>Ahmedabad-380 015   |
| 106. State Bank of India<br>Drive-in Road Branch<br>Panchani Chambers<br>Opp- Asia School<br>Ahmedabad-380 054  | 117. State Bank of India<br>S G Highway Branch<br>1 Zodiac Square<br>Opp. Gurudwara<br>Ahmedabad-380 054  |
| 107. State Bank of India<br>Gulab Tower Branch<br>APM Shopping Mall<br>Ghatlodiya<br>Ahmedabad-380 061          | 118. State Bank of India<br>Satellite Branch<br>10-11-12 Akash Complex<br>Premchandnagar Road<br>Bodekdev, Satellite<br>Ahmedabad-380 015                                 |
| 108. State Bank of India<br>Iskcon Circle Branch<br>10 Dev Arc Complex<br>S G Highway<br>Ahmedabad-380 059      | 119. State Bank of India<br>Shahibaug Branch<br>Spectrum Tower, Near Police Station<br>Ahmedabad- 380 004   |
| 109. State Bank of India<br>K K Nagar Road Branch<br>Vasukanan Tower<br>Ghatlodiya<br>Ahmedabad-380 061         | 120. State Bank of India<br>Sola Road Branch<br>10-19, Satya Surya Complex<br>Satadhar Cross Road<br>Near Sola Railway Station<br>Ahmedabad-380 061                       |
| 110. State Bank of India<br>Manekbaug Branch<br>Navyug Society<br>Ambawadi<br>Ahmedabad-380 015                 |   |
| 111. State Bank of India<br>Narayan Nagar Branch<br>54 Brahmkshtriya Society<br>Ahmedabad-380 007               |   |

- |   |  |
|---|--|
| <p>121. State Bank of India<br/>Station Road Maninagar Branch<br/>Modi Arcade<br/>Station Road<br/>Opp. Maninagar Railway Station<br/>Ahmedabad-380 008</p> <p>122. State Bank of India<br/>Thaltej Circle Branch<br/>Silver Square<br/>Rajiv Plaza<br/>Opp. Rambag<br/>Shilaj Road<br/>Ahmedabad-380 059</p> <p>123. State Bank of India<br/>Vastrapur Branch<br/>Shilalekh Complex<br/>Opp. Vastrapur Lake<br/>Ahmedabad-380 015</p> <p>124. State Bank of India<br/>Regional Business Office—5<br/>Sector- 10B<br/>Gandhinagar-382 010</p> <p>125. State Bank of India<br/>Vadsar Branch, Air Force Station<br/>Vadsar-382 421<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>126. State Bank of India<br/>Bahel Branch, 5/57, Sarkhej Road<br/>Bahel-382 308<br/>Taluka Dehgam<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>127. State Bank of India<br/>Balva Branch<br/>Near Swaminarayan Temple<br/>Balva-382 655<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>128. State Bank of India<br/>Charada Branch<br/>Shri Charada Seva Sahkari Mandali Ltd.<br/>Charada-382 810<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>129. State Bank of India<br/>Chiloda Branch<br/>Chiloda-382 260<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>130. State Bank of India<br/>CRPF Group Centre Branch<br/>Chiloda Road<br/>Gandhinagar-382 042</p> | <p>131. State Bank of India<br/>Dabhoda Branch<br/>Opp. Panchayat<br/>Dabhoda-382355<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>132. State Bank of India<br/>Dehgam Branch<br/>Parikh Sadan, Station Road<br/>Dehgam-382305<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>133. State Bank of India<br/>GIDC Electronic Estate Branch<br/>Gandhinagar-382 025</p> <p>134. State Bank of India<br/>GMB Complex Branch<br/>GMB Complex<br/>Sector 10<br/>Opp. Air Force<br/>Chh Road<br/>Gandhinagar-382 010</p> <p>135. State Bank of India<br/>Infocity Branch<br/>Commercial Unit No.SWGF/02<br/>Supar Mall-I<br/>Sector-9<br/>Gandhinagar-382 009</p> <p>136. State Bank of India<br/>IPR Branch<br/>Bhat-382 428<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>137. State Bank of India<br/>Badpura Branch<br/>Mahudi Road<br/>Ishawarpura<br/>Badpura-382 845<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>138. State Bank of India<br/>Kadjodara Branch<br/>Near Kadjodra Dudh Utpadak Mandli<br/>Shiv Mandir Road<br/>Kadjodara-382 315<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>139. State Bank of India<br/>Panchvati Branch<br/>Green Valley Corporate House<br/>Near Holy School<br/>Kalol (NG)-382 721<br/>Dist. Gandhinagar</p> |
|---|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p>140. State Bank of India<br/>Kolavada Branch<br/>Near Gram Panchayat Building<br/>Kolavada-382 625<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>141. State Bank of India<br/>Lavarpur Branch<br/>Main Bazar<br/>Lavarpur-382 355<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>142. State Bank of India<br/>Mansa Branch<br/>Chitrangan Chambers<br/>Station Road<br/>Mansa-382 845<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>143. State Bank of India<br/>NSC Branch<br/>NSC Block No. 10<br/>New Sachivalaya, Sector-10<br/>Gandhinagar-382 010</p> <p>144. State Bank of India<br/>Nardipur Branch<br/>Shri Guna Krupa<br/>Nardipur-382 735<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>145. State Bank of India<br/>Randheja Branch<br/>Juna Chota Chabutra Trust<br/>Chhipa Chakla Road<br/>Randheja-382 620<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>146. State Bank of India<br/>Adalaj Branch<br/>Krishna Complex<br/>Sabarmati-Kol Highway<br/>Near Swagat Banglows<br/>Adalaj-382 421<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>147. State Bank of India<br/>Ch Road Branch<br/>Gujarat State Civil Supply Corporation Building<br/>Ch-Road<br/>Near Hotel Haveli, Sector-10<br/>Gandhinagar-382 010</p> <p>148. State Bank of India<br/>Soja Branch<br/>Near Swaminarayan Temple<br/>Soja-383 735<br/>Dist. Gandhinagar</p> | <p>149. State Bank of India<br/>Trimandir Branch<br/>Amba Township, Opp. Trimandir<br/>Ahmedabad, Kalol Highway, Adalaj-382 421<br/>Dist. Gandhinagar</p> <p>150. State Bank of India<br/>Regional Business Office 6<br/>Zonal Office Building<br/>Sector 10B, Opp. New Sachivalay Gate No. 1<br/>Gandhinagar-382 010</p> <p>151. State Bank of India<br/>Ashram Chowkdi Branch<br/>Ranasan-383 055<br/>Dist. Mehsana</p> <p>152. State Bank of India<br/>Bayad Branch<br/>Aashirvad Complex<br/>Opp. Bihari Petrol Pump<br/>Bayad-383 325<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>153. State Bank of India<br/>Bahuchraji Branch<br/>Mansarovar<br/>Bahuchraji-384 210<br/>Dist. Mehsana</p> <p>154. State Bank of India<br/>Bhiloda Branch<br/>4 H. Fish Shopping<br/>Opp. Sahakari Jin<br/>Bhiloda-383 245<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>155. State Bank of India<br/>Chorivad Branch<br/>Chorivad-383 440<br/>Via. Idar<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>156. State Bank of India<br/>Dedhrota Branch<br/>Nava Vas<br/>Dedhrota-383 220<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>157. State Bank of India<br/>Dhansura Branch<br/>Dhansura-383 310<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>158. State Bank of India<br/>Dharoi Branch<br/>Dharoi Colony<br/>Dharoi-384 360<br/>Dist. Mehsana</p> |
|---|---|

- |   |   |
|---|---|
| <p>159. State Bank of India<br/>Ganpat University Branch<br/>Gozariya Road<br/>Kherava-382 711<br/>Dist. Mehsana</p> <p>160. State Bank of India<br/>Gavada Branch<br/>Opp. Jain Derasar, Gavada-382 815<br/>Dist. Mehsana</p> <p>161. State Bank of India<br/>Gozaria Branch<br/>Pocha No Vas, Gozaria-382 825<br/>Dist. Mehsana</p> <p>162. State Bank of India<br/>Hatharwa Branch<br/>Near Amin High School<br/>Hatharva-383 235, Dist. Sabarkantha</p> <p>163. State Bank of India<br/>Highway Cross Road Branch<br/>Platinum Plaza, Kadi-382 715<br/>Dist. Mehsana</p> <p>164. State Bank of India<br/>Highway Road Branch, Universal Complex<br/>Mehsana-384 002</p> <p>165. State Bank of India<br/>Idar Branch<br/>Opp. Sir Pratap High School<br/>Idar-383 430<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>166. State Bank of India<br/>Kadi Branch, Gopalji's Haveli<br/>Opp. Bus Stand<br/>Kadi (NG)-382 715<br/>Dist. Mehsana</p> <p>167. State Bank of India<br/>Kadiyadra Branch<br/>Moti Bhuvan<br/>Kadiyadra-383 440<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>168. State Bank of India<br/>Kamli Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Kamli-384 140<br/>Dist. Mehsana</p> <p>169. State Bank of India<br/>Kapadwanj Highway Branch<br/>Sahajanand Complex<br/>Opp. Sanjivani Hospital<br/>Bayad-383 325<br/>Dist. Sabarkantha</p> | <p>170. State Bank of India<br/>Khambhel Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Near Bus Stand, Khambhel-384 210<br/>Dist. Mehsana</p> <p>171. State Bank of India<br/>Khedbrahma Branch<br/>Station Road, Khedbrahma-383 255<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>172. State Bank of India<br/>Kukarwada Branch<br/>Near S D High School<br/>Ram Chowk Road<br/>Kukarwada-382 830<br/>Dist. Mehsana</p> <p>173. State Bank of India<br/>Lati Bazar Branch<br/>Shamlaji Highway<br/>Bhiloda-383 245<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>174. State Bank of India<br/>Malpur Branch<br/>Char Rasta<br/>Malpur-383 345<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>175. State Bank of India<br/>Meghraj Branch<br/>C. G. Shopping Centre<br/>Opp. High School<br/>Meghraj-383 359<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>176. State Bank of India<br/>Mewda Branch<br/>Mewda-383 345<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>177. State Bank of India<br/>Modasa Branch<br/>Shamlaji Road<br/>Modasa-383 315<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>178. State Bank of India<br/>Modhera Branch<br/>House No. 1207<br/>Main Bazar, Modhera-384 212<br/>Dist. Mehsana</p> <p>179. State Bank of India<br/>Motipura Branch<br/>Aavishkar Complex<br/>Motipura Circle, Himatnagar-383 001<br/>Dist. Sabarkantha</p> |
|---|---|

- |  |  |
|--|--|
| <p>180. State Bank of India<br/>Nandasan Branch<br/>Kalol-Mehsana Highway<br/>Nandasan-382 705<br/>Dist. Mehsana</p> <p>181. State Bank of India<br/>ONGC Branch<br/>ONGC Complex<br/>Palavasana<br/>Mehsana-384 003</p> <p>182. State Bank of India<br/>Patel Dhundha Branch<br/>Patel Dhundha-383 350<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>183. State Bank of India<br/>Prantij Branch<br/>Opp. Nagarpalika Office<br/>Prantij-383 205<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>184. State Bank of India<br/>Approch Road Branch<br/>Gopinath Complex<br/>Opp. LIC<br/>Prantij-383 205<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>185. State Bank of India<br/>Sardar Chowk Branch<br/>Sardar Patel Complex<br/>Main Bazar<br/>Unjha-384 170<br/>Dist. Mehsana</p> <p>186. State Bank of India<br/>Sathamba Branch<br/>Industrial Area, Main Bazar<br/>Sathamba-383 340<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>187. State Bank of India<br/>Satlasana Branch<br/>Shop No. 11<br/>Survey No. 189/2<br/>Satlasana<br/>Dist. Mehsana</p> <p>188. State Bank of India<br/>Sundhia Branch<br/>Near Girls High School<br/>Azad Chowk<br/>Sundhia-384 345<br/>Dist. Mehsana</p> | <p>189. State Bank of India<br/>Talod Branch<br/>Opp. Nagarpalika<br/>Talod-383 215<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>190. State Bank of India<br/>Tintoi Branch<br/>Kadawa Patidar Samajwadi<br/>Opp. P M Kothari High School<br/>Tintoi-383 315<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>191. State Bank of India<br/>Unchi Dhanal Branch<br/>Main Road<br/>Unchidhanal-383 270<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>192. State Bank of India<br/>Vadali Branch<br/>Near Vallabh Hospital<br/>Vadali-383 235<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>193. State Bank of India<br/>Vadnagar Branch<br/>Deep Complex<br/>Opp. B.N. High School<br/>Vadnagar<br/>Dist. Mehsana-384 355</p> <p>194. State Bank of India<br/>Vasai Branch<br/>Patel Falia<br/>Vasai-383 450<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>195. State Bank of India<br/>Vijaynagar Branch<br/>Near Holi Chowk<br/>Vijaynagar-383 460<br/>Dist. Sabarkantha</p> <p>196. State Bank of India<br/>Special Government<br/>Business Branch<br/>Raj Mahal Raod<br/>Mehsana</p> <p>197. State Bank of India<br/>Administrative Office<br/>Paradise Complex<br/>Sayajigunj<br/>Vadodara - 390 005</p> |
|--|--|



- |   |   |
|---|---|
| <p>198. State Bank of India<br/>RBO-1<br/>Paradise Complex<br/>Sajajigang<br/>Vadodara-390 005</p> <p>199. State Bank of India<br/>Air Force Station Makarpura Branch<br/>Accounts Building, Air Force Station<br/>Makarpura<br/>Vadodara-390 014</p> <p>200. State Bank of India<br/>Akshar Chowk Branch<br/>Sri Saivilla<br/>Pitambar Society<br/>Old Padra Road<br/>Vadodara-390 020</p> <p>201. State Bank of India<br/>Alkapuri Branch<br/>Express Hotels Pvt. Ltd.<br/>Neha Apartments<br/>Alkapuri, Vadodara-390 005</p> <p>202. State Bank of India<br/>Atladra Branch<br/>13 to 16, First Floor<br/>Akshardwar Complex<br/>Padra Road, Atladra-390 012<br/>Dist. Vadodara</p> <p>203. State Bank of India<br/>Bhayali Branch<br/>Parabadi<br/>At &amp; Post Bhaili-391 410<br/>Dist. Vadodara</p> <p>204. State Bank of India<br/>Dandia Bazar Branch<br/>Jagdhane Mension<br/>Opp. Siddhi Vinayak Mandir<br/>Dadia Bazar<br/>Vadodara-390 001</p> <p>205. State Bank of India<br/>Darbar Chokdi Branch<br/>Shop No.4-13<br/>Shree Vinayak Complex<br/>Opp. Atithi Gruh<br/>Darbar Chokdi<br/>Manjalpur<br/>Vadodara-390 011</p> | <p>206. State Bank of India<br/>Iskcon Temple Road Branch<br/>9/10 Krishnadham Apartments<br/>Vadodara-390 015</p> <p>207. State Bank of India<br/>Jay Ratna Building Branch<br/>Sai Rachana Apartment<br/>R V Desai Road<br/>Vadodara-390 001</p> <p>208. State Bank of India<br/>Kala Darshan Char Rasta Branch<br/>"Niyati" B 5-6-7<br/>Mahavir Park<br/>Near Kala Darshan Char Rasta<br/>Waghodia Road<br/>Vadodara-390 019</p> <p>209. State Bank of India<br/>Lalbaug Branch<br/>Madhuban Complex<br/>Near Railway Crossing<br/>Lalbaug<br/>Vadodara-390 011</p> <p>210. State Bank of India<br/>M S University Branch,<br/>Dayanand Building<br/>Sayajigung<br/>Vadodara - 390 005</p> <p>211. State Bank of India<br/>Makarpura Indl Estate Branch<br/>VCCI Building<br/>Makarpura Indl Estate<br/>Vadodara-390 010</p> <p>212. State Bank of India<br/>Maneja Branch<br/>Purshottam Niwas<br/>Swaminarayan Mandir Road<br/>Maneja-390 013<br/>Dist. Vadodara</p> <p>213. State Bank of India<br/>Manjalpur Branch<br/>Shiv Sunderam Complex<br/>Opp. Deep Chamber<br/>Kubereshwar Mahadev Road<br/>Manjalpur<br/>Vadodara-390 011</p> <p>214. State Bank of India<br/>Mujmauda Branch<br/>Shop No. 8-9-10 Ashwamegh-2<br/>Akota-Mujmauda Road<br/>Vadodara-390 020</p> |
|---|---|

- |  |  |
|--|--|
| <p>215. State Bank of India<br/>Old Padra Road Branch<br/>Shreejal Building, Punitsagar Society<br/>Old Padra Road<br/>Vadodara-390 015</p> <p>216. State Bank of India<br/>ONGC Branch<br/>ONGC Shopping Complex<br/>Makarpura Road<br/>Vadodara-390 009</p> <p>217. State Bank of India<br/>Pariwar Char Rasta Branch<br/>9/A, Pariwar Society<br/>Waghodia<br/><br/>Dabhoi Ring Road<br/>Vadodara-390 019</p> <p>218. State Bank of India<br/>Por Branch<br/>Plot No. 137, GIDC<br/>Ramangamadi<br/>Por-391 243<br/>Dist. Vadodara</p> <p>219. State Bank of India<br/>Sayajiganj Branch<br/>Dr. T V Patel Medical Collage Library Building<br/>Opp. Aradhana Cinema<br/>Sayajiganj<br/>Vadodara-390 001</p> <p>220. State Bank of India<br/>Sevasi Branch<br/>Near Sevasi High School<br/>Sevasi-391 101<br/>Dist. Vadodara</p> <p>221. State Bank of India<br/>Tandalja Branch<br/>G. F I 4, Sahil Complex<br/>Near J P Road Police Station<br/>Vadodara-390 020</p> <p>222. State Bank of India<br/>Tarsali Branch<br/>Shop No. 19-25<br/>Ganga Sagar Complex<br/>Sussen Tarsali Ring Road<br/>Vadodara-390 009</p> <p>223. State Bank of India<br/>Urni Society Branch<br/>65/ A, Shreenagar Society<br/>Productivity Road<br/>Vadodara-390 020</p> | <p>224. State Bank of India<br/>Vasna Road Branch<br/>B-11 Shreejala Bunglow<br/>Vishramnagar Society<br/>Taksh Complex<br/>Vasna Road<br/>Vadodara-390 020</p> <p>225. State Bank of India<br/>Vrindavan Char Rasta Branch<br/>4/ A, Vrindavan Society<br/>Waghodia Road<br/>Vadodara-390 019</p> <p>226. State Bank of India<br/>Wadi Branch<br/>Kanaiyalal Manson<br/>Near Wadi Tower<br/>Vadodara-390 017</p> <p>227. State Bank of India<br/>RBO Vadodara-2<br/>Paradise Complex<br/>Sayajigung<br/>Vadodara-390 005</p> <p>228. State Bank of India<br/>Abhilasha Chokdi Branch<br/>A-1/2, Industrial Co-op. Society Ltd.<br/>Near Abhilasha Char Rasta, New Sama Road<br/>Vadodara-390 024</p> <p>229. State Bank of India<br/>Air Force Station, Darjipura Branch<br/>Vadodara-390 022</p> <p>230. State Bank of India<br/>Ajwa Road Branch<br/>Siligar Society<br/>1, Suryanagar Housing Society.<br/>Ayurveda Tin Rasta, Ajwa Road<br/>Vadodara-390 019</p> <p>231. State Bank of India<br/>Baroda Industrial Estate Branch<br/>11/12, Pushpa Kunj Society<br/>Gorwa Road<br/>Baroda Industrial Estate<br/>Vadodara-390 016</p> <p>232. State Bank of India<br/>Vadodara Main Branch<br/>Opp. Jamnabhai Hospital<br/>Mandvi<br/>Vadodara-390 017</p> <p>233. State Bank of India<br/>Cantonment (Vadodara) Branch<br/>Vadodara Mahanagar Seva<br/>Sadan Shopping Centre<br/>Fatchgung<br/>Vadodara-390 002</p> |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>234. State Bank of India<br/>Chhani Road Branch<br/>I, Bhagirath Society<br/>Near Military Boys' Hostel<br/>Chhani Octroi Naka, Vadodara-390 002</p> <p>235. State Bank of India<br/>Ellora Park Branch<br/>Chandra Chamber<br/>6, Tarun Park Society<br/>Ellora Park, Badodara-390 007</p> <p>236. State Bank of India<br/>GACI, Ranoli Branch<br/>GACI, Project Site, Ranoli Petrochemicals<br/>Vadodara-390 007</p> <p>237. State Bank of India<br/>Gotri Road Branch<br/>G F 2-5, Nandish Complex<br/>Near Nuclear Park<br/>Gotri Road<br/>Vadodara-390 021</p> <p>238. State Bank of India<br/>Govt. Business Branch<br/>Opp. Jamnabhai Hospital<br/>Panigate Road, Māndvi<br/>Vadodara-390 017</p> <p>239. State Bank of India<br/>Gujarat Refinery Branch<br/>Post-Jawaharnagar<br/>Bajwa-391 320<br/>Dist. Vadodara</p> <p>240. State Bank of India<br/>Harni Road Branch<br/>Naksatra Building<br/>Near Sangam Char Rasta<br/>Harni Road<br/>Vadodara-390 006</p> <p>241. State Bank of India<br/>Harni Varasia Ring Road Branch<br/>16-17, Rajdhani Society<br/>Opp. Essar Petrol Pump<br/>Harni Varasia Ring Road<br/>Vadodara-390 006</p> <p>242. State Bank of India<br/>RIL Koyali Branch<br/>RIL Premises.<br/>IPCL Koyali-391 346<br/>Dist. Vadodara</p> <p>243. State Bank of India<br/>Kamalanagar Branch<br/>Kanha Drims<br/>Ground Floor<br/>Shop No. 12-18<br/>Kamalanagar,<br/>Vadodara-390 019</p> | <p>244. State Bank of India<br/>Karelibagh Branch<br/>24, Kirtikunj Co-op. Housing Society<br/>Atmaram Road<br/>Karelibagh<br/>Vadodara-390 018</p> <p>245. State Bank of India<br/>Laxmipura Branch<br/>Plot No. 17-20, Anmol Park<br/>Near C K Prajapati School<br/>Laxmipura Road, Gorwa<br/>Vadodara-390 023</p> <p>246. State Bank of India<br/>Nandesari Industrial Estate Branch<br/>130/4, GIDC<br/>Nandesari-391 340<br/>Dist. Vadodara</p> <p>247. State Bank of India<br/>Navjivan Housing Society Branch<br/>Opp. Mahavir Hall<br/>Ajwa Road<br/>Vadodara-390 019</p> <p>248. State Bank of India<br/>New Sama Road Branch<br/>Centurian Flats<br/>New Sama Road<br/>Vadodara-390 024</p> <p>249. State Bank of India<br/>Panchvati Branch<br/>Shop No. 5-8, Vrindavan Complex<br/>Gorva Refinery Road<br/>Vadodara-390 016</p> <p>250. State Bank of India<br/>Race Course Road Branch<br/>G-1, Pranavpuri Complex<br/>Behind Natubhai Centre<br/>Race Course Road<br/>Vadodara-390 023</p> <p>251. State Bank of India<br/>Ramakaka Temple Road Branch<br/>Shop No. 1-4, Aditya Villa Complex<br/>Near Prabhuta Hall<br/>Chhani Road<br/>Vadodara-390 002</p> <p>252. State Bank of India<br/>Raopura Branch<br/>Near GPO, Machhipith<br/>Vadodara-390 001</p> <p>253. State Bank of India<br/>Sama Savli Branch<br/>Nemi Sharnya Complex, Near Parul Petrol Pump<br/>Vadodara-390 024</p> |
|--|--|

- |  |  |
|--|--|
| <p>254. State Bank of India<br/>Samta Char Rasta Branch<br/>GF 9-11, Aakar Complex<br/>Samta Char Rasta<br/>Vadodara-390 023</p> <p>255. State Bank of India<br/>Southern Township Branch<br/>IOC Colony<br/>Jawaharnagar<br/>Vadodara-391 345</p> <p>256. State Bank of India<br/>Special NRI Branch<br/>SBI Vadodara Main Branch Building<br/>Opp. Jamnahai Hospital<br/>Panigate Road<br/>Mandvi<br/>Vadodara-390 0 17</p> <p>257. State Bank of India<br/>Special Commercial Branch<br/>Trident Complex<br/>Near Race Course<br/>Vadodara-390 017</p> <p>258. State Bank of India<br/>T. P. 13 Branch<br/>35-39, Akshardham Shopping Centre<br/>Behind Induchacha Hall<br/>Near Chhani Jakatnaka<br/>Vadodara-390 024</p> <p>259. State Bank of India<br/>VIP Road Branch<br/>Block No. 5 &amp; 6, Vagheshwari Society<br/>VIP Road, Vimagar<br/>Vadodara-390 018</p> <p>260. State Bank of India<br/>Warasia Branch<br/>Satyam Apartment, Sant Kanwar Society<br/>RTO Road, Vadodara-390 006</p> <p>261. State Bank of India<br/>RBO Vadodara-3<br/>Paradise Complex<br/>Sayajigunj<br/>Vadodara-390 005</p> <p>262. State Bank of India<br/>Bhatpur Branch<br/>Taluka-Sankheda, Bhatpur-391 130<br/>Dist. Vadodara</p> | <p>263. State Bank of India<br/>Bodeli Branch<br/>Market Yard<br/>Station Road<br/>Bodeli-391 135<br/>Dist. Vadodara</p> <p>264. State Bank of India<br/>Chalamali Branch<br/>Kosindra Road<br/>Chalamali-391 141<br/>Dist. Vadodara</p> <p>265. State Bank of India<br/>Chandod Branch<br/>Tirupati Complex<br/>Near S T Stand<br/>Chandod-391 105<br/>Dist. Vadodara</p> <p>266. State Bank of India<br/>Chhota Udaipur Branch<br/>Station Road<br/>Near Bus Depot<br/>Chhota Udaipur-391 165<br/>Dist. Vadodara</p> <p>267. State Bank of India<br/>Dabhoi Branch<br/>Banglawala Chambers<br/>Lathi Bazar<br/>Dabhoi-391 110<br/>Dist. Vadodara</p> <p>268. State Bank of India<br/>Dabka Branch<br/>Shashi Vrind<br/>Penchavat House No. 6<br/>Dabka-391 440<br/>Dist. Vadodara</p> <p>269. State Bank of India<br/>Desar Branch<br/>Garasia Faliu<br/>Main Bazar Road<br/>Desar-391 774<br/>Dist. Vadodara</p> <p>270. State Bank of India<br/>GIDC Waghodia Branch<br/>Plot No. 403<br/>GIDC Industrial Estate<br/>Waghodia-391 760<br/>Dist. Vadodara</p> |
|--|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p>271. State Bank of India<br/>Goraj Branch<br/>Muni Seva Ashram Building<br/>Goraj-391 765<br/>Dist. Vadodara</p> <p>272. State Bank of India<br/>Jabugam Branch<br/>Jabugam-391 155<br/>Dist. Vadodara</p> <p>273. State Bank of India<br/>Jarod Branch<br/>Jarod-391 510<br/>Dist. Vadodara</p> <p>274. State Bank of India<br/>Jashpur Branch<br/>Jashpur-391 440<br/>Taluka-Padra<br/>Dist. Vadodara</p> <p>275. State Bank of India<br/>Kadwal Branch<br/>Kadwal-391 160<br/>Dist. Vadodara</p> <p>276. State Bank of India<br/>Karkhadi Branch<br/>Near Tower<br/>Karkhadi-391 450<br/>Dist. Vadodara</p> <p>277. State Bank of India<br/>Kawat Branch<br/>123 1/2, Mangaldeep Society<br/>Near Ambika Oil Mill<br/>Kawat-390 170<br/>Dist. Vadodara</p> <p>278. State Bank of India<br/>Kayavarohan Branch<br/>Brahm Samaj Building<br/>Bazar Road, Kayavarohan-391 220<br/>Dist. Vadodara</p> <p>279. State Bank of India<br/>Kosindra Branch<br/>4/N2, Village Panchayat<br/>Kosindra-391 140<br/>Taluka, Sankheda, Dist. Vadodara</p> <p>280. State Bank of India<br/>Kurali Branch<br/>Kurali-391 240<br/>Taluka-Karjan<br/>Dist. Vadodara</p> | <p>281. State Bank of India<br/>Manjrol Branch<br/>Manjrol-391 110<br/>Taluka-Sankheda<br/>Dist. Vadodara</p> <p>282. State Bank of India<br/>Manjusar Branch<br/>Plot No. 115/116, GIDC<br/>Savli Road<br/>Manjusar-391 775<br/>Dist. Vadodara</p> <p>283. State Bank of India<br/>Mankani Branch,<br/>Mankani-391 145 Taluka Sankheda<br/>Dist. Vadodara</p> <p>284. State Bank of India<br/>Miyagam Branch<br/>FP No. 451, Nava Bazar,<br/>Miyagam-391 240 Taluka Miyagam-Karjan<br/>Dist. Vadodara</p> <p>285. State Bank of India<br/>Naswadi Branch<br/>House No. 1176, Near Railway Station<br/>Naswadi-391 150<br/>Dist. Vadodara</p> <p>286. State Bank of India<br/>Padra Branch<br/>Opp. Jain Temple<br/>Chokshi Bazar<br/>Padra-391 440<br/>Taluka Padra<br/>Dist. Vadodara</p> <p>287. State Bank of India<br/>Panvad Branch<br/>Panvad-391 168 Taluka Chhota Udepur<br/>Dist. Vadodara</p> <p>288. State Bank of India<br/>Pavi Jetpur Branch<br/>Opp. Hero Honda Show Room<br/>Tehn Batti, Pavi Jetpur-391 160<br/>Dist. Vadodara</p> <p>289. State Bank of India<br/>Rangpur Branch<br/>Main Road, Rangpur-391-165<br/>Taluka Chhota Udepur<br/>Dist. Vadodara</p> <p>290. State Bank of India<br/>Rasulabad Branch<br/>Patel Falia, Rasulabad-391 510<br/>Taluka Vaghodia<br/>Dist. Vadodara</p> |
|---|---|

- |  |   |
|--|---|
| <p>291. State Bank of India<br/>Ratanpur (Hirpari) Branch<br/>Ratanpur-391 160<br/>Taluka Pavi Jetpur<br/>Dist. Vadodara</p> <p>292. State Bank of India<br/>Sadhli Branch<br/>Sardarnagar Society<br/>Sadhli-391 250<br/>Dist. Vadodara</p> <p>293. State Bank of India<br/>Salad Branch<br/>Salad-391 220<br/>Post Ruwad, Dist. Vadodara</p> <p>294. State Bank of India<br/>Sankheda Branch<br/>Near Post Office, Bazar Road<br/>Sankheda-391 145<br/>Dist. Vadodara</p> <p>295. State Bank of India<br/>Savli Branch<br/>Near Police Line<br/>Station Road<br/>Savli-391 770<br/>Dist. Vadodara</p> <p>296. State Bank of India<br/>Sinor Branch<br/>Near Ram Mandir<br/>Desai Road<br/>Sinor-391 115<br/>Dist. Vadodara</p> <p>297. State Bank of India<br/>Tejgadh Branch<br/>1/161 Public Road<br/>Tejgadh-391 150<br/>Dist. Vadodara</p> <p>298. State Bank of India<br/>Vadu Branch<br/>Vadu-391 460<br/>Taluka Padra<br/>Dist. Vadodara</p> <p>299. State Bank of India<br/>Zoz Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Zoz-391 165<br/>Dist. Vadodara</p> <p>300. State Bank of India<br/>RBO Panchmahal-Kheda-4<br/>101 Shivalik Complex<br/>Near Railway Crossing<br/>Nadiad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> | <p>301. State Bank of India<br/>Aklacha Branch<br/>Near Ramji Mandir<br/>Aklacha-387 430<br/>Dist. Kheda</p> <p>302. State Bank of India<br/>Angadi Branch<br/>Patel Street<br/>Nepalpara<br/>Angadi-388 254<br/>Dist. Kheda</p> <p>303. State Bank of India<br/>Balasmer Branch<br/>Shivam Complex<br/>Rajpur Barwad<br/>Balasmer-388 255<br/>Dist. Kheda</p> <p>304. State Bank of India<br/>Bapur Branch<br/>Bapur-388 260<br/>Taluka Balasmer<br/>Dist. Kheda</p> <p>305. State Bank of India<br/>Chaklasi Branch<br/>Chaklasi Seva Sahkari Mandli<br/>Near Gayatri Society<br/>Chaklasi-207 315<br/>Dist. Kheda</p> <p>306. State Bank of India<br/>Chanchelavagadh Branch<br/>Post Falvadi-389 120<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>307. State Bank of India<br/>Chetarsumba Branch<br/>Chetarsumba-388 225<br/>Taluka Thasara<br/>Dist. Kheda</p> <p>308. State Bank of India<br/>Collage Road Branch<br/>Near Maha Gujarat Hospital<br/>College Road<br/>Nadiyad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> <p>309. State Bank of India<br/>Dakor Branch<br/>Gopalpura, Dakor-388 225<br/>Dist. Kheda</p> <p>310. State Bank of India<br/>Derol Railway Station Branch<br/>Derol-389 320<br/>Dist. Panchmahal</p> |
|--|---|

- |  |  |
|--|--|
| <p>311. State Bank of India<br/>Doli Santrampur Branch<br/>Tower Road<br/>Opp. Police Station<br/>Santrampur-389 369<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>312. State Bank of India<br/>Ghodasar Branch<br/>Near Chabutara, Ghodasar-387 110<br/>Dist. Kheda</p> <p>313. State Bank of India<br/>Ghoghamba Branch<br/>Ghoghamba-389 365<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>314. State Bank of India<br/>Godhra Branch<br/>Lokhandwala Complex<br/>LIC Road, Godhra-389 001<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>315. State Bank of India<br/>Industrial Estate Branch<br/>Bhuravay Crossing, Lunawada Road<br/>Godhra-389 001<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>316. State Bank of India<br/>Halol Branch<br/>Rayagadh Road<br/>Halol-389 359<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>317. State Bank of India<br/>Kaira Branch<br/>Opp. Police Station<br/>Lal Darwaja<br/>Kaira-387 411<br/>Dist. Kheda</p> <p>318. State Bank of India<br/>Kalol (Panchmahal) Branch<br/>Mahalaxmi Chowk<br/>Dasa Lad Wadi<br/>Kalol-389 120<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>319. State Bank of India<br/>Kalsar Branch<br/>Near Doodh Dairy<br/>Chakla Chowk<br/>Kalsar-388 230<br/>Dist. Kheda</p> <p>320. State Bank of India<br/>Kathlal Branch<br/>Kathlal-387 630<br/>Dist. Kheda</p> | <p>321. State Bank of India<br/>Kothamba Branch 1025,<br/>1025/1 Main Bazar Road<br/>Kothamba-389 220<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>322. State Bank of India<br/>Kuni Branch<br/>House No. 177, Patel Street<br/>Kuni-388235<br/>Dist. Kheda</p> <p>323. State Bank of India<br/>Limbasi Branch<br/>Station Road<br/>Limbasi-387 520<br/>Dist. Kheda</p> <p>324. State Bank of India<br/>Lunawada Branch<br/>Old Palace Compound<br/>Near Fuyara<br/>Lunawada-389 230<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>325. State Bank of India<br/>Mahudha Branch<br/>Buddh Utpadak Mandali Building<br/>Mahudha-387 335<br/>Dist. Kheda</p> <p>326. State Bank of India<br/>Malav Branch<br/>Nichwada Bazar<br/>Ashram Road<br/>Malav-389 310<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>327. State Bank of India<br/>Matar Branch<br/>ST Road, Matar-387 530<br/>Dist. Kheda</p> <p>328. State Bank of India<br/>Mehmedabad Branch<br/>Shop No. 19, APMC, Nadiad Darwaja<br/>Mehmedabad-387 130<br/>Dist. Kheda</p> <p>329. State Bank of India<br/>Morva (Hadar) Branch<br/>Panchayat Bhavan Premises<br/>Morva-389 115<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>330. State Bank of India<br/>M P Hospital Branch<br/>Dr. Virendra Desai Marg<br/>Petlad Road, Nadiad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>331. State Bank of India<br/>Navagam Branch<br/>Suhas Building<br/>Opp. Swaminarayan Mandir<br/>Navagam-387 540<br/>Dist. Kheda</p> <p>332. State Bank of India<br/>Nirmali Branch<br/>Sardar Chowk<br/>Nirmali-387 650<br/>Dist. Kheda</p> <p>333. State Bank of India<br/>NRI Branch<br/>Shivalik Complex<br/>Near Railway Crossing<br/>Nadiad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> <p>334. State Bank of India<br/>Palana Branch<br/>Bhaikaka Ki Pol<br/>Near Swaminarayan Mandir<br/>Palana-387 350<br/>Dist. Kheda</p> <p>335. State Bank of India<br/>Panchayat Bhavan Branch<br/>Ashoknagar<br/>Pawan Chakki Road<br/>Nadiad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> <p>336. State Bank of India<br/>Radhu Branch<br/>Opp. Amba Mata Mandir<br/>Radhu-387 560<br/>Dist. Kheda</p> <p>337. State Bank of India<br/>Raska Branch<br/>Dudh Sahkari Mandali Building<br/>Gram Panchyat Road<br/>Raska-387 120<br/>Dist. Kheda</p> <p>338. State Bank of India<br/>Ratanpur (Kantdi) Branch<br/>280/17 Nava Pura<br/>Ratanpur (Kantdi)-388 710<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>339. State Bank of India<br/>S. T. Bus Stand Branch<br/>Santharia Bazar<br/>Mahatma Gandhi Road<br/>Godhra-389 001<br/>Dist. Panchmahal</p> | <p>340. State Bank of India<br/>Morva Branch<br/>Sant Road, Prakash Complex<br/>Near Railway Crossing<br/>Morva-389 120<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>341. State Bank of India<br/>Santram Mandir Branch<br/>Nadiad-387 001<br/>Dist. Kheda</p> <p>342. State Bank of India<br/>Sevalia Railway Station Branch<br/>Dakor Godhra Road, Sevalia-388 245<br/>Dist. Kheda</p> <p>343. State Bank of India<br/>Shehera Branch<br/>Gayatri Society, Opp. Bus Stand<br/>Shehera-389 210<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>344. State Bank of India<br/>Thasra Branch<br/>Near Ashapuri Mandir<br/>Dakor Godhra Road, Thasra-388 250<br/>Dist. Kheda</p> <p>345. State Bank of India<br/>Thavad Branch<br/>Thavad-387 620<br/>Taluka Kapadwanj<br/>Dist. Kheda</p> <p>346. State Bank of India<br/>Uttarsanda Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Uttarsanda-387 370<br/>Dist. Kheda</p> <p>347. State Bank of India<br/>Vejalpur Branch<br/>Jain Society, Main Bazar<br/>Vejalpur-389 340<br/>Dist. Panchmahal</p> <p>348. State Bank of India<br/>RRQ (Anand-Dahod)<br/>V U Nagar Branch Premises<br/>Anand Sojetra Road<br/>Janta Chokdi, Vitthal Udyog Nagar-388 001<br/>Dist. Anand</p> <p>349. State Bank of India<br/>Anand Road Borsad Branch<br/>101 Saptrushi Complex<br/>Near Bus Stand, Station Road<br/>Borsad-388 540<br/>Dist. Anand</p> |
|--|---|



- |   |   |
|---|---|
| <p>350. State Bank of India<br/>Anklav Branch<br/>Siddhi Vinayak Complex<br/>Near Bus Stand<br/>Anklav-399 510<br/>Dist. Anand</p> <p>351. State Bank of India<br/>Bhalej Branch<br/>Vyas Khadki<br/>Shokhavad Bazar<br/>Bhalej-388 205<br/>Dist. Anand</p> <p>352. State Bank of India<br/>Bhatiol Branch<br/>Bhatiol Kelavani Mandal<br/>Petlad Road<br/>Bhatiol-388 450<br/>Dist. Anand</p> <p>353. State Bank of India<br/>Changa Branch<br/>Changa-388 342<br/>Taluka Petlad<br/>Dist. Anand</p> <p>354. State Bank of India<br/>Dahod Branch<br/>Abbasi Chamber<br/>Yadgar Chowk<br/>Station Road<br/>Dahod-389 151<br/>Dist. Dahod</p> <p>355. State Bank of India<br/>Devgadh Baria Branch<br/>Municipal House No. 200<br/>Chabutra Sheri<br/>Devgadh Baria-389 380<br/>Dist. Dahod</p> <p>356. State Bank of India<br/>Dhanpur Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Dhanpur-389 382<br/>Dist. Dahod</p> <p>357. State Bank of India<br/>Dhanpur Branch<br/>Main Road<br/>Dhanpur-389 430<br/>Dist. Anand</p> <p>358. State Bank of India<br/>Dhanpur Branch<br/>Near Dhanpur School<br/>Dhanpur-389 625<br/>Dist. Anand</p> | <p>359. State Bank of India<br/>Fatepura Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Fatepura-389 172<br/>Dist. Dahod</p> <p>360. State Bank of India<br/>Freelandgunj Railway Colony Branch<br/>Railway Colony<br/>Saat Rasta<br/>Freelandgunj-389 160<br/>Dist. Dahod</p> <p>361. State Bank of India<br/>Garbada Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Garbada-389 155<br/>Dist. Dahod</p> <p>362. State Bank of India<br/>Godi Road Branch<br/>Neelkanth Appartment<br/>Opp. Agrasen Bhavan<br/>Dahod-389 151</p> <p>363. State Bank of India<br/>Golana Branch<br/>Golana-388 625<br/>Dist. Anand</p> <p>364. State Bank of India<br/>Jhalod Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Jhalod-389 170<br/>Dist. Dahod</p> <p>365. State Bank of India<br/>Kali Dungari Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Kali Dungari-389 380<br/>Dist. Dahod</p> <p>366. State Bank of India<br/>Karamsad Branch<br/>Opp. Sardar Patel High School<br/>Karamsad-388 325<br/>Dist. Anand</p> <p>367. State Bank of India<br/>Limbdi Branch (Panchayat)<br/>Biday Bazar<br/>Limbdi-389 180<br/>Dist. Dahod</p> <p>368. State Bank of India<br/>Limkheda Branch<br/>Near Dhanpur Farm<br/>Jhalod Road<br/>Limkheda-389 140<br/>Dist. Dahod</p> |
|---|---|

- |   |   |
|---|---|
| <p>369. State Bank of India<br/>NRI (Anand) Branch<br/>APM Premises, 1st Floor<br/>Near D N High School<br/>Station Road<br/>Anand-388 001</p> <p>370. State Bank of India<br/>ONGC Khambhat Branch<br/>ONGC Near main gate, Kansari<br/>Khambati-388 630<br/>Dist. Anand</p> <p>371. State Bank of India<br/>Palli Branch<br/>Dhanpur Road<br/>Palli-389 140<br/>Dist. Dahod</p> <p>372. State Bank of India<br/>Pansora Branch<br/>Pansora-388 510<br/>Taluka Umreth<br/>Dist. Anand</p> <p>373. State Bank of India<br/>Pellad Branch<br/>Taluka Panchayat Kacheri<br/>Pellad-388 450<br/>Dist. Anand</p> <p>374. State Bank of India<br/>Samarkha Branch<br/>Samarkha-388 360<br/>Dist. Anand</p> <p>375. State Bank of India<br/>Sarsa Branch<br/>Near Tower Chowk<br/>Main Bazar<br/>Sarsa-388 365<br/>Dist. Anand</p> <p>376. State Bank of India<br/>Simarda Branch<br/>Simarda-388 480<br/>Taluka Pellad<br/>Dist. Anand</p> <p>377. State Bank of India<br/>Siswa Branch<br/>Siswa-388 530<br/>Dist. Anand</p> <p>378. State Bank of India<br/>Sojitra Branch<br/>Near Kailas Talkies<br/>Main Road<br/>Sojitra-387 240<br/>Dist. Anand</p> | <p>379. State Bank of India<br/>Special Commercial Branch<br/>Jaylaxmi Plaza<br/>Near Ganesh Circle<br/>Anand Sojitra Road<br/>Anand-388 001</p> <p>380. State Bank of India<br/>Tarapur Branch<br/>Ranchhod Raj Complex<br/>Nani Chokdi<br/>Tarapur-388 180<br/>Dist. Anand</p> <p>381. State Bank of India<br/>Umreth Branch<br/>Indiraben Joshi Building<br/>Bhatwado<br/>Umreth-388 220<br/>Dist. Anand</p> <p>382. State Bank of India<br/>Virsad Branch<br/>Virsad-388 580<br/>Taluka Borsad<br/>Dist. Anand</p> <p>383. State Bank of India<br/>Administrative Officer<br/>Nilambag Chowk<br/>Bhavnagar-364 001</p> <p>384. State Bank of India<br/>RBO-1<br/>11th Floor<br/>Administrative Office Building<br/>Nilambag Chowk<br/>Bhavnagar-364 001</p> <p>385. State Bank of India<br/>Bhavnagar Para Branch<br/>Umrigar Bungalows<br/>Gadhechi Vadia<br/>Bhavnagar-364 003</p> <p>386. State Bank of India<br/>Darbhargadh Branch<br/>Amba Chowk<br/>Bhavnagar-364 001</p> <p>387. State Bank of India<br/>Kalanala Branch<br/>Kalanala<br/>Bhavnagar-364 001</p> <p>388. State Bank of India<br/>Kaliyabid Branch<br/>Plot No. 24-25<br/>Kaliyabid Main Road<br/>Bhavnagar-364 002</p> |
|---|---|

- |   |  |
|---|--|
| 389. State Bank of India<br>Krishnanagar SMI Branch<br>Crescent Area<br>Bhavnagar-364 001   | 399. State Bank of India<br>Station Road Branch<br>Honest Building<br>Sakar Bazar<br>Bhavnagar-364 001                         |
| 390. State Bank of India<br>Kumbharwada Branch<br>Ashuma Manzil Building<br>Near Kumbharwada Circle<br>Nari Road<br>Bhavnagar-364 006                 | 400. State Bank of India<br>Subhashnagar Branch<br>Laxmi Co-op. Housing Society<br>Air Post Road<br>Bhavnagar-364 001          |
| 391. State Bank of India<br>Chitra Marketing Yard Branch<br>Marketing Yard Building<br>Chitra<br>Bhavnagar-364 004                                    | 401. State Bank of India<br>Treasury Branch<br>Marcha Gali<br>Ambachowk<br>Bhavnagar-364 001                                   |
| 392. State Bank of India<br>Nari Branch<br>Main Bazar<br>Nari-364 055<br>Dist. Bhavnagar  | 402. State Bank of India<br>Waghawadi Branch<br>Shop No. 2 & 3<br>Shubham Complex<br>Opp. Gulistan Ground<br>Bhavnagar-364 001 |
| 393. State Bank of India<br>Nilambag Chowk Branch<br>Administrative Office Building<br>Nilambag Chowk<br>Bhavnagar-364 001                            | 403. State Bank of India<br>RBO-2<br>IInd Floor<br>Administrative Office Building<br>Nilambag Chowk<br>Bhavnagar-364 001       |
| 394. State Bank of India<br>Nirmalnagar Branch<br>Dankiwala Chowk<br>Nirmalnagar<br>Bhavnagar-364 001   | 404. State Bank of India<br>Chamardi Branch<br>Plot Area<br>Chamardi-364 310<br>Dist. Bhavnagar                                |
| 395. State Bank of India<br>Parimal Chowk Branch<br>Gangotri Plaza<br>Waghawadi Road<br>Bhavnagar-364 001   | 405. State Bank of India<br>Dhasa Junction Branch<br>Station Road<br>Dhasa Junction-364 740<br>Dist. Bhavnagar                 |
| 396. State Bank of India<br>Anandnagar Branch<br>Ruvapari Road<br>Opp. Vellow Industries<br>Bhavnagar-364 001   | 406. State Bank of India<br>Gundarna Branch<br>Gurukrupa, Near Bus Stop<br>Gundarna-364 295<br>Dist. Bhavnagar                 |
| 397. State Bank of India<br>Shashtrinagar Branch<br>Near Jain Derasar<br>Shashtrinagar, Bhavnagar-364 002   | 407. State Bank of India<br>Khopala Branch<br>Near Ramji Mandir<br>Khopala-364 320<br>Dist. Bhavnagar                          |
| 398. State Bank of India<br>Shivaji Circle Branch<br>Panchvati Chowk<br>Laxminarayan Society<br>Near Shivaji Circle<br>Ring Road<br>Bhavnagar-364 001 | 408. State Bank of India<br>Kunbhan (Mahuva) Branch<br>Kumbhan-364 290<br>Taluka Mahuva,<br>Dist. Bhavnagar                    |

- |   |  |
|---|--|
| <p>409. State Bank of India<br/>Lathidad Branch<br/>Lathidad-364 710<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>410. State Bank of India<br/>Madhada Branch<br/>Madhada-364 225<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>411. State Bank of India<br/>Station Road Branch<br/>Shyam Darshan Complex<br/>Mahuva-364 290<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>412. State Bank of India<br/>Malvav Branch<br/>Kharak Street<br/>Datha Road<br/>Malvav-364 130<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>413. State Bank of India<br/>Marketing Yard Branch<br/>APMC Compound<br/>Mahuva-364 290<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>414. State Bank of India<br/>Moti Jagdhar Branch<br/>Plot No. 76<br/>Moti Jagdhar-364 295<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>415. State Bank of India<br/>Parvadi Branch<br/>Gariyadhar Road<br/>Parvadi-364 275<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>416. State Bank of India<br/>Rajpara Branch<br/>Rajpara-364 420<br/>Via Tansa<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>417. State Bank of India<br/>Botad Branch<br/>Old Market Yard<br/>Paliyad Road<br/>Botad-364 710<br/>Dist. Bhavnagar</p> <p>418. State Bank of India<br/>RBO-3, Dr. Jivraj Mehta Road<br/>Amreli-365 601</p> <p>419. State Bank of India<br/>Amreli Branch<br/>Opp. Nagnath Mandir<br/>Amreli-365 601</p> | <p>420. State Bank of India<br/>Bagasara Branch<br/>Opp. Vegetable Market<br/>Amarpara, Bagasara-365 440<br/>Dist. Amreli</p> <p>421. State Bank of India<br/>Bhader Branch, Bhader-364 645<br/>Dist. Amreli</p> <p>422. State Bank of India<br/>Darbargadh Branch<br/>Savarkundla-364 515<br/>Dist. Amreli</p> <p>423. State Bank of India<br/>Devgam Branch<br/>Opp. Jain Mandir<br/>Devgam-365 460<br/>Dist. Amreli</p> <p>424. State Bank of India<br/>Gadhakda Branch<br/>Gadhakda-364 522<br/>Tluka Savarkundla, Dist. Amreli</p> <p>425. State Bank of India<br/>Hamapur Branch<br/>Bagasara Dhari Road<br/>Hamapur-365 440<br/>Dist. Amreli</p> <p>426. State Bank of India<br/>Jafrabad Branch<br/>Jagjivan Bag<br/>Jafrabad-365 540<br/>Dist. Amreli</p> <p>427. State Bank of India<br/>Jesingpara Branch<br/>Sheri No. 3<br/>Shivaji Chowk<br/>Amreli-365 601</p> <p>428. State Bank of India<br/>Junasavar Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Junasavar-364 521<br/>Dist. Amreli</p> <p>429. State Bank of India<br/>Khadadhar Branch<br/>Khambha Una Road<br/>Khadadhar-365 650<br/>Dist. Amreli</p> <p>430. State Bank of India<br/>Khambha Branch<br/>Pandav Nivas<br/>Chhalia Road<br/>Khambha-365 650<br/>Dist. Amreli</p> |
|---|--|

- |   |   |
|---|---|
| <p>431. State Bank of India<br/>Kovaya Branch<br/>L &amp; T Colony<br/>Kovaya-365 541<br/>Dist. Amreli</p> <p>432. State Bank of India<br/>Kunkava Branch<br/>1st Floor, Sharda Shopping Centre<br/>Bagasarav Gondal Highway<br/>Kunkavav-365 450<br/>Dist. Amreli</p> <p>433. State Bank of India<br/>Library Chowk Branch<br/>Dr. Jivraj Mehta Road<br/>Amreli-365 601</p> <p>434. State Bank of India<br/>Liliya Mota Branch<br/>Liliya Mota-365 535<br/>Dist. Amreli</p> <p>435. State Bank of India<br/>Mota Samadhiyala Branch<br/>Near Mobile Tower, Mota Samadhiyala-365 635<br/>Dist. Amreli</p> <p>436. State Bank of India<br/>Pipavav Port Branch<br/>Port Users Complex<br/>Pipavav Port-365 560<br/>Dist. Amreli</p> <p>437. State Bank of India<br/>Ambardi Branch<br/>Main Bazar<br/>Ambardi-364 522<br/>Dist. Amreli</p> <p>438. State Bank of India<br/>Savarkundala Branch<br/>Opp. K. K. Mehta Hospital<br/>Savarkundla-364 515<br/>Dist. Amreli</p> <p>439. State Bank of India<br/>Untvad Branch<br/>Untvad-365 421<br/>Dist. Amreli</p> <p>440. State Bank of India<br/>Vijpadi Branch<br/>Rajula Road<br/>Vijapadi-364 530<br/>Dist. Amreli</p> <p>441. State Bank of India<br/>RBO4<br/>Marry Gold 3<br/>College Road<br/>Junagadh-362 001</p> | <p>442. State Bank of India<br/>Agri. University Branch<br/>Moti Bag Gate 1<br/>Karmchari Sahkari Mandli Building<br/>Junagadh-362 001</p> <p>443. State Bank of India<br/>Bus Stand Area Branch (Junagadh)<br/>Prisam Complex<br/>S. T. Road, —<br/>Junagarh-362 001</p> <p>444. State Bank of India<br/>Bus Stand Area (Keshod)<br/>Bharat Plastic Building<br/>Keshod-362 220<br/>Dist. Junagadh</p> <p>445. State Bank of India<br/>Choki Sorath Branch<br/>Choki Sorath<br/>Dist. Junagadh</p> <p>446. State Bank of India<br/>Dhandhusar Branch<br/>Dhandhusar-362 012<br/>Taluka Vanthali<br/>Dist. Junagadh</p> <p>447. State Bank of India<br/>Diwanpara Branch<br/>Garbi Chowk<br/>Diwanpara<br/>Manavadar-362 630<br/>Dist. Junagadh</p> <p>448. State Bank of India<br/>Industrial Estate Branch<br/>Daulatpara Road<br/>Junagadh-362 003</p> <p>449. State Bank of India<br/>Juthal Branch<br/>Juthal-362 245<br/>Dist. Junagadh</p> <p>450. State Bank of India<br/>Limbuda Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Limbuda-362 620<br/>Dist. Junagadh</p> <p>451. State Bank of India<br/>Lushala Branch<br/>Lushala-362 215<br/>Taluka Vanthali<br/>Dist. Junagadh</p> <p>452. State Bank of India<br/>Maliya Hatina Branch<br/>Station Road, Maliya Hatina-362 245<br/>Dist. Junagadh</p> |
|---|---|

- |   |  |
|---|--|
| 453. State Bank of India<br>Limba Chowk Branch<br>Rajmoti Complex<br>Mangrol-362 225<br>Dist. Junagadh                                | 463. State Bank of India<br>Delvada Branch<br>Main Bazar<br>Delvada-362 510<br>Dist. Junagadh                  |
| 454. State Bank of India<br>Mangrol (Harber) Branch<br>Shri Kharva Samaj Building<br>Bunder Road<br>Mangrol-362 225<br>Dist. Junagadh | 464. State Bank of India<br>Dhokadava Branch<br>Main Bazar<br>Dhokadava-362 565<br>Dist. Junagadh              |
| 455. State Bank of India<br>Agri. University Campus Branch<br>Moti Bag Gate No. 2<br>Vanthali Highway<br>Junagadh-362 001             | 465. State Bank of India<br>Dolasa Branch<br>Kodinar-Una Highway<br>Dolasa-362 720<br>Dist. Junagadh           |
| 456. State Bank of India<br>Shil Branch<br>Near Kanyashala<br>Old Bus Stand Road<br>Shil-362 240<br>Dist. Junagadh                    | 466. State Bank of India<br>Fudam Branch<br>Jawahar Chowk<br>Fudam (Diu)-362 520<br>Dist. Diu                  |
| 457. State Bank of India<br>Zanzarda Road Branch<br>Nayan Society<br>Junagadh-362 001   | 467. State Bank of India<br>Gir Gadhada Branch<br>Una Jamvala Road<br>Gir Gadhada-362 530<br>Dist. Junagadh    |
| 458. State Bank of India<br>RBO 5 (Junagadh-Diu)<br>College Road<br>Mary Gold 3<br>Junagadh-362 001                                   | 468. State Bank of India<br>Harmadia Branch<br>Railway Station Road<br>Harmadiya-362 720<br>Dist. Junagadh     |
| 459. State Bank of India<br>Bhalka Tirth Branch<br>GIDC Area<br>Somnath Road<br>Veraval-362 269<br>Dist. Junagadh                     | 469. State Bank of India<br>Jamvala Branch<br>Jamvala-362 530<br>Dist. Junagadh                                |
| 460. State Bank of India<br>Bucharvada Branch<br>Near Bus Stop<br>Kesariya Road<br>Bucharvada-362 571<br>Dist. Diu                    | 470. State Bank of India<br>Kotda Mota Branch<br>Rana Chowk, Kotda Mota-362 020<br>Dist. Junagadh              |
| 461. State Bank of India<br>Chhara Zapa Branch<br>Shivalaya Complex<br>Kodinar-362 720<br>Dist. Junagadh                              | 471. State Bank of India<br>Lodhava Branch<br>S.T. Stand Area, Lodhava-362 277<br>Dist. Junagadh               |
| 462. State Bank of India<br>Dadar Gir Branch<br>Visavadar Mendarada Road<br>Dadar Gir-362 120<br>Dist. Junagadh                       | 472. State Bank of India<br>Madhupur (Gir) Branch<br>Pranchi Road<br>Madhupur (Gir)-362 150<br>Dist. Junagadh  |
|   | 473. State Bank of India<br>Mendarada Branch<br>Surya Krupa<br>Sasan Road, Mendarada-362 260<br>Dist. Junagadh |

- |  |   |
|--|---|
| <p>474. State Bank of India<br/>Navabander Branch<br/>Navabander-362 510<br/>P.O. Delvada<br/>Dist. Junagadh</p> <p>475. State Bank of India<br/>Pranchi (Ghantiya) Branch<br/>Kodinar-Veraval Highway<br/>Pranchi-362 268<br/>Taluka Sutrapada<br/>Dist. Junagadh</p> <p>476. State Bank of India<br/>Ranpur Branch<br/>Opp. Post Office<br/>Ranpur (Sorath)-362 030<br/>Dist. Junagadh</p> <p>477. State Bank of India<br/>Adri Branch<br/>Adri-362 255 Taluka Veraval<br/>Dist. Junagadh</p> <p>478. State Bank of India<br/>Samter Branch<br/>Bhavnagar Road<br/>Samter-362 560<br/>Dist. Junagadh</p> <p>479. State Bank of India<br/>Sanakhada Branch<br/>Bus Stand Area<br/>Sanakhada-362 550<br/>Dist. Junagadh</p> <p>480. State Bank of India<br/>Simar Branch<br/>Delvada Rajpara Road<br/>Simar-362 550<br/>Dist. Junagadh</p> <p>481. State Bank of India<br/>Sutrapada Branch<br/>Near Bus Stop<br/>Sutrapada-362 275<br/>Dist. Junagadh</p> <p>482. State Bank of India<br/>Agricultural Development Branch<br/>Opp. Bus Stand<br/>Bhavnagar Road,<br/>Una-360 562<br/>Dist. Junagadh</p> <p>483. State Bank of India<br/>Velan Branch<br/>Plot No. 1<br/>Madhvad Road<br/>Velan-362 720<br/>Dist. Junagadh</p> | <p>484. State Bank of India<br/>Veraval Branch<br/>Zaveri Bhuvan, Ram Bharosa Chowk<br/>Veraval-362 265<br/>Dist. Junagadh</p> <p>485. State Bank of India<br/>Administrative Office<br/>Opposite Sardar Baug Circuit House<br/>Rajkot-360 001</p> <p>486. State Bank of India<br/>R.B.O. I (Region-I)<br/>Opp. Sardarbaug Circuit House<br/>Rajkot-360 001</p> <p>487. State Bank of India<br/>Commercial Branch<br/>Near Noble House<br/>Kalavad Road<br/>Rajkot-360 001</p> <p>488. State Bank of India<br/>Gauridad Branch<br/>Old Darbargadh<br/>Gauridad<br/>Dist. Rajkot-360 003</p> <p>489. State Bank of India<br/>Green Chowk Branch<br/>Morbi-363 641<br/>Dist. Rajkot</p> <p>490. State Bank of India<br/>Halenda Branch<br/>Halenda-360 032<br/>Dist. Rajkot</p> <p>491. State Bank of India<br/>Jagnath Plot Branch<br/>7 Jagnath Plot<br/>Dr. Yagnik Road<br/>Rajkot-360 001</p> <p>492. State Bank of India<br/>Khareda Branch<br/>Khareda-363 642<br/>Taluka Morvi<br/>Dist. Rajkot</p> <p>493. State Bank of India<br/>Kothariya Road Branch<br/>Thakurji arcade<br/>Kotharia Road<br/>Rajkot-360 002</p> <p>494. State Bank of India<br/>Lakhajiraj Road Branch<br/>477 Ujani, Sangnava Chowk<br/>Lakhajiraj Road<br/>Rajkot-360 001</p> |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
| 495. State Bank of India<br>Mavadi Ring Road Branch<br>Indraprasth Building<br>Near 150 Feet Ring Road<br>Mavadi<br>Rajkot-360 004 | 505. State Bank of India<br>SME Morvi Branch<br>8-A National Highway Lalpar Gam<br>Movi-363 642<br>Dist. Rajkot                           |
| 496. State Bank of India<br>Morvi Branch<br>Bhavani Chambers, Savsar Plot<br>Morvi-363 642<br>Dist. Rajkot                         | 506. State Bank of India<br>Morvi SSI Branch<br>Near Omshanti Vidyalaya<br>Opp. Sardar Baug, Sanala Road<br>Morvi-363 641<br>Dist. Rajkot |
| 497. State Bank of India<br>Pipliyaraj Branch<br>Pipaliyaraj-363 621<br>Taluka Wankaner<br>Dist. Rajkot                            | 507. State Bank of India<br>Special NRI Branch<br>Opp. Sardarbaug Circuit House<br>Rajkot-360 001   |
| 498. State Bank of India<br>Bhaktinagar Branch<br>Gondal Road<br>Rajkot-360 002  | 508. State Bank of India<br>Wankaner Branch<br>Haridas Road, Market Chowk<br>Wankaner-363 621<br>Dist. Rajkot                             |
| 499. State Bank of India<br>Market Yard Branch<br>Near Green Land Chowkadi<br>Rajkot-360 003                                       | 509. State Bank of India<br>RBO-2<br>Rajkot-Porbandar<br>Opp. Sardar Baug<br>Rajkot-360 001   |
| 500. State Bank of India<br>R. K. Nagar Branch<br>Suresh Chambers<br>Tagor Marg<br>Ramkrishnanagar<br>Rajkot-360 002               | 510. State Bank of India<br>Bagvadar Branch<br>Sahkar Society Main Road<br>Bagvadar-360 590<br>Dist. Porbandar                            |
| 501. State Bank of India<br>Rani Tower Branch<br>Rani Tower, 1st Floor<br>Near Nyari Filter Pump<br>Kalavad Road<br>Rajkot-360 005 | 511. State Bank of India<br>Bakharla Branch<br>Bakharla-360 579<br>Dist. Porbandar  |
| 502. State Bank of India<br>Rajkot S.S.I. Branch<br>Near Swaminarayan School<br>Gondal Road<br>Rajkot-360 002                      | 512. State Bank of India<br>Bhadla Branch<br>Bhadla-360 050<br>Dist. Rajkot   |
| 503. State Bank of India<br>Ring Road Branch<br>Classic Complex<br>Opp. Rosary School<br>150 ft Ring Road<br>Rajkot-360 005        | 513. State Bank of India<br>Bhojeshwar Plot Branch<br>Bhojeshwar Plot, SVP Road<br>Porbandar-360 575                                      |
| 504. State Bank of India<br>Sindhavadar Branch<br>Sindhavdar-363 621<br>Dist. Rajkot   | 514. State Bank of India<br>Dadva Mota Branch<br>Dadva Mota-360 045<br>Dist. Rajkot   |
|  | 515. State Bank of India<br>Devda Branch<br>Devda-362 652<br>Ta. Kutiyana<br>Dist. Porbandar  |



- |  |  |
|--|--|
| <p>516. State Bank of India<br/>Dhoraji Branch<br/>Ram Mandir Road<br/>Dhoraji-360 410<br/>Dist. Rajkot</p> <p>517. State Bank of India<br/>Gomta Branch<br/>Gomta-360 320<br/>Dist. Rajkot</p> <p>518. State Bank of India<br/>Gondal Branch<br/>Kailashbaug Road<br/>Banglawadi Area<br/>Gondal-360 311<br/>Dist. Rajkot</p> <p>519. State Bank of India<br/>Jamkandorna Branch<br/>Bapa Sitaram Complex<br/>Near Bus Stand<br/>Jamkandorna-360 405<br/>Dist. Rajkot</p> <p>520. State Bank of India<br/>Jasdan Branch<br/>APMC Premises<br/>Vinchia Road<br/>Jasdan-360 050<br/>Dist. Rajkot</p> <p>521. State Bank of India<br/>Jetpur Branch<br/>Tinbatti Chowk, Junagadh Road<br/>Jetpur-360 670<br/>Dist. Rajkot</p> <p>522. State Bank of India<br/>Jetpur SME Branch<br/>Kanakia Plot, Bus Stand Road<br/>Jetpur-360 670<br/>Dist. Rajkot</p> <p>523. State Bank of India<br/>Khageshri Branch<br/>Limadi Chowk<br/>Khageshri-362 650<br/>Dist. Porbandar</p> <p>524. State Bank of India<br/>Khirasara Branch<br/>Khirasara-360 450<br/>Ta. Upleta<br/>Dist. Rajkot</p> <p>525. State Bank of India<br/>Kutiyana Branch<br/>Shahi Bazar<br/>Kutiyana-362 650<br/>Dist. Porbandar</p> | <p>526. State Bank of India<br/>Lodhika Branch<br/>Lodhika-360 035<br/>Dist. Rajkot</p> <p>527. State Bank of India<br/>Mahatma Gandhi Road Branch<br/>Mahatma Gandhi Road<br/>Gondal-360 311<br/>Dist. Rajkot</p> <p>528. State Bank of India<br/>Madhavpur (Ghed) Branch<br/>Near Madhavray Temple<br/>Madhavpur (Ghed)-362 230<br/>Dist. Porbandar</p> <p>529. State Bank of India<br/>Porbandar Main Branch<br/>Manek Chowk<br/>Porbandar-360 575</p> <p>530. State Bank of India<br/>Metoda Branch<br/>GIDC, Kalavad Road<br/>Metoda-360029<br/>Dist. Rajkot</p> <p>531. State Bank of India<br/>Modhuka Branch<br/>Modhuka-360 055<br/>Taluka Jasdan<br/>Dist. Rajkot</p> <p>532. State Bank of India<br/>Mokar Branch<br/>Mokar-360 571<br/>Taluka Ranavav<br/>Dist. Porbandar</p> <p>533. State Bank of India<br/>NRI Branch<br/>Opp. Sahyog Hospital<br/>Porbandar-360 575</p> <p>534. State Bank of India<br/>Padadhari Branch<br/>Sarvodaya Medical Campus<br/>Near Bus Stand<br/>Padadhari-360 110<br/>Dist. Rajkot</p> <p>535. State Bank of India<br/>Panch Pipla Branch<br/>Panch Pipla-360 370<br/>Taluka Jetpur<br/>Dist. Rajkot</p> <p>536. State Bank of India<br/>Patanvav Branch<br/>Pirwada Road<br/>Patanvav-360 430<br/>Dist. Rajkot</p> |
|--|--|

- |  |   |
|--|---|
| <p>537. State Bank of India<br/>Ranavav Branch<br/>Bazar Road<br/>Ranavav-360 550<br/>Dist. Porbandar</p> <p>538. State Bank of India<br/>Atkot Branch<br/>Jagad Hall<br/>Panchayat Road<br/>Atkot-360 040<br/>Dist. Rajkot</p> <p>539. State Bank of India<br/>Porbandar S.M. Road Branch<br/>Satyanarayan Mandir Road<br/>Vadi Plot<br/>Porbandar-360 575</p> <p>540. State Bank of India<br/>Satodad Branch<br/>Satodad-380 405<br/>Dist. Rajkot</p> <p>541. State Bank of India<br/>Shapar Branch<br/>Shapar-Veraval Main Road<br/>Shapar-360 024<br/>Dist. Rajkot</p> <p>542. State Bank of India<br/>Shivrajgadh Branch<br/>Shivrajgadh-360 311<br/>Ta. Gondal<br/>Dist. Rajkot</p> <p>543. State Bank of India<br/>Thakkar Plot Branch<br/>Thakker Plot<br/>Porbandar-360 575</p> <p>544. State Bank of India<br/>SME Branch<br/>Near Petrol Pump<br/>Udhyognagar<br/>Porbandar-360 575</p> <p>545. State Bank of India<br/>Upleta Branch<br/>Tower Road<br/>Upleta-360 490<br/>Dist. Rajkot</p> <p>546. State Bank of India<br/>Varjang Jalia Branch<br/>Varjang Jalia-360 490<br/>Ta. Upleta<br/>Dist. Rajkot</p> <p>547. State Bank of India<br/>Vinchhiya Branch<br/>Vinchhiya-360 055<br/>Taluka Jasdan<br/>Dist. Rajkot</p> | <p>548. State Bank of India<br/>Virpur Branch<br/>Virpur-360 380<br/>Taluka Jetpur<br/>Dist. Rajkot</p> <p>549. State Bank of India<br/>RBO 3<br/>SSI Branch Building<br/>Shanker Tekri<br/>Udyognagar<br/>Jamnagar-361 001</p> <p>550. State Bank of India<br/>Bedibandar Branch<br/>Bedibandar Road<br/>Jamnagar-361 008</p> <p>551. State Bank of India<br/>Bhanvad Branch<br/>Ashapura Chowk<br/>Ranjit Para<br/>Bhanvad-360 420<br/>Dist. Jamnagar</p> <p>552. State Bank of India<br/>Dared Branch<br/>Dared Shed No. 376<br/>Near Patel Chowk<br/>Jamnagar-361 004</p> <p>553. State Bank of India<br/>Digvijay Plot Branch<br/>Near Police Gate<br/>Jamnagar-361 005</p> <p>554. State Bank of India<br/>Essar Refinery Branch<br/>Khambhalia-361 305<br/>Dist. Jamnagar</p> <p>555. State Bank of India<br/>Gulabnagar Branch<br/>Shambhu Complex<br/>Gulabnagar<br/>Jamnagar-361 007</p> <p>556. State Bank of India<br/>Jamvanthali Branch<br/>Jamvanthali-361 130<br/>Dist. Jamnagar</p> <p>557. State Bank of India<br/>Kalavad Branch<br/>Bhumi Complex<br/>Cinema Road, Kalavad-361 160<br/>Dist. Jamnagar</p> <p>558. State Bank of India<br/>Kalyanpur Branch<br/>Kalyanpur-361 320<br/>Dist. Jamnagar</p> |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
| 559. State Bank of India<br>Khambaliya Agriculture Development Branch<br>Lodhika Road<br>Khambhaliya-361 305<br>Dist. Jamnagar | 570. State Bank of India<br>Tarsai Branch<br>Tarsai-361 531<br>Ta. Jamjodhapur<br>Dist. Jamnagar  |
| 560. State Bank of India<br>Khodiyar Colony Branch<br>Opp. Reliance Petrol Pump<br>Jamnagar-361 006                            | 571. State Bank of India<br>Theba Branch<br>Theba-361 120<br>Via Dhuva<br>Dist. Jamnagar  |
| 561. State Bank of India<br>Lal Bungalow Branch<br>Lal Bungalow Area<br>Near Cricket Bungalow<br>Jamnagar-361 001              | 572. State Bank of India<br>RBO 4 Kutch<br>Opp. KSEZ Administrative Office<br>1st Floor, Kandla Sez Branch<br>Gandhidham-370 230<br>Dist. Kutch |
| 562. State Bank of India<br>Moti Khavdi Branch<br>Near Railway Crossing<br>Moti Khavdi-361 140<br>Dist. Jamnagar               | 573. State Bank of India<br>Anjar Branch<br>Nagar Palika Building<br>Town Hall Road<br>Anjar-370 110<br>Dist. Kutch                             |
| 563. State Bank of India<br>Nandana Branch<br>Nandana-361 315<br>Ta. Kalyanpur, Dist. Jamnagar                                 | 574. State Bank of India<br>Ashapura Complex Branch<br>Ashapura Complex<br>Old Bandar Road<br>Mundra (Kutch)-370 421<br>Dist. Kutch             |
| 564. State Bank of India<br>Port Okha Branch<br>Port Okha-361 350<br>Dist. Jamnagar  | 575. State Bank of India<br>Bhachau Branch<br>Behind Nagar Palika Office<br>Bhachau-370 140<br>Dist. Kutch                                      |
| 565. State Bank of India<br>Ranjit Road Branch<br>Ranjit Road<br>Jamnagar-361 001  | 576. State Bank of India<br>Station Road Branch<br>Krishna Chambers, Station Road<br>Bhuj-301 001<br>Dist. Kutch                                |
| 566. State Bank of India<br>Raval Branch<br>ST Road<br>Opp. Government Hospital<br>Raval-361 325<br>Dist. Jamnagar             | 577. State Bank of India<br>Dahisara Branch<br>Dahisara-370 485<br>Dist. Kutch  |
| 567. State Bank of India<br>Air Force Station Branch<br>Air Force Station<br>Jamnagar-361 003                                  | 578. State Bank of India<br>Dayapar Branch<br>Dayapar-370 625<br>Taluka Lakhpat<br>Dist. Kutch  |
| 568. State Bank of India<br>RPI Township Branch<br>Reliance Greens<br>Moti Khavdi-361 142<br>Dist. Jamnagar                    | 579. State Bank of India<br>Gopalpuri Branch<br>Gopalpuri-370 240<br>Taluka-Gandhidham<br>Dist. Kutch   |
| 569. State Bank of India<br>SME (Jamnagar) Branch<br>Gordhanpur Road<br>Shankertekari<br>Jamnagar-361 004                      |   |

580. State Bank of India  
Kandla Free Trade/One Branch  
Opp. KSI/Administrator Building  
Kandla-370 230  
Dist. Kutch
581. State Bank of India  
Kandla Port  
Opp. Hotel Sea Rock  
Kandla Port-370 230  
Dist. Kutch
582. State Bank of India  
Kera Branch  
Samajwadi Road  
Kera-370 430  
Dist. Kutch
583. State Bank of India  
Lakadia Branch  
Lakadia-370 145  
Dist. Kutch
584. State Bank of India  
Madhapar Branch  
Madhapar-370 020  
Taluka-Bhuj  
Dist. Kutch
585. State Bank of India  
Kutch Mandvi Branch  
Swaminarayan Temple  
Mandvi-370 465  
Dist. Kutch
586. State Bank of India  
Mankuva Branch  
Mankuva-370 030  
Dist. Kutch
587. State Bank of India  
Mundra Branch  
Mundra Port Road  
Mundra-370 421  
Dist. Kutch
588. State Bank of India  
Mundra Adani Port Branch  
New Port Users Building  
Mundra-370 421  
Dist. Kutch
589. State Bank of India  
Nakhatrana Branch  
Near Hotel Fun & Food  
Nakhatrana-370 615  
Dist. Kutch
590. State Bank of India  
Naliya Branch  
Naliya-370 655  
Taluka-Abdasa Dist. Kutch
591. State Bank of India  
Naranpar Branch  
Naranpar-370 429  
Dist. Kutch
592. State Bank of India  
NRI Branch  
193 N K Chambers  
Bhuj-370 001  
Dist. Kutch
593. State Bank of India  
OSLO Ghandhidham Branch  
OSLO Circle  
Gandhidham-370 201  
Dist. Kutch
594. State Bank of India  
Rampar Vekra Branch  
Rampar Vekra-370 445  
Dist. Kutch
595. State Bank of India  
Adipur Branch  
Adipur-370 205  
Dist. Kutch
596. State Bank of India  
RTO Relocation Site Branch  
RTO Relocation Site  
Bhuj-370 001  
Dist. Kutch
597. State Bank of India  
Samakhiali Branch  
Station Road  
Samakhiali-370 170  
Dist. Kutch
598. State Bank of India  
Sanskarnagar Branch  
Katira Commercial Complex  
Bhuj-370 001  
Dist. Kutch
599. State Bank of India  
Sukhpar Branch  
Sukhpar-370 040  
Dist. Kutch
600. State Bank of India  
Surajpar Branch  
Surajpar-370 040  
Post-Bharapar  
Dist. Kutch
601. State Bank of India  
Madhapar Swaminarayan Mandir Branch  
Swaminarayan Mandir Chowk  
Madhapar-370 020  
Dist. Kutch

- |   |  |
|---|--|
| <p>602. State Bank of India<br/>Swaminarayan Mandir Branch<br/>Juno Vas<br/>Sukhpar-370 040<br/>Dist. Kutch</p> <p>603. State Bank of India<br/>RBO 5<br/>Namah Pitrudev Complex<br/>Abu Highway, Palanpur-385 001</p> <p>604. State Bank of India<br/>Amirgadh Branch<br/>Amirgadh-385 130<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>605. State Bank of India<br/>Bhabhar Branch<br/>Bhabhar-385 320<br/>Taluka-Diodar, Dist. Banaskantha</p> <p>606. State Bank of India<br/>Bhildi Branch<br/>At &amp; PO. Bhildi-385 530<br/>Taluka Sihori<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>607. State Bank of India<br/>Biliya Branch<br/>Biliya-384 151<br/>Dist. Patan</p> <p>608. State Bank of India<br/>Chanasma Branch<br/>Chanasma-384 220<br/>Dist. Patan</p> <p>609. State Bank of India<br/>Chandisar Branch<br/>Main Road<br/>Chandisar-385 510<br/>Taluka-Chandisar<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>610. State Bank of India<br/>Chhapi Branch<br/>Main Bazar<br/>Chhapi-385 210<br/>Taluka-Vadgam<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>611. State Bank of India<br/>Danta Branch<br/>Madan Chamber, Danta-Sanali Highway<br/>Danta-385 120<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>612. State Bank of India<br/>Dantiwada Branch<br/>Admin Building Gujarat Agree University<br/>Sardar Krishi Nagar<br/>Dantiwada-385 506<br/>Dist. Banaskantha</p> | <p>613. State Bank of India<br/>Deodar Branch<br/>Jalaram Park<br/>Deodar-385 330<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>614. State Bank of India<br/>Dhanera Branch<br/>Shivaji Estate<br/>Station Road<br/>Dhanera-385 310<br/>Taluka-Dhanera<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>615. State Bank of India<br/>Dhima Branch<br/>Dharnidhar Vishnu Maha-Yagna Dharmshala<br/>Trust, Dhima-385 566<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>616. State Bank of India<br/>Dudhva Branch<br/>At &amp; PO. Dudhva-385 565<br/>Taluka-Tharad<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>617. State Bank of India<br/>Harij Branch<br/>Ishvar Bhavan<br/>Nehru Road<br/>Harij-384 240<br/>Dist. Patan</p> <p>618. State Bank of India<br/>North Gujarat Uni. Branch<br/>Hemchandracharya North Gujarat University<br/>Patan-384 265</p> <p>619. State Bank of India<br/>Highway Road (Deesa) Branch<br/>Near Gayatri Mandir<br/>Deesa-385 535<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>620. State Bank of India<br/>Highway Road (Palanapur) Branch<br/>Opp. Income Tax Office, Palanapur-385 001<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>621. State Bank of India<br/>Iqbalgadh Branch<br/>Iqbalgadh-385 135<br/>Dist. Banaskantha</p> <p>622. State Bank of India<br/>Jalotra Branch<br/>Jalotra-385 002<br/>Taluka-Vadgam, Dist. Banaskantha</p> <p>623. State Bank of India<br/>Jelana Branch<br/>Jelana-385 575<br/>Taluka-Vav<br/>Dist. Banaskantha</p> |
|---|--|

- |  |   |
|--|---|
| 624. State Bank of India<br>Kungher Branch<br>Behind Bus Stand, Kungher-385 255<br>Dist. Patan                           | 636. State Bank of India<br>Station Road Branch<br>Laxmi Nivas, Station Road<br>Patan-384 265                       |
| 625. State Bank of India<br>Lakhni Branch<br>Lakhni-385 541<br>Taluka-Deesa, Dist. Banaskantha                           | 637. State Bank of India<br>Thara Branch, Thara-385 555<br>Dist. Banaskantha  |
| 626. State Bank of India<br>Luvana Branch<br>Luvana-385 565<br>Taluka-Tharad, Dist. Banaskantha                          | 638. State Bank of India<br>Tharad Branch<br>Tharad-338 565<br>Dist. Banaskantha                                    |
| 627. State Bank of India<br>Malana Branch<br>Malana-385 002<br>Dist. Banaskantha   | 639. State Bank of India<br>Vadavali Branch<br>Vadavali-384 221<br>Dist. Patan                                      |
| 628. State Bank of India<br>Mota Kapra Branch<br>Mota Kapra-385 535<br>Taluka-Deesa<br>Dist. Banaskantha                 | 640. State Bank of India<br>Vadgam Branch<br>Vadgam-385 410<br>Dist. Banaskantha                                    |
| 629. State Bank of India<br>New Market Yard Branch<br>Patan-385 265  | 641. State Bank of India<br>Vagdod Branch<br>Vagdod-384 285<br>Dist. Patan  |
| 630. State Bank of India<br>Pathawada Branch<br>Deesa Highway<br>Pathawada-385 545<br>Dist. Banaskantha                  | 642. State Bank of India<br>Varahi Branch<br>Dhan Bazar<br>Near Post Office<br>Varahi-385 360<br>Dist. Patan        |
| 631. State Bank of India<br>Radhanpur Branch<br>Dhiraj Chambers<br>Lal Baug<br>Radhanpur-385 340<br>Dist. Patan          | 643. State Bank of India<br>Vav Branch<br>Near Bus Stand<br>Vav-385 575<br>Dist. Banaskantha                        |
| 632. State Bank of India<br>Ambaji Branch<br>Ambaji-385 110<br>Taluka-Danta<br>Dist. Banaskantha                         | 644. State Bank of India<br>RBO-6<br>Business View<br>Dudhrej Road<br>Surendranagar-363 001                         |
| 633. State Bank of India<br>S. J. Road Siddhpur Branch<br>Ambalal Avenue, S. J. Road,<br>Siddhpur-384 151<br>Dist. Patan | 645. State Bank of India<br>Dasada Branch<br>10/13-14, Main Bazar<br>Dasada-382 750<br>Dist. Surendranagar          |
| 634. State Bank of India<br>Sami Branch<br>Sami-384 245<br>Dist. Patan   | 646. State Bank of India<br>Devalia Branch<br>Devalia-382 775<br>Dist. Surendranagar                                |
| 635. State Bank of India<br>Shihori Branch<br>Shihori-385 550<br>Dist. Banaskantha                                       | 647. State Bank of India<br>Dhrangadhra Branch<br>Opp. Zalawad Ground<br>Dhrangadhra-363 310<br>Dist. Surendranagar |

- |  |  |
|--|--|
| <p>648. State Bank of India<br/>Wadhwan Branch<br/>Shed No. C-1-1-178, GIDC<br/>Wadhwan-363 035<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>649. State Bank of India<br/>Hadala Bhal Branch<br/>Gram Panchayat Building<br/>Hadala Bhal-363 425<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>650. State Bank of India<br/>Halvad Branch<br/>Halvad-Maliya Highway<br/>Halvad-363 330<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>651. State Bank of India<br/>Juna Devalia Branch<br/>Near Gram Panchayat Office<br/>Juna Devalia-363 330<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>652. State Bank of India<br/>Kharaghoda Branch<br/>Navagam, Kharaghoda-382 760<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>653. State Bank of India<br/>Limdi Branch<br/>Limdi-363 421<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>654. State Bank of India<br/>Malaniyad Branch<br/>Malaniyad-363 330<br/>Taluka : Halvad<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>655. State Bank of India<br/>Malvan Branch<br/>Near Ramji Mandir, Malvan-363 310<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>656. State Bank of India<br/>Mathak Branch<br/>Mathak-363 330<br/>Taluka-Halvad<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>657. State Bank of India<br/>Mojidad Branch<br/>Mojidad-363 411<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>658. State Bank of India<br/>Panshina Branch<br/>Panshina-363 423<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>659. State Bank of India<br/>Rajsitapur Branch, Rajsitapur-363 320<br/>Dist. Surendranagar</p> | <p>660. State Bank of India<br/>Rangpur Branch<br/>At Rangpur-363 421<br/>Taluka-Chuda<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>661. State Bank of India<br/>Ratanpur Branch<br/>Yadunandan Complex<br/>Near Rameshwar Mandir<br/>Ratanpur-363 020<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>662. State Bank of India<br/>Thanghadh Bazar Branch<br/>Vasuki Complex, Near Sati Vav<br/>Thanghadh-363 530<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>663. State Bank of India<br/>Sara Branch<br/>Main Road<br/>Sara-3633 10<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>664. State Bank of India<br/>Sarla Branch<br/>Sarla-363 510<br/>Taluka-Mulj,<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>665. State Bank of India<br/>Surendranagar Branch<br/>Kothari Balmandir Road<br/>Apna Bazar<br/>Near Samay Karyalaya<br/>Dist. Surendranagar-363 001</p> <p>666. State Bank of India<br/>Thangadh Branch<br/>Near City Railway Crossing<br/>Tarnetar Road<br/>Thangadh-363 530<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>667. State Bank of India<br/>Vadgam Branch<br/>Jay Jadeshwar Dudh-<br/>Utpadak Sahakari Manadali Building<br/>Vadgam-382 750<br/>Dist. Surendranagar</p> <p>668. State Bank of India<br/>Vadipara Branch<br/>Near Taluka School<br/>Opp. Swaminarayan Temple, Vadipara<br/>Dist. Surendranagar-363 001</p> <p>669. State Bank of India<br/>Vadod Branch<br/>Main Bazar<br/>Vadod-363 421<br/>Dist. Surendranagar</p> |
|--|--|

670. State Bank of India  
Vagadia Branch  
Vagadia-363 520  
Via Thangadh  
Dist. Surendranagar
671. State Bank of India  
Vana Branch  
Vana-363 110  
Taluka-Lakhtar  
Dist. Surendranagar
672. State Bank of India  
Wadhawan City Branch  
Kansara Bazar, Kharva Chowk  
Wadhwan City-363 030  
Dist. Surendranagar
673. State Bank of India  
Administrative Branch  
State Bank Bhavan  
Near Panjara Pol  
Ghod Dod Road  
Surat-395 001
674. State Bank of India  
Regional Business Office-I  
First Floor I, Pritamnagar Society  
Near Kasak Circle  
Bharuch-392 001
675. State Bank of India  
Ambheta Branch  
Dahej Road  
Bharuch-392 130  
Dist. Bharuch
676. State Bank of India  
Amletha Branch  
Taluka-Nandod  
Narmada-393 140  
Dist. Narmada
677. State Bank of India  
Amod Branch  
New Market  
Station Road  
Amod-392 110  
Dist. Bharuch
678. State Bank of India  
Ankleshwar Branch  
Near Mamlatdar Office  
Ankleshwar-393 001  
Dist. Bharuch
679. State Bank of India  
GIDC Branch  
Ankleshwar Industrial Estate  
Ankleshwar-393 002  
Dist. Bharuch
680. State Bank of India  
Avidha Branch  
Arogya Vardhak Mandal Building  
Near Bus Stop  
Bharuch-393 017
681. State Bank of India  
Station Road Branch  
Opp. Dist. Panchayat  
Bharuch-392 001
682. State Bank of India  
Dahej Branch  
Dahej-392 130  
Taluka-Vagra  
Dist. Bharuch
683. State Bank of India  
Dediyapada Branch  
Main Road Char Rasta  
Dediyapada-393 040  
Dist. Narmada
684. State Bank of India  
Hansot Branch  
Ankleshwar Road  
Hansot-393 030  
Dist. Bharuch
685. State Bank of India  
Jambusar Branch  
Upivat  
Jambusar-392 150  
Dist. Bharuch
686. State Bank of India  
Jhagadia Branch  
Gandhi Street  
Jhagadia-393 110  
Dist. Bharuch
687. State Bank of India  
Karmad Branch  
Karmad-392 160  
Dist. Bharuch
688. State Bank of India  
Katopore Darwaja Branch  
Jumma Masjid Road  
Dist. Bharuch
689. State Bank of India  
Kevadiya Colony Branch  
Narmada Project Admn. Building  
Garudeshwar-393 151  
Dist. Narmada
690. State Bank of India  
Kudadara Branch  
Gram Panchayat Building  
Kudadara-393 030  
Dist. Bharuch



- |   |   |
|---|---|
| 691. State Bank of India<br>Mohammdpura Branch<br>Near Wholesale Vegetable Market<br>Mohammdpura<br>Dist. Bharuch                     | 701. State Bank of India<br>Rajpardi Branch<br>Opp. Post Office<br>Rajpardi-393 115<br>Dist. Bharuch                              |
| 692. State Bank of India<br>Muktinagar Branch<br>Near Shaktinath Circle<br>Dist. Bharuch-392 001                                      | 702. State Bank of India<br>Rajpipla Branch<br>Kirti Bhuvan<br>Rajpipla-393 145<br>Dist. Narmada                                  |
| 693. State Bank of India<br>Nandelav Branch<br>Bharuch Bridge View Complex<br>Near Hotel Madhuli<br>Nandelav<br>Dist. Bharuch-392 001 | 703. State Bank of India<br>Sagbara Branch<br>Sagbara-393 050<br>Dist. Narmada  |
| 694. State Bank of India<br>Netrang Branch<br>Gin Bazar<br>Netrang-393 130<br>Dist. Bharuch   | 704. State Bank of India<br>Sajod Branch<br>Sajod-393 020<br>Dist. Bharuch  |
| 695. State Bank of India<br>Jhanor Branch<br>NTPC Township<br>Urjanagar<br>Jhanor-392 215<br>Dist. Bharuch                            | 705. State Bank of India<br>Sarod Branch<br>Sarod-392 180<br>Dist. Bharuch  |
| 696. State Bank of India<br>ONGC Branch<br>ONGC Premises<br>Ankleshwar-393 001<br>Dist. Bharuch                                       | 706. State Bank of India<br>Tankari Branch<br>Tankari-392 040<br>Dist. Bharuch  |
| 697. State Bank of India<br>Palej Branch<br>Opp. Panchayat Office<br>Palej-392 220<br>Dist. Bharuch                                   | 707. State Bank of India<br>Tilakwada Branch<br>Tilakwada-391 120<br>Dist. Narmada-391 120  |
| 698. State Bank of India<br>Panoli Branch<br>GACL Compound<br>GIDC<br>Panoli-394 116<br>Dist. Bharuch                                 | 708. State Bank of India<br>Vagra Branch, Vagra-392 140<br>Dist. Bharuch  |
| 699. State Bank of India<br>Pratapnagar Branch<br>Main Bazar<br>Pratapnagar-393 140<br>Dist. Bharuch                                  | 709. State Bank of India<br>Valia Branch, 1, Adityanagar Society<br>Near Mahila College<br>Valia-393 135<br>Dist. Bharuch-393 135 |
| 700. State Bank of India<br>Pritamnagar Branch<br>Near Kasak Circle<br>1, Pritamnagar Society<br>Dist. Bharuch-392 001                | 710. State Bank of India<br>Zadeshwar Branch<br>43-47, Shree Rang Palace<br>Zadeshwar-392 012<br>Dist. Bharuch                    |
|   | 711. State Bank of India<br>Regional Business Office-2<br>State Bank Bhavan, Near Panjara Pol<br>Ghod Dod Road<br>Surat-395 001   |
|   | 712. State Bank of India<br>Ashwanikumar Road Branch<br>1st Floor, Dhara Residency, Haribag<br>Surat-395 010                      |

713. State Bank of India  
Aai Mata Road Branch  
Block No. 121, Sudarshan Complex  
Aai Mata Road, Surat-395 010
714. State Bank of India  
Abhikram Complex Branch  
Opp. Bhulkabhavan School  
Hajira Road, Adajan, Surat-395 009
715. State Bank of India  
Adjan Branch  
Ground Floor  
Madhav Arcade  
Opp. Prime Market, Surat-395 009
716. State Bank of India  
Amroli Branch  
Gujarat Shopping Centre  
Amroli  
Surat-394 107
717. State Bank of India  
Bamroli Branch  
14-15, Triptinagar Society  
Opp. GEB Office  
Bamroli  
Surat-394 210
718. State Bank of India  
Bhathena Branch  
Riddhi Siddhi Complex  
Bhathena  
Surat-394 210
719. State Bank of India  
Bhatar Road Branch  
Harikrishna Building, Bhatar Road,  
Surat-395 017
720. State Bank of India  
Bhestan Branch  
Near Saikripa  
Bhestan  
Surat-395 006
721. State Bank of India  
Bombay Market Branch  
Umarwada, Bombay Market  
Surat-395 010
722. State Bank of India  
Citylight Branch  
Shital Park  
Padmakriti  
Citylight  
Surat-395 007
723. State Bank of India  
Ghoddod Road Branch  
Megh-Mayur Plaza  
Ghoddod Road  
Surat-395 007
724. State Bank of India  
Godha Street Branch  
Pramukh Chambers  
Opp. LIC Office  
Timaliyawad, Nanpura  
Surat-395 001
725. State Bank of India  
Gopipura Branch  
Parshwnath Appartment  
Hanuman Char Rasta  
Gopipura  
Surat-395 001
726. State Bank of India  
Honey Park Branch  
Dezal Arcade  
Chhatrapati Shivaji Marg  
Honey Park  
Surat-395 005
727. State Bank of India  
G I D C Katargam Branch  
G I D C Katargam  
Surat-395 008
728. State Bank of India  
Kapodara Branch  
Kapodra Char Rasta  
Kapodra  
Surat-395 006
729. State Bank of India  
Mora Bhagal Branch  
Shop No. 19-20-21  
New Subhash Society  
Mora Bhagal  
Surat-395 005
730. State Bank of India  
Mota Varachha Branch  
Krishna Township  
Ultram Power Station  
Mota Varachha  
Surat-395 006
731. State Bank of India  
Nanpura Branch  
101, Rameshwar Appartment  
Athugar Sheri,  
Nanpura  
Surat-395 001
732. State Bank of India  
Palanpur Octroi Point Branch  
Shantam Residency  
Palanpur Oxtroi Point, Surat-395 001
733. State Bank of India  
Pandesara Industrial Estate Branch  
Pandesara Industrial Estate,  
Surat-394 221

- |   |   |
|---|---|
| <p>734. State Bank of India<br/>Parle Point Branch<br/>Amizara Shopping Centre<br/>Athawalines<br/>Surat-395 007</p> <p>735. State Bank of India<br/>Parvat Patiya Branch<br/>City Plaza Complex<br/>Kadodara Road<br/>Parvat Patiya<br/>Surat-395 010</p> <p>736. State Bank of India<br/>Piplod Branch<br/>Opp. Swastika House<br/>Piplod<br/>Surat-395 007</p> <p>737. State Bank of India<br/>Prakash Society Branch<br/>Near Saint Xavier School<br/>Ghod Dod Road<br/>Surat-395 001</p> <p>738. State Bank of India<br/>Rander Road Branch<br/>16-17 Shivam Complex<br/>Rander Road<br/>Surat-395 009</p> <p>739. State Bank of India<br/>Riddhi Residency<br/>(Ambika Niketan) Branch<br/>L. P. Savani Road<br/>Surat-393 009</p> <p>740. State Bank of India<br/>Salabatpura Branch<br/>Ground Floor<br/>Shri Krishna Market<br/>Salabatpura<br/>Surat-395 002</p> <p>741. State Bank of India<br/>Sarhana Branch<br/>Near Sarhana Oxtroi Point<br/>Sarhana<br/>Surat-395 006</p> <p>742. State Bank of India<br/>Sosiyo Circle Branch<br/>12-13, Navrang Ind. Society<br/>Udhana-Magdalla Road<br/>Surat-395 002</p> <p>743. State Bank of India<br/>SPL Commercial Branch<br/>Kiran Chambers<br/>Ring Road<br/>Sagrampura<br/>Surat-395 002</p> | <p>744. State Bank of India<br/>Chowk Bazar Branch<br/>State Bank Building<br/>Chowk Bazar<br/>Surat-395 001</p> <p>745. State Bank of India<br/>SVR College Branch<br/>SVR College Premises<br/>Surat-Dummas Road<br/>Surat-395 007</p> <p>746. State Bank of India<br/>Udhana City Branch<br/>401-407<br/>Arihant Complex<br/>Udhana Main Road<br/>Surat-394 210</p> <p>747. State Bank of India<br/>Udhana Udhogynagar Branch<br/>M.G. Road No. 14,<br/>Gopi Compound<br/>Udhana Udhogynagar<br/>Surat-394 210</p> <p>748. State Bank of India<br/>Varachha Road Branch<br/>Poddar Arcade<br/>Varachha Road<br/>Surat-395 006</p> <p>749. State Bank of India<br/>Ved Road Branch<br/>Sidheshwar Society<br/>Dabhoi Char Rasta<br/>Ved Road<br/>Surat-395004</p> <p>750. State Bank of India<br/>Pal Branch<br/>Rekha Park<br/>Surat-Hazira Road<br/>Surat-395007</p> <p>751. State Bank of India<br/>Station Road Branch<br/>Una Pani Road<br/>Station Road<br/>Surat-395 002</p> <p>752. State Bank of India<br/>Vesu Branch<br/>Vesu Main Road<br/>Surat-395 007</p> <p>753. State Bank of India<br/>Regional Business Office-3<br/>State Bank Bhavan<br/>Near Panjarapol<br/>Ghod Dod Road<br/>Surat-395 001</p> |
|---|---|

754. State Bank of India  
Mahuva Agricultural Development Branch  
Vigneshvar Street  
Bus Stand Road  
Mahuva-394 250  
Dist. Surat
755. State Bank of India  
Ahwa Branch  
Opp. Rang Upavan  
Circuit House Road  
Ahwa-394 710  
Dist. Dangs
756. State Bank of India  
Apparel Park Branch  
Surat-Navsari Road  
Apparel Park  
Sachin-394 230  
Dist. Surat
757. State Bank of India  
Asnad Branch  
Asnad-394 540  
Taluka Olpad  
Dist-Surat
758. State Bank of India  
Bardoli Branch  
Pitrusmruti  
Bhandriward  
Bardoli-394 601  
Dist. Surat
759. State Bank of India  
Bhatha Branch  
Pal-Hajira Road  
Bhatha-394 510  
Dist. Surat
760. State Bank of India  
Bhatpore Branch  
ONGC Complex  
Administrative Building  
Bhatpore, Hajira-394 518  
Surat
761. State Bank of India  
Ena Branch, Ena-394 310  
Dist. Narmada
762. State Bank of India  
Fort Songadh Branch  
Navagam Road, Fort Songadh-394 670  
Dist-Surat
763. State Bank of India  
GIDC Branch  
Diamond Ind. Park  
Sachin-394 230  
Dist. Surat
764. State Bank of India  
Kadodara Branch  
Swagat Complex  
Kadodara-394 327  
Dist. Surat
765. State Bank of India  
Kamraj Char Rasta Branch  
Shrushti Complex  
Kamraj-394 185  
Dist. Surat
766. State Bank of India  
KAPS Township Branch  
Anumala Shopping Complex  
Kakrapar-394 650  
Dist. Tapi
767. State Bank of India  
Kapura Branch  
Kapura-394 655  
Taluka-Vyara  
Dist. Tapi
768. State Bank of India  
Kavas Branch  
Surat-Hajira Road  
Kavas-394 510  
Dist. Surat
769. State Bank of India  
Kim Branch  
Kim-394 110  
Dist. Surat
770. State Bank of India  
Kosamba Market Yard Branch  
Kosamba-394 120  
Dist. Surat
771. State Bank of India  
Kosamba Branch  
Hathuran Road  
Kosamba-394 120  
Dist. Surat
772. State Bank of India  
Madhi Branch  
Madhi-394 240  
Taluka Bardoli, Dist. Surat
773. State Bank of India  
Mandvi Branch  
Suthar Falia, Mandvi-394 160  
Dist. Surat
774. State Bank of India  
Motamiya Mangrol Branch  
Opp. Telephone Exchange  
Mangrol Motamiya-394 410  
Dist. Surat

- |   |   |
|---|---|
| 775. State Bank of India<br>Nani Naroli Branch<br>Utility Building, G. I. P.C.I.,<br>Nani Naroli-394 110<br>Dist. Surat | 787. State Bank of India<br>Vyara Branch<br>Mahadev Gali<br>Vyara-394 650<br>Dist. Tapi   |
| 776. State Bank of India<br>Nizar Branch<br>Nizar-394 370<br>Dist. Tapi   | 788. State Bank of India<br>Regional Business Office-4<br>D N Shopping Centre<br>Opp. Gandhi Library<br>Dist. Valsad-396 001      |
| 777. State Bank of India<br>NRI Bardoli Branch<br>Pitrismiti, Bhandari Road, Bardoli-394 601<br>Dist. Surat             | 789. State Bank of India<br>Amalsad Branch<br>First Flore<br>Sankheshwar Complex<br>Station Road<br>Amalsad-396 310<br>Dist. Tapi |
| 778. State Bank of India<br>Olpad Branch<br>Olpad-394 540<br>Dist. Surat  | 790. State Bank of India<br>Atgam Branch<br>Atgam-396 045<br>Dist. Valsad   |
| 779. State Bank of India<br>Palsana Branch<br>Palsana-394 315<br>Dist. Surat  | 791. State Bank of India<br>Atul Branch<br>Atul Campus<br>Atul-396 020<br>Dist. Valsad  |
| 780. State Bank of India<br>Pimpari Branch<br>Taluka Ahwa<br>Pimpari-394 715<br>Dist. Dangs                             | 792. State Bank of India<br>Bansada Branch<br>Shankar Falia<br>Bansada-396 580<br>Dist. Navsari                                   |
| 781. State Bank of India<br>Sayan Branch<br>Taluka Olpad, Sayan-394 130<br>Dist. Surat                                  | 793. State Bank of India<br>Bhadeli Branch<br>Bhadeli-396 030<br>Dist. Valsad   |
| 782. State Bank of India<br>Shamgahan Branch<br>Taluka Ahwa<br>Shamgahan-394 730<br>Dist. Dangs                         | 794. State Bank of India<br>Bhilad Industrial Estate Branch<br>Umbergaon Road<br>Bhilad-396 105<br>Dist. Valsad                   |
| 783. State Bank of India<br>Uchhal Branch<br>Uchhal-394 375<br>Dist. Tapi   | 795. State Bank of India<br>Bilimora Branch<br>College Road<br>Bilimora-396 321<br>Dist. Navsari                                  |
| 784. State Bank of India<br>Ukai Branch<br>Opp. GSECL Colony<br>Ukai-394 680,<br>Dist. Tapi                             | 796. State Bank of India<br>Chanvai Branch<br>Desai Wad<br>Chanvai-396 020<br>Dist. Valsad  |
| 785. State Bank of India<br>Umarpada Branch<br>Umarpada-394 445<br>Dist. Surat  |   |
| 786. State Bank of India<br>Valod Branch<br>Valod-394 640<br>Dist. Tapi   |   |

797. State Bank of India  
Chhapra Road Branch  
Chhapra Road-396 445  
Dist. Navsari
798. State Bank of India  
Chikhli Branch  
Khatriwad  
Chikhli-396 521  
Dist.-Navsari
799. State Bank of India  
Daman Branch  
K K Marg  
Daman-396 210  
Dist. Daman
800. State Bank of India  
Dehgam Branch  
Nasik Road  
Dehgam-394 650  
Dist. Valsad
801. State Bank of India  
Devsar Branch  
Narsery Road  
Sardar Market  
Devsar-396 380  
Dist. Navsari
802. State Bank of India  
Dharampur Branch  
Jail Road  
Dharampur-396 050  
Dist. Valsad
803. State Bank of India  
Dungari Branch  
Link Road  
Near Railway Crossing  
Dungari-396 375  
Dist. Valsad
804. State Bank of India  
Gandevi Branch  
Nagar Palika Compound  
Gandevi-396 360  
Dist. Navsari
805. State Bank of India  
G.I.D.C. Branch  
Umbergaon-396 171  
Dist. Valsad
806. State Bank of India  
Kabilpore Branch  
Plot No. 37  
G.I.D.C.  
Kabilpore-396 424  
Dist. Navsari
807. State Bank of India  
Gundlav Branch  
Gundlav Ind. Estate  
Gundlav-396 350  
Dist. Valsad
808. State Bank of India  
Kapra Branch  
Kapra-395 210  
Dist. Valsad
809. State Bank of India  
Khergaon Branch  
Khergaon-396 040  
Dist. Navsari
810. State Bank of India  
Kosamba Branch  
Kosamba Char Rasta  
Kosamba-396 445  
Dist. Navsari
811. State Bank of India  
Magod Branch  
Magod Mandir  
Near Mahadev Temple  
Magod-396 020  
Dist. Valsad
812. State Bank of India  
Maroli Branch  
Bazar Raja Road  
Maroli-396 436  
Dist. Navsari
813. State Bank of India  
Moti Daman Branch  
Opp. Football Ground  
Moti Daman-396 220  
Dist. Daman
814. State Bank of India  
Nanaponda Branch  
Vapi Road, Luhari Faliya  
Nanaponda-396 126  
Dist. Navsari
815. State Bank of India  
Navsari Branch  
1865, Shri Ram Society  
Near Fuvara  
Navsari-396 445
816. State Bank of India  
Navsari Agri. University Campus Branch  
Navsari-396 445
817. State Bank of India  
Pardi Branch  
Shroff Street  
Pardi-396 125  
Valsad

818. State Bank of India  
Ranakuva Branch  
Dola Shopping Centre  
Valsad Road  
Ranakuva-396 560  
Dist. Navsari
819. State Bank of India  
Rumla Branch  
Upasana Shopping Centre  
Main Road  
Rumla-396 060  
Dist. Navsari
820. State Bank of India  
Sarigam Branch  
Brahmin Street  
Sarigrām-396 155  
Dist. Valsad
821. State Bank of India  
SPL Commercial Branch  
Plot No. 135, Vai House  
Ground Floor  
G.I.D.C.  
Vapi-396 195  
Dist. Valsad
822. State Bank of India  
Silvassa Branch  
Nisarg Apartment Complex  
Kilvani Road  
Silvassa-396 230  
Dist. Dadra & Nagar Haveli
823. State Bank of India  
Somanath Ind. Estate Branch  
Somnath Road  
Daman-396 210
824. State Bank of India  
Station Road Branch  
Sakar Building  
Mamlatdar Kacheri Compound  
Valsad-396 001
825. State Bank of India  
Ubhrat Branch  
Panchat Road, Ubhrat-396 436  
Dist. Navsari
826. State Bank of India  
Udwada Branch  
Udwada Railway Station  
Udwada-936 185  
Dist. Valsad
827. State Bank of India  
Umarsadi Branch  
Veni Narayan Nivas  
Desai Falia  
Umarsadi-396 175  
Dist. Valsad

828. State Bank of India  
Umbergaon Town Branch  
Gopal Krupa,  
Umbergaon Town  
Umbergaon-396 170  
Dist. Valsad
829. State Bank of India  
Valsad Branch  
Market Area  
Valsad-396 001
830. State Bank of India  
Vapi Ind. Township Branch  
G.I.D.C.  
Vapi-396 195  
Dist. Valsad
831. State Bank of India  
Vesma Branch  
No. 935, Bazar Street  
Vesma-396 475  
Dist. Navsari
832. State Bank of India  
SPBB Lunsikui  
Chimnabai Road, Near Vasant Talkies  
Lunsikui  
Dist. Navsari-396 445

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

**का.आ. 2157.**—केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणायधीन निम्नलिखित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80% से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

क्रम सं.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/ बीमा कंपनियों के नाम (संलग्न सूची के अनुसार)	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
1.	स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला	177
2.	भारतीय स्टेट बैंक	79
3.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	50
4.	बैंक ऑफ़ इंडिया	46
5.	सिंडिकेट बैंक	36
6.	कनरा बैंक	28
7.	स्टेट बैंक ऑफ़ बोकानेर एंड जयपुर	09
8.	पंजाब नेशनल बैंक	81
9.	आंध्रा बैंक	70
10.	सिंडिकेट बैंक	31
	<b>कुल</b>	<b>607</b>

[सं. 11016/2/2012 हिन्दी]

चन्द्रप्रकाश ढौंडियाल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

**राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत  
कार्यालयों को अधिसूचित करना**

**स्टेट बैंक ऑफ पटियाला,  
पटियाला अंचल के अधीन शाखाएं**

**क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं**

1. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नज्दीक बस अड्डा  
गांव मरदां हेड़ी  
डाकखाना डकाला  
तहसील एवं जिला पटियाला (पंजाब)
2. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव फग्गन माजरा डाकखाना नंदपुर केशों  
जिला पटियाला (पंजाब)
3. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव जलालपुर-147021  
डाकखाना बहादुरगढ़  
तहसील एवं जिला पटियाला

**क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं**

4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
अमलोह रोड, गांव नौरा  
डाकखाना दंदराला ढींडसा  
तहसील नाभा, जिला पटियाला (पंजाब)
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नज्दीक गुरुद्वारा नीम साहिब  
गांव आँकड़, डाकखाना सेहरा  
तहसील राजपुरा  
जिला पटियाला (पंजाब)-140701

**क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं**

6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
महल कलां-चप्पा रोड  
गांव लोहगढ़  
डाकखाना मिठेवाल-148020  
तहसील एवं जिला बरनाला (पंजाब)
7. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गुरुद्वारा नानक पुरी  
लौंगोवाल रोड  
नमोल-148106  
तहसील सुनाम  
जिला संगरूर (पंजाब)
8. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
संगरूर पातड़ा रोड  
गांव एवं डाकखाना सूलर-148035  
तहसील सुनाम  
जिला संगरूर (पंजाब)

9. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डीएसी, संगरूर-148001  
जिला संगरूर (पंजाब)

10. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
थुलीवल रोड  
गांव एवं डाकखाना हमीदी-148025  
तहसील एवं जिला बरनाला (पंजाब)

**क्षेत्र-4 के अधीन शाखाएं**

11. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
अमलोह रोड  
गांव खनिआन-147203  
डाकखाना एवं तहसील अमलोह  
जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)
12. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना संघोल-141128  
तहसील खमानों  
जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब)

**बठिंडा अंचल के अधीन शाखाएं**

**क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं**

13. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बस स्टैंड रोड  
गांव एवं डाकखाना टिओना  
तहसील एवं जिला बठिंडा-151001 (पंजाब)
14. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बादल रोड, गांव एवं डाकखाना गुड्डा  
जिला बठिंडा-151004 (पंजाब)

**क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं**

15. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने बस स्टैंड, इच्चेपाला रोड  
फिरोजपुर सिटी-152002  
जिला फिरोजपुर (पंजाब)
16. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फरीदकोट रोड  
कोटकपूरा-151204  
जिला फरीदकोट (पंजाब)
17. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
धर्मकोट रोड  
गांव एवं डाकखाना फतेहगढ़ पंजतूर-142051  
तहसील जीरा, जिला भोगा (पंजाब)
18. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कैलाश मार्किट, मेन रोड  
गांव एवं डाकखाना ममडोत-152023  
तहसील एवं जिला फिरोजपुर (पंजाब)



19. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना मंडी लाडुका  
तहसील फाजिल्का  
जिला फिरोजपुर (पंजाब) 152123
20. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक एसबीएस कालेज ऑफ  
इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी  
फिरोजपुर कैंट-152601  
जिला फिरोजपुर
- क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं**
21. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
साहवा रोड, सामने गांधी पार्क  
भादरा 335501  
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
22. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने न्यु ग्रेन मार्किट  
डबली रथन-335801  
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
23. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शाप नं. 18, न्यु धान मंडी,  
श्री गंगानगर रोड  
जिला हनुमानगढ़-335512 (राजस्थान)
24. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
न्यु ग्रेन मार्किट  
सामने एल आई सी आफिस  
मलौट-152107  
जिला मुक्तसर (पंजाब)
25. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शाप नं. 39, न्यु ग्रेन मार्किट रावतसर  
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
26. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कोर्ट रोड संगेरिया  
जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
27. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक बस स्टैंड  
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
28. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना कोटभाई  
तहसील मुक्तसर  
जिला मुक्तसर (पंजाब)
29. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
महाराजा अग्रसेन मार्ग  
वार्ड नं. 10, सादुल शहर 335062  
जिला श्री गंगानगर (राजस्थान)

**जालन्धर अंचल के अधीन शाखाएं****क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं**

30. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
होशियारपुर रोड  
आदमपुर-144102 (पंजाब)
31. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शास्त्री मार्किट  
जालन्धर-144001 (पंजाब)
32. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फोक्ल प्वाइंट, सर्विस इंडस्ट्री नं. 24  
ट्रांसपोर्ट नगर  
जालन्धर (पंजाब)
33. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
9, एकता विहार  
120 फीट कपूरथला रोड  
दिलबाग नगर एक्सटेंशन  
जालन्धर सिटी-144002 (पंजाब)
34. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
रामा मंडी, सेठी काम्पलैक्स  
होशियारपुर रोड  
जालन्धर-144005 (पंजाब)
35. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जंडियाला (पर्सनल बैंकिंग) फिल्लौर  
डाकखाना जंडियाला-144303 (पंजाब)
36. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सैनिक स्कूल, कपूरथला (पंजाब)
37. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना फोलारीवाला  
तहसील एवं जिला जालन्धर (पंजाब) 144022

**क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं**

38. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जोशी काम्पलैक्स  
नजदीक गुरु नानक देव अस्पताल  
मजीठा रोड  
अमृतसर 143004 (पंजाब)
39. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने मिलाप टैंट हाऊस  
नजदीक नामधारी कंडा  
तरनतारन रोड, अमृतसर (पंजाब)
40. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डायनेस्टी टावर  
सर्कुलर रोड  
अमृतसर (पंजाब)

41. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
8720, स्कीम नं.-1  
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कालोनी  
बयाला रोड  
गुरदासपुर 143521 (पंजाब)
42. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मेन बाजार, खेमकरन  
तहसील पट्टी  
जिला तरन तारन 143419 (पंजाब)
43. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
पीजे रोड, नरोट जैमल सिंह  
जिला पठानकोट
44. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
पनीअर, तहसील एवं जिला गुरदासपुर (पंजाब)
45. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कालेज रोड कादियां  
तहसील कादियां-143516  
जिला गुरदासपुर (पंजाब)
46. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
रईया मंडी, रईया  
डाकखाना रईया मंडी  
तहसील बाबा बकाला  
जिला अमृतसर-143112 (पंजाब)
47. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक शनी देव मंदिर  
डलहौजी रोड  
पठानकोट 145001  
जिला गुरदासपुर (पंजाब)
48. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सुजानपुर  
नजदीक पुलिस स्टेशन पठानकोट रोड  
जिला गुरदासपुर-145023 (पंजाब)
49. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सरहाली रोड  
तरन तारन  
जिला तरन तारन
50. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
थरा उपरला  
डाकखाना धार कलां  
तहसील पठानकोट  
जिला गुरदासपुर (पंजाब)-145027
51. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
वेरका  
सामने गुरुद्वारा नानकसर  
अमृतसर 143001

52. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक रेलवे स्टेशन  
गांव एवं डाकखाना झाको लेहरी  
तहसील एवं जिला पठानकोट (पंजाब) 145025

#### क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं

53. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना कादों  
तहसील पायल  
जिला लुधियाना-141421
54. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना हंस  
तहसील जगराओं  
जिला लुधियाना (पंजाब)-142026
55. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव बोपाराए खुर्द  
डाकखाना नथोवाल, तहसील रायकोट  
जिला लुधियाना (पंजाब)-142032
56. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना रामपुर-141418  
तहसील पायल  
जिला लुधियाना (पंजाब)

#### क्षेत्र-4 के अधीन शाखाएं

57. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
स्वामी सर्वानंद गिरी पंजाब यूनिवर्सिटी रिजनल सेंटर  
बजवाड़ा  
तहसील एवं जिला होशियारपुर
58. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
हरियाना-होशियारपुर  
दसूया रोड, हरियाना-144208
59. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने इनकम टैक्स आफिस  
माल रोड, होशियारपुर
60. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फगवाड़ा रोड  
होशियारपुर-151001
61. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना झिगर कलां  
अड्डा गरना साहिब  
पठानकोट रोड-144205  
तहसील दसूया
62. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
हल्टी मोर, नजदीक ई.टी.टी. बिल्डिंग  
चक शेखन, वार्ड नं.14  
कथुआ-184102

63. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने भरगावा डिग्री कालेज  
नेशनल हाईवे साँबा-184121
64. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक मेन बस स्टॉप  
गांव एवं डाकखाना शामचौरासी  
कथार रोड  
तहसील एवं जिला होशियारपुर
65. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मेन रोड, गांव राकड़ी  
डाकखाना दातापुर  
तहसील मुकेरियां  
जिला होशियारपुर (पंजाब)-144222
66. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नेशनल हाईवे  
नजदीक प्राईमरी हेल्थ सेंटर  
वार्ड नं. 1, बाड़ी ब्राहमणा-181133  
तहसील एवं जिला साँबा (जे एण्ड के)  
**महाप्रबन्धक (सीबी)**

67. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
लुधियाना कमर्शियल शाखा  
जी.टी.रोड, मिल्लर गंज  
लुधियाना 141003  
**उप महाप्रबन्धक (एस ए एम जी)**
68. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
प्लॉट नं. 137, प्रथम तल  
इंडस्ट्रीयल एरिया-ए  
लुधियाना 141003

#### चंडीगढ़ अंचल के अधीन शाखाएं

##### क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं

69. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बूथ नं. 1 2  
सेक्टर 49 बी  
चंडीगढ़

##### क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं

70. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
भगानी, तहसील पाऊंटा साहिब  
जिला सिरमौर (हि.प्र.)-173025
71. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
भूमिपति शिवालय चौक  
गांव एवं डाकखाना भूमिपति-173221  
तहसील अर्को  
जिला सोलन

72. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मेन बाजार, गांव एवं डाकखाना नरकंडा  
तहसील कुमारसेन  
जिला शिमला  
हिमाचल प्रदेश-171213
73. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
ऊच्छू काम्पलैक्स  
मेन बाजार, राजगढ़-173101  
जिला सिरमौर
74. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
प्रेम घाट, ठियोग-171201  
जिला शिमला
75. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना शलोगड़ा  
तहसील एवं जिला सोलन  
(हिमाचल प्रदेश)-173214
76. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना जयनगर  
तहसील अर्को  
जिला सोलन  
(हिमाचल प्रदेश)-173221

##### क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं

77. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक अमरदीप मोटर्स  
ऊना रोड  
गांव एवं डाकखाना अम्ब  
जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश)-177203
78. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मेन बाजार, किलांग  
जिला लाहौल एवं स्पिति
79. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
वार्ड नं. 4, ओल्ड मिशन रोड  
गोविन्दा शापिंग काम्पलैक्स  
दि माल, मनाली  
जिला कुल्लू-175131
80. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक तहसील आफिस  
मंडी पठानकोट हाईवे  
गांव एवं डाकखाना शाहपुर-176206
81. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नेशनल हाईवे-21  
चंडीगढ़ मनाली रोड  
गांव एवं डाकखाना शमशी-175126  
कुल्लू

**क्षेत्र-4 के अधीन शाखाएं**

82. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
रोपड़-माछीवाड़ा रोड  
गांव एवं डाकखाना बैहरामपुर बेट  
तहसील चमकौर साहिब  
जिला रूपनगर
83. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डैहर  
तहसील आनंदपुर  
जिला रूपनगर
84. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
घड़ूआं  
नजदीक पोस्ट आफिस  
गांव एवं डाकखाना घड़ूआं  
तहसील खरड़  
जिला एसएस नगर (पंजाब)
85. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
हंडेसरा  
तहसील राजपुरा  
जिला एस.ए.एस. नगर (पंजाब)-140502
86. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
खिजराबाद रोड  
गांव एवं डाकखाना सियालबा-140110  
तहसील खरड़  
जिला एसएस नगर
- महाप्रबन्धक (सीबी)**
87. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कमर्शियल शाखा  
एस सी ओ नं. 55 56  
सेक्टर 17ए  
चंडीगढ़ 160017

**हरियाणा अंचल के अधीन शाखाएं****क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं**

88. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
पंचकूला  
एस.सी.ओ. 113  
सेक्टर 25, भू तल  
पंचकूला
89. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
प्लॉट नं. 1234- एबी  
सामने रेडिस रेस्टोरेंट  
गांव एवं डाकखाना शाहजादपुर  
तहसील नारायणगढ़  
जिला अम्बाला (हरियाणा)

90. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने वाटर टैंक  
गांव सकेतड़ी  
डाकखाना पैसाटिब्बा  
तहसील एवं जिला पंचकूला

91. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
पंचकूला-नारायणगढ़ बाई पास रोड  
गांव एवं डाकखाना बरवाला  
तहसील एवं जिला पंचकुला  
(हरियाणा)-134118

**क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं**

92. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव अधोया, डाकखाना दीवाना  
तहसील पिहोवा  
जिला कुरुक्षेत्र
93. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शाप नं. 19 एवं 20, छोटी मार्किट,  
माडल टाउन  
करनाल-132001
94. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना खरकारा  
तहसील गुहला  
जिला कैथल-136034
95. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना गेयोंग  
तहसील एवं जिला कैथल  
(हरियाणा)-136027

**क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं**

96. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जींद रोड, गांव बोहटवाला  
डाकखाना दालमवाला  
तहसील एवं जिला जींद-126102
97. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आजाद नगर, राजगढ़ रोड,  
हिसार-125001
98. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना जंडली खुर्द  
तहसील फतेहाबाद  
ब्लाक भुना  
जिला फतेहाबाद (हरियाणा)
99. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
पटियाला रोड, नरवाना  
जिला जींद-126116

100. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना जल्लोपुर  
तहसील रतिया  
जिला फतेहाबाद (हरियाणा)-125051

101. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना राजली  
तहसील एवं जिला हिसार (हरियाणा)-125121

102. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक दुर्गा मंदिर  
गांव एवं डाकखाना जमालपुर शेखों  
तहसील टोहाना  
जिला फतेहाबाद (हरियाणा)-125120

#### क्षेत्र-4 के अधीन शाखाएं

103. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बवानी खेड़ा  
जिला भिवानी-127032

104. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
रोहतक रोड, चरखी दादरी  
जिला भिवानी

105. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बड़ौदा रोड, गोहाना  
जिला सोनीपत (हरियाणा)-124301

106. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जींद रोड  
लखन माजरा  
तहसील महम  
जिला रोहतक (हरियाणा)-124514

107. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नारनौल रोड  
मोहिन्द्रगढ़-123029  
जिला मोहिन्द्रगढ़ (हरियाणा)

108. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नीदाना  
जिला रोहतक-124513

109. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मिनी सचिवालय काम्पलैक्स  
दिल्ली हिसार रोड  
रोहतक 124001

110. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गांव एवं डाकखाना सिसर खास  
तहसील मेहम  
जिला रोहतक-124121

#### उप महाप्रबन्धक के नियंत्रणाधीन

111. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
रेलवे रोड  
करनाल-132001

#### दिल्ली अंचल के अधीन शाखाएं

##### क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं

112. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नई दिल्ली (दिलशाद गार्डन)  
488/6, नजदीक राधा कृष्णा मंदिर  
गुरु तेग बहादुर रोड  
दिल्ली

113. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डीएफ-139, शकरं रोड  
राजेन्द्र नगर  
नई दिल्ली

114. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
249-ए रामा मार्किट  
मुनिरका  
नई दिल्ली

115. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस. डी. गर्ल्स सीनियर सैकण्डरी स्कूल  
लाल मंदिर  
इस्ट पटेल नगर  
नई दिल्ली-110008

116. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
खसरा सं 74/31  
करनाल रोड  
सामने स्वामी शारदा नंद कॉलेज  
अलीपुर  
नई दिल्ली-110036

117. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शाप नं. 11 एवं 12  
मोहन भगवती शापिंग काम्पलैक्स  
नजदीक मैट्रो पिलर नं. 769  
उत्तम नगर, मेन नजफगढ़ रोड  
मोहन गार्डन,  
नई दिल्ली-110059

##### क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं

118. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फरीदाबाद एस्कोर्ट  
3, ई-14, एन. आई. टी.  
फरीदाबाद

119. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस.सी.ओ. 50  
हुड्डा मार्किट, सैक्टर-3  
फरीदाबाद, हरियाणा-121004

120. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस.सी.एफ नं. 42  
हुड्डा मार्किट, पार्ट-II सैक्टर-19  
फरीदाबाद, हरियाणा-121001
121. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
गुडगांव, सैक्टर-48  
ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक ए,  
आई आर आई एस टैक पार्क  
गुडगांव
122. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस.सी.ओ नं. 20  
हुड्डा मार्किट, सैक्टर-56  
गुडगांव
123. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जयबास  
गांव एवं डाकखाना झांव  
पाल रोड, तहसील लूनी  
जिला जोधपुर
124. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नागोर बाई पास रोड  
माजरा पंजाला, जोधपुर
125. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सामने परशुराम भवन  
मटौर रोड, खैरथल,  
तहसील किशनगढ़  
अलवर
126. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
1/ए/3, तलवंडी कोटा  
राजस्थान-324 005
127. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
तहसील रोड, बस स्टैंड  
नाथद्वारा  
जिला राजासमंद  
राजस्थान
128. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बस स्टैंड, नजदीक रेलवे क्रासिंग  
गांव एवं डाकखाना रायला  
तहसील बनेरा  
जिला भीलवाड़ा
129. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नजदीक एन टी पी सी मैट्रो मार्किट  
भारू झारली रोड  
गांव एवं डाकखाना झारली  
तहसील एवं जिला झज्जर  
(हरियाणा)-124 125

### क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं

130. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
दूबे काम्पलैक्स  
कंसिया रोड बेटियाहाटा  
गोरखपुर-273 001  
जिला गोरखपुर (यू.पी.)
131. स्टेट बैंक-ऑफ पटियाला  
जवाहर भवन  
16, अशोक मार्ग  
लखनऊ-226 001
132. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एसटी जोहन कॉलेज  
एम.जी.रोड  
आगरा-282 002 (उत्तर प्रदेश)

### क्षेत्र-4 के अधीन शाखाएं

133. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जी एम एस रोड शाखा, 748  
नजदीक बालीवाला चौक  
देहरादून
134. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कोर्ट रोड  
मुजफ्फरनगर
135. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
भूदाना रोड  
शामली  
मुजफ्फरनगर-247 776
- उप महाप्रबन्धक (एस ए एम जी)
136. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
दूसरी मंजिल  
चन्द्रलोक बिल्डिंग  
36, जनपथ  
नई दिल्ली

### मुम्बई अंचल के अधीन शाखाएं

#### क्षेत्र-1 के अधीन शाखाएं

137. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शिपरा सीएचएस लि.  
शॉप नं. 1, ग्राउंड फ्लोर, मुम्बई बोरीवली ईस्ट

#### क्षेत्र-2 के अधीन शाखाएं

138. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
237-240, बी. आर. काम्पलैक्स  
13वां क्रास, इंदिरा नगर  
बेंगलूर-560 038

139. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
929, 28 वां मेन रोड  
जे. पी. नगर, 9th ब्लॉक, जया नगर  
बेंगलूर-560 069

140. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
5-2-134, 1st फ्लोर  
आर.पी.रोड सिकन्दराबाद  
हैदराबाद-500 003

141. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
58-13-165, एन ए डी  
कोठा रोड जंक्शन  
विशाखापटनम-530 027

### क्षेत्र-3 के अधीन शाखाएं

142. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एलोरा सीएचएस  
प्लॉट नं. 27  
सैक्टर-11, सीबीडी  
बेलापुर

143. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बेंगलूर (इलैक्ट्रॉनिक सिटी)  
1/43/2, मीनाक्षी टावर्ज  
होसुर मेन रोड, इलैक्ट्रॉनिक सिटी  
सिंगासांद्रा  
बेंगलूर-560 068

144. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
1-99/14 मेन रोड, माधापुर  
हैदराबाद  
माधापुर-500 081

145. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
हैदराबाद कोत्तापेट क्रास रोड  
प्लॉट नं. 80, 81, 90, 91  
कौसथब-टावर्स  
सीटीओ कालोनी  
कोत्तापेट  
हैदराबाद-500 035

146. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बेंगलूर बानसवाड़ी  
21, ओम्बर लेआउट मेन रोड  
बानसवाड़ी  
बेंगलूर-560 043 (कर्नाटक)

147. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
कथा नं. 613 (ओल्ड नं. 7), स्क्वेयर नं. 2/1  
अनमोल कार्सन कोर्ट  
वाईट फील्ड  
मेन रोड, बेंगलूर-560 066

148. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
39/4164, प्रथम तल  
सीमा बिल्डिंग  
एम.जी.रोड, रविपुरम  
कोच्चि-682 016

149. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बेंगलूर (बशेश्वरा नगर)  
नं. 93 एम.एम.प्लाजा  
भीम ज्योति एल आई सी कालोनी  
वैस्ट ऑफ चोर्ड रोड, (बशेश्वरा नगर)  
बेंगलूर

150. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बेंगलूर (येलाहांका) (न्यू टाऊन)  
804, मिग बी सैक्टर  
मदर डेयरी रोड  
नजदौक पुलिस स्टेशन  
(येलाहांका) (न्यू टाऊन) बेंगलूर

151. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
237-240, बी आर काम्पलैक्स  
13वां क्रास, इंदिरा नगर  
बेंगलूर-560 038

152. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
5-2-134, प्रथम मंजिल  
राष्ट्रपति रोड  
सिकन्दराबाद  
आन्ध्रा प्रदेश-500 003

153. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
929, 28 वां मेन रोड  
जे.पी.नगर  
9 ब्लॉक, जया नगर  
बेंगलूर-560 069

154. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
58-13-165, एन ए डी  
कोठा रोड जंक्शन  
विशाखापटनम-530 027  
(आन्ध्रा प्रदेश)

155. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
क्षिप्रा सीएचएस लि.  
शॉप नं. 1  
ग्राउंड फ्लोर  
मुम्बई बोरोवला इस्ट

156. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एलोरा सीएचएस प्लॉट नं. 27  
सैक्टर-11, सीबीडी  
बेलापुर (महाराष्ट्र)

**क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अधीन शाखाएं**

157. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शिपरा सीएचएस लि.  
शॉप नं. 1, भू तल  
गार्डन वयु काम्पलैक्स  
एसटी बस डिपो  
नैनसी कालोनी  
नजदीक एसजीएनपी वीर सावर्कर मार्ग  
बोरीवली (ईस्ट)  
मुम्बई 400066  
जिला मुम्बई (महाराष्ट्र)

**क्षेत्रीय कार्यालय-3 के अधीन शाखाएं**

158. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एलोरा सीएचएस प्लॉट नं. 27  
सैक्टर-11, सीबीडी बेलापुर  
नवी मुम्बई-400614  
जिला ठाने (महाराष्ट्र)
159. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
13, आर्केड, वर्ड ट्रेड सेंटर  
कफ परेड, मुम्बई-400005  
जिला मुम्बई (महाराष्ट्र)

**क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई**

- 159ए. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सहायक महाप्रबन्धक  
क्षेत्रीय कार्यालय-3  
13, आर्केड, वर्ड ट्रेड सेंटर  
कफ परेड, मुम्बई-400005

**दिल्ली अंचल के अधीन शाखाओं की सूची****क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अधीन शाखाएं**

160. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
488/6  
नजदीक राधा कृष्णा मंदिर  
गुरु तेग बहादुर रोड  
दिलशाद गार्डन  
नई दिल्ली 110095
161. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डीएफ 139, शंकर रोड  
राजेन्द्र नगर  
नई दिल्ली 110060
162. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
249 ए, रामा मार्किट  
मुनिरका  
नई दिल्ली 110067

**क्षेत्रीय कार्यालय-2 के अधीन शाखाएं**

163. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
भू-तल, ब्लॉक ए  
आई आर आई एस टैक पार्क  
सैक्टर-48  
गुडगांव-122018  
जिला गुडगांव (हरियाणा)
164. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस.सी.ओ. नं. 20  
हुड्डा मार्किट, सैक्टर-56  
गुडगांव-122011  
जिला गुडगांव (हरियाणा)
165. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
नगौड बाई पास रोड, मगरा पंजाला  
नगौड रोड, जोधपुर-342001  
जिला जोधपुर (राजस्थान)

**क्षेत्रीय कार्यालय-3 के अधीन शाखाएं**

166. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
दुबे काम्पलैक्स  
केसिया रोड बेटियाहाटा  
गोरखपुर-273001  
जिला गोरखपुर (यू.पी.)

**क्षेत्रीय कार्यालय-4 के अधीन शाखाएं**

167. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जी एम एस रोड  
शाखा, 748, नजदीक बालीवाला चौक  
देहरादून-248001  
जिला देहरादून (उत्तराखंड)

**जालन्धर अंचल के अधीन शाखाओं की सूची****क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अधीन शाखाएं**

168. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
24 सर्विस इंडस्ट्री  
एच पी पेट्रोल पम्प के पीछे  
ट्रांसपोर्ट नगर, फोकल प्वाइंट,  
जालन्धर-144004  
जिला जालन्धर (पंजाब)

**क्षेत्रीय कार्यालय-2 के अधीन शाखाएं**

169. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
जोशी काम्पलैक्स  
नजदीक गुरु नानक देव अस्पताल  
मजीठा रोड  
अमृतसर-143004  
जिला अमृतसर (पंजाब)



170. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सरहाली रोड  
तरनतारन  
जिला तरनतारन (पंजाब)

171. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
मिलाप टैंट हाऊस के सामने  
नजदीक नामधारी कंडा  
तरनतारन रोड, अमृतसर  
जिला अमृतसर (पंजाब)

172. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
डायनैस्टी टावर  
सामने भविष्य निधि कार्यालय  
सर्कुलर रोड  
अमृतसर-143001  
जिला अमृतसर (पंजाब)

#### बठिंडा अंचल के अधीन शाखाओं की सूची

##### क्षेत्रीय कार्यालय-2 के अधीन शाखाएं

173. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बस स्टैंड के पीछे  
इचेवाला रोड  
फिरोजपुर सिटी-152002  
जिला फिरोजपुर (पंजाब)

174. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फरीदकोट रोड  
कोटकपूरा 151204  
जिला फरीदकोट (पंजाब)

#### चंडीगढ़ अंचल के अधीन शाखाओं की सूची

##### क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अधीन शाखाएं

175. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
बूथ नं. 1 2  
सेक्टर 49 बी  
चंडीगढ़ 160047  
जिला चंडीगढ़ (यू. टी.)

#### हरियाणा अंचल के अधीन शाखाओं की सूची

##### क्षेत्रीय कार्यालय-1 के अधीन शाखाएं

176. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
शु तल. एस. सी. ओ. 113  
सेक्टर 25  
पंचकूला 134116  
जिला पंचकूला (हरियाणा)

177. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
फतेहाबाद रोड  
गांव एवं डाकखाना जंडली खुर्द  
जिला फतेहाबाद (हरियाणा)

#### कार्यालयों/शाखाओं की सूची

178. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय  
120 चर्च रोड  
फिरोजपुर-152001

179. भारतीय स्टेट बैंक  
सीसीपीसी केन्द्र  
मिल्लरगंज शाखा परिसर  
लुधियाना-141003

180. भारतीय स्टेट बैंक  
सीसीपीसी सेंटर  
सिविल लाईंस  
जालंधर-144001

181. भारतीय स्टेट बैंक  
रायकोट  
लुधियाना-141109

182. भारतीय स्टेट बैंक  
रामसरा  
जिला बठिंडा-151301

183. भारतीय स्टेट बैंक  
गिल कलां  
जिला बठिंडा-151103

184. भारतीय स्टेट बैंक  
जीटी रोड करतारपुर  
जिला जालंधर-144801

185. भारतीय स्टेट बैंक  
मुल्लापुर ढाका  
जिला लुधियाना-141101

186. भारतीय स्टेट बैंक  
समराला रोड  
लुधियाना-141010

187. भारतीय स्टेट बैंक  
न्यू सब्जी मंडी  
पुरानी जीटी रोड  
जालंधर-144008

188. भारतीय स्टेट बैंक  
चंडीगढ़ रोड  
समराला  
जिला लुधियाना-141114

- |   |  |
|---|--|
| 189. भारतीय स्टेट बैंक<br>साहनेवाल<br>जिला लुधियाना-141120                                | 203. भारतीय स्टेट बैंक<br>औड़<br>जिला नवांशहर-144417               |
| 190. भारतीय स्टेट बैंक<br>भगता भाई का<br>जिला मुक्तसर-151206                              | 204. भारतीय स्टेट बैंक<br>अहमदगढ़<br>जिला संगरूर-148021            |
| 191. भारतीय स्टेट बैंक<br>ग्रेन मार्किट<br>बरिवाला<br>जिला मुक्तसर-152025                 | 205. भारतीय स्टेट बैंक<br>एनजीएम<br>दाना मंडी रोड<br>बरनाला-148101 |
| 192. भारतीय स्टेट बैंक<br>मुख्य बाजार<br>बस स्टैंड के नजदीक<br>अपरा<br>जिला जालंधर-144416 | 206. भारतीय स्टेट बैंक<br>महलकलां<br>जिला बरनाला-148104            |
| 193. भारतीय स्टेट बैंक<br>तलवंडी साबो<br>जिला बठिंडा-151301                               | 207. भारतीय स्टेट बैंक<br>संगत<br>जिला बठिंडा-151401               |
| 194. भारतीय स्टेट बैंक<br>बस स्टैंड, अबोहर<br>जिला फाजिल्का-152116                        | 208. भारतीय स्टेट बैंक<br>रामा मंडी<br>जालंधर-144008               |
| 195. भारतीय स्टेट बैंक<br>खुईयां सरवर<br>जिला फाजिल्का-152116                             | 209. भारतीय स्टेट बैंक<br>मीठापुर रोड<br>जालंधर-144008             |
| 196. भारतीय स्टेट बैंक<br>मलांवाला<br>जिला फिरोजपुर-152021                                | 210. भारतीय स्टेट बैंक<br>नकोदर रोड<br>जालंधर-144008               |
| 197. भारतीय स्टेट बैंक<br>बरेटा, जिला मानसा-151501  | 211. भारतीय स्टेट बैंक<br>लामबरा<br>जालंधर-144026                  |
| 198. भारतीय स्टेट बैंक<br>बुद्धलादा<br>जिला मानसा-151501                                  | 212. भारतीय स्टेट बैंक<br>जी टी रोड जगराओं<br>जालंधर-142026        |
| 199. भारतीय स्टेट बैंक<br>अजीतवाल<br>जिला मोगा-142053                                     | 213. भारतीय स्टेट बैंक<br>बसंत एवेन्यु<br>लुधियाना-141013          |
| 200. भारतीय स्टेट बैंक<br>धर्मकोट<br>जिला मोगा-142042                                     | 214. भारतीय स्टेट बैंक<br>हंबडा रोड<br>लुधियाना-141001             |
| 201. भारतीय स्टेट बैंक<br>निहालसिंहवाला<br>जिला फिरोजपुर-142055                           | 215. भारतीय स्टेट बैंक<br>एसबीएस नगर<br>लुधियाना-141001            |
| 202. भारतीय स्टेट बैंक<br>कोट इसेखान<br>जिला मोगा-142042                                  | 216. भारतीय स्टेट बैंक<br>सरदूलगढ़<br>जिला मानसा-151507            |

- |  |  |
|--|--|
| 217. भारतीय स्टेट बैंक<br>भिरखी<br>जिला मानसा-151504                     | 230. भारतीय स्टेट बैंक<br>बदानी कलां<br>जिला मोगा-142037                                     |
| 218. भारतीय स्टेट बैंक<br>बहराम<br>जिला नवांशहर-144504                   | 231. भारतीय स्टेट बैंक<br>खाई फेम के<br>जिला फिरोजपुर-152003                                 |
| 219. भारतीय स्टेट बैंक<br>कूल रोड<br>जालंधर-144008                       | 232. भारतीय स्टेट बैंक<br>लादुका मंडी<br>फाजिल्का-152123                                     |
| 220. भारतीय स्टेट बैंक<br>एनआरआई शाखा<br>रेलवे रोड<br>नवांशहर-144514     | 233. भारतीय स्टेट बैंक<br>ग्रेन मार्किट<br>फाजिल्का-152123                                   |
| 221. भारतीय स्टेट बैंक<br>बस्ती अड्डा रोड<br>जालंधर-144021               | 234. भारतीय स्टेट बैंक<br>कोचर मार्किट<br>लुधियाना-141001                                    |
| 222. भारतीय स्टेट बैंक<br>एसएआरबी<br>सिविल लाइन्स<br>जालंधर-144001       | 235. भारतीय स्टेट बैंक<br>रूरल सीपीसी<br>फिल्लौर<br>जिला जालंधर-144410                       |
| 223. भारतीय स्टेट बैंक<br>एनआरआई शाखा<br>सिविल लाइन्स<br>लुधियाना-141001 | 236. भारतीय स्टेट बैंक<br>क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय<br>सिविल लाइन्स<br>लुधियाना-141001      |
| 224. भारतीय स्टेट बैंक<br>हादुर<br>जिला लुधियाना-142031                  | 237. भारतीय स्टेट बैंक<br>पाम रोज, जीटी रोड<br>जालंधर-474002                                 |
| 225. भारतीय स्टेट बैंक<br>डैल्लों<br>जिला लुधियाना-141418                | 238. भारतीय स्टेट बैंक<br>आरएसीपीसी<br>सिविल लाइन्स<br>लुधियाना-141001                       |
| 226. भारतीय स्टेट बैंक<br>सिहोड़ा<br>जिला लुधियाना-141413                | 239. भारतीय स्टेट बैंक<br>एसएमईसीपीसी<br>सिविल लाइन्स<br>लुधियाना-141001                     |
| 227. भारतीय स्टेट बैंक<br>बड़ा पिंड<br>जालंधर-144418                     | 240. भारतीय स्टेट बैंक<br>टीएफसीपीसी<br>सिविल लाइन्स, लुधियाना-141001                        |
| 228. भारतीय स्टेट बैंक<br>दोसांज कलां<br>जिला जालंधर-144502              | 241. भारतीय स्टेट बैंक<br>तनावग्रस्त आस्तियां निपटान शाखा<br>सिविल लाइन्स<br>लुधियाना-141001 |
| 229. भारतीय स्टेट बैंक<br>फतेहगढ़ पंजतूर<br>जिला मोगा-142051             | 242. भारतीय स्टेट बैंक<br>क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय<br>भागू रोड, बठिंडा-151001              |

243. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय  
सिविल लाइंस  
जालंधर-144001
244. भारतीय स्टेट बैंक  
कालुचक शाखा  
जिला जम्मू  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
245. भारतीय स्टेट बैंक  
रामनगर शाखा  
जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
246. भारतीय स्टेट बैंक  
एयरफोर्स स्टेशन  
उधमपुर शाखा  
जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
247. भारतीय स्टेट बैंक  
उधमपुर शाखा  
जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
248. भारतीय स्टेट बैंक  
गढ़ी शाखा, जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
249. भारतीय स्टेट बैंक  
चिनार कम्पाउंड  
उधमपुर, जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
250. भारतीय स्टेट बैंक  
डनसाल शाखा  
जिला उधमपुर  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
251. भारतीय स्टेट बैंक  
नगरोटा शाखा  
जिला जम्मू  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
252. भारतीय स्टेट बैंक  
रनसू शाखा  
जिला रियासी  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
253. भारतीय स्टेट बैंक  
भरख शाखा  
जिला रियासी  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)

254. भारतीय स्टेट बैंक  
पौणी शाखा  
जिला रियासी  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
255. भारतीय स्टेट बैंक  
ज्योतिपुरम शाखा  
जिला रियासी  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)
256. भारतीय स्टेट बैंक  
रियासी शाखा  
जिला रियासी  
(जम्मू एवं कश्मीर राज्य)

#### पंजाब एंड सिंध बैंक

257. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांधीनगर  
तहसील रोड  
निकट डाक बंगला  
सिधौली जिला सीतापुर (उ.प्र.)  
पिन-261303
258. पंजाब एंड सिंध बैंक  
रेलवेगंज  
हरदोई (उ.प्र.)  
पिन-241001
259. पंजाब एंड सिंध बैंक  
अमर होटल बिल्डिंग  
कचहरी रोड  
रायबरेली (उ.प्र.)  
पिन-229001
260. पंजाब एंड सिंध बैंक  
आई हास्पिटल रोड  
वोल्गा बिल्डिंग  
सीतापुर (उ.प्र.)  
पिन-261001
261. पंजाब एंड सिंध बैंक  
खीरों  
तहसील लालगंज  
जिला रायबरेली (उ.प्र.)  
पिन-229205
262. पंजाब एंड सिंध बैंक  
के-2, राजधानी पार्क  
मैट्रो पिल्लर 455 के सामने  
मुण्डका  
नई दिल्ली-110041

263. पंजाब एंड सिंध बैंक  
आर जेड 149/2  
खुर्द, मंगोलपुरी  
नई दिल्ली-110083
264. पंजाब एंड सिंध बैंक  
प्लॉट नं-5, पॉकेट-5  
प्रथम तल  
पंकज सैन्ट्रल प्लाजा  
के एम चौक, सैक्टर-12  
द्वारका  
नई दिल्ली-110075
265. पंजाब एंड सिंध बैंक  
48 ए, नरेला रोड  
मेन चौक बबाना  
नई दिल्ली-110039
266. पंजाब एंड सिंध बैंक  
साहिब जादा झुजार सिंह एवेन्यू  
अजनाला रोड  
अमृतसर  
पिन 143001
267. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव तलबंडी भंगेरियां  
जिला-मोगा  
पिन 140021
268. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव पंज ग्राही कलां  
जिला फरीदकोट  
पिन 151207
269. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव दीप सिंह वाला  
जिला फरीदकोट  
पिन 151212
270. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव लखों के बहराम  
जिला फिरोजपुर, पिन-152023
271. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव दिदारेवाला  
जिला-मोगा, पिन-142046
272. पंजाब एंड सिंध बैंक  
भूतल, शाप सं. 5 एवं 6  
सीटीओ सं. 4510/1  
पुणे मुम्बई रोड, चिचवड पुणे  
पिन 411019
273. पंजाब एंड सिंध बैंक  
भूतल, रचना एपीसेंटर  
शाप सं. 2ए, 64सी  
पुणे-मुम्बई रोड  
शिवाजी नगर  
पुणे  
पिन-411005
274. पंजाब एंड सिंध बैंक  
हार्दिक कॉम्प्लैक्स  
सम्राट ग्रुप बिल्डिंग  
अम्बेडकर नगर के सामने  
नासिक-पुणे रोड, नासिक  
पिन-422006
275. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव व पोस्ट-जलालपुर  
टाण्डा कपूरथला रोड  
जिला-होशियारपुर  
पिन-144304
276. पंजाब एंड सिंध बैंक  
नवांशहर रोड, राहों  
पोस्ट ऑफिस-राहों  
जिला शहीद भगत सिंह नगर  
पिन-144517
277. पंजाब एंड सिंध बैंक  
एन. एच-74  
समीप मारवाड़ी धर्मशाला  
रुद्रपुर रोड  
किच्छा  
जिला-उधमसिंह नगर (उत्तराखंड)  
पिन-263148
278. पंजाब एंड सिंध बैंक  
स्टेशन रोड  
पीडब्ल्यूडी के सामने  
गजरौला  
जिला जे. पी. नगर (उ.प्र.)  
पिन-244235
279. पंजाब एंड सिंध बैंक  
मेहराज  
तहसील-फूल  
जिला-बठिण्डा
280. पंजाब एंड सिंध बैंक  
पेहोवा, 44, सुपर मार्किट  
नजदीक बस स्टैंड  
पेहोवा-136128

281. पंजाब एंड सिंध बैंक  
जींद, एससीओ-5  
डीआरडीए के सामने  
हुड्डा कॉम्पलैक्स  
जींद 126102
282. पंजाब एंड सिंध बैंक  
कैथल  
पेहोवा चौक, आर.वी.प्लाजा  
कैथल 136027
283. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गोला  
मार्फत ई. मैक्स संस्थान  
कालपी बदौली रोड  
जिला अंबाला, हरियाणा
284. पंजाब एंड सिंध बैंक  
शक्तिभवन  
साई रोड  
बद्दी, (हिमाचल प्रदेश)  
पिन 173205
285. पंजाब एंड सिंध बैंक  
लांडरा रोड  
नजदीक बस स्टैंड  
सनेटा, जिला मोहाली  
पिन 140306
286. पंजाब एंड सिंध बैंक  
नडाला रोड,  
भोलथ  
जिला कपूरथला  
पिन 144622
287. पंजाब एंड सिंध बैंक  
रेलवे रोड  
आदमपुर  
जिला जालंधर  
पिन 144102
288. पंजाब एंड सिंध बैंक  
मेन ढिलवां रोड  
ग्राम व पोस्ट ढिलवां  
जिला कपूरथला  
पिन 144804
289. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव खेड़ा  
पोस्ट आफिस-चाचोकी  
तहसील फगवाड़ा  
जिला कपूरथला  
पिन 144632
290. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव व डाकखाना-बलबेड़ा  
चीका रोड  
तहसील और जिला-पटियाला
291. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव व डाकखाना-लाड बंजारा  
तहसील सुनाम  
जिला-संगरूर
292. पंजाब एंड सिंध बैंक  
गांव व डाकखाना-काल बंजारा  
तहसील सुनाम  
जिला-संगरूर
293. पंजाब एंड सिंध बैंक  
सी-3ए, होटल स्वागत  
रीको चौक  
भिवाड़ी, जिला-अलवर (राजस्थान)
294. पंजाब एंड सिंध बैंक  
शाखा अनंत राज टैंक पार्क  
सीपी-1, सैक्टर-8  
आई. एम. टी. मानेसर  
जिला गुडगांव (हरियाणा)
295. पंजाब एंड सिंध बैंक  
वीपीओ नसराली  
नजदीक इसरु  
तहसील-खन्ना  
जिला-लुधियाना, पिन-141414
296. पंजाब एंड सिंध बैंक  
तहसील रोड  
रायकोट  
नजदीक पेट्रोल पंप  
तहसील-रायकोट  
जिला लुधियाना
297. पंजाब एंड सिंध बैंक  
समराला रोड  
माछीवाड़ा  
तहसील-समराला  
जिला लुधियाना
298. पंजाब एंड सिंध बैंक  
होशंगाबाद रोड  
भोपाल (म.प्र.)
299. पंजाब एंड सिंध बैंक  
जी. के. प्लाजा  
18-एस.बी. रोड  
उलसूर, बंगलूर-560008

300. पंजाब एंड सिंध बैंक  
17/36, चौथा एवेन्यू  
अशोक नगर  
चैने 600083

301. पंजाब एंड सिंध बैंक  
76 6-3, तल मंजिल  
गांधीपुरम-2, राजामुण्डी

302. पंजाब एंड सिंध बैंक  
13 1-61/64, कात्यायनी  
हाई टैक काम्पलैक्स  
प्रथम तल, काकीनाडा-533001

303. पंजाब एंड सिंध बैंक  
तल मंजिल  
बोड्डुपल्ली काम्पलैक्स  
5 37 103.4/15  
ब्रोडिपेट, गुदूर-522002

304. पंजाब एंड सिंध बैंक  
121, राजाजी रोड  
शारदा बालमंदिर स्कूल के सामने  
सेलम 636007

305. पंजाब एंड सिंध बैंक  
आर्याभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एंड मैनेजमेंट  
पीओ पानागढ़ बाजार  
पानागढ़  
जिला-दुर्गापुर (प.ब.)  
पिन 713148

306. पंजाब एंड सिंध बैंक  
बजबज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी  
निश्चिंत पुर  
बजबज  
कोलकाता 700137

#### बैंक ऑफ इंडिया

#### मुंबई दक्षिण अंचल

307. बैंक ऑफ इंडिया  
फार्डिंग शाखा  
ओरिएन्टल बिल्डिंग 364  
डी. एन. रोड, फोर्ट  
मुंबई 400001

308. बैंक ऑफ इंडिया  
जे.जे. फ्लाईओवर शाखा  
211, शेरिफ देवजी स्ट्रीट  
महात्मा फुले मार्केट के नजदीक  
फोर्ट  
मुंबई 400003

309. बैंक ऑफ इंडिया  
शिवरी (पश्चिम) शाखा  
12, राजीव इंडस्ट्रियल इस्टेट  
टोकरसी जीवरे रोड  
शिवरी (पश्चिम)  
मुंबई-400015

#### खण्डवा

310. बैंक ऑफ इंडिया  
इंदिरा नगर शाखा  
राजस्थान भवन  
बहादुरपुर रोड  
बुरहानपुर  
जिला बुरहानपुर  
पिन-450331 (म. प्र.)

#### बोकारो

311. बैंक ऑफ इंडिया  
अलकापुरी चौक शाखा  
कार्मेल स्कूल के नजदीक  
पचम्बा मेन रोड  
अलकापुरी  
जिला- गिरिहीड  
झारखंड  
पिन-815301

312. बैंक ऑफ इंडिया  
पेटरवार शाखा  
ग्राम एवं डाकघर : पेटरवार  
जिला-बोकारो  
झारखंड

313. बैंक ऑफ इंडिया  
तुपकाडीह शाखा  
ग्राम एवं डाकघर-तुपकाडीह  
जिला-बोकारो, झारखंड पिन-829144

#### राजस्थान

314. बैंक ऑफ इंडिया  
चाकसू शाखा  
प्लॉट नं 70 पर दुकान कोटखावदा  
कस्बा-चाकसू, तहसील-चाकसू  
जिला- जयपुर  
(राजस्थान)-303901

315. बैंक ऑफ इंडिया  
जालोर शाखा  
प्लॉट नं. 13, एम.आई.जी. कॉलोनी  
राजेन्द्र नगर, जालोर  
(राजस्थान)-303901

## 316. बैंक ऑफ इंडिया

कूकस शाखा  
प्लॉट नं. 50 व 51 ए पर दुकान,  
साईबाबा मंदिर के सामने,  
मुख्य हाइवे रोड,  
गांव कूकस,  
तहसील-आमेर,  
जिला- जयपुर,  
(राजस्थान)-312605

## उज्जैन

## 317. बैंक ऑफ इंडिया

मनासा शाखा  
रामापुरा रोड,  
वार्ड नं. 15,  
स्टेट बैंक के पास, मनासा,  
जिला नीचम 458110 (म. प्र.),

## 318. बैंक ऑफ इंडिया,

सुसनेर शाखा  
डाक बंगले के पास, वार्ड नं. 12,  
इन्दौर-कोटा रोड, सुसनेर,  
जिला शाजापुर 456 447 (म. प्र.)

## 319. बैंक ऑफ इंडिया

आलोट शाखा  
स्टेशन रोड, वार्ड नं. 1,  
अनाज मंडी के सामने, आलोट,  
जिला खतलाम 457 114 (म. प्र.)

## भोपाल

## 320. बैंक ऑफ इंडिया

रेहटी शाखा  
रेहटी मेन रोड, बीजासन कॉलोनी,  
रेहटी 466 446 जिला-सिहोर (म. प्र.)

## 321. बैंक ऑफ इंडिया

कोलारस शाखा  
ए.बी. रोड कोलारस, जिला शिवपुरी,  
मध्य प्रदेश-447 770

## 322. बैंक ऑफ इंडिया

सोहागपुर शाखा  
सिविल कोर्ट के पास, मेन रोड  
सोहागपुर, जिला-होशंगाबाद,  
मध्य प्रदेश-461 771

## 323. बैंक ऑफ इंडिया

बाबई शाखा  
होशंगाबाद-पिपरिया, मेन रोड,  
श्री हित कॉम्प्लेक्स, बाबई,  
जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश-461 661

## रायगढ़ अंचल

## 324. बैंक ऑफ इंडिया

नेरल शाखा  
साने संकुल, साने वाडा,  
ब्राह्मण आली, पोस्ट नेरल,  
तालुका-कर्जत, जिला-रायगढ़,  
पिन-410 101

## 325. बैंक ऑफ इंडिया

श्रीवर्धन शाखा  
316, इंद्र धनुष,  
श्रीवर्धन एस. टी. स्टैंड के पास,  
पोस्ट एवं तालुका-श्रीवर्धन,  
जिला-रायगढ़

## 326. बैंक ऑफ इंडिया

नागोठने शाखा  
हारुस नं. 1533, प्लॉट नं. 6, सुभन अपार्टमेंट,  
बॉम्बे-गोवा-महाबलेश्वर रोड,  
नागोठने, तालुका-रोहा,  
जिला-रायगढ़ पिन-402 106

## नवी मुंबई

## 327. बैंक ऑफ इंडिया

कोपरखैरण शाखा  
शॉप नं. 3 7, मैनुल क्लासिक को. हॉ.सो. लिमि.,  
प्लॉट नं. 91, सेक्टर-04, स्टेशन रोड,  
कोपरखैरण, नवी मुंबई-400 709

## आगरा

## 328. बैंक ऑफ इंडिया

फतेहाबाद शाखा  
ब्लॉक आफिस के नजदीक,  
आगरा फतेहाबाद रोड,  
फतेहाबाद,  
जिला आगरा (उत्तर प्रदेश)  
पिन 283 121

## 329. बैंक ऑफ इंडिया

टुण्डला शाखा  
स्टेशन रोड, टुण्डला,  
जिला -फिरोजाबाद,  
उत्तर प्रदेश, पिन- 283 204

## 330. बैंक ऑफ इंडिया

खंदौली शाखा  
आगरा-अलीगढ़ हाईवे,  
ग्राम एवं पोस्ट खंदौली,  
जिला आगरा (उत्तर प्रदेश)  
पिन 283 126



**भुवनेश्वर**

331. बैंक ऑफ इंडिया  
भद्रक शाखा  
अपर्तीबिन्धा, टैक्सी स्टैण्ड के पास,  
तहसील रोड,  
भद्रक-756 100 (उड़ीसा)
332. बैंक ऑफ इंडिया  
जाजपुर रोड शाखा  
बाई पास रोड, वार्ड नं. 13,  
पोस्ट-जाजपुर रोड  
जिला जाजपुर, उड़ीसा-755 019
333. बैंक ऑफ इंडिया  
राजसुनाखला शाखा  
मेन रोड,  
ग्राम पोस्ट- राजसुनाखला,  
जिला-नयागढ़, उड़ीसा-752 065
334. बैंक ऑफ इंडिया  
टॉंगी शाखा  
प्लॉट सं. 844, 846,  
मेन रोड रा.मा., बस स्टॉप,  
टॉंगी, जिला- कटक, उड़ीसा-754 022
335. बैंक ऑफ इंडिया  
ढेंकानाल शाखा  
पो/जिला-ढेंकानाल,  
उड़ीसा-759 001
336. बैंक ऑफ इंडिया  
राजकनिका शाखा  
ग्राम/पोस्ट-राजकनिका,  
जिला-केन्द्रपाड़ा,  
उड़ीसा-754-220
337. बैंक ऑफ इंडिया  
कामाक्षनगर शाखा  
मेन रोड जगन्नाथ बाजार,  
कामाक्षनगर, जिला-ढेंकानाल  
उड़ीसा, पिन-759 018
338. बैंक ऑफ इंडिया  
बरगड़ शाखा  
प्लॉट नं. 1522/1926, वार्ड नं. 16,  
ग्रा/पो- बरगड़, जिला- बरगड़  
उड़ीसा-768 028
339. बैंक ऑफ इंडिया  
केन्द्रपाड़ा शाखा  
कॉलेज रोड  
पो-तिनिमुहानी, जिला-केन्द्रपाड़ा,  
उड़ीसा-754 211
340. बैंक ऑफ इंडिया  
पारलाखेमुंडी शाखा  
मेन रोड,  
बी. बी. राजु एवं सन्स पेट्रोल पम्प के बाजू में,  
पुराना बस स्टैण्ड, पारलाखेमुंडी,  
जिला- गणपति, उड़ीसा-761 200
341. बैंक ऑफ इंडिया  
नयागढ़ शाखा  
प्लॉट नं. 2159/3557,  
कॉलेज रोड, नयागढ़,  
डाकघर/जिला-नयागढ़,  
उड़ीसा-754 103
342. बैंक ऑफ इंडिया  
जगतसिंहपुर शाखा  
प्लॉट नं. 949,  
पेट्रोल पम्प के सामने,  
गांधी छक, जगतसिंहपुर,  
जिला-जगतसिंहपुर,  
उड़ीसा-754 103
343. बैंक ऑफ इंडिया  
भुवनेश्वर मिड कार्पोरेट शाखा  
एन-1/298, नयापल्लि,  
भुवनेश्वर-751 015
344. बैंक ऑफ इंडिया  
मर्कत नगर शाखा  
सेक्टर- 9, 5 बी/921,  
बिडानसी, सीडीए, कटक,  
जिला कटक,  
उड़ीसा- 753 014
345. बैंक ऑफ इंडिया  
निमपुर शाखा  
बिनायक, शिकारीपुर,  
निमपुर, जगतपुर  
जिला-कटक,  
उड़ीसा - 751 031
346. बैंक ऑफ इंडिया  
पटिआ शाखा  
प्लॉट नं. एनआईजी-II-203,  
कानन विहार फेज II,  
पटिआ, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751 031
347. बैंक ऑफ इंडिया  
गंगनगर, शाखा  
प्लॉट नं. 13,  
गंगनगर, यूनिट-VI  
भुवनेश्वर, जिला-खोर्धा,  
उड़ीसा-751 009

348. बैंक ऑफ इंडिया  
टंकपाणी रोड शाखा  
प्लॉट नं. 1293 (P),  
ब्रह्मेश्वर पाटना,  
टंकपाणी रोड, भुवनेश्वर,  
जिला खोर्धा, उड़ीसा-751 018
349. बैंक ऑफ इंडिया  
देवगड़ शाखा  
प्लॉट नं. 3398/4105,  
सरकारी बस अड्डा के पास,  
डाकघर/जिला-देवगड़ उड़ीसा-768 108
350. बैंक ऑफ इंडिया  
तमाण्डो शाखा  
प्लॉट नं. 735/854/1321/1128,  
तमाण्डो मार्केट,  
तमाण्डा, एनएच-5  
जिला खोर्धा,  
उड़ीसा 752 054
351. बैंक ऑफ इंडिया  
वेदव्यास शाखा  
प्लॉट नं. 775/2579, ब्रह्मणीतरंग,  
एन. एच. 215, टीसीआई के पास, वेदव्यास,  
राउरकेला, जिला- सुन्दरगड़, उड़ीसा-769 004
352. बैंक ऑफ इंडिया  
सुन्दरगड़ शाखा  
प्लॉट नं. 1097/1500,  
खाता सं. 237/67, पुराना सिनेमा रोड,  
रंगदीप, जिला-सुन्दरगड़  
उड़ीसा-770002
- सिंडिकेट बैंक, राजभाषा प्रभाग, प्रधान कार्यालय:**  
**मणिपाल-576 104**
353. सिंडिकेट बैंक  
गोवाडका शाखा  
द्वारा श्री बाबोभाई नागी भाई वागड़  
विलेज : गोवाडका  
तहसील : अमरेली  
जिला : अमरेली  
राज्य : गुजरात  
पिन : 365 601
354. सिंडिकेट बैंक  
कोयटा शाखा  
द्वारा कोयटा दूध सागर मंडली लिमिटेड  
ग्राम : कोयटा  
तहसील : पाटन  
जिला : पाटन  
राज्य : गुजरात  
पिन : 384 285
355. सिंडिकेट बैंक  
राजपुर खुर्द शाखा  
मकान नं. 111  
तिवोली गार्डन के पास  
राजपुर खुर्द गाँव  
जिला : दिल्ली  
राज्य : दिल्ली  
पिन : 110068
356. सिंडिकेट बैंक  
केंद्रीय प्रसंस्करण केन्द्र  
क्षेत्रीय कार्यालय, तीसरा तल  
भारती विद्यापीठ भवन  
एल बी एस मार्ग, नवीपेट  
जिला : पुणे  
राज्य : महाराष्ट्र  
पिन : 411030
357. सिंडिकेट बैंक  
लवाण शाखा  
सार्वजनिक धर्मशाला राजपूत समाज  
खादी आश्रम के पास  
बस स्टैंड  
लवाण  
जिला : दौसा  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 303004
358. सिंडिकेट बैंक  
झालरापाटन शाखा  
सी-112, द्वारकाधीश योजना  
भवानी मंडी रोड  
जिला : झालरापाटन  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 326023
359. सिंडिकेट बैंक  
बटवड़ा शाखा  
# 236 जी/873  
मेन रोड  
जिला : गुना  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 473222
360. सिंडिकेट बैंक  
सवारी शाखा  
# 142, तुमसर रोड  
विलेज : सवारी  
जिला : बालाघाट  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 481445

361. सिंडिकेट बैंक  
लशकरपुर शाखा  
लशकरपुर  
जिला : विदिशा  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 464001
362. सिंडिकेट बैंक  
लोनियाकरब शाखा  
परासिया रोड, आदर्श नगर  
लोनियाकरब  
तहसील : छिडवाड़ा  
जिला : छिडवाड़ा  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 480001
363. सिंडिकेट बैंक  
अरनियाखुर्द शाखा  
डाकघर : अरनियाखुर्द  
तहसील : सुजालपुर  
जिला : सुजालपुर  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 465336
364. सिंडिकेट बैंक  
खुशीपुर शाखा  
मेन रोड खुशीपुर  
डाकघर : अत्री  
जिला : बालाघाट  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 481337
365. सिंडिकेट बैंक  
हीरापुर शाखा  
राजहर रोड  
हीरापुर  
तहसील : बालाघाट  
राज्य : मध्य प्रदेश  
पिन : 481102
366. सिंडिकेट बैंक  
आदित्यनगर शाखा  
आदित्य जे.आर. एंड डिग्री कॉलेज बिल्डिंग  
आदित्य नगर  
चिल्ड्रेन्स पार्क रोड  
जिला : नेल्लूर  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 524002
367. सिंडिकेट बैंक  
बी.वी. नगर शाखा  
डोर नं. 26-1-1055  
नेल्लूर  
जिला : नेल्लूर  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 524004
368. सिंडिकेट बैंक  
अग्रणी जिला कार्यालय ऑंगोल  
पहला तल, जी एन टी रोड  
नेल्लूर बस स्टैंड के सामने  
ऑंगोल  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523001
369. सिंडिकेट बैंक  
अग्रणी जिला कार्यालय नेल्लूर  
16/32, जे.वी. स्ट्रीट  
नेल्लूर  
जिला : नेल्लूर  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 524001
370. सिंडिकेट बैंक  
एस एम ई ऑंगोल शाखा  
डोर नं. 37-1-385(7)  
ग्रैंड नेशनल ट्रंक रोड  
नेल्लूर बस स्टैंड के सामने  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523001
371. सिंडिकेट बैंक  
कोतपट्टनम शाखा  
डोर सं. 5-108  
कोतपट्टनम  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523286
372. सिंडिकेट बैंक  
मार्कापुर शाखा  
डोर सं. 7/282  
नेहरू स्ट्रीट  
पी.बी.सं. 5  
मार्कापुर  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523316

373. सिंडिकेट बैंक  
कुरिचेडू शाखा  
मेन रोड  
कुरिचेडू  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523304
374. सिंडिकेट बैंक  
सिंगरायकोंडा शाखा  
डोर सं. 9/149, श्री लक्ष्मी गणेश कांप्लेक्स  
सिंगरायकोंडा  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523101
375. सिंडिकेट बैंक  
इडुपुलपाडू शाखा  
मेन रोड, इडुपुलपाडू  
चिराला मंडल  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523190
376. सिंडिकेट बैंक  
स्वर्णा शाखा  
मेन बाजार स्वर्णा  
चिराला मंडल  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523170
377. सिंडिकेट बैंक  
तुरिमेल्ला शाखा  
डोर नं. 1/20  
तुरिमेल्ला  
गिड्डलूर मंडल  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523372
378. सिंडिकेट बैंक  
करवादी शाखा  
आंगोल मंडल, जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523182
379. सिंडिकेट बैंक  
कोरिसपाडु शाखा  
डोर नं. 6/53  
मेन रोड, कोरिसपाडु, मेदरमेटला द्वारा  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523212
380. सिंडिकेट बैंक  
पेदईर्लपाडु शाखा  
पी.सी. पल्ली मंडल  
पी.ओ. कणिगिरी  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523111
381. सिंडिकेट बैंक  
कानुमल्ला एम ई सी शाखा  
पेरुमल्लु कालोनी  
कानुमल्लु विलेज  
सिंगरायकोंडा मंडल  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523101
382. सिंडिकेट बैंक  
गुंडलापल्ली शाखा  
प्लॉट सं. 12  
एपीआईआईसी ग्रोथ सेंटर  
गुंडलापल्ली विलेज  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523272
383. सिंडिकेट बैंक  
पेल्लूर शाखा  
डोर नं. 5/98, मेन रोड  
मिल्क सेंटर के पीछे  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523272
384. सिंडिकेट बैंक  
मेनम्पाडु शाखा  
डो.नं. 6-50(3), तुर्पु बाजार  
संतनुतुलपाडु मंडल  
मेनम्पाडु विलेज  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523225
385. सिंडिकेट बैंक  
नरसिंगोलु शाखा  
झरुगुमल्लि मेन रोड, नरसिंगोलु विलेज  
जिला : प्रकाशम  
राज्य : आंध्र प्रदेश  
पिन : 523271

386. सिंडिकेट बैंक  
भंगेल शाखा  
# 114/2  
मेन रोड, जिला : गौतमबुद्ध नगर  
राज्य : उत्तर प्रदेश  
पिन : 201304

387. सिंडिकेट बैंक  
बनखण्डा शाखा  
जिला : गाजियाबाद  
राज्य : उत्तर प्रदेश  
पिन : 245201

388. सिंडिकेट बैंक  
इंदिरापुरम शाखा  
हाल नं. 2, प्लॉट सं. 8  
गौर ग्रैविटी मॉल, वैभव खंड, इंदिरापुरम  
जिला : गाजियाबाद  
राज्य : उत्तर प्रदेश  
पिन : 201010

#### केनरा बैंक

389. केनरा बैंक  
मलवल्ली  
नं. 772, एन.ई.एस. एक्स्टेशन  
तालुक कार्यालय के पास  
मड्या जिला  
मलवल्ली-571430  
कर्नाटक

390. केनरा बैंक  
के ई आर एस शाखा  
के ई आर एस बिल्डिंग  
एस आर पटना तालुक, मड्या जिला  
के आर सागर 571607  
कर्नाटक

391. केनरा बैंक  
के आर पेट शाखा  
के जे बी कांफ्लेक्स  
ए पी एम सी के सामने  
हासन मैसूर मेन रोड  
मड्या जिला  
कृष्णराजपेट 571426  
कर्नाटक

392. केनरा बैंक  
कारेकरे शाखा  
कृषि कॉलेज कैम्पस  
कारेकरे पोस्ट  
हासन जिला, कारेकरे- 573225  
कर्नाटक

393. केनरा बैंक  
महूर शाखा  
संजय कांफ्लेक्स  
पुराना एम सी रोड  
मंड्या जिला  
महूर-571428  
कर्नाटक

394. केनरा बैंक  
विद्यासागर शाखा  
एल आर कांफ्लेक्स  
विश्वेश्वरय्या रोड, विद्यानगर  
हासन-573202  
कर्नाटक

395. केनरा बैंक  
कुर्वेपुनगर शाखा  
प्रथम मेन, तीसरा क्रॉस  
कुर्वेपुनगर  
हासन-573201  
कर्नाटक

396. केनरा बैंक  
ए आई एम एम बी जी नगर शाखा  
श्री आदिचुंचनगिरि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस  
(एआईएमएस) कैम्पस  
नागमंगला तालुक  
बेंगलूर -मंगलूर राष्ट्रीय मार्ग  
बी जी नगर - 571448  
कर्नाटक

397. केनरा बैंक  
बी ई एम एल शाखा  
कूर्गल्ली  
मैसूर 570018  
कर्नाटक

398. केनरा बैंक  
इलंतिला शाखा  
मेन रोड, अदितड्का  
वाणिनगर  
इलंतिला-574241  
बेलतंगडी तालुक

399. केनरा बैंक  
पजीर शाखा  
4 84/एफ 586, प्रथम तल  
आर एल कॉम्प्लेक्स  
ग्राम चावडि, पजीर जंक्शन  
पजीर-574181  
बंटवाल तालुक

400. केनरा बैंक  
नरिंगाना शाखा  
प्रथम तल  
जीनत कॉम्प्लैक्स  
थौडुगोली क्रॉस  
नरिंगाना ग्राम व पोस्ट  
नरिंगाना- 575018  
बंटवाल तालुक
401. केनरा बैंक  
कौंडोट्टी शाखा  
टेलिफोन एक्सचेंज के सामने,  
कौंडोट्टी- 673 638
402. केनरा बैंक  
पुतियतेरु चिरक्कल शाखा  
सेंट्रल प्लाजा  
काटापल्ली रोड  
पुतियतेरु चिरक्कल  
कण्णूर- 670011
403. केनरा बैंक  
रामानाटुक्करा शाखा  
डोर नं. आर पी/5/856  
बी 6, शोला कॉम्प्लैक्स युनिवर्सिटी  
पिन - 673633
404. केनरा बैंक  
मट्टनूर शाखा  
बिल्डिंग नं 7/677/के  
तलशशरी रोड,  
मट्टनूर 670702
405. केनरा बैंक  
कूतुपरम्ब शाखा  
नादिया बिल्डिंग  
ओल्ड रोड जंक्शन के पास  
रिलयंस पेट्रोल पंप के सामने  
कूतुपरम्ब- 670643
406. केनरा बैंक  
अरीक्कोड शाखा  
VIII/381047  
नेलिप्पाकुंडन टावर्स  
अरीक्कोड 673639
407. केनरा बैंक  
कोडुवल्ली शाखा  
के पी 3/1156 बी  
कालीकट-वयनाड रोड कोडुवल्ली  
कोषिकोड 673 572
408. केनरा बैंक  
वडुकनच्चवेरी शाखा  
एच पी सी एल पेट्रोल पंप के पास  
पिन 678 683
409. केनरा बैंक  
मंजेश्वरम शाखा  
व्यापारी भवन, एन एच 17  
मेन रोड, होसंगडी जंक्शन  
मंजेश्वरम- 671323
410. केनरा बैंक  
त्रिक्कलंगोड शाखा  
शॉप नं टी जी पी II/534 डी  
प्रथम तल, तरकन बिल्डिंग  
त्रिक्कलंगोड  
मलप्पुरम जिला-676123
411. केनरा बैंक  
कोटोपाडम-I शाखा  
भूमि तल, होमियो डिसपेंसरी के सामने  
कोटोपाडम  
तिरुवियांकुन्नु पी ओ  
पालक्काड जिला-678601
412. केनरा बैंक  
पेरितलमण्णा अलशिफा अस्पताल शाखा  
अल-शिफा अस्पताल,  
पेरितलमण्णा -679322
413. केनरा बैंक  
ननंज़ा शाखा  
शॉप नं V/305-बी 17, प्रथम तल  
कणियेरी टावर्स, वेण्णियूर -तानूर रोड  
तेय्यला पी ओ  
मलप्पुरम जिला-676320
414. केनरा बैंक  
चंगरमकुलम शाखा  
प्रथम तल, एम के एम कॉम्प्लैक्स  
अराफा अस्पताल (पी) लि. के सामने  
चंगरमकुलम  
नन्नामुक्कु पी ओ  
मलप्पुरम जिला-679575
415. केनरा बैंक  
कण्णपुरम शाखा  
शॉप नं के पी V/486 क्यू व 486 आर  
प्रथम तल  
पावर कॉम्प्लैक्स  
कण्णपुरम पी ओ  
चेरुक्कुन्नु  
कण्णूर जिला 670301

416. केनरा बैंक

कुटिटपुरम शाखा

के पी XVII/1107,

दीरा टावर

एन एच 17 जंक्शन

कुटिटपुरम

मलप्पुरम जिला-679571

स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर

प्रधान कार्यालय

जयपुर

क्षेत्रीय कार्यालय, चित्तौड़गढ़

417. कलेक्ट्रेट सर्कल के पास

चित्तौड़गढ़-312001

मोरडी शाखा

418. ग्राम मोरडी

आर एस डब्ल्यू एम परिसर

एल एन जे नगर

उदयपुर रोड, मोरडी

जिला बांसवाड़ा-327001

भोपालगंज भीलवाड़ा

419. पोस्ट भोपालगंज

जिला भीलवाड़ा-311001

आर एन टी मेडीकल कॉलेज उदयपुर

420. आर एन टी मेडीकल कॉलेज परिसर

उदयपुर-313001

पीपलखूंट शाखा

421. पोस्ट ऑफिस पीपलखूंट

जिला प्रतापगढ़-327029

सार्क उदयपुर

422. एल आई सी बिल्डिंग

पटेल सर्कल

उदयपुर-313001

तलवाड़ा

423. पोस्ट ऑफिस तलवाड़ा

जिला बांसवाड़ा-327005

आर सी पी सी चित्तौड़गढ़

424. रीको इंडस्ट्रियल एरिया

चंदेरिया

चित्तौड़गढ़-312021

आर सी पी सी बांसवाड़ा

425. खादी ग्रामोद्योग भवन

राती तलाई

बांसवाड़ा-327001

मंडल कार्यालय श्रीगंगानगर (11.10.11)

426. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. दुदानी कटला, पुपना बस स्टैंड,

तारानगर, साहवा,

जिला चुरू (राजस्थान)

पिन-331302

427. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. भगत सिंह सर्किल के पास

पिलानी, तहसील चिड़ावा

जिला झुंझुनू (राजस्थान)

पिन-333031

428. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. अग्रवाल कंदोई धर्मशाला,

नजदीक रेलवे स्टेशन, कोलायत

जिला बीकानेर (राजस्थान)

पिन-334302

429. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. गौरीसर,

तहसील रतनगढ़

जिला चुरू (राजस्थान)

पिन-331022

430. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. गोलूवाला निवादान

तहसील पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

पिन-335802

431. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. बुहाना रोड, सूरजगढ़

तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राजस्थान)

पिन-333029

432. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. कोर्ट रोड, नजदीक रेलवे स्टेशन

भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

पिन-335501

433. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. झुंझुनू रोड,

उदयपुर वाटी, जिला झुंझुनू (राजस्थान)

पिन-333307

मंडल कार्यालय जयपुर

434. पंजाब नेशनल बैंक

शा. का. मुस्लिम सीनियर सेकण्डरी स्कूल,

मोती इंगरी रोड,

जयपुर (राजस्थान)

पिन-302004

435. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. जी-1, 270ए, ईपीआईपी  
सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र,  
तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर (राजस्थान)  
पिन- 302022
436. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. खुदरा आस्ति शाखा  
2, नेहरू प्लेस, टोंक रोड,  
जयपुर (राजस्थान)  
पिन 302015
437. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. मेहन्दीपुर बालाजी क पास  
मीना सीमला  
तहसील सिकराय,  
जिला दौसा (राजस्थान)  
पिन 303509
438. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. 15 पटेल नगर  
देवली, जिला टोंक (राजस्थान)  
पिन 304804
439. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. जयपुर रोड,  
महुआ, जिला दौसा (राजस्थान)  
पिन 321608
440. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. एयरफोर्स स्कूल,  
होटल होलीडे इन के पास, आमेर रोड,  
जयपुर (राजस्थान)  
पिन 302002
441. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. कृषि उपज मंडी समिति,  
मुहाना मंडी, तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर (राजस्थान)  
पिन 302029
442. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. खुदरा आस्ति शाखा  
एयरोड्रम सर्किल के पास, लाडपुरा,  
जिला कोटा (राजस्थान)  
पिन 324007
443. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. कृष्णा टाकीज के सामने,  
कोटपुतली  
तहसील सांगानेर,  
जिला जयपुर (राजस्थान)  
पिन 303108

444. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. एफ-66, झिलाई रोड  
निवाई  
जिला टोंक (राजस्थान)  
पिन- 304021

#### मंडल कार्यालय हमीरपुर

445. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. सैनिक स्कूल, सुजानपुर  
जिला हमीरपुर (हि.प्र.)  
पिन- 176110
446. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. हरोली  
जिला ऊना (हि.प्र.)  
पिन- 174301
447. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. समीरपुर  
जिला हमीरपुर (हि.प्र.)  
पिन 177601
448. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. झण्डूता  
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)  
पिन 174031
449. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. बंगाणा  
जिला ऊना (हि.प्र.)  
पिन 174307
450. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. घुमारवीं  
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)  
पिन 174021

#### मंडल कार्यालय काशीपुर

451. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. भवाली रोड, मल्लीताल,  
भीमताल, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)  
पिन 263136
452. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. स्टेशन रोड, गांधी चौक,  
धारचूला, जिला पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)  
पिन- 262545
453. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स,  
नानकमत्ता  
जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)  
पिन- 263153



454. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. डॉ. तूर्ण सर्जिकल अस्पताल कॉम्प्लेक्स  
किच्छा रोड सितारगंज,  
जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)  
पिन 262405
455. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. फुलेरा मार्केट  
द्वाराहाट  
जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)  
पिन 263653
456. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. डाक बंगला रोड,  
लोहाघाट,  
जिला चम्पावत (उत्तराखण्ड)  
पिन 262524
457. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. नैनीताल रोड, आई.आई.ई.  
रुद्रपुर  
जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड)  
पिन 263153

**मंडल कार्यालय करनाल**

458. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. बीडीओ कॉम्प्लेक्स  
खरखौदा  
जिला सोनीपत (हरियाणा)  
पिन 131402
459. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. गांव इसराना  
तहसील पानीपत  
जिला पानीपत (हरियाणा)  
पिन 132107

**मंडल कार्यालय दरभंगा**

460. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. दलसिंह सराय,  
जनपद समस्तीपुर  
(बिहार)
461. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. कलुआही,  
जनपद मधुबनी  
(बिहार)
462. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. वासुदेवपुर,  
जनपद दरभंगा  
(बिहार)

463. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. सिंगेश्वर स्थान,  
जनपद-मधेपुरा  
(बिहार)
464. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. रोसड़ा घाट,  
जनपद-समस्तीपुर  
(बिहार)
465. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. बिरौल,  
जनपद-दरभंगा  
(बिहार)
466. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. अलीनगर,  
जनपद-दरभंगा  
(बिहार)
467. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. मंगरौनी,  
जनपद-मधुबनी  
(बिहार)

**मंडल कार्यालय जबलपुर**

468. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. अनूपपुर  
मध्य प्रदेश  
पिन -484224
469. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. वारासिवनी  
मध्य प्रदेश  
पिन - 481331
470. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. परासिया  
मध्य प्रदेश  
पिन - 482441

**मंडल कार्यालय बुलंदशहर**

471. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. जी टी रोड,  
अलीगढ़  
पिन 202001
472. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. आवास विकास कॉलोनी,  
डीएम रोड,  
बुलंदशहर  
पिन - 203001

## 473. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. रामघाट रोड, क्वारसी,  
अलीगढ़ (उ.प्र.)  
पिन 202001

## मंडल कार्यालय उत्तरी दिल्ली

## 474. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. ए-9, आदर्श नगर,  
नई दिल्ली

## 475. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. डी-33, आचार्य निकेतन,  
मयूर विहार फेस-1  
दिल्ली

## 476. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. 352, मेन रोड  
घोंडा,  
दिल्ली

## 477. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. अनुष्का शॉपिंग मॉल,  
प्लॉट नं. 2, गर्ग ट्रेड सेंटर,  
सेक्टर 11, रोहिणी  
दिल्ली 110085

## 478. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. मकान नं. 1, पाकेट 8 बी,  
सेक्टर 15, रोहिणी,  
दिल्ली 110085

## 479. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. दिल्ली वित्त निगम,  
पंखा रोड  
औद्योगिक क्षेत्र जनकपुरी,  
नई दिल्ली

## 480. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. खसरा नं. 65, मेन भवन रोड,  
शाहबाद दौलतपुर,  
दिल्ली

## 481. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. ए 72, स्वरूप नगर,  
शिव मंदिर रोड,  
नई दिल्ली

## 482. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. खुदरा आस्ति शाखा,  
डी ब्लॉक, डीडीए मार्केट,  
आनन्द विहार,  
नई दिल्ली 110092

## मंडल कार्यालय लखनऊ

## 483. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. हैदरगढ़  
हैदरगढ़ बस स्टॉप के पास  
जिला बाराबंकी-227301

## 484. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. ग्राम ब्रह्मानी, ब्लॉक बहादुरपुर,  
जिला छत्रपति शाहूजी महाराज नगर  
पिन - 229202

## 485. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. राम राम बैंक चौराहा  
बी 1/48, सैक्टर-पी, अलीगंज  
जिला लखनऊ-226024

## 486. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. हैदरगढ़ रोड  
बछरावां  
जिला रायबरेली-229301

## 487. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. इंदिरा नगर,  
मुंशीपुलिया, लखनऊ-226016

## 488. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. बी-3/5, विजयंत खण्ड,  
गोमती नगर  
जिला लखनऊ-226010

## मंडल कार्यालय हरिद्वार

## 489. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. डाकघर गौचर,  
तहसील कर्णप्रयाग,  
जिला चमौली-246429

## 490. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. न्यू बस स्टैंड,  
रुद्रप्रयाग  
पिन 246171

## 491. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. बैंक आफिस,  
बी.टी. गंज रुड़की  
जिला हरिद्वार-257667

## 492. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. करेंसी चेस्ट,  
बी.टी. गंज  
जिला हरिद्वार 247667

## 493. पंजाब नैशनल बैंक

शा. का. डाकघर अगस्तमुनि विजय नगर  
तहसील-उखीमठ  
जिला रुद्रप्रयाग 266421

494. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. बैंक आफिस, मायापुर,  
देवपुरा  
जिला हरिद्वार-249401

495. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. करंसी चेस्ट,  
सेक्टर 4, बीएचईएल  
जिला हरिद्वार-249403

#### मंडल कार्यालय पटियाला

496. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. भवानीगढ़  
पटियाला संगरूर मेन रोड  
जिला संगरूर (पंजाब)  
पिन 148026

497. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. ताज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  
दिडुवा  
जिला संगरूर (पंजाब)  
पिन 148035

#### मंडल कार्यालय अमृतसर

498. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. खडूर साहिब  
जिला तरनतारन (पंजाब)

#### मंडल कार्यालय पुणे

499. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. डाकघर पिशुलेकर रोड  
कालीस्टो मेशन  
पंजिम,  
गोवा 403601

500. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. ब्रेफसीन रेसीडेंसी,  
अन्नाभट,  
मायूसा  
गोवा 403507

501. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. मानेकर हाऊस,  
हाटल पदमवी सदर,  
दादा त्रैद्य चौक,  
पोंडा,  
गोवा

502. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. तिम्वत्रो बिल्डिंग,  
न्यू मार्केट,  
मागगावा,  
गोवा 403061

503. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. सबरोज चैम्बर,  
एफ. एल. गोम्स रोड,  
गोवा- 403802

#### मंडल कार्यालय होशियारपुर

504. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. मजारी  
जिला नवांशहर  
पंजाब

505. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. खुदरा आस्ति शाखा  
चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर  
पंजाब

506. पंजाब नेशनल बैंक  
शा. का. पेंशन शाखा  
चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर  
पंजाब

#### आन्ध्रा बैंक

507. आन्ध्रा बैंक  
अशोक नगर शाखा  
47, फस्ट एवेन्यु,  
अशोक नगर,  
चेन्नै -600 083

508. आन्ध्रा बैंक  
कांयम्बतूर शाखा  
17, मिल स्ट्रीट,  
कांयम्बतूर : 641 001

509. आन्ध्रा बैंक  
तिरुच्चिरापल्ली शाखा  
लक्ष्मी काम्प्लेक्स,  
73 बी-1, सालै रोड  
तिल्लै नगर (पूर्वी),  
तिरुच्चिरापल्ली : 620 018

510. आन्ध्रा बैंक  
पाण्डिचेरी शाखा  
नं. 103 व 105,  
ईश्वरन कोइल स्ट्रीट,  
पी बी नं. 120,  
पाण्डिचेरी : 605 001

511. आन्ध्रा बैंक  
मदुरै शाखा  
221, सौथ मासी स्ट्रीट,  
मदुरै : 625 001

512. आन्ध्रा बैंक  
रामनगर शाखा  
229, सत्यमूर्ति रोड, रामनगर,  
कोयम्बतूर : 641 009
513. आन्ध्रा बैंक  
सेलम शाखा  
"नरसूस आर्कैड",  
53/24, II अग्रहारम,  
सेलम : 636001
514. आन्ध्रा बैंक  
शनायनगर शाखा  
नं. 5, कन्नियम्भन कोइल स्ट्रीट,  
चेन्नै : 600 030
515. आन्ध्रा बैंक  
टी. नगर शाखा  
पुराना नं. 65/1, नया नं. 129  
सर त्यागराया रोड  
टी. नगर,  
चेन्नै : 600 017
516. आन्ध्रा बैंक  
तिरुप्पुर शाखा  
नं. 164, कुमरन रोड,  
तिरुप्पुर, पिन : 641604
517. आन्ध्रा बैंक  
टूटीकोरीन शाखा  
नं. 64, बीच रोड, टूटीकोरीन : 628 002
518. आन्ध्रा बैंक  
वलसरवाक्कम शाखा  
115, आरकाट रोड,  
आल्वारतिरुनगर,  
वलसरक्कम चेन्नै : 87
519. आन्ध्रा बैंक  
के.के. नगर शाखा  
नं. 40, रामस्वामी रोड  
के. के. नगर,  
चेन्नै : 600 078
520. आन्ध्रा बैंक  
मौट रोड शाखा  
पुराना नं. 95, नया नं. 137,  
अण्णा. सालै,  
चेन्नै : 600 002
521. आन्ध्रा बैंक  
कडलूर शाखा  
पोस्ट बॉक्स नं. 46, नं. 5, नेल्लिकुप्पम मेन रोड  
सेम्मण्डलम  
कडलूर : 607 001
522. आन्ध्रा बैंक  
एसएमई शाखा  
नं. 800बी, पहली मंजिल,  
मेट्टुपालयम रोड, आर.एस.पुरम  
कोयम्बतूर : 641 002
523. आन्ध्रा बैंक  
एगमोर शाखा  
श्री कल्याणस स्कोयर, नया नं. 83  
पुराना नं. 52, पेंथियन रोड  
चेन्नै : 600 008
524. आन्ध्रा बैंक  
पीलमेडु शाखा  
386, कामराज रोड  
पीलमेडु  
कोयम्बतूर : 641004
525. आन्ध्रा बैंक  
ऊटी शाखा  
होटल चेरिंग क्रॉस  
गार्डन रोड  
ऊटी : 643 001
526. आन्ध्रा बैंक  
तिरुनेल्वेली शाखा  
55-ए, एस.एन. हाई रोड  
कैलासपुरम  
तिरुनेल्वेली : 627 001
527. आन्ध्रा बैंक  
दिण्डुकल शाखा  
वरदराज शापिंग काम्प्लेक्स  
प्रथम तल, शाप नं. 10  
अनेक्स नं. 7 मेन रोड  
दिण्डुकल : 624 001
528. आन्ध्रा बैंक  
पोल्लाची शाखा  
रामस्वामी गौंडर प्लाजा  
41 61, 62 कोयम्बतूर रोड  
पोल्लाची : 642002
529. आन्ध्रा बैंक  
रेड हिल्स शाखा  
नं. 1/990, प्रथम तल, बाय पास रोड, जी एन टी रोड  
रेड हिल्स, चेन्नै : 600 052
530. आन्ध्रा बैंक  
पोरूर शाखा  
पुराना नं. 13, नया नं. 5/6  
मौट पूनमल्ली हाई रोड  
देवी नगर, पोरूर, चेन्नै : 600116

531. आन्ध्रा बैंक  
करैकाल शाखा  
नं. 2 नेहरू स्ट्रीट  
करैकाल : 609 605
532. आन्ध्रा बैंक  
मदुरवायल शाखा  
नं. 1, आलप्पाक्कम - मदुरवायल मेन  
रोड, मदुरवायल, चेन्नै : 600 095
533. आन्ध्रा बैंक  
मण्णालनगर शाखा  
नं. 171, पूनमल्ली हाई रोड  
मण्णालनगर  
तिरुवल्लूर जिला,  
पिन : 602 001
534. आन्ध्रा बैंक  
शोलिंगनल्लूर शाखा  
13, 14 मेडवाक्कम मेन रोड  
शोलिंगनल्लूर  
चेन्नै : 600 119
535. आन्ध्रा बैंक  
विरुगम्बाक्कम शाखा  
कालियम्मन कोडल स्ट्रीट  
अन्नै महाल, विरुगम्बाक्कम  
चेन्नै : 600 092
536. आन्ध्रा बैंक  
ताम्बरम शाखा  
नं. 1, मुडुचूर रोड  
कृष्णा नगर  
पश्चिम ताम्बरम  
चेन्नै : 600 040
537. आन्ध्रा बैंक  
मुत्तुनगर शाखा  
प्लॉट नं. 309, 310  
कुर्रिंजि नगर, पहली गली  
चारथै रेलवे गेट के पास  
टूटीकोरीन : 628 002
538. आन्ध्रा बैंक  
जाफरखानपेट शाखा  
नया नं. 41, मास्क स्ट्रीट  
सैदापेट (पश्चिम)  
चेन्नै : 600 015
539. आन्ध्रा बैंक  
बागायम शाखा  
नं. 280, पी.जे. काम्प्लेक्स  
कमलाक्षीपूरम, बागायम  
वेल्लूर : 632 002
540. आन्ध्रा बैंक  
पेरुंगुडी शाखा  
32, फस्ट मेन रोड  
तिरुमलै नगर अनेक्स  
पेरुंगुडी  
चेन्नै : 600 096
541. आन्ध्रा बैंक  
पेरम्बूर शाखा  
3 व 4, पेपर मिल्स रोड  
पेरम्बूर- कोलतूर  
चेन्नै : 600 099
542. आन्ध्रा बैंक  
माडम्बाक्कम शाखा  
माडम्बाक्कम मेन रोड, हंसा गार्डन के पास  
माडम्बाक्कम  
चेन्नै : 600 073
543. आन्ध्रा बैंक  
रीटैल क्रेडिट शाखा  
नं. 95, प्रथम तल  
अण्णा सालै  
(मौंट रोड शाखा का प्रथम तल)  
चेन्नै : 600 002
544. आन्ध्रा बैंक  
आर.ए. पुरम शाखा  
पुराना नं. 17, नया नं. 31, लजारस चर्च  
रोड, आर.ए. पुरम,  
चेन्नै : 600 028
545. आन्ध्रा बैंक  
कील्पाक शाखा  
प्लॉट नं. ए-48, डोर नं. 2/75,  
न्यू आवडी रोड, कील्पाक,  
चेन्नै : 600 010
546. आन्ध्रा बैंक  
एसएआरएम शाखा  
आन्ध्रा बैंक बिल्डिंग्स,  
नं. 168, लिगि चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नै : 600 001
547. आन्ध्रा बैंक  
माम्बाक्कम शाखा  
नं. 3/330, माम्बाक्कम मेन रोड,  
आई ओ सी पेट्रोल बंक के पास,  
माम्काम्मक, चेन्नै : 600 048
548. आन्ध्रा बैंक  
अय्यप्पनतांगल शाखा  
प्लॉट नं. 4, ऑयल मिल के सामने,  
वीजीएन नगर, 'बी' फेस, चेन्नै : 600 056

549. आन्ध्रा बैंक  
कन्टोन्मेन्ट शाखा  
नं. 28, वार्नर्स रोड, कन्टोन्मेन्ट,  
ट्रिची : 620 001
550. आन्ध्रा बैंक  
फैव रोड्स शाखा  
संतोष टावर्स, नं. 75/1, त्रिदावन रोड,  
प्रणव अस्पताल के सामने  
नए बस अड्डे के पास,  
सेलम : 636 004
551. आन्ध्रा बैंक  
मध्य कैलाश शाखा  
कैंसर इन्स्टिट्यूट (डब्ल्यू आई ए)  
केम्पस,  
18, एस.पी.रोड, अडयार,  
नए बस अड्डे के पास,  
चेन्नै : 600 020
552. आन्ध्रा बैंक  
सी आर आर पालिटेक्निक शाखा  
एलूरु  
पश्चिम गोदावरी जिला  
आन्ध्र प्रदेश - 534 007
553. आन्ध्रा बैंक  
लक्ष्मीनगर शाखा  
मकान नं. 18-5-182  
लक्ष्मीनगर, गोदावरीखनी  
करीमनगर - 505209
554. आन्ध्रा बैंक  
अलवाल शाखा, ई सेवा के सामने  
के आर आर्केड, अलवाल  
सिकंदराबाद - 500 070
555. आन्ध्रा बैंक  
सेरिलिंगमपल्ली शाखा  
6-40, दुर्गा एस्टेट, दीप्तिश्रीनगर  
मदीनागुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल  
रंगा रेड्डी जिला - 500 049
556. आन्ध्रा बैंक  
एल बी नगर शाखा  
मकान नं. 3-4-477,  
एल बी नगर, हैदराबाद - 500 068
557. आन्ध्रा बैंक  
रिंग रोड शाखा  
8-145/146, प्लॉट नं. 3, सर्वे नं. 26/ए व 28ए,  
जिल्लेलगुडा विलेज रिंग रोड के पास  
सरूरनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला - 500 079
558. आन्ध्रा बैंक  
निजामपेट रोड शाखा  
निजामपेट रोड, हैदरनगर  
हैदराबाद - 500 079
559. आन्ध्रा बैंक  
नेताजी नगर शाखा  
प्लॉट नं. 14, विजयपुरी कॉलोनी  
काप्रा, नेताजी नगर, सिकंदराबाद
560. आन्ध्रा बैंक  
बंडलगुडा शाखा  
प्लॉट नं. 1/ए, 2,3, सर्वे नं. 11/5,  
शिवम एलाइट, भू तल, बंडलगुडा,  
हैदरशाहकोट, राजेंद्रनगर मंडल - 500 008
561. आन्ध्रा बैंक  
कोमपल्ली शाखा  
घ. नं. एनएच-7, नागपुर हाइवे  
कोमपल्ली, सिकंदराबाद - 500014
562. आन्ध्रा बैंक  
प्रगति नगर शाखा  
प्लॉट नं. 1239, 1240, नीरज निलयम  
प्रगति नगर, कुकटपल्ली, हैदराबाद - 500 090
563. आन्ध्रा बैंक  
नागारम शाखा  
सर्वे नं. 257, नागारम मेडन रोड,  
कोसरा मंडल, रंगारेड्डी जिला
564. आन्ध्रा बैंक  
परिगी शाखा, सर्वे नं. 290, बालाजी नगर  
कोडंगल × रोड, परिगी  
रंगारेड्डी जिला
565. आन्ध्रा बैंक  
जी पी आ ई सी शाखा  
जी पी आर नगर, नंद्याल रोड, कर्नूल, आन्ध्रा प्रदेश
566. आन्ध्रा बैंक  
वेंकटरमणा कालोनी शाखा  
मं. नं. 45/142-ए-27 ए  
मेन रोड, वेंकटरमणा कॉलोनी  
कर्नूल, आन्ध्र प्रदेश
567. आन्ध्रा बैंक  
एस आर के डिग्री कॉलेज शाखा  
श्रीनिवास नगर  
नंद्याल, आन्ध्र प्रदेश
568. आन्ध्रा बैंक  
बिधाननगर शाखा  
सीडी-28, सेक्टर-1  
साल्ट लेक, कोलकाता - 700 064

569. आन्ध्रा बैंक  
वराहनगर शाखा  
131 डीएच रोड, बरीशा  
कोलकाता- 700 008
570. आन्ध्रा बैंक  
डॉक्टर्स कॉलोनी शाखा  
के- 109, पीसी कॉलोनी  
हनुमान नगर  
पटना- 800 020
571. आन्ध्रा बैंक  
बेहाला शाखा  
250 डी एच रोड  
कोलकाता-700063
572. आन्ध्रा बैंक  
झरिया शाखा  
स्नेहा मैनेसन्स, सहारा इंडिया बिल्डिंग  
मेन रोड, झरिया, झारखंड
573. आन्ध्रा बैंक  
बोरिंग रोड शाखा  
मंगलम उत्सव हॉल, स्टील होम  
एस के पुरी पुलिस चौकी के नजदीक  
बोरिंग रोड, पटना- 800 001
574. आन्ध्रा बैंक  
विवेकानंद महिला महाविद्यालय शाखा  
131 डीएच रोड, बरीशा  
कोलकाता - 700 008
575. आन्ध्रा बैंक  
बारासात शाखा  
22/4, जैसोर रोड (दक्षिण)  
बारासात, उत्तरी 24 परगना  
पश्चिम बंगाल - 700 127
576. आन्ध्रा बैंक  
अगरतला शाखा  
श्री राम कॉम्प्लेक्स, पुराना थाना लेन  
कांसारिपट्टी अगरतला  
त्रिपुरा - 799 001

**सिंडिकेट बैंक, राजभाषा प्रभाग, प्रधान कार्यालय :**  
**मणिपाल-576104**

577. सिंडिकेट बैंक  
तिगाँव शाखा  
भुआरपुर रोड  
तिगाँव  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 101

578. सिंडिकेट बैंक  
अरुवा शाखा  
विलेज : अरुवा  
पीओ : चंदपुर  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 101
579. सिंडिकेट बैंक  
शाहपुरा शाखा  
सेक्टर 65 के पास  
बल्लभगढ़, शाहपुरा, जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 004
580. सिंडिकेट बैंक  
पन्हेडा खुर्द शाखा  
डाकघर : चाँदपुर  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 004
581. सिंडिकेट बैंक  
जनौली शाखा  
मंडकोल रोड  
विलेज : जनौली  
जिला : पलवल  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 102
582. सिंडिकेट बैंक  
फिरोजपुर नमक शाखा  
जेबीटी स्कूल के पास, मुख्य दिल्ली रोड  
जिला : मेवात (नूँह)  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 107
583. सिंडिकेट बैंक  
छरोडा शाखा  
पेट्रोल पंप के सामने  
तौरु - नूँह रोड  
छरोडा, जिला : मेवात (नूँह)  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 105
584. सिंडिकेट बैंक  
जमालपुर शाखा  
लार्ड कृष्णा इंजिनियरिंग कॉलेज  
पेट्रोल पंप के पास,  
जिला : गुड़गाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 502

585. सिंडिकेट बैंक  
झज्जर शाखा  
भगत सिंह चौक के पास  
वार्ड सं. 1  
जिला : झज्जर  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 124 103
586. सिंडिकेट बैंक  
लखुवास शाखा  
फ्लाट नं. 59  
मुख्य पलवल-सोहना रोड  
विलेज : सोहना  
जिला : गुडगाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 103
587. सिंडिकेट बैंक  
पियाला शाखा  
एच नं. 3, पियाला चौक  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 002
588. सिंडिकेट बैंक  
चंडू बुढेरा शाखा  
द्वारा यादव प्रापटीज  
मुख्य गुडगाँव झज्जर रोड  
विलेज : चंडू बुढेरा  
जिला : गुडगाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 123 505
589. सिंडिकेट बैंक  
अगोन शाखा  
तहसील : फिरोजपुर झिरका  
जिला : मेवात  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 104
590. सिंडिकेट बैंक  
जोनियावास शाखा, तहसील : फरुखनगर  
जिला : गुडगाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 504
591. सिंडिकेट बैंक  
रायपुर शाखा  
तहसील : सोहना  
जिला : गुडगाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 103
592. सिंडिकेट बैंक  
अंधोप शाखा  
तहसील : हाथिन  
जिला : पलवल  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 106
593. सिंडिकेट बैंक  
कादीपुर शाखा  
तहसील : गुडगाँव  
जिला : गुडगाँव  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 001
594. सिंडिकेट बैंक  
जवां शाखा  
तहसील : बल्लभगढ़  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 004
595. सिंडिकेट बैंक  
रूपड़का शाखा  
बस स्टैंड के पास  
तहसील : हाथिन  
जिला : पलवल  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 103
596. सिंडिकेट बैंक  
अडबर शाखा  
नूँह-होडल रोड  
अडबर  
तहसील : नूँह  
जिला : मेवात  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 122 107
597. सिंडिकेट बैंक  
असावटी विलेज शाखा  
तहसील : पलवल  
जिला : पलवल  
राज्य : हरियाणा  
पिन : 121 102
598. सिंडिकेट बैंक  
वाटिका शाखा  
बस स्टैंड के पास  
वाटिका  
तहसील : सांगानेर  
जिला : जयपुर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 303905



599. सिंडिकेट बैंक  
फतेहपुर शाखा  
द्वारा समोद फतेहपुर (बनसा)  
तहसील : चोमू  
जिला : जयपुर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 303806

600. सिंडिकेट बैंक  
डूंगरपुर शाखा  
हाइट हाऊस, विजय भवन  
कोठी रोड, लक्ष्मण ग्राउंड के पास  
जिला : डूंगरपुर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 314 001

601. सिंडिकेट बैंक  
जालोर शाखा  
प्लॉट सं. 11 का ब्लॉक I  
कस्तूरबा कॉलोनी  
भगोड़ा रोड  
जालोर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 343 001

602. सिंडिकेट बैंक  
मंडावर शाखा  
पुराना बस स्टैंड  
मेन मार्केट  
महुआ रोड  
मंडावर  
जिला : दौसा  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 321 609

603. सिंडिकेट बैंक  
बगर शाखा  
श्री बगर ब्राह्मण समाज  
क्षेत्रीय समिति, लिंक रोड  
बगर  
जिला : जयपुर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 303 007

604. सिंडिकेट बैंक  
चौमू शाखा  
पावर हाऊस के पास  
अनाज मंडी गेट के सामने  
चौमू  
जिला : जयपुर  
राज्य : राजस्थान  
पिन : 303 702

605. सिंडिकेट बैंक  
यडवनहल्ली शाखा  
रामा रेड्डी बिल्डिंग, यडवनहल्ली गेट  
बेंगलूर-होसूर रोड, यडवनहल्ली  
जिला : बेंगलूर ग्रामीण  
राज्य : कर्नाटक  
पिन : 562 107

606. सिंडिकेट बैंक  
फ्रेजर टाऊन शाखा  
23, सैंडर्स रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 576  
फ्रेजर टाऊन  
बेंगलूर  
जिला : बेंगलूर शहर  
राज्य : कर्नाटक  
पिन : 560 005

607. सिंडिकेट बैंक  
एम जी रोड शाखा  
207, नॉर्थ ब्लॉक  
मणिपाल सेंटर, डिकन्सन रोड, बेंगलूर  
जिला : बेंगलूर शहर  
राज्य : कर्नाटक  
पिन : 560 042

New Delhi, the 11th June, 2012

S.O. 2157.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987) the Central Government hereby notifies following branches/offices of Banks/ Financial Institutions/Insurance Companies under the control of Department of Financial Services, M/o Finance, whereof more than 80% officers/staffs have acquired working knowledge of Hindi.

Sl. No.	Name of Banks/Financial Institutes/Insurance companies (As per enclosed list)	Number of branches/offices
1.	State Bank of Patiala	177
2.	State Bank of India	79
3.	Punjab & Sind Bank	50
4.	Bank of India	46
5.	Syndicate Bank	36
6.	Canara Bank	28
7.	State Bank of Bikaner and Jaipur	09
8.	Punjab National Bank	81
9.	Andhra Bank	70
10.	Syndicate Bank	31
Total		607

[No. 11016/2/2012-Hindi]

C. P. DHAUNDIYAL, Jt. Director (O.I.)

**Region-1**

1. State Bank of Patiala  
Near Bus Adda  
Vill. Mardan Heri, P.O. Dakala  
Tehsil & Distt. Patiala (Punjab)
2. State Bank of Patiala  
Village Phagan Majra PO Nandpur Kesho  
Distt. Patiala (Punjab)
3. State Bank of Patiala  
V. Jalalpur-147 021  
PO Bahadurgarh  
Tehsil & Distt. Patiala

**Region-2**

4. State Bank of Patiala  
Amloh Road, Village Naura  
PO Dandrala Dhindsa  
Tehsil Nabha, Distt. Patiala
5. State Bank of Patiala  
Near Gurudwara Neem Sahib  
Vill. Akkar, PO. Sehra  
Tahsil Rajpura (Pb.)  
Pin-140 701

**Region-3**

6. State Bank of Patiala  
Mehal Kalan-Chhapa Rd.  
Village Lohgarh  
P.O. Mithewal-148 020  
Tehsil & Distt. Barnala (Punjab)
7. State Bank of Patiala  
Gurudwara Nanak Puri  
Longowal Road  
Namol-148 106, Tehsil: Sunam  
Distt. Sangrur (Punjab)
8. State Bank of Patiala  
Sangrur-Patran Road  
V.P.O. Sullar-148 035  
Tehsil: Sunam  
Distt. Sangrur (Punjab)
9. State Bank of Patiala  
DAC Sangrur-148001  
Distt. Sangrur (Punjab)
10. State Bank of Patiala  
Thuliwal Road  
V. & PO Rajli  
Tehsil & PO Hamidi-148 025  
Teh. & Distt. Barnala (Pb.)

**Region-4**

11. State Bank of Patiala  
Amloh Road  
Village Khanian-147 203  
P.O. & Teshil Amloh  
Distt. Fatehgarh Sahib (Punjab)
12. State Bank of Patiala  
V & P.O. Sanghol-141128  
Tehsil Khamano  
Distt. Fatehgarh Sahib (Punjab)

**Region-1**

13. State Bank of Patiala  
Bus Stand Road  
V. & P.O. Teona  
Tehsil & Distt. Bathinda-151 001 (Punjab)
14. State Bank of Patiala  
Badal Road-V. & P.O. Ghudda  
Distt. Bathinda (Punjab)-151 004

**Region-2**

15. State Bank of Patiala  
Opp. Bus Stand  
Ichewala Rd.  
Ferozepur City-152 002  
Distt. Ferozepur (Punjab)
16. State Bank of Patiala  
Faridkot Road  
Kotkapura-151 204  
Distt. Faridkot (Punjab)
17. State Bank of Patiala  
Dharamkot Road  
V & P.O. Fatehgarh Panjtoor-142 051  
Tehsil Zira  
Distt. Moga (Punjab)
18. State Bank of Patiala  
Kailash Market, Main Road  
V.P.O. Mamdot-152 023  
Tehsil & Distt. Ferozepur (Punjab)
19. State Bank of Patiala  
V & P.O. Mandi Ladhuka  
Tehsil Fazilka, Distt. Ferozepur (Punjab)-152 123
20. State Bank of Patiala  
Near SBS College of Engg. & Tech.  
Ferozepur Cantt.-152 601  
Distt. Ferozepur

**Region-3**

21. State Bank of Patiala  
Sahwa Road, Opp. Gandhi Park  
Bhadra-335501  
Distt. Hanumangarh (Raj.)

22. State Bank of Patiala  
Opp. New Grain Market  
Dabli Rathan-335801  
Distt. Hanumangarh (Raj.)
23. State Bank of Patiala  
Shop No. 18, New Dhan Mandi  
Sri Ganganagar Road  
Hanumangarh (Raj.)-335512
24. State Bank of Patiala  
New Grain Market  
Opp. LIC Office, Malout-152107  
Distt. Muktsar (Punjab)
25. State Bank of Patiala  
Shop No. 39, New Grain Market  
Rawatsar, Distt. Hanumangarh (Raj.)
26. State Bank of Patiala  
Court Road, Sangria  
Distt. Hanumangarh (Raj.)
27. State Bank of Patiala  
Near Bus Stand, Tibbi  
Distt. Hanumangarh (Raj.)
28. State Bank of Patiala  
VPO Kotbhai  
Teh. Mukatsar, Distt. Mukatsar (Punjab)
29. State Bank of Patiala  
Maharaja Aggarsen Marg  
Ward No. 10  
Sadul Shehar-335 062  
Distt. Sri Ganganagar (Rajasthan)

**Region-1**

30. State Bank of Patiala  
Hoshiarpur Road  
Adampur-144102 (Punjab)
31. State Bank of Patiala  
Shastri Market  
Jalandhar-144 001(Punjab)
32. State Bank of Patiala  
Focal Point Service Industry No. 24  
Transport Nagar  
Jalandhar (Punjab)
33. State Bank of Patiala  
9, Ekta Vihar, 120ft. Kapurthala Rd.  
Dilbagh Nagar Extn.  
Jalandhar City-144 002 (Punjab)
34. State Bank of Patiala  
Rama Mandi, Sethi Complex  
Hoshiarpur Road  
Jalandhar-144 005 (Punjab)

35. State Bank of Patiala  
Jandiala (Pers.Bkg.) Phillaur  
P.O. Jandiala-144 303 (Punjab)
36. State Bank of Patiala  
Sainak School  
Kapurthala (Punjab)
37. State Bank of Patiala  
V.&PO Pholariwala  
Tehsil & Distt. Jalandhar (Punjab)-144 022

**Region-2**

38. State Bank of Patiala  
Joshi Complex  
Near Guru Nanak Dev Hospital  
Majitha Road  
Amritsar-143 004 (Punjab)
39. State Bank of Patiala  
Opposite Milap Tent House  
Near Namdhari Kanda  
Tarn Taran Road  
Amritsar (Punjab)
40. State Bank of Patiala  
Dynasty Tower  
Circular Road  
Amritsar (Punjab)
41. State Bank of Patiala  
8/20, Scheme No.1,  
Improvement Trust Colony  
Batala Road  
Gurdaspur-143521 (Punjab)
42. State Bank of Patiala  
Main Bazar, Khemkaran  
Tehsil Patti  
Distt. Tarn Taran-143 419 (Punjab)
43. State Bank of Patiala  
PJ Road  
Narot Jaimal Singh  
Distt. Pathankot (Punjab)
44. State Bank of Patiala  
Panjar  
Teh. & Distt. Gurdaspur (Punjab)
45. State Bank of Patiala  
College RD., Qadian  
Teh. -Qadian-143 516  
Distt. Gurdaspur (Punjab)
46. State Bank of Patiala  
Rayya Mandi, Rayya  
P.O. Rayya Mandi  
Teh. Baba Bakala-143112  
Distt. Amritsar (Punjab)

47. State Bank of Patiala  
Near Shani Dev Mandir  
Dalhousie Rd.  
Pathankot-145 001  
Distt. Gurdaspur (Punjab)
48. State Bank of Patiala  
Sujanpur  
Near Police Station Pathankot Road  
Distt. Gurdaspur-145 023 (Punjab)
49. State Bank of Patiala  
Sarhali Road  
Tarn Taran  
Distt. Tarn Taran
50. State Bank of Patiala  
Thara Uprala  
PO Dhar Kalan  
The. Pathankot  
Distt. Gurdaspur (Punjab)-145 027
51. State Bank of Patiala  
Verka, Opp. Gurdwara Nanaksar  
Amritsar-143 001
52. State Bank of Patiala  
Near Railway Station  
V & PO Jhako Lahri  
Tehsil & Distt. Pathankot (Pb.)-145 025

**Region-3**

53. State Bank of Patiala  
V&PO Kaddon  
Tehsil Payal, Distt. Ludhiana-141 421
54. State Bank of Patiala  
V. & P.O. Hans  
Tehsil Jagraon  
Distt. Ludhiana (Pb.)-142 026
55. State Bank of Patiala  
Vill. Boparai Khurd  
PO: Nathowal, Tehsil Raikot  
Distt. Ludhiana (Pb.)-142 032
56. State Bank of Patiala  
V & PO Rampur-141 418  
Tehsil Payal  
Distt. Ludhiana (Punjab)

**Region-4**

57. State Bank of Patiala  
Swami Sarvanand Giri Pb.  
University Regional Centre  
Bajwara  
Teh. & Distt. Hoshiarpur
58. State Bank of Patiala  
Haryana Hoshiarpur-Dasuya Road  
Haryana-144 208

59. State Bank of Patiala  
Opposite Income Tax Office  
Mall Road  
Hoshiarpur
60. State Bank of Patiala  
Phagwara Road  
Hoshiarpur-151 001
61. State Bank of Patiala  
VPO Jhingar Kalan  
Adda Garna Sahib  
Pathankot Road-144 205  
Tehsil Dasuya
62. State Bank of Patiala  
Halti More, Near ETT Building  
Chak Sheikhan, Ward No. 14  
Kathua-184 102
63. State Bank of Patiala  
Opp. Bhargawa Degree College  
National Highway Samba-184 121
64. State Bank of Patiala  
Near Main Bus Stop  
V&PQ Sham Chaurasi, Kathar Road  
Teh. & Distt. Hoshiarpur
65. State Bank of Patiala  
Main Road  
V. Rakri, PO Datapur  
Tehsil Mukerian  
Distt. Hoshiarpur (Pb.)-144 222
66. State Bank of Patiala  
National Highway  
Near Primary Health Centre  
Ward No. 1  
Bari Brahmana-181 133  
Teh. & Distt. Samba (J&K)

**GM(CB)**

67. State Bank of Patiala  
Commercial Branch  
G.T. Road, Miller Ganj  
Ludhiana-141 003

**DGM(SAMG)**

68. State Bank of Patiala  
Plot No. 137, 1st Floor  
Ind. Area-A  
Ludhiana-141 003

**Region-1**

69. State Bank of Patiala  
Booth No. 1-2  
Sector 49-B  
Chandigarh

**Region-2**

70. State Bank of Patiala  
Bhagani, Teh. Paorita Sahib  
Distt. Sirmour (H.P.)-173 025
71. State Bank of Patiala  
Shivalaya Chowk  
VPO Bhumpti-173 221  
Tehsil Arki, Distt. Solan
72. State Bank of Patiala  
Main Bazar, VPO Narkanda  
Tehsil Numarsain  
Distt. Shimla, HP-171 213
73. State Bank of Patiala  
Uchhu Complex  
Main Bazar, Raigarh-173 101  
Distt. Sirmour
74. State Bank of Patiala  
Prem Ghat, Theog-171 201  
Distt. Simla
75. State Bank of Patiala  
V & PO Shalogra  
Tehsil & Distt. Solan  
(Himachal Pradesh)-173 214
76. State Bank of Patiala  
V & PO Jainagar  
Tehsil Arki, Distt. Solan  
(Himachal Pradesh)-173 221

**Region-3**

77. State Bank of Patiala  
Near Amardeep Motors  
Una Rd., VPO Amb  
Distt. Una HP-177 203
78. State Bank of Patiala  
Main Bazar, Keylong  
Distt. Lahaul & Spiti
79. State Bank of Patiala  
Ward No.4, Old Mission Rd.  
Govinda Shopping Complex  
The Mall, Manali  
Distt. Nalla-175 131
80. State Bank of Patiala  
Near Tehsil Office  
Mandi Pathankot Highway  
VPO Shalpur-176 206
81. State Bank of Patiala  
National Highway-21  
Chandigarh-Manali Road  
VPO Shamshi-175 126, Kullu

**Region-4**

82. State Bank of Patiala  
Ropar-Machhiwara Road  
VPO Behrampur Bet  
Tehsil Chamkaur Sahib  
Distt. Rupnagar
83. State Bank of Patiala  
Dher  
Teh. Anandpur  
Distt. Rupnagar
84. State Bank of Patiala  
Near Post Office  
VPO Gharuan, Tehsil Kharar  
Distt. SAS Nagar, Pb.
85. State Bank of Patiala  
Hawdesra,  
Teh. Rajpura  
Distt. S.A.S. Nagar  
(Punjab)-140 502
86. State Bank of Patiala  
Khijrabad Road  
VPO Sialba-140 110  
Tehsil Kharar  
Distt. SAS Nagar

**GM(CB)**

87. State Bank of Patiala  
Commercial Branch  
SCO No. 55-56  
Sector-17A  
Chandigarh-160 017

**Region-1**

88. State Bank of Patiala  
SCO 113, Sector 25  
Ground Floor  
Panchkula
89. State Bank of Patiala  
Plot No. 1234-AB, Opp. Reddish Restaurant  
VPO Shahdaspur  
Tehsil Narainagarh  
Distt. Ambala (Haryana)
90. State Bank of Patiala  
Opp. Water Tank, Village Saketri  
PO Dhanasa Tibba, Tehsil & Distt. Panchkula
91. State Bank of Patiala  
Panchkula-Naraingarh Bye-Pass Road  
V. & PO Barwala  
Tehsil & Distt. Panchkula  
(Haryana)-134 118

**Region-2**

92. State Bank of Patiala  
V. Adhoya, PO Diwana  
Tehsil Pehowa  
Distt. Kurukshetra
93. State Bank of Patiala  
Shop No. 19 & 20  
Choti Market, Model Town  
Karnal-132001
94. State Bank of Patiala  
VPO Kharkara  
Tehsil Guhla  
Distt. Kaithal-136034
95. State Bank of Patiala  
V.&PO Gcong  
Tehsil & Distt. Kaithal  
(Haryana)-136 027

**Region-3**

96. State Bank of Patiala  
Jind Road, V. Bohatwala  
PO Dalamwala  
Tehsil & Distt. Jind-126102
97. State Bank of Patiala  
Azad Nagar, Rajgarh Road  
Hisar-125001
98. State Bank of Patiala  
VPO Jandli Khurd  
Tehsil Fatehabad  
Block Bhuna  
Distt. Fatehabad (Haryana)
99. State Bank of Patiala  
Patiala Road Narwana  
Distt. Jind-126116
100. State Bank of Patiala  
V & PO Jallopur  
Tehsil Ratia  
Distt. Fatchabad (Haryana)-125 051
101. State Bank of Patiala  
V & PO Rajli  
Tehsil & Distt. Hisar (Haryana)-125 121
102. State Bank of Patiala  
Near Durga Mandir  
VPO Jamalpur Shekhan  
Tehsil Tohana  
Distt. Fatchabad (Haryana)-125 120

**Region-4**

103. State Bank of Patiala  
Bawani Khera  
Distt. Bhiwani-127032

104. State Bank of Patiala  
Rohtak Rd. Charkhi Dadri  
Distt. Bhiwani
105. State Bank of Patiala  
Baroda Road Gohana  
Distt. Sonapat (Haryana)-124301
106. State Bank of Patiala  
Jind Rd. Lakhan Majra  
Tehsil Maham, Distt. Rohtak  
Haryana-124514
107. State Bank of Patiala  
Narnaul Road, Mohindergarh-123 029  
Distt. Mohindergarh (Hry.)
108. State Bank of Patiala  
Nindana  
Distt. Rohtak-124513
109. State Bank of Patiala  
Mini Secretariat Complex  
Delhi-Hissar Road  
Rohtak-124001
110. State Bank of Patiala  
VPO Siser Khas  
Tehsil Mehram  
Distt. Rohtak-124121

**DGM-Controlled**

111. State Bank of Patiala  
Railway Road  
Karnal-132 001

**Region-1**

112. State Bank of Patiala  
New Delhi (Dilshad Garden)  
488/6, Near Radha Krishna Mandir  
Guru Teg Bahadur Delhi
113. State Bank of Patiala  
DF-139, Shankar Road  
Rajinder Nagar  
New Delhi
114. State Bank of Patiala  
249/A, Rama Market Munirka  
New Delhi
115. State Bank of Patiala  
S.D. Girls Senior Secondary School  
Lal Mandir, East Patel Nagar  
New Delhi-110 008
116. State Bank of Patiala  
Khasra # 74/31  
Kamal Road  
Opposite Swami Shardha Nand College  
Alipur, New Delhi-110036

117. State Bank of Patiala  
Shop No. 11 & 12  
Mohan Bhagwati Shopping Complex  
Near Metro Pillar No.769  
Uttam Nagar  
Main Najafgarh Road  
Mohan Garden  
New Delhi-110 059

**Region-2**

118. State Bank of Patiala  
Faridabad Escorts  
3, E-14, NIT, Faridabad
119. State Bank of Patiala  
SCO 50,  
Huda Market Sec. 03,  
Faridabad, (Haryana)-121 004
120. State Bank of Patiala  
SCF No.42, Huda Market  
Part II, Sec.-19  
Faridabad, Hry.-121001
121. State Bank of Patiala  
Gurgaon, Sector-48  
Ground Floor, Block-A  
IRIS Tech Park, Gurgaon
122. State Bank of Patiala  
SCO No. 20,  
Huda Market  
Sector 56, Gurgaon
123. State Bank of Patiala  
Jatabas, VPO Jhanwar  
Pal Road, Tehsil Luni  
Distt. Jodhpur
124. State Bank of Patiala  
Nagore Bye Pass Road  
Magra Punjala  
Jodhpur
125. State Bank of Patiala  
Opp. Parsuram Bhawan  
Matour Rd. Khairthal  
Tehsil Kishangarh Alwar
126. State Bank of Patiala  
1/A/3, Talwandi, Kota, Rajasthan-324005
127. State Bank of Patiala  
Tahsil Road, Bus Stand  
Nathdwara  
Distt. Rajasmand, Rajasthan
128. State Bank of Patiala  
Bus Stand, Near Railway Crossing  
VPO Rayla, Tehsil Banera  
Distt. Bhilwara

129. State Bank of Patiala  
Near NTPC Metro Market  
Bhau Jhorli Road  
V. & PO Jharli  
Tehsil & Distt. Jhajjar (Haryana)-124 125

**Region-3**

130. State Bank of Patiala  
Dubey Complex  
Kasia Road  
Betiahata, Distt. Go
131. State Bank of Patiala  
Jawahar Bhawan, 16 Ashok Marg  
Lucknow-226001
132. State Bank of Patiala  
St. John's College  
M.G. Road  
Agra-282 002 (UP)

**Region-4**

133. State Bank of Patiala  
GMS Road Branch, # 748  
Near Balliwala Chowk Dehradun
134. State Bank of Patiala  
131 Court Road, Muzaffarnagar
135. State Bank of Patiala  
Bhudana Road, Shamli  
Tehsil Muzaffarnagar-247776

**DGM (SAMC)**

136. State Bank of Patiala  
2nd Floor, Chanderlok Building  
36, Janpath  
New Delhi

**Region-1**

137. State Bank of Patiala  
Kshipra CHS LTD.  
Shop No. 1  
Ground Floor  
Mumbai (Borivali East)

**Region-2**

138. State Bank of Patiala  
237-240, B.R. Complex  
13th Cross, Indira Nagar  
Bangalore-560 038
139. State Bank of Patiala  
929, 29th Main Road  
J.P. Nagar, 9th Block  
Jaya Nagar  
Bangalore-560 069

140. State Bank of Patiala  
5-2-134, 1st Floor  
R.P. Road, Secunderabad  
Hyderabad-500 003

141. State Bank of Patiala  
58-13-165, NAD  
Kotha Road Junction  
Vishakhapatnam-530 027

#### Region-3

142. State Bank of Patiala  
Ellora CHS  
Plot No. 27, Sector 11  
CBD Belapur

143. State Bank of Patiala  
1/43/2, Meenakshi Towers  
Hosur Main Road  
Electronic City  
Singasandra, Bangalore-560 068

144. State Bank of Patiala  
1-99/14 Main Road  
Madhapur  
Hyderabad, Madhapur-500 081

145. State Bank of Patiala  
Hyderabad Kothapet Cross Road  
Plot No. 80, 81, 90, 91  
Kausthub Towers, CTO Colony  
Kothapet Hyderabad-500 035

146. State Bank of Patiala  
Bangalore Banaswadi  
21, Omber Layout  
Main Rd. Banaswadi,  
Bangalore-560 043 (Karnataka)

147. State Bank of Patiala  
Katha No. 613, (OLD No. 7),  
Sy. No. 2/1, Anmol Carlson Court  
White Field Main Rd.  
Bangalore-560 066

148. State Bank of Patiala  
39/4164, 1st Floor,  
Seema Buildings, M.G. Road  
Ravipuram Kochi-682 016

149. State Bank of Patiala  
NO. 93 M.M. Plaza, Bhima Jyothi LIC Colony  
West of Chord Road  
Bangalore (Bashveshwara Nagar)

150. State Bank of Patiala  
804, MIG B Sector  
Mother Dairy Road  
Near Police Station  
Yelahanka  
New Town Bangalore

151. State Bank of Patiala  
B.R. Complex  
237-240, II Stage  
Indira Nagar, Bangalore  
Karnataka

152. State Bank of Patiala  
5-2-134  
1st Floor  
Rashtrapati Road  
Secunderabad  
Andhra Pradesh

153. State Bank of Patiala  
1347, 1st Floor  
Southend Road  
3rd Phase  
J.P. Nagar  
Karnataka

154. State Bank of Patiala  
58-13, 165  
Nad Kotha Road  
Vishakhapatnam Junction

155. State Bank of Patiala  
Kshipra CHS LTD.  
Shop No. 1  
Ground Floor  
Mumbai (Borivali East)

156. State Bank of Patiala  
Ellora CHS  
Plot No. 27, Sector 11  
CBD Belapur

#### Region-1

157. State Bank of Patiala  
Kshipra CHS Ltd.  
Shop No. 1, Ground Floor  
Garden View Complex  
ST Bus Depot, Nancy Colony  
Near SGNP Veer Savarkar Marg  
Borivali (East)  
Mumbai-400 066  
Distt. Mumbai (Maharashtra)

#### Region-3

158. State Bank of Patiala  
Ellora CHS, Plot No. 27  
Sector-11, CBD Belapur  
Navi Mumbai-400 614  
Distt. Thane (Maharashtra)

159. State Bank of Patiala  
13, Arcade, World Trade Centre  
Cuffe Parade  
Mumbai-400 005  
Distt. Mumbai (Maharashtra)



**Regional Office, Mumbai**

State Bank of Patiala

Asstt. General Manager

Regional Office-3

13, Arcade, World Trade Centre

Cuffee Parade, Mumbai-400 005

**Region-1**

160. State Bank of Patiala  
488/6  
Near Radha Krishna Mandir  
Guru Teg Bahadur Road  
Dilshad Garden, New Delhi-110 095

161. State Bank of Patiala  
DF-139, Shankar Road  
Rajinder Nagar  
New Delhi-110 060

162. State Bank of Patiala  
249-A, Rama Market  
Munirka  
New Delhi-110 067

**Region-2**

163. State Bank of Patiala  
Ground Floor, Block A  
IRIS Tech Park  
Sector-48  
Gurgaon-122 018  
Distt. Gurgaon (Haryana)

164. State Bank of Patiala  
SCO No.20  
Huda Market, Sector-56  
Gurgaon-122 011  
Distt. Gurgaon (Haryana)

165. State Bank of Patiala  
Nagaur Bye Pass Road  
Magra Punjala  
Nagaur Road  
Jodhpur-342 001  
Distt. Jodhpur (Rajasthan)

**Region-3**

166. State Bank of Patiala  
Dubey Complex  
Kasia Road, Betiahata  
Gorakhpur-273 001  
Distt. Gorakhpur (U.P.)

**Region-4**

167. State Bank of Patiala  
GMS Road Branch #748  
Near Balliwala Chowk  
Dehradun-248 001  
Distt. Dehradun (Uttarakhand)

**Region-1**

168. State Bank of Patiala  
24 Service Industry  
Behind HP Petrol Pump  
Transport Nagar, Focal Point  
Jalandhar-144 004  
Distt. Jalandhar (Pb.)

**Region-2**

169. State Bank of Patiala  
Joshi Complex  
Near Guru Nanak Dev Hospital  
Majitha Road  
Amritsar-143 004  
Distt. Amritsar (Pb.)

170. State Bank of Patiala  
Sarhali Road  
Tarn Taran  
Distt. Tarn Taran (Pb.)
171. State Bank of Patiala  
Opp. Milap Tent House  
Near Namdhari Kanda  
Tarn Taran Road, Amritsar  
Distt. Amritsar (Pb.)

172. State Bank of Patiala  
Dynasty Tower  
Opp. Provident Fund Office  
Circular Road  
Amritsar-143 001  
Distt. Amritsar (Punjab)

**Region-2**

173. State Bank of Patiala  
Opp. Bus Stand  
Icchewala Rd.  
Ferozepur City-152 002  
Distt. Ferozepur (Pb.)

174. State Bank of Patiala  
Faridkot Road  
Kotkapura-151 204  
Distt. Faridkot  
(Punjab)

**Region-1**

175. State Bank of Patiala  
Booth No.1-2  
Sector 49-B  
Chandigarh-160 047  
Distt. Chandigarh (U.T.)

**Region-1**

176. State Bank of Patiala  
Ground Floor, SCO 113  
Sector-25  
Panchkula-134 116  
Distt. Panchkula (Hry.)

**Region-3**

177. State Bank of Patiala  
Fatehabad Road  
V. & PO Jandli Khurd  
Distt. Fatehabad  
(Haryana)
178. State Bank of India  
Regional Business Office  
120, Church Road,  
Ferozepur-152001
179. State Bank of India  
CCPC Centre,  
Millerganj Branch Building  
Ludhiana - 141003
180. State Bank of India  
Centralised Clearing Proc Centre,  
Civil Lines,  
Jalandhar-144001
181. State Bank Of India  
Raikot  
Distt. Ludhiana -141109
182. State Bank of India  
Ramsara  
Distt. Bhatinda-151301
183. State Bank of India,  
Gill Kalan  
Distt. Bhatinda-151103
184. State Bank of India  
G T Road,  
Kartarpur,  
Distt. Jalandhar-144801
185. State Bank of India  
Mullanpur Dhaka  
Distt. Ludhiana-141101
186. State Bank of India  
Samrala Road,  
Ludhiana-141010
187. State Bank of India  
New Sabzi Mandi  
Old GT Road,  
Jalandhar-144008
188. State Bank Of India  
Chandigarh Road,  
Samrala,  
Distt. Ludhiana-141114
189. State Bank of India  
Sahnewal  
Distt. Ludhiana-141120
190. State Bank of India  
Bhagta Bhai Ka  
Distt. Muktsar-151206
191. State Bank of India  
Grain Market,  
Bariwala,  
Distt. Muktsar-152025
192. State Bank of India  
Main Bazar,  
Near Bus Stand,  
Apra, Distt. Jalandhar,- 144416
193. State Bank Of India  
Talwandi Sabo  
Distt. Bhatinda-151301
194. State Bank of India  
Bus Stand, Abohar  
Distt. Fazilka-152116
195. State Bank of India  
Khuian Sarwar  
Distt. Fazilka-152116
196. State Bank of India  
Mallanwal  
Distt. Ferozepur-152021
197. State Bank of India  
Bretta  
Distt. Mansa-151501
198. State Bank of India  
Budhlada  
Distt, Mansa-151501
199. State Bank of India  
Ajitwal  
Distt. Moga-142053
200. State Bank of India  
Dharmkot  
Distt. Moga-142042
201. State Bank of India  
Nihalsingh Wala  
Distt. Ferozepur-142055
202. State Bank of India  
Kot Isekhan  
Distt. Moga-142042
203. State Bank of India  
Aur, Distt. Nawanshahar-144417
204. State Bank of India  
Ahmaedgarh  
Distt. Sangrur-148021
205. State Bank of India  
NGM  
Dana Mandi Road,  
Barnala.- 148101

- |   |  |
|---|--|
| 206. State Bank of India<br>Mehalkalan<br>Distt. Barnala-148104               | 222. State Bank of India<br>Sarab, Civil Lines<br>Jalandhar - 144001                     |
| 207. State Bank of India<br>Sangat<br>Distt. Bhatinda-151401                  | 223. State Bank of India<br>NRI Branch,<br>Civil Lines<br>Ludhiana - 141001              |
| 208. State Bank of India<br>Rama Mandi<br>Distt. Jalandhar-144008             | 224. State Bank of India<br>Hathur<br>Distt. Ludhiana - 142031                           |
| 209. State Bank of India<br>Mithapur Road<br>Jalandhar-144008                 | 225. State Bank of India<br>Dehlon<br>Distt. Ludhiana - 141418                           |
| 210. State Bank of India<br>Nakodar Road,<br>Jalandhar-144008                 | 226. State Bank of India<br>Schora<br>Distt. Ludhiana - 141413                           |
| 211. State Bank of India<br>Lambra<br>Jalandhar-144026                        | 227. State Bank of India<br>Bara Pind<br>Jalandhar - 144418                              |
| 212. State Bank of India<br>G T Road Jagraon<br>Distt. Ludhiana-142026        | 228. State Bank of India<br>Dosanjh Kalan<br>Distt. Jalandhar - 144502                   |
| 213. State Bank of India<br>Basant Avenue<br>Ludhiana-141013                  | 229. State Bank of India<br>Fatehgarh Panjtoor<br>Distt. Moga - 142051                   |
| 214. State Bank of India<br>Humbran Road,<br>Ludhiana-141001                  | 230. State Bank of India<br>Badani Kalan<br>Distt. Moga - 142037                         |
| 215. State Bank of India<br>SBS Nagar,<br>Ludhiana-141001                     | 231. State Bank of India<br>Khai Phem Ke<br>Distt. Ferozepur - 152003                    |
| 216. State Bank of India<br>Sardulgarh<br>Distt. Mansa - 151507               | 232. State Bank of India<br>Ladhuka Mandi<br>Fazilka-152123                              |
| 217. State Bank of India<br>Bhikhi<br>Distt. Mansa - 151504                   | 233. State Bank of India<br>Grain Market<br>Fazilka - 152123                             |
| 218. State Bank of India<br>Behram<br>Distt. Nawanshahar - 144504             | 234. State Bank of India<br>Kochhar Market<br>Ludhiana - 141001                          |
| 219. State Bank of India<br>Cool Road<br>Jalandhar - 144008                   | 235. State Bank of India<br>Rural CPC<br>Phillaur<br>Distt. Jalandhar - 144410           |
| 220. State Bank of India<br>NRI branch<br>Railway Road,<br>Nawanshahr- 144514 | 236. State Bank of India<br>Regional Business Office<br>Civil Lines<br>Ludhiana - 141001 |
| 221. State Bank of India<br>Basti Adda Road<br>Jalandhar - 144021             |  |

- |  |  |
|--|--|
| <p>237. State Bank of India<br/>Palm Rose, G.T. Road,<br/>Jalandhar - 144001</p> <p>238. State Bank of India<br/>RACPC<br/>Civil Lines<br/>Ludhiana - 141001</p> <p>239. State Bank of India<br/>SMFCCC<br/>Civil Lines<br/>Ludhiana - 141001</p> <p>240. State Bank of India<br/>TFPCPC<br/>Civil Lines<br/>Ludhiana - 141001</p> <p>241. State Bank of India<br/>SARB<br/>Civil Lines<br/>Ludhiana - 141001</p> <p>242. State Bank of India<br/>Regional Business Office<br/>Bhagu Road<br/>Bathinda- 151001</p> <p>243. State Bank of India<br/>Regional Business Office<br/>Civil Lines<br/>Jalandhar - 144001</p> <p>244. State Bank of India<br/>Kaluchak Branch<br/>Distt. Jammu<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>245. State Bank of India<br/>Ramnagar Branch<br/>Distt. Udhampur<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>246. State Bank of India<br/>Air Force Station,<br/>Udhampur Branch<br/>Distt. Udhampur<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>247. State Bank of India<br/>Udhampur Branch,<br/>Distt. Udhampur<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>248. State Bank of India<br/>Garhi Branch<br/>Distt. Udhampur<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> | <p>249. State Bank of India<br/>Chinar Compound,<br/>Udhampur Branch<br/>Distt. Udhampur<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>250. State Bank of India<br/>Dansal Branch<br/>Distt. Udhampur 14 State Bank of India<br/>Lead Bank Office,<br/>Kargil (J &amp; K)<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>251. State Bank of India<br/>Nagrota Branch<br/>Distt. Jammu<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>252. State Bank of India<br/>Ransoo Branch<br/>Distt. Reasi<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>253. State Bank of India<br/>Bharakh Branch<br/>Distt. Reasi<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>254. State Bank of India<br/>Pauni Branch<br/>Distt. Reasi<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>255. State Bank of India<br/>Jyotipuram Branch,<br/>Distt. Reasi<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p>256. State Bank of India<br/>Reasi Branch<br/>Distt. Reasi<br/>(Jammu &amp; Kashmir)</p> <p><b>PUNJAB &amp; SIND BANK</b></p> <p>257. Punjab &amp; Sind Bank,<br/>Gandhi Nagar, Tahsil Road,<br/>Near Dak Bangla,<br/>Sidhauri, Distt. Sitapur (U.P.)<br/>Pin-261303.</p> <p>258. Punjab &amp; Sind Bank.<br/>Railway Ganj, Hardoi (U.P.)<br/>Pin-241001.</p> <p>259. Punjab &amp; Sind Bank.<br/>Amar Hotel Building,<br/>Kutchehry Road, Raibareilly (U.P.)<br/>Pin-229001.</p> <p>260. Punjab &amp; Sind Bank,<br/>Eye Hospital Road,<br/>Volga Building, Sitapur (U.P.)<br/>Pin-261001.</p> |
|--|--|

261. Punjab & Sind Bank,  
Kheeron, Tahsil Lalgunj,  
Distt. Raibareilly, (U.P.)  
Pin -229205.
262. Punjab & Sind Bank,  
K-2, Rajdhani Park,  
Opp. Metro Pillar No. 455,  
Mundka,  
New Delhi-110041.
263. Punjab & Sind Bank,  
R Z 149/2,  
Khurd, Mangolpuri,  
New Delhi-110083.
264. Punjab & Sind Bank,  
Plot No. 5, Pocket -5,  
First Floor, Central Plaza,  
K.M. Chowk, Secor-12,  
Dwarka, New Delhi-110075.
265. Punjab & Sind Bank,  
48A Narela Road,  
Main Chowk Bawana,  
New Delhi-110039.
266. Punjab & Sind Bank,  
Sahib Jada Jhujar Singh Avenue,  
Ajnala Road, Amritsar,  
Pin-143001.
267. Punjab & Sind Bank,  
VPO Talwandi Bhangeria,  
Distt. Moga,  
Pin-140021.
268. Punjab & Sind Bank,  
VPO Panj Grain Kalan,  
Distt. Faridkot,  
Pin-151207.
269. Punjab & Sind Bank,  
VPO Deep Singh Wala,  
Distt. Faridkot,  
Pin-151212.
270. Punjab & Sind Bank,  
VPO Lakho Ke Behram,  
Distt. Ferozepur,  
Pin-152023.
271. Punjab & Sind Bank,  
Village-Didare Wala,  
Distt. Moga,  
Pin-142046.
272. Punjab & Sind Bank,  
Ground Floor, Shop No.5 & 6,  
CTB No. 4510/1, Pune -Mumbai Road,  
Chinchwad, Pune,  
Pin-411019.
273. Punjab & Sind Bank,  
Ground Floor, Rachana Epicentre,  
Shop No. 2A64C, Pune-Mumbai Road,  
Shivaji Nagar, Pune, Pin-411005.
274. Punjab & Sind Bank,  
Hardik Complex, Samrat Group Building,  
Opp. Ambedkar Nagar,  
Nasik-Pune Road, Nasik,  
Pin-422006.
275. Punjab & Sind Bank,  
VPO. Jalalpur,  
Tanda Kapurthala Road,  
Distt. Hoshiarpur,  
Pin-144304.
276. Punjab & Sind Bank,  
Nawanshahar Road, Rahon,  
Post Office-Rahon  
Distt. Shaheed Bhagat Singh Nagar,  
Pin-144517.
277. Punjab & Sind Bank,  
N.H.-74, Near Marwari Dharamshala,  
Rudrapur Road, Kichha,  
Distt.-Udham Singh Nagar, (Uttarakhand),  
Pin-263148.
278. Punjab & Sind Bank,  
Station Road, Opposite PWD,  
Gajraula, Distt. J.P.Nagar, (U.P.)  
Pin-244235.
279. Punjab & Sind Bank,  
Mehraj,  
Tehsil-Phul,  
Distt. Bathinda.
280. Punjab & Sind Bank,  
Pehowa, 44 Super Market,  
Near Bus Stand,  
Pehowa-136128.
281. Punjab & Sind Bank,  
Jind, S.C.O.5,  
Opposite DROO,  
Huda Complex,  
Jind-126102.
282. Punjab & Sind Bank,  
Kathal, Pehowa Chowk,  
R.V. Plaza,  
Kathal-136027.
283. Punjab & Sind Bank,  
Gola C/o E. Max Institute,  
Kalpi-Baduali Road,  
Distt. Ambala,  
Haryana.
284. Punjab & Sind Bank,  
Shakti Bhawan, Sai Road,  
Baddi, (H.P.)  
Pin-173205.

285. Punjab & Sind Bank,  
Landran Road, Near Bus Stand  
Saneta, Distt. Mohali,  
Pin-140306.
286. Punjab & Sind Bank,  
Nadala Road, Bholath,  
Distt. Kapurthala,  
Pin-144622.
287. Punjab & Sind Bank,  
Railway Road, Adampur,  
Distt. Jalandhar,  
Pin-144102.
288. Punjab & Sind Bank,  
Main Dhilwan Road,  
VPO-Dhilwan,  
Distt.-Kapurthala,  
Pin-144804.
289. Punjab & Sind Bank,  
VPO-Khera, PO-Chachoki,  
Tehsil Phagwara,  
Distt.-Kapurthala,  
Pin-144632.
290. Punjab & Sind Bank,  
VPO: Balbera,  
Checka Road,  
Tehsil & Distt. Patiala.
291. Punjab & Sind Bank,  
VPO-Iad Banjara,  
Tehsil-Sunam,  
Distt. Sangrur
292. Punjab & Sind Bank,  
VRO. Kal Banjara  
Tehsil-Sunam,  
Distt. Sangrur.
293. Punjab & Sind Bank,  
C-3A, Hotel Swagat,  
Riko Chowk, Bhiwadi,  
Distt. Alwar (Rajasthan)
294. Punjab & Sind Bank,  
Branch- Anant Raj Tank Park,  
C.P-I, Sector-8,  
I. M. T. Manesar  
Distt. Gurgaon(Haryana)
295. Punjab & Sind Bank,  
V.P.O. Nasrali,  
Near Issru, Tehsil-Khanna,  
Distt. Ludhiana, Pin-141414.
296. Punjab & Sind Bank,  
Tehsil Road, Raikot,  
Near Petrol Pump, Tehsil Raikot,  
Distt. Ludhiana.
297. Punjab & Sind Bank,  
Samrala Road, Machhiwara,  
Tehsil Samrala,  
Distt. Ludhiana.
298. Punjab & Sind Bank,  
Hoshangabad Road,  
Bhopal (M.P.)
299. Punjab & Sind Bank,  
G. K. Plaza, No.18,  
S.V. Road,  
Ulsoor,  
Bangaluru-560008.
300. Punjab & Sind Bank,  
17/36, 4th Avenue,  
Ashok Nagar,  
Chennai-600 083.
301. Punjab & Sind Bank,  
76-6-3, Ground Floor,  
Candhipuram-2,  
Rajahmundry.
302. Punjab & Sind Bank,  
13-1-61/64, Katyayani,  
Hi-Tech Complex,  
First Floor,  
Kakinada- 533001.
303. Punjab & Sind Bank,  
Ground Floor,  
Boddupalli Complex,  
5-37-103, 4/15,  
Brodipet,  
Guntur- 522002.
304. Punjab & Sind Bank,  
121, Rajaji Road,  
Near Sharda Balamandir School,  
Salem-636 007.
305. Punjab & Sind Bank,  
Aryabhata Institute of Management &  
Technology,  
P. O. Panagadh Bazar,  
Panagadh,  
Distt. Durgapur-(W.B.)  
Pin-713148.
306. Punjab & Sind Bank,  
Budge Budge Institute of Technology,  
Nishchintpur,  
Budge Budge,  
Kolkata-700137.

**BANK OF INDIA**

307. Mumbai South Zone      Bank of India  
Founding Branch  
Oriental Building,  
364, D.N.Road,  
Fort, Mumbai - 400001
308.      Bank of India  
J.J. Flyover Branch,  
Oriental Bhavan,  
211, Sherif Devji Street,  
Near Mahatma Phule Market  
Fort, Mumbai 400 003
309.      Bank of India  
Sewree (W) Branch  
12, Rajiv Industrial Estate,  
Tokersi Jivray Road,  
Sewree (W).  
Mumbai-400015

310. Khandwa Zone	Bank of India Indira Nagar Branch Rajasthan Bhavan, Bahaderpur Road, Burhanpur, Distt.-Burhanpur, Pin - 450331 (M.P.)	320. Bhopal Zone	Bank of India Rehti Branch Rehti Main Road, Bijasan Colony, Rehti - 466446, Dist. Schore. (M.P.)
311. Bokaro Zone	Bank of India Alakapuri Chowk Branch, Near Crmel School, Pachamba Main Road, Alakapuri, Dist - Giridigh, Jharkhand, Pin-815301	321.	Bank of India Kolaras Branch A.B. Road, Kolaras Dist. Shivpuri, (M.P.) Pin- 447377
312.	Bank of India Petrwar Branch At & Po : Petrwar, Dist - Bokaro, Jharkhand	322.	Bank of India Sohagpur Branch Near Cibil Court, Main Road, Sohagpur, Dist- Hoshangabad, (M.P.) Pin.-461 771
313.	Bank of India Tupkadihi Branch At & Po : Tupkadihi, Dist -Bokaro, Jharkhand, Pin - 829 144	323.	Bank of India Babai Branch Hoshangabad-Pipariya Main Road, Shri I lit Complex, Babai, Dist. Hoshangabad, (M.P.) Pin-461661
314. Rajasthan Zone	Bank of India Chaksu Branch Shops on Plot No. 70, Kotkhawada Road, Chaksu Town, Tehsil- Chaksu, Dist-Jaipur, (Rajasthan) 303 901	324. Raigad Zone	Bank of India Neral Branch Sane Complex, Sane Wada, Brahmin ally, PO. Neral, Dist - Raigad, Pin-410 101
315.	Bank of India Jalore Branch Plot No. 13, Middle Income Group Colony, Rajendra Nagar, Jalore, (Rajasthan) 343 001	325.	Bank of India Shreevardhan Branch Near Shreevardhan S.T. Stand. PO. & Taluka - Shreevardhan Dist - Raigad
316.	Bank of India Kukas Branch Shop No Plot No. 51 & 51-A, Opposite Sai Baba Temple, Main Highway Road, Village -Kukas, Tehsil- Amer, Dist-Jaipur, (Rajasthan) 302 028	326.	Bank of India Nagothane Branch House No. 1533, Plot No. 6. Suman Apartment, Bombay-Goa-Mahabaleshwar Road, Dist - Raigad, Pin - 402 106
317. Ujjain Zone	Bank of India Manasa Branch Rampura Road, Ward No. 15, Near State Bank, Manasa Dist. Neemuch 458 110 (M.P.)	327. Navi Mumbai Zone	Bank of India Kopar Khairane Branch Shop No. 3-7, Channel Classic Co.op. Hug. Soc. Ltd., Sector - 04, Navi Mumbai - 400 709
318.	Bank of India Susner Branch Near Dak Bangla, Ward No. 12, Indore-Kota Road, Susner Dist. Shajapur 456447 (M.P.)	328. Agra Zone	Bank of India Fatehabad Branch Near Block Office, Agra-Fatehabad Road, Fatehabad, Dist-Agra, Uttar Pradesh, Pin-283 121
319.	Bank of India Alot Branch Station Road, Ward No. 1, Opp. Anaj Mandi, A lot, Dist. Ratlam.457 114 (M.P.)	329.	Bank of India Tundla Branch Station Road, Tundla, Dist - Firozabad, Uttar Pradesh, Pin-283 204

330.	Bank of India Khandauli Branch Agra-Akigarh Highway, Vill. & Post-Khandauli, Dist-Agra, Uttar Pradesh, Pin-283 126	339.	Bank of India Kendrapara Branch College Road, PO. Tinimuhani, Dist - Kendrapara, Orissa - 754211
331. Bhubaneswar Zone	Bank of India Bhadrak Branch At-Apartibindha. Near Taxi Stand, Tehsil Road, Bhadrak-756100, Orissa	340.	Bank of India Parlakhemundi Branch, Main Road, Near V.V. Raju & Sons Petrol Pump, Old Bus Stand, Parlakhemundi, Dist - Gajapati, Orissa - 761 200
332.	Bank of India Jajpur Road Branch By Pass Road, Ward No. 13, PO. Jajpur Road Dist-Jajpur, Orissa	341.	Bank of India Nayagarh Branch Flat No. 2159/3557, College Road, Nayagarh, Orissa - 754 103
333.	Bank of India Rajasunakhala Branch Main Road, PO. Rajasunkhala, Dist-Nayagarh, Orissa - 752065	342.	Bank of India Jagatsinghpur Branch Flat No. 949, Infront of Petrol Pump, Gabdhi Chhak, Jagatsinghpur, Dist - Jagatsinghpur, Orissa - 754 103
334.	Bank of India Tangi Branch Plot No. 844, 846, Main Road, NH-5, Bus Stop, Tangi, Dist - Orissa	343.	Bank of India Bhubaneswar Mid Corporate Branch N-1/298, Nayapalli, Bhubaneswar - 751015
335.	Bank of India Dhenkanal Branch PO. Dist - Dhenkanal Orissa - 759 001	344.	Bank of India Markat Nagar Branch, Sector-9, 5B/921, Bidanasi, COA, Cuttack, Dist - Cuttack, Odisha- 753 014
336.	Bank of India Rajkanika Branch At/Po. - Rajkanika, Dist - Kendrapara, Orissa - 754 220	345.	Bank of India Nimpur Branch, Binayak, Sikaripur, Nimpur, Jagatpur, Dist- Cuttack, Odisha-751 031
337.	Bank of India Kamakshyanagar Branch Main Road, Jagannath Bazar, Kamakshyanagar, Dist - Dhenkanal, Orissa - 759 018	346.	Bank of India Patia Branch Plot No. MIG-II-203, Kanan Vihar, Phase II, Patia, Bhubaneswar, Odisha-751 031
338.	Bank of India Baragarh Branch Plot No. 1522/1926, Ward No - 16, PO. Baragarh, Dist - Baragarh, Orissa - 768 028	347.	Bank of India Ganga Nagar Branch, Plot No. 13, Ganga Nagar, Unit-VI, Bhubaneswar, Dist-Khorda, Odisha-751 009



348. Bank of India  
Tankapani Road Branch  
Plot, No. 1298(P)  
Brahmeswarpatna,  
Tankapani Road,  
Bhubaneswar, Dist - Khorda  
Odisha - 751018

349. Bank of India  
Deogarh Branch,  
Plot No. 3398/4105,  
Near Govt. Bus Stand,  
At/PO/Dist-Deogarh,  
Odisha-768108

350. Bank of India  
Tamando Branch  
Plot No. 735/854/1321/1128,  
Tamando Market,  
Tamando, N.H.5, Dist-Khurda,  
Odisha - 752 054

351. Bank of India  
Vedvyas Branch  
Plot No. 775/2579,  
Brahmanitarang, N.H. 215,  
Near TCI, Vedvyas, Rourkela,  
Dist - Sundergarh,  
Odisha - 769 004

352. Bank of India  
Sundergarh Branch  
Plot No. 1097/1500,  
Khata No. 237/67, Old Cinema  
Road, Rangadhipa,  
Dist - Sundergarh,  
Odisha - 770002

**SYNDICATE BANK**

353. Syndicate Bank  
Gavadka Branch  
C/o. Sri Babibhai Nagibhai Vagad  
Village : Gavadka  
Tehsil : Amreli  
Dist: Amreli  
State: Gujarat  
Pin: 365601

354. Syndicate Bank  
Koita Branch  
C/o. Koita Dudh Sagar Mandali Ltd.  
Village: Koita, Tehsil: Patan  
Dist: Patan, State: Gujarat  
Pin: 384285

355. Syndicate Bank  
Rajpur Khurd Branch, House No.111  
Near Fivoli Garden  
Rajpur Khurd Village  
Dist: Delhi  
State: Delhi, Pin: 110068

356. Syndicate Bank  
Central Processing Centre  
Regional Office, 3rd Floor  
Bharati Vidyapeeth Bhavan  
L.B.S. Marg, Navipeth  
Dist: Pune  
State: Maharashtra  
Pin: 411 030

357. Syndicate Bank  
Lawan Branch  
Sarvajanik Dharmashala  
Rajput Samaj  
Near Khadi Ashram  
Bus Stand  
Lawan  
Dist.: Dausa  
State: Rajasthan  
Pin: 303004

358. Syndicate Bank  
Jalrapatan Branch  
C-12 Dwarkadheesh Yojne  
Bhavani Mandi Road  
Dist: Jhalrapatan  
State: Rajasthan  
Pin: 326023

359. Syndicate Bank  
Batawada Branch  
# 236 G/873  
Main Road  
Dist: Guna  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 473222

360. Syndicate Bank  
Sawari Branch  
# 142, Tumsar Road  
Village: Sawari  
Dist: Balaghat  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 481 445

361. Syndicate Bank  
Lashkarpur Branch  
Lashkarpur  
Dist: Vidisha  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 464 001

362. Syndicate Bank  
Lonia Karbal Branch  
Parasiya Road  
Adarsh Nagar  
Loniakarbal  
Tehsil: Chhindwara  
Dist.: Chhindwara  
State: Madhya Pradesh, Pin: 480001

363. Syndicate Bank  
Arniakhurd Branch  
P.O. Arniakhurd  
Tehsil: Shujalpur  
Dist.: Shujalpur  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 465336
364. Syndicate Bank  
Khursipur Branch  
Main Road  
Khursipur  
P.O. Atri  
Dist.: Balaghat  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 481337
365. Syndicate Bank  
Hirapur Branch  
Rajhar Road  
Hirapur  
Dist.: Balaghat  
State: Madhya Pradesh  
Pin: 481102
366. Syndicate Bank  
Adityanagar Branch  
Aditya J.R. & Degree College  
Building  
Aditya Nagar  
Children's Park Road  
Dist.: Nellore  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 524002
367. Syndicate Bank  
B.V. Nagar Branch  
Door No. 26-1-1055  
Nellore  
Dist.: Nellore  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 524004
368. Syndicate Bank  
Lead District Office Ongole  
First Floor, GNT Road  
Opp. Nellore Bus Stand  
Ongole  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523 001
369. Syndicate Bank  
Lead District Office Nellore  
16/32, J.V. Street Nellore  
Dist.: Nellore  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 524001

370. Syndicate Bank  
SME Ongole Branch  
D.No.37-1-385(7)  
Grand National Trunk Road  
Opp. Nellore Bus Stand  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523 001
371. Syndicate Bank  
Kothapatnam Branch  
Door No.5-108  
Kothapatnam  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523286
372. Syndicate Bank  
Markapur Branch  
Door No.7/282, Nehru Street  
P.B.No.5 Markapur  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523316
373. Syndicate Bank  
Kurichedu Branch  
Main Road  
Kurichedu  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523304
374. Syndicate Bank  
Singarayakonda Branch  
Door No.9/149  
Sri Lakshmi Ganesh Complex  
Singarayakonda  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523101
375. Syndicate Bank  
Idupulapadu Branch  
Main Road  
Idupulapadu  
Chirala Mandal  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523190
376. Syndicate Bank  
Swarna Branch  
Main Bazar  
Swarna  
Chirala Mandal  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523170

377. Syndicate Bank  
Turimella Branch  
Door No. 1/20  
Turimella  
Giddalur Mandal  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523372
378. Syndicate Bank  
Karavadi Branch  
Ongole Mandal  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523182
379. Syndicate Bank  
Korisapadu Branch  
Door No.6/53  
Main Road  
Korisapadu  
Via Medarametla  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523212
380. Syndicate Bank  
Pedaerlapadu Branch  
P.C. Palli Mandal  
P.O. Kanigiri  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523111
381. Syndicate Bank  
Kanumalla MEC Branch  
Perumallu Colony  
Kanumalla Village  
Singarayakonda Mandal  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523101
382. Syndicate Bank  
Gundlapalli Branch  
Plot No. 12, APIIC Growth Centre  
Gundlapalli Village  
Dist.: Prakasam, State: Andhra Pradesh  
Pin: 523211
383. Syndicate Bank  
Pellur Branch  
Door No.5/98, Main Road  
Behind Milk Centre  
Dist.: Prakasam, State: Andhra Pradesh  
Pin: 523272
384. Syndicate Bank  
Mynampadu Branch  
Door No.6-50(3)  
Thurpu Bazar, Santanutalapadu Mandal  
Mynampadu Village  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh, Pin: 523225

385. Syndicate Bank  
Narasingolu Branch  
Zarugumalli Main Road  
Narasingolu Village  
Dist.: Prakasam  
State: Andhra Pradesh  
Pin: 523271
386. Syndicate Bank  
Bhangel Branch  
# 114/2  
Main Road  
Dist.: Gautambuddh Nagar  
State: Uttar Pradesh  
Pin: 201304
387. Syndicate Bank  
Bankhanda Branch  
Dist.: Ghaziabad  
State: Uttar Pradesh  
Pin: 245201
388. Syndicate Bank  
Indirapuram Branch  
Hall No.2, Plot No.8  
Gaur Gravity Mall  
Vaibhav Khand  
Indirapuram  
Dist.: Ghaziabad  
State: Uttar Pradesh  
Pin: 201010
- Canara Bank**
389. Canara Bank  
Malavalli Branch  
No. 772, N.E.S Extension  
Near Taluk Office  
Mandya District  
Malavalli - 571430  
Karnataka
390. Canara Bank  
KERS Branch  
K E R S Building  
S R Patna Taluk, Mandya District  
R R Sagar - 571607  
Karnataka
391. Canara Bank  
K R Pet Branch  
KJB Complex, Opp. A P M C  
Hassan - Mysore Main Road  
Mandya District  
Krishnarajpet - 571426, Karnataka
392. Canara Bank  
Karekere Branch  
Agriculture College Campus  
Karekere Post, Hassan District  
Karekere - 573225  
Karnataka

- |  |   |
|--|---|
| <p>393. Canara Bank<br/>Maddur Branch<br/>Sanjay Complex, Old M C Road<br/>Mandya District<br/>Maddur-571428<br/>Karnataka</p> <p>394. Canara Bank<br/>Vidyanagar Branch<br/>L.R. Complex<br/>Vishveshwaraiah Road<br/>Vidyanagar<br/>Hassan-573202<br/>Karnataka</p> <p>395. Canara Bank<br/>Kuvempunagar Branch<br/>1st Main, III Cross<br/>Kuvempunagar<br/>Hassan-573201<br/>Karnataka</p> <p>396. Canara Bank<br/>AIMS BG Nagar Branch<br/>Sri Adichunchanagiri Institute of Medical<br/>Sciences (AIMS) Campus<br/>Nagamangala Taluk,<br/>Bangalore-Mangalore National Highway<br/>BG Nagar-571448<br/>Karnataka</p> <p>397. Canara Bank<br/>BEML Branch<br/>Koorgalli<br/>BEML-570018<br/>Karnataka</p> <p>398. Canara Bank<br/>ILanthila Branch<br/>Main Road, Andithadka<br/>Vaningagar<br/>Ilanthila-574241<br/>Belthangady TQ</p> <p>399. Canara Bank<br/>Pajeer Branch<br/>4-84/F-586, First Floor<br/>R.I. Complex<br/>Grama Chavadi, Pajeer Junction<br/>Panjeer-574181<br/>Bantwal TQ</p> <p>400. Canara Bank<br/>Naringana<br/>1st Floor<br/>Ze:nath Complex<br/>Thoudugoli Cross<br/>Naringana Village &amp; PO<br/>Naringana-575018<br/>Bantwal TQ</p> | <p>401. Canara Bank<br/>Kondotty Branch<br/>Opp. Telephone Exchange<br/>Kondotty-673638</p> <p>402. Canara Bank<br/>Puthiyatheru Chirakkal Branch<br/>Central Plaza<br/>Kattampalli Road<br/>Puthiyatheru Chirakkal<br/>Kannur-670011</p> <p>403. Canara Bank<br/>Ramanattukara Branch<br/>Door No. RP/5/856, B6,<br/>Shola Complex University<br/>Pin-673633</p> <p>404. Canara Bank<br/>Mattanur Branch<br/>Building No. 7/677/K<br/>Thalasserry Road<br/>Mattannur-670 702</p> <p>405. Canara Bank<br/>Kuthuparamba Branch<br/>Nadiya Building<br/>Near Old Road Jn.<br/>Opp. Reliance Petrol Pump<br/>Kuthuparambu-670 643</p> <p>406. Canara Bank<br/>Areekode Branch<br/>VIII/38TO47<br/>Nellippakundan Towers<br/>Areecode-673 639</p> <p>407. Canara Bank<br/>Koduvally Branch<br/>K P 3/1156B<br/>Calicut-waynad road<br/>Koduvally-673 572</p> <p>408. Canara Bank<br/>Vadakkencherry Branch<br/>Near HPCL Petrol Pump<br/>Pin-678 683</p> <p>409. Canara Bank<br/>Manjeswaram<br/>Vyapari Bhavan<br/>NH 17, Main Road<br/>Hosangadi Jn.<br/>Manjeswaram-671 323</p> <p>410. Canara Bank<br/>Trikkalagod Branch<br/>Shop no. TGP II/534 D<br/>First Floor, Tharakan Building<br/>Trikkalagod<br/>Malappuram-676 123</p> |
|--|---|

411. Canara Bank  
Kottopadam- I Branch  
Ground Floor  
Opposite Homeo Dispensary  
Kottopadam  
Thiruvizhamkunnu PO  
Palakkad-678 601
412. Canara Bank  
Perinthalmanna AL Shifa Hospital Branch  
AL-Shifa Hospital  
Perinthalmanna-679322
413. Canara Bank  
Nannambra Branch  
Shop No. V/305-B 17  
First Floor  
Kaniyeri Towers  
Venniyur-Tanur Road  
Teyyala PO  
Malappuram Dist.-676 320
414. Canara Bank  
Changaramkulam Branch  
First Floor  
MKM Complex  
Opp. Arafa Hospital (P) Ltd. Changaramkulam  
Nannakukku PO  
Malappuram-679 575
415. Canara Bank  
Kannapuram Branch  
Shop No. K P V/486 Q & 486 R  
First Floor, Power Complex  
Kannapuram PO  
Cherukunnu, Kunnur-670301
416. Canara Bank  
Kuttipuram Branch  
K P XVII/1107  
Deira Tower, N H 17 Junction  
Kuttipuram  
Malappuram Dist.-679571
419. State Bank of Bikaner and Jaipur  
Bhopalganj, Bhilwara  
Post Bhopalganj  
Distt. : Bhilwara-311001
420. State Bank of Bikaner and Jaipur  
RNT Medical College, Udaipur  
RNT Medical College Premises  
Udaipur-313001
421. State Bank of Bikaner and Jaipur  
Pipalkhunt  
Post Office Pipalkhunt  
Distt. : Pratapgarh-327029
422. State Bank of Bikaner and Jaipur  
SARC, Udaipur  
LIC Building  
Patel Circle  
Udaipur-313001
423. State Bank of Bikaner and Jaipur  
Talwara  
Post Office Talwara  
Distt. : Banswara-327025
424. State Bank of Bikaner and Jaipur  
R C P C, Chittorgarh  
Ricco Industrial Area  
Chandaria  
Chittorgarh-312021
425. State Bank of Bikaner and Jaipur  
R C P C, Banswara  
Khadi Gramoudyog Bhawan  
Rati Talai  
Banswara-327001

**Circle Office Sriganaganagar****STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR****Regional Office, Chittorgarh**

417. State Bank of Bikaner and Jaipur  
Near Collectorate Circle  
Chittorgarh-312001
418. State Bank of Bikaner and Jaipur  
Mordi  
Gram : Mordi,  
R S W M Premises  
L N J Nagar  
Udaipur Road, Mordi  
Distt. : Banswara-327001
426. Punjab National Bank  
B/O Sahwa  
Dudani Katla,  
Old Bus Stand  
Taranagar Road  
Distt. : Churu-331302  
(Rajasthan)
427. Punjab National Bank  
B/O Pilani, Near Bhagat Singh Circle  
Tehsil : Chirawa  
Distt. : Jhunjhunu  
Pin-333 031 (Rajasthan)
428. Punjab National Bank  
B/O Kolayat  
Aggarwal Kandoi Dharamshala,  
Near Railway Station  
Tehsil : Kolayat  
Distt : Bikaner  
Pin - 334 302 (Rajasthan)

- |   |   |
|---|---|
| <p>429. Punjab National Bank<br/>B/O Gourisar<br/>Tehsil : Ratangarh<br/>Distt : Churu<br/>Pin - 331 022 (Rajasthan)</p> <p>430. Punjab National Bank<br/>B/O Goluwala Niwadan<br/>Tehsil : Pilibanga<br/>Distt: Hanumangarh<br/>Pin - 335802 (Rajasthan)</p> <p>431. Punjab National Bank<br/>B/O Surajgarh<br/>Buhana Road<br/>Tehsil: Chirawa<br/>Distt : Jhunjhunu<br/>Pin-333 029 (Rajasthan)</p> <p>432. Punjab National Bank<br/>B/O Bhadra<br/>Court Road<br/>Near Railway Station<br/>Tehsil : Bhadra<br/>Distt: Hanumangarh<br/>Pin - 335 501 (Rajasthan)</p> <p>433. Punjab National Bank<br/>B/O Udaipurwati<br/>Jhunjhunu Road<br/>Tehsil : Udaipurwati<br/>Distt : Jhunjhunu<br/>Pin-333 307 (Rajasthan)</p> <p><b>Circle Office jaipur</b></p> <p>434. Punjab National Bank<br/>B/O Muslim Senior Secondary School<br/>Moti Dongri Road<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-302 004</p> <p>435. Punjab National Bank<br/>B/O G-1-270A, EPIP<br/>Sitapura Industrial Estate<br/>Tehsil-Sanganer<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-302 022</p> <p>436. Punjab National Bank<br/>B/O Retail Asset Branch 2,<br/>Nehru Place, Tonk Road<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-302 015</p> <p>437. Punjab National Bank<br/>B/O Near Mehandipur Balaji<br/>Mecna Seemla, ss Tehsil - Sikirai<br/>Distt. Dosa (Rajasthan)<br/>Pin-303 509</p> | <p>438. Punjab National Bank<br/>B/O 15- Patel Nagar<br/>Tehsil - Deoli<br/>Distt. Tonk (Rajasthan)<br/>Pin-304804</p> <p>439. Punjab National Bank<br/>B/O Jaipur Road<br/>Tehsil - Mahua<br/>Distt. Dosa (Rajasthan)<br/>Pin-321 608</p> <p>440. Punjab National Bank<br/>B/O Air Force School<br/>Near Hotel Holiday Inn<br/>Amer Road<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-302 002</p> <p>441. Punjab National Bank<br/>B/O Krishi Upaj Mandi Samiti<br/>Muhana Mandi<br/>Tehsil - Sanganer<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-302 029</p> <p>442. Punjab National Bank<br/>B/O Retail Asset Branch<br/>Near Aerodrum Circle,<br/>Ladpura, Kota (Rajasthan)<br/>Pin-324 007</p> <p>443. Punjab National Bank<br/>B/O Opposite Krishna Talkies<br/>Tehsil - Kotputli<br/>Jaipur (Rajasthan)<br/>Pin-303 108</p> <p>444. Punjab National Bank<br/>B/O F-66, Jhilai Road<br/>Tehsil - Niwai<br/>Distt. Tonk (Rajasthan)<br/>Pin-304 021</p> <p>445. Punjab National Bank<br/>B/O Sainik School<br/>Sujanpur<br/>Distt. Hameerpur (H.P.)<br/>Pin-176 110</p> <p>446. Punjab National Bank<br/>B/O Haroli<br/>Distt. Una (H.P.)<br/>Pin-174 301</p> <p>447. Punjab National Bank<br/>B/O Sameerpur<br/>Distt. Hameerpur (H.P.)<br/>Pin-177 601</p> |
|---|---|

448. Punjab National Bank  
B/O Jhanduta  
Distt. Bilaspur (H.P.)  
Pin-174 031

449. Punjab National Bank  
B/O Bangana  
Distt. Una (H.P.)  
Pin-174 307

450. Punjab National Bank  
B/O Ghumarwin  
Distt. Bilaspur (H.P.)  
Pin-174 021

#### Circle Office Kashipur

451. Punjab National Bank  
B/O Bhowali Road  
Mallital, Bhimtal  
Distt. Nainital (Uttarakhand)  
Pin-263 136

452. Punjab National Bank  
B/O Station Road  
Gandhi Chowk, Dharchula  
Distt. Pithoragarh (Uttarakhand)  
Pin-262 545

453. Punjab National Bank  
B/O Gurudwara Complex  
Nanakmatta  
Distt. Udham Singh Nagar  
(Uttarakhand)  
Pin-263 153

454. Punjab National Bank  
B/O Dr. Turna's Surgical Hospital Complex  
Kichha Road, Sitarganj  
Distt. Udham Singh Nagar  
(Uttarakhand)  
Pin-262 405

455. Punjab National Bank  
B/O Phulera Market  
Dwarahat  
Distt. Almora (Uttarakhand)  
Pin-263 653

456. Punjab National Bank  
B/O Banglow Road  
Lohaghat  
Distt. Champawat (Uttarakhand)  
Pin-262 524

457. Punjab National Bank  
B/O Nainital Road  
III, Rudrapur  
Distt. Udham Singh Nagar  
(Uttarakhand), Pin-263 153

#### Circle Office Karnal

458. Punjab National Bank  
B/O B.D.O. Complex  
Kharkhauda  
Distt. Sonapat (Haryana)  
Pin-131 402

459. Punjab National Bank  
B/O Village Israna  
Tehsil & Distt. Panipat (Haryana)  
Pin-132 107

#### Circle Office Darbhanga

460. Punjab National Bank  
B/O Dalsingh Sarai  
Distt. Samastipur  
(Bihar)

461. Punjab National Bank  
B/O Kaluahi  
Distt. Madhubani  
(Bihar)

462. Punjab National Bank  
B/O Basudeopur  
Distt. Darbhanga  
(Bihar)

463. Punjab National Bank  
B/O Singeshwar Sthan  
Distt. Madhepura  
(Bihar)

464. Punjab National Bank  
B/O Rosra  
Distt. Samastipur  
(Bihar)

465. Punjab National Bank  
B/O Biraul  
Distt. Darbhanga  
(Bihar)

466. Punjab National Bank  
B/O Alinagar  
Distt. Darbhanga  
(Bihar)

467. Punjab National Bank  
B/O Mangrauni  
Distt. Madhubani, (Bihar)

#### Circle Office Jabalpur

468. Punjab National Bank  
B/O Anup Pur  
Madhya Pradesh  
Pin-484 224

469. Punjab National Bank  
B/O Waraseoni  
Madhya Pradesh  
Pin-481 331

470. Punjab National Bank  
B/O Parasia  
Madhya Pradesh  
Pin-482 441

#### Circle Office Bulandshahr

471. Punjab National Bank  
B/O G. T. Road  
Aligarh (U. P.)  
Pin-202 001

472. Punjab National Bank  
B/O Awas Vikas Colony  
Bulandshahr (U.P.)  
Pin-203 001

473. Punjab National Bank  
B/O Ramghat Road  
Kwarsi  
Aligarh (U.P.)  
Pin-202 001

#### Circle Office North Delhi

474. Punjab National Bank  
B/O A-9, Adarsh Nagar  
New Delhi

475. Punjab National Bank  
B/O Delhi Finance Corporation  
Pankha Road  
Industrial Area, Janak Puri  
New Delhi

476. Punjab National Bank  
B/O 352, Main Road  
Ghond  
Delhi

477. Punjab National Bank  
B/O Anushka Shopping Mall  
Plot No. 2, Garg Trade Centre,  
Sector-11, Rohini  
Delhi-110 085

478. Punjab National Bank  
B/O House No. 1  
Pocket-8-B  
Sector-15, Rohini  
Delhi-110 085

479. Punjab National Bank  
B/O D-33, Acharya Niketan  
Mayur Vihar, Phase-I  
Delhi

480. Punjab National Bank  
B/O Khasra No. 65,  
Main Bhawan Road  
Shahbad Daultapur  
Delhi

481. Punjab National Bank  
B/O A-72, Swaroop Nagar  
Shiv Mandir Road, New Delhi

482. Punjab National Bank  
B/O Retail Asset Branch  
D-Block, DDA Market  
Anand Vihar, Delhi-110 092

#### Circle Office Lucknow

483. Punjab National Bank  
B/O Hydergarh  
Near Hydergarh Bus Stop  
Distt. Barabanki  
Pin-227 301

484. Punjab National Bank  
B/O Fursat Ganj  
Gram-Bramhani, Block  
Bahadurpur  
Distt. Chatrapati Shauji Maharj Nagar  
Pin-229 202

485. Punjab National Bank  
B/O Ram Ram Bank Chauraha  
B-1/48, Sector P  
Aliganj, Distt. Lucknow  
Pin-226 024

486. Punjab National Bank  
B/O Bachhrawan  
Hydergarh Road  
Distt. Raebareli  
Pin-229 301

487. Punjab National Bank  
B/O Munshi Pulia  
Indira Nagar  
Distt. Lucknow  
Pin-226 016

488. Punjab National Bank  
B/O Vijayant Khand  
Gomti Nagar  
Distt. Lucknow  
Pin-226 010

#### Circle Office Haridwar

489. Punjab National Bank  
B/O Post Office : Gauchar  
Tehsil : Karanpryag  
District : Chamoli  
Pin-246 429



490. Punjab National Bank  
B/O Rudraprayag,  
New Bus Stand  
District : Rudraprayag  
Pin-246 171
491. Punjab National Bank  
B/O Back Office  
B. T. Ganj, Roorkee  
District : Haridwar  
Pin-247 667
492. Punjab National Bank  
Office : Currency Chest  
B. T. Ganj, Roorkee  
District : Haridwar, Pin-247 667
493. Punjab National Bank  
B/O Augstmuni, Vijay Nagar  
Tehsil : Ukhimath  
District : Rudraprayag, Pin-266 421
494. Punjab National Bank  
B/O Back Office  
Mayapur, Devpura,  
District : Haridwar  
Pin-249 401
495. Punjab National Bank  
B/O Currency Chest  
Sector-4, BHEL  
District : Haridwar  
Pin-249 403

**Circle Office Patiala**

496. Punjab National Bank  
B/O Bhawanigarh  
Patiala-Sangrur Main Road  
Distt. Sangrur (Punjab)  
Pin-148 026
497. Punjab National Bank  
B/O Taj Shopping Complex  
Dirba  
Distt. Sangrur (Punjab)  
Pin-148 035

**Circle Office Amritsar**

498. Punjab National Bank  
B/O Khadoor Sahib  
Distt. Taran Taran (Punjab)

**Circle Office Pune**

499. Punjab National Bank  
B/O Panjim  
Pishulekar Road Post Office  
Kalisto Mansion  
Panjim,  
Goa-403 601

500. Punjab National Bank  
B/O Mapusa  
Bafisin Residency  
Ansabhat  
Mapusa  
Goa-403 507
501. Punjab National Bank  
B/O Ponda  
Manekar House, Hotel Padmavi Sadar  
Dada Vaidya Chowk,  
Ponda, Goa
502. Punjab National Bank  
B/O Margao  
Timbatra Building  
New Market  
Margao  
Goa-403 061
503. Punjab National Bank  
B/O Vasco-de-Gama  
Subrose Chamber  
F.L. Gomes Road  
Goa-403 802

**Circle Office Hoshiarpur**

504. Punjab National Bank  
B/O Majari  
Distt. Nawanshahar (Punjab)
505. Punjab National Bank  
Retail Asset Branch  
Chandigarh Road  
Hoshiarpur
506. Punjab National Bank  
Prnsion Branch  
Chandigarh Road  
Hoshiarpur

**Andhra Bank**

507. Andhra Bank  
Ashok Nagar Branch  
No.47, First Avenue,  
Ashok Nagar,  
Chennai-600 083
508. Andhra Bank  
Coimbatore Branch  
17, Mill Street,  
Coimbatore- 641 001
509. Andhra Bank  
Tiruchirapally Branch  
Lakshmi Complex,  
73/B-I, Salai Road,  
Thillai Nagar (East),  
Tiruchirapally- 620 018

- |  |   |
|--|---|
| <p>510. Andhra Bank<br/>Pondicherry Branch<br/>No.103 &amp; 105,<br/>Eswaran Koil Street,<br/>P.B.No.120,<br/>Pondicherry-605 001</p> <p>511. Andhra Bank<br/>Madurai Branch<br/>221, South Masi Street,<br/>Madurai-625001</p> <p>512. Andhra Bank<br/>Ramnagar Branch<br/>229, Sathyamurthy Road,<br/>Ramnagar,<br/>Coimbatore- 641 00</p> <p>513. Andhra Bank<br/>Salem Branch<br/>"Narasu's Arcade",<br/>53/24, II Agraharam,<br/>Salem-636001</p> <p>514. Andhra Bank<br/>Shenoyanagar Branch<br/>No.5, Kanniyamman Koil Street,<br/>Chennai-600 030</p> <p>515. Andhra Bank<br/>T. Nagar Branch<br/>Old No. 65/1, New No. 129,<br/>Sir Thyagaraya Road,<br/>T. Nagar, Chennai-600 017</p> <p>516. Andhra Bank<br/>Tiruppur Branch<br/>No. 64, Kumaran Road,<br/>Tiruppur, Pin-641 604</p> <p>517. Andhra Bank<br/>Tuticorin Branch<br/>No. 64, Beach Road, Tuticorin-628 002</p> <p>518. Andhra Bank<br/>Valasaravakkam Branch<br/>115, Arcot Road,<br/>Alwarthirunagar,<br/>Valasaravakkam, Chennai -87</p> <p>519. Andhra Bank<br/>K. K. Nagar Branch<br/>No. 40, Ramaswamy Road<br/>K. K. Nagar,<br/>Chennai-600078.</p> <p>520. Andhra Bank<br/>Mount Road Branch<br/>Old No. 95, New No. 137,<br/>Anna Salai,<br/>Chennai-600 002</p> | <p>521. Andhra Bank<br/>Cuddalore Branch<br/>Post Box No. 46,<br/>No.5, Nellikuppam Main Road,<br/>Semmandalam<br/>Cuddalore - 607001</p> <p>522. Andhra Bank<br/>SME - Coimbatore Branch<br/>No. 800B, I Floor,<br/>Mettupalaym Road, R. S. Puram,<br/>Coimbatore-641 002</p> <p>523. Andhra Bank<br/>Egmore Branch<br/>Sri Kalyans Square, New No. 83<br/>Old No.52, Pantheon Road,<br/>Chennai-600 008</p> <p>524. Andhra Bank<br/>Peelamedu Branch<br/>386, Kamaraj Road,<br/>Peelamedu,<br/>Coimbatore-641004</p> <p>525. Andhra Bank<br/>Ooty Branch<br/>Hotel Charing Cross,<br/>Garden Road, Ooty-643001</p> <p>526. Andhra Bank<br/>Tirunelveli Branch<br/>55-A, S.N.High Road,<br/>Kailasapuram, Tirunelveli-627 001</p> <p>527. Andhra Bank<br/>Dindigul Branch<br/>Varadaraj Shopping Complex<br/>1st Floor, Shop No. 10, Annexe<br/>No. 7, Main Road<br/>Dindigul-624001</p> <p>528. Andhra Bank<br/>Pollachi Branch<br/>Ramaswamy Gounder Plaza<br/>4161, 62 Coimbatore Road<br/>Pollachi-642002</p> <p>529. Andhra Bank<br/>Redhills Branch<br/>No. 1/990, First Floor,<br/>Bye Pass Road, GNT Road,<br/>Red Hills, Chennai-600 052</p> <p>530. Andhra Bank<br/>Porur Branch<br/>Old No. 13, New No. 5/6<br/>Mount Poonamallee High Road<br/>Devinagar<br/>Porur, Chennai-600116</p> |
|--|---|

- |  |   |
|--|---|
| 531. Andhra Bank<br>Karaikkal Branch<br>No. 2, Nehru Street<br>Karaikal-609695   | 541. Andhra Bank<br>Perambur Branch<br>3 & 4, Paper Mills Road,<br>Perambur-Kolathur,<br>Chennai-600 099  |
| 532. Andhra Bank<br>Maduravoyal Branch<br>No. 1, Alapakkam - Maduravoyal Main Road,<br>Maduravoyal,<br>Chennai-600 095           | 542. Andhra Bank<br>Madambakkam Branch<br>Madambakkam Main Road,<br>Near Hansa Garden,<br>Madambakkam,<br>Chennai-600 073                               |
| 533. Andhra Bank<br>Manavalanagar Branch<br>No. 171, Poonamalli High Road<br>Manavalanagar,<br>Thiruvallur Dist.,<br>Pin-602 001 | 543. Andhra Bank<br>Retail Credit Branch<br>No. 95, First Floor,<br>Anna Salai, (1 Floor of Mount Road Branch)<br>Chennai-600002                        |
| 534. Andhra Bank<br>Sholinganallur Branch<br>13, 14 Medavakkam Main Road<br>Sozginganallur,<br>Chennai-600 119                   | 544. Andhra Bank<br>R. A. Puram Branch<br>Old No. 17, New No. 31, Lazarus<br>Church Road, R.A. Puram,<br>Chennai-600 028                                |
| 535. Andhra Bank<br>Virugambakkam Branch<br>Kaliyamankoil Street,<br>Annai Mahal, Virugambakkam,<br>Chennai-600 092              | 545. Andhra Bank<br>Kilpauk Branch<br>Plot No. A-48, Door No. 2/75,<br>New Avadi Road, Kilpauk,<br>Chennai-600 010                                      |
| 536. Andhra Bank<br>Tambaram Branch<br>No. 1, Mudichur Road<br>Krishna Nagar,<br>West Tambaram<br>Chennai-600 040                | 546. Andhra Bank<br>SARM Branch<br>Andhra Bank Buildings,<br>No. 168, Lingi Chetty Street,<br>Chennai-600 001   |
| 537. Andhra Bank<br>Muthunagar Branch<br>Plot No. 309, 310, Kurinji Nagar,<br>1st Street, Near 4th Rly Gate,<br>Tuticorin-628002 | 547. Andhra Bank<br>Mambakkam Branch<br>No. 3/330, Mambakkam Main Road,<br>Adj. to IOC Petrol Bunk,<br>Mambakkam, Chennai-600 048                       |
| 538. Andhra Bank<br>Jafferkhanpet Branch<br>New No. 41, Mosque Street,<br>Saidapet (West),<br>Chennai-600 015                    | 548. Andhra Bank<br>Iyyappanthangal Branch<br>Plot No. IV, Opp. to Oil Mill,<br>VGN Nagar, 'B' Phase,<br>Chennai-600 056                                |
| 539. Andhra Bank<br>Bagayam Branch<br>No. 280, P.J. Complex,<br>Kamalakshipuram, Bagayam,<br>Vellore-632 002                     | 549. Andhra Bank<br>Cantonment Branch<br>No. 28, Warners Road,<br>Cantonment, Trichy-620 001  |
| 540. Andhra Bank<br>Perungudi Branch<br>32, First Main Road,<br>Thirumalai Nagar Annexe,<br>Perungudi, Chennai-600 096           | 550. Andhra Bank<br>Five Roads Branch<br>Santhosh Towers,<br>No. 75/1, Brindavan Road, Opp. to Pranav<br>Hospital, Near New Bus Stand,<br>Salem-636 004 |

- |  |   |
|--|---|
| <p>551. Andhra Bank<br/>Madhya Kailash Branch<br/>Cancer Institute (WIA) Campus,<br/>18, S.P. Road, Adyar,<br/>Chennai-600 020</p> <p>552. Andhra Bank<br/>CRR Polytechnic College Branch<br/>Eluru West Godavari District<br/>Andhra Pradesh-534 007</p> <p>553. Andhra Bank<br/>Laxminagar Branch<br/>House No.18-5-182<br/>Laxminagar, Godavarikhani<br/>Karimnagar-505209</p> <p>554. Andhra Bank<br/>Alwal Branch,<br/>Opp. To e-Seva,<br/>KR Arcade Alwal, Secunderabad-500 070</p> <p>555. Andhra Bank<br/>Serilingampalli Branch<br/>6-40, Durga Estate,<br/>Deepthi Srinagar, Madinaguda,<br/>Serilingampalli Mandai,<br/>Ranga Reddy District-500 049</p> <p>556. Andhra Bank<br/>LB Nagar Branch<br/>H.No. 3-4-477, LB Nagar, Hyderabad-500 068</p> <p>557. Andhra Bank<br/>Ring Road Branch<br/>18-145/146, Plot No. 3,<br/>Survey.26/A &amp; 28A,<br/>Jillelaguda Village,<br/>Near Ring Road,<br/>Saroornagar Mandal,<br/>Ranga Reddy Dist.-500 079</p> <p>558. Andhra Bank<br/>Nizampet Road<br/>Nizampet Road, Hydernagar,<br/>Hyderabad-500 079</p> <p>559. Andhra Bank<br/>Netajinagar Road<br/>Plot No.14, Vijaypuri Colony,<br/>Kapra, Netaji Nagar,<br/>Secunderabad</p> <p>560. Andhra Bank<br/>Bandlaguda Branch,<br/>Plot No.1. A, 2,3, Survey No. 11/5<br/>Shivam Elite, Ground Floor,<br/>Bandlaguda Hydershahkote,<br/>Rajendranagar Mandal-500 008</p> | <p>561. Andhra Bank<br/>Kompalli Branch,<br/>H. No. NH-7, Nagpur Highway,<br/>Kompally, Secunderabad -500 014</p> <p>562. Andhra Bank<br/>Pragati Nagar Branch<br/>Plot No. 1239, 1240,<br/>Niraj Nilayam,<br/>Pragati Nagar, Kukutpally<br/>Hyderabad-500 090</p> <p>563. Andhra Bank<br/>Nagaram Branch,<br/>Survey No.257,<br/>Nagaram Main Road,<br/>Keesara Manda,<br/>Ranga Reddy District</p> <p>564. Andhra Bank<br/>Parigi Branch<br/>Survey No. 290,<br/>Balaji Nagar,<br/>Kodangal x Road,<br/>Parigi, Ranga Reddy District.</p> <p>565. Andhra Bank<br/>GPREC Branch<br/>GPR Nagar, Nandyal Road,<br/>Kurnool, Andhra Pradesh</p> <p>566. Andhra Bank<br/>Venkatramana Colony Branch<br/>H.No. 45/142A. 27A<br/>Main Road,<br/>Venkatramana Colony,<br/>Kurnool, Andhra Pradesh</p> <p>567. Andhra Bank<br/>SRK Degree College Branch<br/>Srinivasanagar Nandyal,<br/>Andhra Pradesh.</p> <p>568. Andhra Bank<br/>Bidhan Nagar Branch<br/>CD-28, Sector-I<br/>Salt Lake,<br/>Kolkata-700 064</p> <p>569. Andhra Bank<br/>Barahanagar Branch<br/>131, DH Road, Barisha<br/>Kolkata - 700 008</p> <p>570. Andhra Bank<br/>Doctors Colony Branch,<br/>K-109, PC Colony,<br/>Hanuman Nagar,<br/>Patna-800 020</p> |
|--|---|

571. Andhra Bank  
Behala Branch  
250 DH Road  
Kolkata-700 063
572. Andhra Bank  
Jharia Branch  
Sneha Mansions,  
Sahara India Building,  
Main Road, Jharia,  
Jharkhand
573. Andhra Bank  
Boring Road Branch,  
Mangalam Utsav Hall,  
Steel Home,  
Near SK-Puri Police Chowki  
Boring Road, Patna-800 001
574. Andhra Bank  
Vivekanand Women's College Branch  
131 DH Road, Barisha,  
Kolkata-700 008
575. Andhra Bank  
Barasat Branch,  
22/4, Jessore Road (South),  
Barasat North 24 Parganas  
West Bengal-700 127
576. Andhra Bank  
Agartala Branch,  
Shree Ram Complex,  
Old Thana Lane,  
Kasharipatti, Agartala,  
Tripura-799 001.
577. Syndicate Bank  
Tigaon Branch  
Bhuarpur Road  
Tigaon, Dist : Faridabad  
State : Haryana  
Pin-121101
- Syndicate Bank**
578. Syndicate Bank  
Arua Branch  
Village : Aruva  
P.O. Chandpur  
Dist : Faridabad  
State : Haryana  
Pin : 121101
579. Syndicate Bank  
Sahapura Branch  
Near Sector 65  
Ballabgarh Sahapura  
P.O. Chandpur  
Dist : Faridabad  
State : Haryana  
Pin : 121 004
580. Syndicate Bank  
Panhera Khurd Branch  
P.O. Chandpur  
Dist : Faridabad  
State : Haryana  
Pin : 121 004
581. Syndicate Bank  
Janauli Branch  
Mandkol Road  
Village : Janauli  
Dist : Palwal  
State : Haryana  
Pin : 121 102
582. Syndicate Bank  
Ferozpur Namack Branch  
Near JBT School  
Main Delhi Road  
Dist : Mewat (Nuh)  
State : Haryana  
Pin : 122 107
583. Syndicate Bank  
Chharora Branch  
Opposite Petrol Pump  
Tauru - Nuh Road  
Chharora  
Dist : Mewat (Nuh)  
State : Haryana  
Pin : 122 105
584. Syndicate Bank  
Jamaipur Branch  
Lord Krishna Engineering College  
Near Petrol Pump  
Dist : Gurgaon  
State : Haryana  
Pin : 122 502
585. Syndicate Bank  
Jhajjar Branch  
Near Bhagat Singh Chowk  
Ward No. 1  
Dist : Jhajjar  
State : Haryana  
Pin : 124 103
586. Syndicate Bank  
Lakhawas Branch  
Plot No. 59  
Main Palwal Sohna Road  
Village : Sohna  
Dist : Gurgaon  
State : Haryana  
Pin : 122 103

- |   |   |
|---|---|
| <p>587. Syndicate Bank<br/>Piyala Branch<br/>H.No. 3 Piyala Chowk<br/>Dist : Faridabad<br/>State : Haryana<br/>Pin: 121 002</p> <p>588. Syndicate Bank<br/>Chandu Budhera Branch<br/>C/o Yadav Properties<br/>Main Gurgaon Jhajjar Road<br/>Village Chandu Budhera<br/>Dist : Gurgaon<br/>State : Haryana<br/>Pin : 123 505</p> <p>589. Syndicate Bank<br/>Agon Branch<br/>Tehsil: Firozpur Jhirka<br/>Dist : Mewat<br/>State : Haryana, Pin : 122 104</p> <p>590. Syndicate Bank<br/>Joniawas Branch<br/>Tehsil : Farrukhnagar<br/>Dist. : Gurgaon<br/>State : Haryana<br/>Pin : 122 504</p> <p>591. Syndicate Bank<br/>Raipur Branch<br/>Tehsil : Sohna<br/>Dist. : Gurgaon<br/>State : Haryana, Pin : 122 103</p> <p>592. Syndicate Bank<br/>Andhop Branch<br/>Tehsil : Hathin<br/>Dist. : Palwal<br/>State: Haryana, Pin : 121 106</p> <p>593. Syndicate Bank<br/>Kadipur Branch<br/>Tehsil: Gurgaon<br/>Dist. : Gurgaon<br/>State : Haryana, Pin : 122 001</p> <p>594. Syndicate Bank<br/>Jawan Branch<br/>Tehsil: Ballabgarh<br/>Dist. : Faridabad<br/>State : Haryana, Pin : 121 004</p> <p>595. Syndicate Bank<br/>Roopraka Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Tehsil : Hathin<br/>District : Palwal<br/>State : Haryana<br/>Pin : 121 103</p> | <p>596. Syndicate Bank<br/>Adbar Branch<br/>Nuh Hodal Road<br/>Adbar<br/>Tehsil : Nuh<br/>Dist : Mewat<br/>State : Haryana<br/>Pin : 122 107</p> <p>597. Syndicate Bank<br/>Asaoti Branch<br/>Asaoti Village<br/>Tehsil : Palwal<br/>District : Palwal<br/>State : Haryana<br/>Pin : 121 102</p> <p>598. Syndicate Bank<br/>Vatika Branch<br/>Near Bus Stand<br/>Vatika<br/>Tehsil : Sanganer<br/>Dist : Jaipur<br/>State : Rajasthan<br/>Pin : 303 905</p> <p>599. Syndicate Bank<br/>Fatehpura Branch<br/>Via: Samod Fatehpura (Bansa)<br/>Tehsil : Chomu<br/>District : Jaipur<br/>State : Rajasthan<br/>Pin : 303 806</p> <p>600. Syndicate Bank<br/>Dungarpur Branch<br/>White House<br/>Vijay Bhawan Kathi Road<br/>Near Laxman Ground<br/>Dist : Dungarpur<br/>State : Rajasthan<br/>Pin : 314 001</p> <p>601. Syndicate Bank<br/>Jalore Branch<br/>Block I of Plot No-11<br/>Kasturba Colony<br/>Bhagada Road<br/>Jalore<br/>State : Rajasthan<br/>Pin : 343 001</p> <p>602. Syndicate Bank<br/>Mandavar Branch<br/>Old Bus Stand<br/>Main Market<br/>Mahuva Road<br/>Mandavar, Dist : Dausa<br/>State : Rajasthan, Pin : 321 609</p> |
|---|---|

603. Syndicate Bank  
Bagru Branch  
Sri Bagra Brahmin Samaj  
Kshetriya Samiti  
Link Road  
Bagru  
Dist : Jaipur  
State : Rajasthan  
Pin : 303 007

604. Syndicate Bank  
Choumu Branch  
Near Power House  
Opp. Anaj Mandi Gate  
Choumu  
Dist : Jaipur  
State : Rajasthan  
Pin : 303 702

605. Syndicate Bank  
Yadavanahalli Branch  
Rama Reddy Building  
Yadavanahalli Gate  
Bangalore Hosur Road  
Yadavanahalli  
Dist : Bangalore Rural  
State : Karnataka  
Pin : 560 107

606. Skydicate Bank  
Brazer Town Branch  
Saunders Road  
P.B. No. 576  
Frazer Town  
Bangalore  
Dist : Bangalore Urban  
State : Karnataka  
Pin : 560 005

607. Syndicate Bank  
M G Road Branch  
207, North Block  
Manipal Centre  
Dickenson Road  
Bangalore  
Dist : Bangalore Urban  
State : Karnataka  
Pin : 560 042

से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है।

क्र. सं. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों के नाम (संलग्न सूची के अनुसार)	शाखाओं/कार्यालयों की संख्या
1. भारतीय स्टेट बैंक	269
2. कार्पोरेशन बैंक	238
3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	87
4. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	45
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	28
6. दि ओरियण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड	12
<b>कुल</b>	<b>679</b>

[सं. 11016/3/2012-हिंदी]

चन्द्र प्रकाश ढौंडियाल, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) 1976 के नियम 10 के उप नियम 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की जानेवाली शाखाओं की सूची

क्र. शाखा कार्यालय का नाम  
सं.

1. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हांसी, (कोड 647)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125033
2. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कालुआना, (कोड 8847)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125 103
3. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पाई, (कोड 2446)  
जिला कैथल, हरियाणा, पिनकोड 132 043
4. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सांची, (कोड 2475)  
जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 303
5. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा तरावड़ी (कोड 1958)  
जिला करनाल, हरियाणा, पिनकोड 132 116
6. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, बरवाला (कोड 3623)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-126010

नई दिल्ली, 11 जून, 2012

का.आ. 2158.-केन्द्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथासंशोधित 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं/बीमा कंपनियों की शाखाओं/कार्यालयों को, जिनके 80%

7. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अग्रोहा (कोड 2290)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125047
8. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नारनौल (कोड 12202)  
जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा  
पिनकोड-123001
9. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मॉडल टाउन, पानीपत (कोड 2421)  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132 103
10. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय,  
कुरूक्षेत्र (कोड 1600)  
जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा  
पिनकोड-136119
11. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रादौर (कोड 12205)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा  
पिनकोड-
12. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मॉडल टाउन, यमुनानगर  
जिला यमुनानगर, हरियाणा  
पिन कोड-135 001
13. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बबियाल (कोड 2294)  
जिला अम्बाला, हरियाणा  
पिनकोड 133 005
14. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा थानेसर (कोड 724)  
जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा  
पिनकोड-136118
15. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नीलोखेड़ी (कोड 2440)  
जिला करनाल, हरियाणा  
पिनकोड 132117
16. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा न्योली कलां (कोड 11868)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड 125 004
17. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पिपली (कोड 8850)  
जिला सिरसा, हरियाणा, पिनकोड-125 201
18. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा करनाल (कोड 665)  
जिला करनाल, हरियाणा  
पिनकोड-132 101
19. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अम्बाला शहर मंडी,  
(कोड 2293), राधाकिशन बाजार,  
अम्बाला जिला अम्बाला, हरियाणा  
पिनकोड-134 002
20. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बहादुरगढ़ (कोड 743)  
जिला झज्जर, हरियाणा  
पिनकोड-124 507
21. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा ब्राश मार्केट, रिवाड़ी  
(कोड 11871) महाराणा प्रताप चौक,  
जिला रिवाड़ी, हरियाणा  
पिनकोड-123 401
22. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा म.द. वि.वि., रोहतक  
(कोड 4734) जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
23. भारतीय स्टेट बैंक, व्यक्तिगत बैंकिंग  
शाखा रोहतक (कोड 4154)  
रूपालय कॉम्प्लैक्स, मॉडल टाउन  
रोहतक, जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
24. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जौंद (कोड 4601)  
जिला जौंद, हरियाणा  
पिनकोड-126102
25. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कैथल (कोड 663)  
जिला कैथल, हरियाणा, पिनकोड 136 027
26. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय कैथल,  
(कोड 4480) जिला कैथल हरियाणा,  
पिनकोड-136027
27. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, कुरूक्षेत्र  
(कोड 6615) जिला कुरूक्षेत्र, हरियाणा  
पिनकोड-132118
28. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, भूना  
(कोड 4508) जिला फतेहाबाद, हरियाणा,  
पिनकोड-125111



29. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हिसार रोड, रोहतक,  
(कोड 1766), जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
30. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा उकलाना मंडी, (कोड 2499)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125 113
31. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, सिरसा (कोड 2432)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125 055
32. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रानिया (कोड 6035)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125 076
33. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सिरसा (कोड 719)  
जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-133201
34. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सिकन्दरपुर (कोड 5607)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125 060
35. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भिवानी (कोड 1531)  
जिला भिवानी, हरियाणा  
पिनकोड-133201
36. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मातनहेल (कोड 1351)  
जिला झुज्जर, हरियाणा  
पिनकोड-132 101
37. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बोहर, (कोड 2320)  
जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 023
38. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा इस्माइला, (कोड 2361)  
जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 517
39. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा काहनौर, (कोड 2378)  
जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड 124 412
40. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मेडिकल कॉलेज, रोहतक  
(कोड 4735), जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
41. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सिविल रोड, रोहतक  
(कोड 706), जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
42. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा औद्योगिक क्षेत्र, रोहतक  
(कोड 8573), जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
43. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा न्यू ग्रेन मार्केट, रोहतक  
(कोड 4735), जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 001
44. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भालोट (कोड 2312)  
जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124 401
45. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मंडी डबवाली (कोड 677)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125104
46. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा देसुजोधा (कोड 7578)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125104
47. भारतीय स्टेट बैंक  
प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर-5,  
पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134109
48. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,  
क्षेत्र-1, सैक्टर-5, पंचकूला,  
हरियाणा, पिनकोड-134109
49. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,  
क्षेत्र-2, एस सी ओ 106-108,  
सैक्टर-14, हिसार,  
हरियाणा, पिनकोड-125 001

50. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,  
क्षेत्र-3, जी टी रोड, पानीपत, हरियाणा  
पिनकोड-132103
51. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा एन-एन रोड, बहादुरगढ़  
(कोड 30363) जिला झज्जर, हरियाणा,  
पिनकोड-124507
52. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सरकूलर रोड रिवाड़ी,  
(कोड 30368) जिला रिवाड़ी, हरियाणा  
पिनकोड-123401
53. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बावल, (कोड 6238)  
जिला रिवाड़ी, हरियाणा  
पिनकोड-123501
54. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा झज्जर चूंगी, रोहतक  
(कोड 11950) जिला रोहतक, हरियाणा,  
पिनकोड-124001
55. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हुडा कॉम्प्लैक्स, रोहतक  
(कोड 11982) जिला रोहतक, हरियाणा  
पिनकोड-124001
56. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, महेन्द्रगढ़  
(कोड 4956) जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा,  
पिनकोड-123029
57. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा धारुहेड़ा, (कोड 5699)  
जिला रिवाड़ी, हरियाणा  
पिनकोड-122106
58. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा संजय चौक, पानीपत  
(कोड 30512) जिला पानीपत, हरियाणा  
पिनकोड-132103
59. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा धारुहेड़ा रोड, रिवाड़ी,  
(कोड 11872) जिला रिवाड़ी, हरियाणा  
पिनकोड-123401
60. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आर एन डब्ल्यू, दिल्ली रोड,  
हिसार, (कोड 652) जिला हिंसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125001
61. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा टोहाना (कोड 1072)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा  
पिनकोड-125120
62. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा फतेहाबाद, (कोड 1156)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा  
पिनकोड-125050
63. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा ह.कृ.वि.वि., हिंसार  
(कोड 1566) जिला हिंसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125004
64. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जीवन नगर (कोड 1788)  
ग्राम-पोस्ट : सन्त नगर,  
तहसील-रानिया, जिला सिरसा हरियाणा,  
पिनकोड-125075
65. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भिरडाना (कोड 2287)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा  
पिनकोड-125050
66. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा एलनाबाद (कोड 2340)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125102
67. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हिंसार मण्डी, हिंसार  
(कोड 2356) जिला हिंसार, हरियाणा  
पिनकोड-125001
68. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जाखल (कोड 2365)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा  
पिनकोड-126001
69. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कालावाली, (कोड 2381),  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125201
70. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा ओढ़ा (कोड 2443)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125077
71. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रोड़ी (कोड 2462)  
जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125201

72. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सिवानी (कोड 2486)  
जिला भिवानी, हरियाणा  
पिनकोड-125046
73. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मंगाली (कोड 3625)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125105
74. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रतिया (कोड 10730),  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा  
पिनकोड-125050
75. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बालसमंद (कोड 11844)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125001
76. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आदमपुर (कोड 11845),  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125001
77. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भाबलपुर (कोड 11867)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125001
78. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, सिरसा  
(कोड 7662) जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125055
79. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हिसार कैंट, (कोड 8015),  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-125044
80. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पटेल नगर, हिसार  
(कोड 9280) जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125001
81. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जिंदल स्टेनलेस स्टील लि.,  
हिसार (कोड 10318), जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125005
82. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जे. एन.सी.डी.एल. विद्यापीठ,  
कॉम्प्लेक्स, सिरसा (कोड 10472)  
(कोड 9280) जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-125055
83. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा माडल टाउन, हांसी  
(कोड 11948) जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125033
84. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा माधोसिंघाना (कोड 11874).  
जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड
85. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा शाहपुर बेगु (कोड 11875).  
जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-125055
86. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा डोंग (कोड 11951)  
जिला हिसार, हरियाणा  
पिनकोड-
87. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा वायुसेना स्टेशन, सिरसा,  
(कोड 11952) जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-125055
88. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा गढ़ी, (कोड 12197)  
जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125033
89. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा उमरा, (कोड 3626)  
जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125033
90. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पटेल नगर, हिसार  
(कोड 9280) जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125001
91. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, फतेहाबाद (कोड 4306)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा,  
पिनकोड-126121
92. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा चौटाला, सिरसा  
(कोड 4599) जिला सिरसा, हरियाणा  
पिनकोड-125101
93. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा न्यू ग्रेन मार्केट, हिसार  
(कोड 5700), जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125001

94. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, हिसार  
(कोड 6661) जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125001
95. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा थुराना (कोड 7183)  
जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125033
96. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भाटला (कोड 7184)  
जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125033
97. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मोठ रांगडां (कोड 7185)  
जिला हिसार, हरियाणा,  
पिनकोड-125039
98. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भट्ट कलाँ, (कोड 7186)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा,  
पिनकोड-125053
99. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आकावाली, (कोड 7573)  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा,  
पिनकोड-125106
100. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कागदाना, (कोड 7603)  
जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-125053
101. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा खारियां (कोड 11873)  
जिला सिरसा, हरियाणा,  
पिनकोड-
102. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हरोली (कोड 11866),  
जिला फतेहाबाद, हरियाणा,  
पिनकोड-
103. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पानीपत, (कोड 694)  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132101
104. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रिवाड़ी (कोड 705)  
जिला रिवाड़ी हरियाणा  
पिनकोड-123401
105. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आर एन डब्लु, पानीपत  
(कोड 1620) जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132103
106. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मॉडल टाउन, करनाल  
(कोड 1761) जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132001
107. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कुंजपुरा (कोड 2400)  
जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132023
108. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, शोदापुर,  
(कोड 3392), जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132103
109. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आसन कलां (कोड 3627) जिला पानीपत,  
हरियाणा, पिनकोड-132105
110. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, करनाल  
(कोड 4334), जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-124360
111. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कृषि विकास शाखा, इन्द्री  
(कोड 4945), जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132041
112. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, जादुसाना,  
(कोड 5391), जिला रिवाड़ी, हरियाणा,  
पिनकोड-123401
113. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा उरलाना कलां (कोड 5404)  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132103
114. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आई सी बहादुरगढ़,  
(कोड 5697), जिला झज्जर, हरियाणा,  
पिनकोड-150018
115. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बापोली (कोड 6984 )  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132104
116. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा शामगढ़ (कोड 7174)  
जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132116

117. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अहर, (कोड 7576 )  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132107
118. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अरजाहेडी (कोड 7772 )  
जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132116
119. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा किशनपुरा, पानीपत  
(कोड 8572)  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132103
120. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पानीपत सिपाइनरी, बड़ोली  
(कोड 8706), जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132101
121. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जामना (कोड 8849)  
जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132117
122. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पटौदा (कोड 8904 )  
जिला झज्जर, हरियाणा,  
पिनकोड-124001
123. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा भुगारिका, नारनौल (कोड 8905),  
जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा,  
पिनकोड-123001
124. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अनाज मण्डी, करनाल  
(कोड 9123), जिला करनाल, हरियाणा  
पिनकोड-132001
125. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा दोहाड़ (कोड 10731 )  
जिला भिवानी, हरियाणा,  
पिनकोड-127201
126. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा समानावा (कोड 10732 )  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132101
127. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा झज्जर (कोड 10733 )  
जिला झज्जर, हरियाणा,  
पिनकोड-124103
128. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, भिवानी  
(कोड 11864) जिला भिवानी, हरियाणा,  
पिनकोड-127021
129. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा चरखी दादरी (कोड 11865)  
जिला भिवानी, हरियाणा  
पिनकोड-127306
130. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नन्दली (कोड 11869 )  
जिला झज्जर, हरियाणा  
पिनकोड-
131. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कोमली, रिवाड़ी  
(कोड 11870) जिला रिवाड़ी, हरियाणा,  
पिनकोड-123401
132. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सानोली रोड, पानीपत (कोड 11949),  
जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132101
133. भारतीय स्टेट बैंक  
औद्योगिक क्षेत्र, करनाल (कोड 11980),  
जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132101
134. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हुडा कॉम्प्लैक्स, करनाल  
(कोड 11980), जिला करनाल, हरियाणा,  
पिनकोड-132001
135. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सुभाष कॉलोनी, जी टी रोड,  
पानीपत (कोड 11981) जिला पानीपत, हरियाणा,  
पिनकोड-132103
136. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा फाँद (कोड 12199)  
जिला करनाल, हरियाणा  
पिनकोड-132114
137. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अम्बाला (कोड 607)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133001
138. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा अम्बाला शहर (कोड 608)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133003

139. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नारायणगढ़, (कोड 614)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-134203
140. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जगाधरी, (कोड 654)  
जिला जगाधरी, हरियाणा,  
पिनकोड-133001
141. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा यमुनानगर, (कोड 1293)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-135001
142. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सैक्टर-10, पंचकूला, (कोड 1509),  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134109
143. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सुरजपुर, (कोड 1579),  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134107
144. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, नारायणगढ़  
(कोड 1691), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133201
145. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लाडवा (कोड 1760)  
जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा,  
पिनकोड-133201
146. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा चण्डी मंदिर (कोड 2280)  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134107
147. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी  
(कोड 2420), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133001
148. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सदर बाजार, अम्बाला कैट  
(कोड 2468) जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133001
149. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सरावां, (कोड 2478)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-133206
150. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा शाहबाद मारकंडा  
(कोड 2481) जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा,  
पिनकोड-132135
151. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा क्योड़क, (कोड 3125)  
जिला कैथल, हरियाणा,  
पिनकोड-132032
152. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा तलाई बाजार, कैथल  
(कोड 3191) जिला कैथल, हरियाणा,  
पिनकोड-136027
153. भारतीय स्टेट बैंक  
व्यक्तिगत बैंकिंग शाखा, सैक्टर-16,  
पंचकूला, (कोड 4172)  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134112
154. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, जगाधरी  
(कोड 4332) जिला जगाधरी, हरियाणा,  
पिनकोड-132236
155. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नगल, (कोड 5664)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133003
156. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा ठोल (कोड 5665),  
जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा,  
पिनकोड-132136
157. भारतीय स्टेट बैंक  
आर ए बाजार, अम्बाला कैट  
(कोड 5670), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133001
158. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पथरेड़ी (कोड 5701)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133102
159. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा औद्योगिक सम्पदा, पंचकूला  
(कोड 6157), जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134109
160. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पुण्डरी, (कोड 6158)  
जिला कैथल, हरियाणा,  
पिनकोड-132026

161. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा आर ई सी, कुरुक्षेत्र,  
(कोड 6260) जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा,  
पिनकोड-132119
162. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मोटर मार्केट, अम्बाला  
(कोड 6595), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133002
163. भारतीय स्टेट बैंक  
कृषि विकास शाखा, अलेवा  
(कोड 6679), जिला जींद, हरियाणा,  
पिनकोड-132111
164. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा किठाना (कोड 7135) जिला कैथल, हरियाणा  
पिनकोड-126111
165. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नाहरपुर (कोड 7137)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-135001
166. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बुद्धकलां (कोड 7378)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-135106
167. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मलिकपुर (कोड 7518)  
जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा,  
पिनकोड-132128
168. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सिवान (कोड 7550)  
जिला कैथल, हरियाणा,  
पिनकोड-132033
169. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हाबड़ी, (कोड 7579)  
जिला कैथल, हरियाणा,  
पिनकोड-132128
170. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बरवाला (कोड 7604)  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134118
171. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा औद्योगिक सम्पदा, अम्बाला कैट  
(कोड 8565), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-133003
172. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा कालका (कोड 8742)  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-133302
173. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बागड़ू कलां (कोड 8848)  
जिला जींद, हरियाणा  
पिनकोड-126112
174. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा नरवाना (कोड 10003),  
जिला जींद, हरियाणा,  
पिनकोड-126116
175. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा राजकीय पॉलीटेक्नीक,  
अम्बाला सिटी (कोड 10057)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-134003
176. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सैक्टर-20, पंचकूला  
(कोड 10374), जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134112
177. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा हरियाणा पर्यटन निगम,  
पिंजोर (कोड 10471)  
जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134002
178. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा पेहोवा, (कोड 10734)  
जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा  
पिनकोड-136128
179. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा मुलाना, (कोड 11843)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-
180. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा रानी तालाब, जींद  
(कोड 11846)  
जिला जींद, हरियाणा, पिनकोड
181. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा चीका, (कोड 11847)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-
182. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बराड़ा (कोड 11863)  
जिला अम्बाला, हरियाणा, पिनकोड

183. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सफीबो (कोड 12198)  
जिला जींद, हरियाणा,  
पिनकोड-126112
184. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा इस्माइलाबाद (कोड 12200)  
जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-
185. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा बिलासपुर (कोड 12203)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-135102
186. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सढौरा (कोड 12204)  
जिला यमुनानगर, हरियाणा,  
पिनकोड-133204
187. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा सैक्टर-8, पंचकूला,  
(कोड 12235), जिला पंचकूला, हरियाणा,  
पिनकोड-134101
188. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा जुलाना,  
(कोड 12234), जिला अम्बाला, हरियाणा,  
पिनकोड-
189. भारतीय स्टेट बैंक  
शाखा लघु सचिवालय, रिवाड़ी  
(कोड 14634), जिला रिवाड़ी, हरियाणा,  
पिनकोड-123401
190. भारतीय स्टेट बैंक  
विशेषीकृत कृषि वाणिज्यिक शाखा  
करनाल (कोड 14499),  
एस सी ओ 18, सैक्टर-3, करनाल, जिला करनाल,  
हरियाणा,  
पिनकोड-132001
191. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 628 )  
एस सी ओ 43-48  
सैक्टर-17-बी,  
बैंक स्कवेयर  
चंडीगढ़-160017
192. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 1452)  
नाभा जिला पटियाला  
पंजाब-147201
193. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 3246)  
मध्य मार्ग, सैक्टर 7,  
चंडीगढ़-160017
194. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10603)  
नयां हरियाणा सचिवालय,  
फायर स्टेशन के सामने, सैक्टर 17,  
चंडीगढ़-160017
195. भारतीय स्टेट बैंक  
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड,  
सैक्टर 9, (कोड 10604),  
चंडीगढ़-160009
196. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10605)  
एस सी एफ 287, मोटर मार्किट,  
मनीमाजरा-160101
197. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10606)  
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर ब्यॉयज़  
सैक्टर 11, चंडीगढ़-160011
198. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10607),  
गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल  
सैक्टर 32, चंडीगढ़-160032
199. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10610),  
श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज,  
सैक्टर 26, चंडीगढ़-160038
200. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10609),  
एमसीएम डीएवी कॉलेज,  
सैक्टर 36, चंडीगढ़-160036
201. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10610),  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल  
नया नंगल, आनन्दपुर साहब  
जिला रोपड़, 140124
202. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10739),  
बिंदल ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स, पारस नगर,  
चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग डेराबस्सी,  
जिला मोहाली  
पंजाब-140507



203. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10747),  
एस सी ओ 5-6, वार्ड नं. 15,  
बंसीवाली चुंगी, चंडीगढ़ रोड, खरड  
जिला मोहाली  
पंजाब-140301
204. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11585),  
एस सी ओ-36, सेक्टर 18 डी,  
चंडीगढ़  
पंजाब-160018
205. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11586),  
दुकान नं. 220 ए, गली नं. 7, मेन बाजार  
तरीपड़ी, पटियाला  
पंजाब-147001
206. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11705),  
एसएमई शाखा, एससीओ 43-48, तीसरा तल  
सेक्टर 17 बी  
चंडीगढ़
207. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11832),  
एचडीएफसी बैंक के सामने  
नाभा रोड, अमलोह जिला फतेहगढ़ साहब  
पंजाब-147203
208. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11836)  
लांडरां, जिला मोहाली  
पंजाब-140307
209. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11898)  
बस्सी पठाना, जिला फतेहगढ़ साहब  
पंजाब-140412
210. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11911),  
समाना, जिला पटियाला  
पंजाब-147101
211. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11912)  
पातड़ा, जिला पटियाला  
पंजाब-147105
212. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11975)  
बनूडा, जिला मोहाली  
पंजाब-140601
213. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11976)  
लालडू जिला मोहाली  
पंजाब-140501
214. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11977)  
आनंद साहब जिला रूपनगर  
पंजाब-140118
215. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11978)  
मुल्लापुर गरीबदास चंडीगढ़ कुराली मार्ग जंड अस्पताल  
के निकट जिला मोहाली  
पंजाब-140901
216. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 12209)  
कंडाला, डाकघर-धर्मगढ़ जिला मोहाली  
पंजाब
217. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 13181)  
आई आई टी कॉम्प्लेक्स नंगल रोड, रोपड़  
पंजाब-140001
218. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 30440)  
एस सी ओ 118-119-120 सिटी सब सेंटर, सेक्टर 34 ए  
चंडीगढ़-160022
219. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10737)  
जालंधर रोड, रैय्या तहसील-बाबा बकाला  
जिला अमृतसर  
पंजाब-143115
220. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10738)  
खदूर साहिब रोड, जंडियाला गुरु तहसील अमृतसर  
जिला अमृतसर  
पंजाब-143115
221. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10743)  
गुरुद्वारा रोड, गोइंदवाल साहब तहसील खदूर साहब  
जिला तरनतारन, पंजाब
222. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10744)  
चोला साहब, गुरुद्वारा दुखनिवारन मार्किट  
गोइंदवाल रोड, जिला तरनतारन  
पंजाब-143408

- |   |  |
|---|--|
| <p>223. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11582)<br/>12 ए, ग्रीन फील्ड एवेन्यू मजीठा रोड, अमृतसर<br/>पंजाब-143004</p> <p>224. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11833)<br/>16/17, भुल्लार एवेन्यू फतेहगढ़ चूड़ियां रोड,<br/>अमृतसर<br/>पंजाब-143001</p> <p>225. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11837)<br/>सत्कार पैलेस के निकट अमृतसर रोड, तरनतारन<br/>पंजाब-143401</p> <p>226. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11858)<br/>रामदास जिला अमृतसर<br/>पंजाब</p> <p>227. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11894)<br/>जालंधर रोड, अमृतसर<br/>पंजाब-143006</p> <p>228. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11895)<br/>अजनाला रोड, अमृतसर<br/>पंजाब 143008</p> <p>229. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11896)<br/>न्यू अमृतसर, अमृतसर<br/>पंजाब 143006</p> <p>230. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11959)<br/>छहरा जिला अमृतसर<br/>पंजाब 143105</p> <p>231. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11960)<br/>वेरका जिला अमृतसर<br/>पंजाब 143501</p> <p>232. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11962)<br/>बेगोवाल जिला अमृतसर<br/>पंजाब</p> <p>233. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 9839)<br/>मैमून छावनी जिला पठानकोट<br/>पंजाब 145001</p> | <p>234. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10611)<br/>हंस राज आर्य हाई स्कूल, गढ़शंकर जिला होशियारपुर<br/>पंजाब-144527</p> <p>235. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10668)<br/>बारिंग यूनिशन क्रिश्चियन कॉलेज जालंधर रोड, बटाला<br/>जिला गुरदासपुर<br/>पंजाब-143505</p> <p>236. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10740)<br/>दसूया रोड, गरडीवाला तहसील दसूया जिला होशियारपुर<br/>पंजाब-144207</p> <p>237. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10741)<br/>चंडीगढ़ होशियारपुर रोड बाल्मीकि मंदिर के निकट,<br/>महिलपुर जिला होशियारपुर<br/>पंजाब</p> <p>238. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10742)<br/>भोगपुर रोड, बुल्लोवाल<br/>जिला होशियारपुर<br/>पंजाब-146113</p> <p>239. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10745)<br/>ए वी आर फाउंड्री के निकट अमृतसर रोड, बटाला<br/>जिला गुरदासपुर,<br/>पंजाब-143505</p> <p>240. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 10746)<br/>बिक्रम पैलेस, नेहरू गेट हांसी ब्रिज के निकट,<br/>जालंधर रोड बटाला, पंजाब-143505</p> <p>241. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11834)<br/>एयरमैन बिल्डिंग चंडीगढ़ रोड, होशियारपुर<br/>पंजाब 146001</p> <p>242. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11835)<br/>जैन बिल्डिंग बस अड्डे के निकट हरियाणा<br/>जिला होशियारपुर<br/>पंजाब</p> <p>243. भारतीय स्टेट बैंक<br/>(कोड 11838)<br/>मियानी जिला गुरदासपुर<br/>पंजाब 144202</p> |
|---|--|

244. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11902)  
बिजलीघर के निकट फतेहगढ़ चूड़ियां तहसील बटाला  
जिला गुरदासपुर, पंजाब 143602
245. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11903)  
जी टी रोड, गुरदासपुर  
पंजाब 143521
246. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 11964)  
हरगोबिंदपुर जिला होशियारपुर  
पंजाब 144205
247. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 12207)  
कलानौर जिला गुरदासपुर  
पंजाब 143512
248. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 12236)  
जी टी रोड, दसूया जिला होशियारपुर  
पंजाब 144205
249. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 13354)  
एनआरआई शाखा जिला होशियारपुर  
पंजाब 146001
250. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 13511)  
मेहतियाना जिला होशियारपुर  
पंजाब 146001
251. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 15161)  
एलसीपीसी प्लॉट नं. डी-173, फेज VIII-बी  
एसएस नगर, मोहाली  
पंजाब 160056
252. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 14846)  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय  
एससीओ 103-108  
सैक्टर 17 बी चंडीगढ़  
पंजाब 160017
253. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 5203)  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय  
आरबीओ कॉम्प्लेक्स, वज्र कैंटीन के ऊपर  
सुतेहरी रोड होशियारपुर  
पंजाब 146001
254. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 5207)  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय  
रानी का बाग अमृतसर  
पंजाब 143001
255. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 4486)  
आरएसीपीसी, एससीओ 103-108  
सैक्टर 17 बी चंडीगढ़  
पंजाब 160017
256. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 5025)  
आरएसएमईसीसी, प्रथम तल, 3, रानी का बाग  
अमृतसर पंजाब 143001
257. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 5022)  
एसएमईसीसीसी, एससीओ 103-108,  
सैक्टर 17 बी  
चंडीगढ़ 160017
258. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 5062)  
टीएफसीपीसी, चंडीगढ़  
एससीओ 103-108  
सैक्टर 17 बी चंडीगढ़ 160017
259. भारतीय स्टेट बैंक  
(कोड 10388)  
सीसीपीसी एससीओ 103-108,  
सैक्टर 17 बी, चंडीगढ़ 160017
260. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र 3)  
दिल्ली आंचलिक कार्यालय भवन ए ब्लॉक,  
11, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
261. भारतीय स्टेट बैंक  
क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय (क्षेत्र 4)  
दिल्ली आंचलिक कार्यालय भवन ए ब्लॉक,  
11, संसद मार्ग  
नई दिल्ली-110001
262. भारतीय स्टेट बैंक  
केन्द्रीयकृत पेंशन प्रक्रिया केन्द्र  
तृतीय तल चांदनी चौक  
नई दिल्ली-110006
263. भारतीय स्टेट बैंक  
देयता केन्द्रीयकृत प्रक्रिया केन्द्र  
बी-16, सैक्टर-62 संस्थागत क्षेत्र  
नौएडा-201307 (उत्तर प्रदेश)

264. भारतीय स्टेट बैंक  
लघु एवं मध्यम उद्यम शहरी साख केन्द्र  
तीसरी मंजिल,  
भारतीय स्टेट बैंक भवन  
चाँदनी चौक  
दिल्ली-110006
265. भारतीय स्टेट बैंक  
फुटकर आस्तियाँ लघु एवं मध्यम उद्यम साख केन्द्र  
62, बेसमेंट, नीलम बाटा रोड  
एन आई एफ टी फरीदाबाद-121001  
(हरियाणा)
266. भारतीय स्टेट बैंक  
तनावग्रस्त आस्तियाँ वसूली शाखा  
23, नजफगढ़ रोड  
नई दिल्ली-110015
267. भारतीय स्टेट बैंक  
चितरंजन पार्क शाखा  
बी-107  
चितरंजन पार्क  
नई दिल्ली-110019
268. भारतीय स्टेट बैंक  
एन आई एफ टी ई एम कैम्पस शाखा  
कुंडली, सोनीपत-131028  
(हरियाणा)
269. भारतीय स्टेट बैंक  
फुटकर आस्ति लघु व मध्यम उद्यम नगर ऋण कक्ष  
दुर्गापुर (दुर्गापुर शाखा परिसर)  
जिला : बर्धमान, पश्चिम बंगाल-713 203

#### कार्पोरेशन बैंक

270. कार्पोरेशन बैंक  
जयश्री बिल्डिंग, आंबेडकर चौक, गोखले रोड,  
नवपाड़ा,  
एच 23 ठाणे-400062  
जिला-ठाणे, महाराष्ट्र-राज्य
271. कार्पोरेशन बैंक  
जीवन सुमन बिल्डिंग, प्रथम तल, नं.-5,  
टाउन सेन्टर, औरंगाबाद-431003
272. कार्पोरेशन बैंक  
आदित्य चेम्बर्स, 201, नविपेठ, महानगर  
पीएनआईसी,  
जिला-जलगांव-425001  
राज्य-महाराष्ट्र

273. कार्पोरेशन बैंक  
फर्स्ट फ्लोर, प्लॉट 87, पंचशील कमल कॉम्प्लेक्स,  
सेक्टर 4, ऐरोली, न्यू मुंबई, 400708  
जिला ठाणे, राज्य महाराष्ट्र
274. कार्पोरेशन बैंक  
औदुम्बर अपार्टमेंट, ग्राउंड गुप्ता रोड,  
डॉबिवली (पश्चिम),  
मुंबई-421202  
जिला-ठाणे, राज्य-महाराष्ट्र
275. कार्पोरेशन बैंक  
भगवती देवी मंदिर, भगवतीपुर सोनगांव रोड,  
कोलहर -413710  
जिला-अहमदनगर  
राज्य-महाराष्ट्र
276. कार्पोरेशन बैंक  
जीवन तारा बिल्डिंग  
(एलआईसी), 513, सदर बाजार, गणपतदास देवी मार्ग,  
जिला-सतारा-415001  
राज्य-महाराष्ट्र
277. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 54, नोर्थ शिवाजीनगर, अप्टा पोलीस चौकी के पास,  
सांगली-416 416  
जिला-पुणे  
राज्य-महाराष्ट्र
278. कार्पोरेशन बैंक  
मैत्री शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हेड क्वार्टर्स, सौथन कमांड,  
पुणे कैंप, पुणे-411 001  
जिला-पुणे  
राज्य-महाराष्ट्र
279. कार्पोरेशन बैंक  
125, बॉर्ड नं. 63, प्रकाश भवन, लिंक रोड,  
जिला-नागपूर-440001  
राज्य-महाराष्ट्र
280. कार्पोरेशन बैंक  
विमान नगर, प्लॉट 99/2, मेहता हाऊस,  
ग्राउंड फ्लोर,  
जिला-पुणे-411014  
राज्य-महाराष्ट्र
281. कार्पोरेशन बैंक  
सुयोग प्लाजा, आई फ्लोर, 1278, जंगली महाराज रोड,  
डेक्कन जिमखाना,  
सेवा शाखा,  
जिला-पुणे-411005  
राज्य-महाराष्ट्र

282. कार्पोरेशन बैंक  
कपूर हाइट्स, एफ पी नं. 27, टीपीएस पुणे नं. 11,  
एमएसईबी पॉवर हाऊस के पास, माली महाराजा रोड,  
सोमवारपेठ,  
जिला-पुणे-411001  
राज्य-महाराष्ट्र
283. कार्पोरेशन बैंक  
2डी विंग, 1 फ्लोर, जावकर प्लाजा,  
जय स्तम्भ, मेन रोड,  
जिला-रत्नागिरि-415 612  
राज्य-महाराष्ट्र
284. कार्पोरेशन बैंक  
शॉप नं. 2, 3, 4, 5, एवं 5 ए, ग्राउंड फ्लोर,  
सिएरा टावर्स, लोखंडवाला टाउनशिप, कॉडिविलि  
(ईस्ट), मुंबई-1, जिला-ग्रेटर मुंबई,  
राज्य-महाराष्ट्र
285. कार्पोरेशन बैंक  
मुरलीधाम, इंदिरा मार्केट रोड,  
डॉ. जंगली डिस्पेन्सरी के सामने  
जिला-वर्धा-442 001  
राज्य-महाराष्ट्र
286. कार्पोरेशन बैंक  
गणेश हाइट्स 100 फुट मेन रोड,  
गणेश नगर, दापोडी,  
पुणे-आर्मी कैप ऐरिया  
जिला-पुणे-411 012  
राज्य-महाराष्ट्र
287. कार्पोरेशन बैंक  
नेशनल इन्वोयरेन्स बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,  
किंग्सवे, एस.वी.पी. मार्ग जिला-नागपुर-440001  
राज्य-महाराष्ट्र
288. कार्पोरेशन बैंक  
आनंद मंगल कार्यालय, सहकार सभा गृह मार्ग,  
मार्केट यार्ड सारस नगर,  
जिला-अहमदनगर-414001  
राज्य-महाराष्ट्र
289. कार्पोरेशन बैंक  
गुलशन पोईंट, राजपेट सर्कल, बादनेरा रोड,  
होटल ड्रीम लैंड के पास, जिला-अमरावती-444 601  
राज्य-महाराष्ट्र
290. कार्पोरेशन बैंक  
शिवद्वार कॉम्प्लेक्स, एलआरटी कॉलेज रोड,  
सिविल लाईन्स स्क्वेर,  
जिला-अकोला-444001  
राज्य-महाराष्ट्र
291. कार्पोरेशन बैंक  
1-17-1427, विश्वनगर, विप रोड,  
जिला-नांदेड-431601  
राज्य-महाराष्ट्र
292. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 54, नोर्थ शिवाजीनगर, अप्पा पोलीस चौकी के पास,  
जिला-सांगली-416 416  
राज्य-महाराष्ट्र
293. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 466, अवदूत प्लाजा, भिगवान रोड,  
बारामती-413 102  
जिला-पुणे, राज्य-महाराष्ट्र
294. कार्पोरेशन बैंक  
प्लॉट नं. 3, मिडल किंग रोड, स्टील चेम्बर के बगल में,  
वर्धमान नगर, जिला-नागपुर-440008  
राज्य-महाराष्ट्र
295. कार्पोरेशन बैंक  
स्वस्ति, ग्राउंड फ्लोर, जैन भवन के सामने,  
आर्टिलरी सेन्टर रोड, नाशिक रोड,  
जिला-नाशिक-422101  
राज्य-महाराष्ट्र
296. कार्पोरेशन बैंक  
डी. नं. 2, श्रद्धा कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लोर,  
शिव मंदिर रोड, अम्बरनाथ-421 501  
जिला-ठाणे  
राज्य-महाराष्ट्र
297. कार्पोरेशन बैंक  
मालपाणी प्लाजा, जंता राज मैदान रोड,  
संगमनेर-422 605  
जिला-अहमदनगर  
राज्य-महाराष्ट्र
298. कार्पोरेशन बैंक  
गेट नं. 1156, 'श्री हरि' कॉम्प्लेक्स, शीक्रेपूर रोड,  
विशाल गार्डन के सामने,  
चाकण-410501,  
जिला-पुणे, राज्य-महाराष्ट्र
299. कार्पोरेशन बैंक  
'ओम साई', शॉप नं. 7 टो 11, 23 सी, सेक्टर-7,  
सर्विस रोड, खारघर, नवी मुंबई 410201  
जिला-रायगढ़, राज्य-महाराष्ट्र
300. कार्पोरेशन बैंक  
लक्ष्मीनारायण कॉम्प्लेक्स सेक्टर 12ए,  
गोविंद फकिर नाथक रोड,  
कोपछैर्णे-400 709  
जिला-ठाणे, राज्य-महाराष्ट्र

301. कार्पोरेशन बैंक  
शुभश्री वुड क्लब हाऊस, नेक्स्ट टो कुणाल इकोन,  
पिंपले सौदागर,  
पुणे 411 027  
जिला पुणे राज्य-महाराष्ट्र
302. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राउंड फ्लोर, ए-17 कस्तूरबा हाउसिंग सोसायटी,  
मेन रोड, विश्रान्तवाडी,  
पुणे-411 015  
जिला पुणे  
राज्य महाराष्ट्र
303. कार्पोरेशन बैंक  
एस. नं. 144, 149/1, प्रेम पार्क, मसूलकर कॉलनी,  
पिंप्री, पुणे 411 018  
जिला पुणे  
राज्य महाराष्ट्र
304. कार्पोरेशन बैंक  
201 202, 2 फ्लोर, स्टेलार एनक्लेव परिवार बँक के पास,  
औंद, पुणे-411007  
जिला पुणे, राज्य महाराष्ट्र
305. कार्पोरेशन बैंक  
मेजानैन फ्लोर वीणा चेम्बर्स, फोर्ट, मुंबई  
जिला ग्रेटर मुंबई  
राज्य महाराष्ट्र
306. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राउंड फ्लोर, 'रत्न कल्याण', 286/5/6, बुद्धवारपेठ,  
स्टेशन रोड, कराड 415 110  
जिला सतारा  
राज्य महाराष्ट्र
307. कार्पोरेशन बैंक  
एच. 2406, जन. तिममय्या रोड, पश्चिम मुंबई कैंप,  
पुणे, 411 011  
जिला पुणे  
राज्य महाराष्ट्र
308. कार्पोरेशन बैंक  
आदुम्बर अपार्टमेंट, ग्राउंड गुप्ता रोड,  
डोंबिवली (पश्चिम), मुंबई-421202  
जिला ठाणे,  
राज्य महाराष्ट्र
309. कार्पोरेशन बैंक  
भूतल, प्लॉट सं. 17, सर्वे सं. 112/1,  
जनता कालेज के पास, स्ववेयर सिविल लाईन,  
जिला-चंद्रपुर-442401,  
राज्य महाराष्ट्र
310. कार्पोरेशन बैंक  
भूतल, गला सं. 7, 8, 9 एवं 10, एम.के. प्लाजा,  
हैपर सिटी के पास,  
कसरवाडावली, गोडबंदर रोड,  
जिला-थाने पश्चिम-400607  
राज्य-महाराष्ट्र
311. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, गुरु गोविंद एचएसई मूरबद्रड,  
पुर्णिमा थिएटर, कल्याण-421301  
जिला-ठाणे  
राज्य-महाराष्ट्र
312. कार्पोरेशन बैंक  
एस एन एम सी, बागलकोट  
एस. निजलिगप्पा मेडिकल कॉलेज कैंपस, नवनगर,  
बागलकोट-578 105  
जिला-बागलकोट  
राज्य-कर्नाटक
313. कार्पोरेशन बैंक  
विद्यानगर, गुलबर्गा  
शरणा बसवेश्वरा कॉलेज ऑफ सायन्स,  
कॉलेज कैंपस, प्रथम तल,  
जिला गुलबर्गा 585101  
राज्य-कर्नाटक
314. कार्पोरेशन बैंक  
फजलपुर  
प्रथम तल, मलेंद्र संस्थान मठ, मेन रोड,  
जिला अफजलपुर-585301  
राज्य कर्नाटक
315. कार्पोरेशन बैंक  
बैलहोंगल सीटीएस सं. 3343, वन कार्यालय के पीछे,  
बेलगाम रोड, बैलहोंगल-591102  
जिला-बेलगाव  
राज्य-कर्नाटक
316. कार्पोरेशन बैंक  
विजयवाड़ा-सूर्यारावपेट शाखा  
35-25-35, डॉ. बी. रामराव स्ट्रीट  
सूर्यारावपेट, विजयवाड़ा-520 002  
जिला-कृष्णा  
आंध्र प्रदेश
317. कार्पोरेशन बैंक  
विशाखापट्टनम-गाजुवाका शाखा  
7 6-17, चिट्टिवानिपालेम  
रा. रा-5, गाजुवाका, विशाखापट्टनम 530026  
जिला-विशाखापट्टनम  
आंध्र प्रदेश

318. कार्पोरेशन बैंक  
राजाम शाखा  
भारतीय जीवन बीमा निगम भवन  
राजाम-531 127  
जिला-श्रीकाकुलम  
आंध्र प्रदेश
319. कार्पोरेशन बैंक  
पार्वतीपुरम शाखा  
श्री वेंकटेश्वर शॉपिंग माल, मेन रोड,  
पार्वतीपुरम-535501  
जिला-विजयनगरम  
आंध्र प्रदेश
320. कार्पोरेशन बैंक  
भीमुनीपट्टनम-तगरपुवलसा शाखा  
प्लॉट सं. 36, गणेश सिनेमा के पास,  
चिट्टिवलसा, भीमली मेन रोड,  
तगरपुवलसा-531 162  
जिला-विशाखापट्टनम  
आंध्र प्रदेश
321. कार्पोरेशन बैंक  
विशाखापट्टनम-मधुरवाड़ा शाखा  
93, वल्ली नगर, एन.एच.-5  
मधुरवाड़ा  
विशाखापट्टनम-531 162  
जिला-विशाखापट्टनम  
आंध्र प्रदेश
322. कार्पोरेशन बैंक  
नरसरावपेट शाखा  
9-9-55, विद्या टावर्स, प्रथम तल,  
बैंक स्ट्रीट, अरंडलपेट  
नरसरावपेट-522 601  
जिला-गुंटूर  
आंध्र प्रदेश
323. कार्पोरेशन बैंक  
नंदिगामा शाखा  
16-170, रथम बाजार  
नंदिगामा 521 185  
जिला-कृष्णा  
आंध्र प्रदेश
324. कार्पोरेशन बैंक  
नरसन्नपेट शाखा  
मेन रोड, पुराने बस अड्डे के पास,  
नरसन्नपेट 522 421  
श्रीकाकुलम जिला  
आंध्र प्रदेश
325. कार्पोरेशन बैंक  
तोड्लवल्लूरु शाखा  
4-92, रामचंद्र प्लाजा, बस स्टैंड सेंटर  
तोड्लवल्लूरु-521 163  
कृष्णा जिला  
आंध्र प्रदेश
326. कार्पोरेशन बैंक  
एस कोटा शाखा  
मेन रोड, शिडो साई मंदिर के पास,  
एस. कोटा-535 145  
विजयनगरम जिला  
आंध्र प्रदेश
327. कार्पोरेशन बैंक  
कानूरु शाखा  
मेन रोड, अशोक नगर,  
टाईम हास्पिटल के सामने  
कानूरु-520 007  
कृष्णा जिला  
आंध्र प्रदेश
328. कार्पोरेशन बैंक  
वल्लभ विद्यानगर-  
एस पी यू सीएस पीयूसी,  
युनिवर्सिटी प्र. ऑफिस के पास,  
वल्लभ विद्यानगर-388 120  
जिला: आनंद, राज्य : गुजरात
329. कार्पोरेशन बैंक  
पंचवटी मेन रोड,  
जैन देरासर के पास,  
राजकोट 360 001  
जिला : राजकोट  
राज्य : गुजरात
330. कार्पोरेशन बैंक  
यू 82, संध्या दर्शन अपार्टमेंट,  
भूलका भवन के सामने,  
स्कूल, हजीरा रोड, आदजन,  
सूरत 395 009  
जिला : सूरत  
राज्य : गुजरात
331. कार्पोरेशन बैंक  
सृष्टि 2, पुनीत आश्रम रोड,  
गुमजी मंदिर के पास,  
एस बी आई के सामने,  
मणिनगर 380008  
अहमदाबाद  
राज्य : गुजरात

332. कार्पोरेशन बैंक  
बाहुदीन कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड,  
जूनागढ़-362001  
जिला : जूनागढ़  
राज्य : गुजरात
333. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 115-125, प्रथम तल, आरनो मल,  
आरनो सर्कल, चंदखेड़ा-382424  
जिला : गांधीनगर  
राज्य : गुजरात
334. कार्पोरेशन बैंक  
समृद्धि आर्कड, भूमि तल, बागलादेव मंदिर के सामने,  
पेट्रोल पंप के पास,  
चीखली-396521  
जिला : नवसारी  
राज्य : गुजरात
335. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, निसर्ग अपार्टमेंट- 'ए', डी. नं. 2533  
(1) से (6), कीलवानी रोड,  
सिल्वास्सा-396230,  
जिला : दादरा नगर हवेली  
राज्य : गुजरात
336. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राउन्ड फ्लोर, सुधर्मा बिल्डिंग, दौलत भाई रोड,  
जगन्नाथ मंदिर के पास,  
नाणीछिपवाक,  
वलसाड-396001  
जिला : वलसाड,  
राज्य : गुजरात
337. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, कुबेर प्लाजा, स्टेशन रोड,  
अंकलेश्वर-393001,  
जिला : अहमदाबाद  
राज्य : गुजरात
338. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, ऑफिस नं. 1, 2, एण्ड 3,  
श्री मंगलम कॉम्प्लेक्स, कासक सर्कल के पास,  
भरुच-392002  
जिला : भरुच  
राज्य : गुजरात
339. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, किरन कॉम्प्लेक्स, गायत्री मंदिर के पास,  
नेशनल हाईवे, दीसा-385535  
जिला : वनस कांता  
राज्य : गुजरात
340. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, जगदीश प्लाजा,  
खेड-तासिया रोड, महावीर नगर,  
हिम्मतनगर-383001  
जिला : सावर कांता  
राज्य : गुजरात
341. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, धार्ती चेम्बर्स, सीएम 8/13,  
एनएच नं. 8, जीआईडीसी,  
वापी-396195  
जिला : वालसाड  
राज्य : गुजरात
342. कार्पोरेशन बैंक  
जीएसएम-6, फर्स्ट फ्लोर,  
मेन ग्रेटर नोएडा-201308  
जिला : गौतम बुद्धनगर  
राज्य : उत्तर प्रदेश
343. कार्पोरेशन बैंक  
गद्दी सुल्तानपुर रोड,  
गढ़ हरसर-123505  
जिला : गुड़गांव  
राज्य : हरियाणा
344. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 34/15, दिल्ली-अलवर रोड,  
सोहणा-122103  
जिला : गुड़गांव  
राज्य : हरियाणा
345. कार्पोरेशन बैंक  
कोसली रोड, ओल्ड तहसील के पास,  
कौशिक मार्केट,  
झज्जर-124103  
जिला : झज्जर  
राज्य : हरियाणा
346. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी ओ 48, सेक्टर 23ए,  
पालम विहार रोड,  
गुड़गांव-122017  
जिला : गुड़गांव  
राज्य : हरियाणा
347. कार्पोरेशन बैंक  
जे ब्लॉक, जे-129, ग्राउन्ड फ्लोर,  
मेन रोड, विकासपुरी,  
नई दिल्ली-110018  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली



348. कार्पोरेशन बैंक  
पेल्ला मोरे तेह-बहादुरगढ़  
बादली-124105  
जिला-झज्जर  
राज्य : हरियाणा
349. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 141, राई इन्डस्ट्रियल एरिआ,  
राई, हरियाणा  
जिला-सोनीपत  
राज्य : हरियाणा
350. कार्पोरेशन बैंक  
हाऊस नं. 10, प्लॉट 8 बी,  
रोहिणी सेक्टर-15,  
नई दिल्ली-110085  
जिला-दिल्ली,  
राज्य : नई दिल्ली
351. कार्पोरेशन बैंक  
सी-45, सेक्टर-62,  
नोएडा-201307  
जिला-गौतम बुद्धनगर  
राज्य : उत्तर प्रदेश
352. कार्पोरेशन बैंक  
प्लॉट नं. 42, सेक्टर-56,  
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स  
गुडगांव,  
जिला-गुडगांव  
राज्य : हरियाणा
353. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी एफ 87/88,  
शॉपिंग एरिया, सेक्टर 14,  
गुडगांव-122001  
जिला-गुडगांव  
राज्य : हरियाणा
354. कार्पोरेशन बैंक  
शॉप नं. 7 और 8, कम्यूनिटी सेन्टर,  
जल विहार, लाजपत नगर,  
नई दिल्ली-110074  
जिला-दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
355. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राउंड फ्लोर, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र सरकार के निदेशक  
(वित्त एवं लेखा) का कार्यालय  
वरूणालय, झंडेवालान, फेज 2,  
नई दिल्ली-110 005  
जिला: दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
356. कार्पोरेशन बैंक  
दिल्ली जल बोर्ड, ऑफिस कॉम्प्लेक्स,  
ग्रेटर कैलाश-1  
नई दिल्ली  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
357. कार्पोरेशन बैंक  
दिल्ली जल बोर्ड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,  
वजीराबाद,  
नई दिल्ली-110054  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
358. कार्पोरेशन बैंक  
राम कॉप्लेक्स, सोहना रोड,  
दरबारीपुर मोड़ के सामने,  
बादशाहपुर-122101  
जिला-गुडगांव  
राज्य : हरियाणा
359. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 248, राधा कृष्ण टेंपल के सामने,  
मेन रोड, छावला,  
नई दिल्ली-110071  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
360. कार्पोरेशन बैंक  
नं. 68, वार्ड नं. 3, कृष्ण कॉलोनी,  
विवेका नंद स्कूल के पास,  
रेलवे रोड, पलवल -121102  
जिला: फरीदाबाद, राज्य : हरियाणा
361. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी एफ-146, हुडा मार्केट,  
मेन रोड, सेक्टर-14, फरीदाबाद 121001  
जिला : फरीदाबाद  
राज्य : हरियाणा
362. कार्पोरेशन बैंक  
56/1, धारुहेड़ा,  
गुडगांव-123106  
जिला-गुडगांव राज्य : हरियाणा
363. कार्पोरेशन बैंक  
बी-1/14 और बी-1/15, मेन रोड,  
सेक्टर-51, नोएडा-201301  
जिला : गौतम बुद्धनगर, राज्य : उत्तर प्रदेश
364. कार्पोरेशन बैंक  
प्लॉट नं. 20, सेक्टर-14, मिलन ब्रिसनस स्पेस,  
कौशाम्बी, गाजियाबाद-201010  
जिला : गाजियाबाद  
राज्य : उत्तर प्रदेश

365. कार्पोरेशन बैंक  
सी 1/30, मॉडल टाउन,  
पार्ट-3,  
दिल्ली-110009  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
366. कार्पोरेशन बैंक  
बी-88/4, मायापुरी इन्डस्ट्रियल एरिया,  
फेस-1, नई दिल्ली-110064  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
367. कार्पोरेशन बैंक  
माइक्रो फिनांस शाखा,  
सं. 32, राजेंद्र भवन, राजेंद्र प्लेस,  
नई दिल्ली-110008  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
368. कार्पोरेशन बैंक  
प्लॉट सं. 23/144, मेन कझावला चौक,  
नई दिल्ली-110 059  
जिला : कझावला  
राज्य : नई दिल्ली
369. कार्पोरेशन बैंक  
ए-7, 8, जी.टी. करनाल रोड,  
जहाँगीरपुरी (रामगढ़)  
नई दिल्ली-110 042  
जिला : दिल्ली  
राज्य : नई दिल्ली
370. कार्पोरेशन बैंक  
डब्ल्यूजेडएम 6, शाम पार्क,  
नवादा, नई दिल्ली-110 059  
जिला : दिल्ली, राज्य : नई दिल्ली
371. कार्पोरेशन बैंक  
खसरा सं. 507, प्लॉट सं. 507,  
मेन बांध रोड, देवली गांव,  
नई दिल्ली-110062  
जिला : खानपुर, राज्य : नई दिल्ली
372. कार्पोरेशन बैंक  
विजय नगर, यादव मार्केट  
फैजाबाद रोड, बाराबंकी-225001  
जिला : बाराबंकी
373. कार्पोरेशन बैंक  
चक्रौता रोड  
बस स्टैंड के निकट  
बेहत-247121  
जिला : सहारनपुर
374. कार्पोरेशन बैंक  
जय ऑटोमोबाइल्स  
जी टी रोड, मंगलोर चौकी  
देवरूंद-247554  
जिला : सहारनपुर
375. कार्पोरेशन बैंक  
राघव नगर  
देवरिया-274001
376. कार्पोरेशन बैंक  
कपूर नर्सिंग होम के निकट  
इलाहाबाद बैंक रोड, इलायट चौक  
झांसी-284001
377. कार्पोरेशन बैंक  
मिनी कैम्पस, जीवन विकास  
16/98, एम जी मार्ग, द माल  
कानपुर-208001
378. कार्पोरेशन बैंक  
सेवा शाखा  
सी/3, द्वितीय तल  
सेंटर कोर्ट रोड बिल्डिंग  
5, पार्क रोड, लखनऊ-226001
379. कार्पोरेशन बैंक-कैम्पस  
सी/3, द्वितीय तल  
सेंटर कोर्ट रोड बिल्डिंग  
5, पार्क रोड, लखनऊ-226001
380. कार्पोरेशन बैंक  
6/बी, कृष्णानगर  
गोवर्धननगर  
मथुरा-281004
381. कार्पोरेशन बैंक  
जीवन प्रकाश  
शा जी बी नि भवन  
प्रभातनगर, मेरठ-250001
382. कार्पोरेशन बैंक  
बंजारन तहसील रोड  
नकुर-247342  
जिला : सहारनपुर
383. कार्पोरेशन बैंक  
रामलीला मैदान, बुध बाजार  
पाकवाड़ा-244102  
जिला : मुरादाबाद
384. कार्पोरेशन बैंक  
सी-51, आवास विकास  
नैनीताल रोड, रुद्रपुर-263153  
जिला : उधमसिंहनगर

385. कार्पोरेशन बैंक  
सेठ इनक्लेव, मेन रोड  
पी डब्ल्यू डी गेस्ट हाउस के सामने,  
सिविल कोर्ट रोड,  
शाहजहाँपुर-242001
386. कार्पोरेशन बैंक  
मुहल्ला लाल मोहम्मद  
जी टी रोड, खतौली-251201  
जिला : मुजफ्फरनगर
387. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 6-1685, रतनलाल भवन,  
कालधुंगी रोड  
हल्द्वानी-263139
388. कार्पोरेशन बैंक  
सेठ आशाराम जैन मार्केट  
दिल्ली रोड, बागपत-250609
389. कार्पोरेशन बैंक  
राही मुर्तजा, केट्टन सोसायटी के निकट,  
सिविल लाईंस, रामपुर-244901
390. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राम व डाकघर-बरला  
देवबंद रोड, बरला-251307
391. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राम-गागलहेड़ी, दिनारपुर,  
टेलिफोन एक्सचेंज के सामने,  
मुजफ्फरनगर रोड, गागलहेड़ी
392. कार्पोरेशन बैंक  
ग्राम-तेलिहरे बुजुर्ग  
जी टी रोड-247554  
जिला- मुजफ्फरनगर
393. कार्पोरेशन बैंक  
एन एच-02, ग्राम-उसैनी  
283203 जिला-फिरोजाबाद
394. कार्पोरेशन बैंक  
हिन्दू इंटर कॉलेज  
रेलवे रोड, केनल साइड  
कांधला-247775
395. कार्पोरेशन बैंक  
विक्रम कंपाउण्ड, नौगंज,  
पानी टंकी के निकट, अनूपशहर रोड,  
शिकारपुर-202395
396. कार्पोरेशन बैंक  
नई पुलिस चौकी, आई सी आई सी आई बैंक  
खसरा सं. 345,  
आगरा-अलीगढ़ रोड, हाथरस
397. कार्पोरेशन बैंक  
जी टी रोड  
वैशाली गेस्ट हाउस के सामने  
कन्नौज-209727
398. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 637, फिरोज गाँधी डिग्री कॉलेज चौराहा,  
कचहरी रोड  
रायबरेली
399. कार्पोरेशन बैंक  
मुंशीगंज रोड, चंदन पेट्रोल पंप के सामने,  
सेन्ट्रल बैंक के निकट  
अमेठी-227405  
जिला- सी एस एम नगर
400. कार्पोरेशन बैंक  
मेन रोड, भदोखर  
रायबरेली-प्रतापगढ़ रोड  
जिला-रायबरेली
401. कार्पोरेशन बैंक  
पुलिस स्टेशन के सामने  
भरावन ब्लॉक, अतरौली  
जिला-हरदोई, 241204
402. कार्पोरेशन बैंक  
अनंत कॉम्प्लेक्स 3/38, रीकाबागंज  
फैजाबाद-224001
403. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 7, विजय लक्ष्मीनगर, स्टेशन रोड  
सीतापुर-261001
404. कार्पोरेशन बैंक  
238, कोतियात सिविल लाईंस  
पुराना जिला जेल के सामने  
हरिहर प्रेस कम्पाउण्ड  
बुलंदशहर-247554
405. कार्पोरेशन बैंक  
टीचर्स कॉलोनी  
बिजनौर रोड  
गजरौला-244235  
जिला-मुरादाबाद
406. कार्पोरेशन बैंक  
सी-7, एल आई सी  
राजाजीपुरम्  
लखनऊ-226017
407. कार्पोरेशन बैंक  
लीला स्ट्रीट इम्पोरियम भवन रायबरेली रोड,  
गाँधीनगर, तेलीबाग, लखनऊ-226002

408. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 15/28/8  
हरथला  
मुरादाबाद-244001
409. कार्पोरेशन बैंक  
स्टेशन रोड  
छतरी चौराहा  
पीलीभीत-262001
410. कार्पोरेशन बैंक  
धीमनपुरा  
शामली-247776  
जिला मुजफ्फरनगर
411. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 288, हिरननगर  
रायबरेली रोड,  
राजकीय अस्पताल के निकट  
उन्नाव 209801
412. कार्पोरेशन बैंक  
सिविल अस्पताल के निकट  
मोहन चावल मिल कम्पाउंड  
रामनगर रोड, काशीपुर 244713
413. कार्पोरेशन बैंक  
श्यामलाल इंटर कॉलेज के निकट,  
नवाबगंज 209859
414. कार्पोरेशन बैंक  
115 116, नई बस्ती,  
मेसर्स अरिहंत टिम्बर ट्रेडर्स  
कांधला रोड, बुधाना 251309
415. कार्पोरेशन बैंक  
इटा रोड, टाउन  
टुण्डला 283204  
जिला फिरोजाबाद
416. कार्पोरेशन बैंक  
ज्योति टावर्स, 257/1  
सहादतपुरा  
बुमई विद्यालय  
मउनाथगंजन 2751
417. कार्पोरेशन बैंक  
भरैता, पूरा गणेशलाल ब्लॉक,  
अमेन्नी दुर्गापुर रोड  
भेदुआ जिला सी एस एम नगर
418. कार्पोरेशन बैंक  
भोला पुरवा के निकट  
एच एच 24, सीतापुर रोड  
बक्शी का तालाब-227202
419. कार्पोरेशन बैंक  
एल.आई.सी. ऑफ इंडिया,  
जीवन ज्योति, ग्राउन्ड फ्लोर,  
ग्राउंडटी. रोड,  
मोगा-142001  
जिला : मोगा  
राज्य : पंजाब
420. कार्पोरेशन बैंक  
जीवन उद्योग बिल्डिंग,  
सिटी सेंटर स्कीम, अमृतसर-143001  
जिला : अमृतसर  
राज्य : पंजाब
421. कार्पोरेशन बैंक  
आर.एम.बी. निजजर कॉम्प्लेक्स, 144, नूरमहल रोड,  
नकोदार डिस्ट. जालंधर-144042  
जिला : जालंधर  
राज्य : पंजाब
422. कार्पोरेशन बैंक  
22 एसीआई मार्केट, एससीएफ नं. 18,  
एलआईसी ऑफिस के सामने,  
बरनाला-148101  
जिला : बरनाला  
राज्य : पंजाब
423. कार्पोरेशन बैंक  
पुरेवाल टावर, समराला चौक, जी.टी. रोड,  
खन्ना-141401  
जिला : लुधियाना  
राज्य : पंजाब
424. कार्पोरेशन बैंक  
न्यू ग्रेन मार्केट के सामने,  
गौशाला रोड, संगरूर-148101  
जिला : संगरूर  
राज्य : पंजाब
425. कार्पोरेशन बैंक  
जी.टी. रोड, फतेहाबाद-125050  
जिला : फतेहाबाद  
राज्य : हरियाणा
426. कार्पोरेशन बैंक  
पाँवर हाऊस, धनू रोड, पठानकोट 145001  
जिला : गुरुदासपुर  
राज्य : पंजाब
427. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी ओ 81-82, अर्बन एस्टेट,  
फेज-2, जालंधर-144022  
जिला : जालंधर  
राज्य : पंजाब

428. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी एफ-35, न्यू ग्रेन मार्केट,  
मुक्तसर 152026  
जिला : मुक्तसर  
राज्य : पंजाब
429. कार्पोरेशन बैंक  
1404 और 1405, अम्बाला रोड,  
कैथल 136027  
जिला : कैथल  
राज्य : हरियाणा
430. कार्पोरेशन बैंक  
होशियारपुर चौक, 133, जी.टी. रोड,  
दासुया-144205  
जिला : होशियारपुर  
राज्य : पंजाब
431. कार्पोरेशन बैंक  
एस सी ओ 16, सेक्टर-32ए, चंडीगढ़ रोड,  
लुधियाणा-141001  
जिला : लुधियाणा  
राज्य : पंजाब
432. कार्पोरेशन बैंक  
डी नं. 12, वॉर्ड नं. 11, बांग्रन चौक,  
बाई पास रोड, पोन्ता साहिब-173025  
जिला : सिरमोर  
राज्य : हिमाचल प्रदेश
433. कार्पोरेशन बैंक  
बी 9/13, रेलवे रोड, वोडाफोन मिनी स्टोर के सामने,  
महेंद्रगढ़-123029  
जिला : महेंद्रगढ़  
राज्य : हरियाणा
434. कार्पोरेशन बैंक  
वॉर्ड नं. 3, हमीरपुर रोड,  
होटल सुविधा पैलेस के पास,  
ऊना-174303  
जिला : ऊना  
राज्य : हिमाचल प्रदेश
435. कार्पोरेशन बैंक  
रेलवे स्टेशन रोड, कोसली-123302  
जिला : रेवाड़ी  
राज्य : हरियाणा
436. कार्पोरेशन बैंक  
स्को 187-188, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेन्टर  
हुडा कॉम्प्लेक्स, गोहाना रोड  
जौद-126101  
जिला : जौद  
राज्य : हरियाणा
437. कार्पोरेशन बैंक  
एफ सी ओ 27/28, बेला रोड,  
सरदार बंधु सिंह,  
अमन नगर, रूपनगर-140001  
जिला : रूपनगर  
राज्य : पंजाब
438. कार्पोरेशन बैंक  
मेन जी.टी. रोड, गोराया-144409  
जिला : जालंधर  
राज्य : पंजाब
439. कार्पोरेशन बैंक  
पैंगिणी शाखा  
959 यशवंत निवास, दयानंद स्मृति,  
के एम मेन रोड, पैंगिणी, पी.ओ. एन एच 17,  
गोवा-403702
440. कार्पोरेशन बैंक  
बिचोलिम शाखा  
वेंकटेश प्रसाद बिल्डिंग, बोरडेम,  
बिचोलीम-403504  
उत्तर गोवा
441. कार्पोरेशन बैंक  
मुरिडा कंकोलिम शाखा  
मेन रोड, मुरिडा कंकोलिम,  
सालसेट-403703
442. कार्पोरेशन बैंक  
वार्का शाखा  
ग्राउंड फ्लोर, शॉप नं. 10 और 11,  
वार्का स्पोर्ट्स क्लब कॉम्प्लेक्स, वार्का,  
सालसेट-गोवा-403721
443. कार्पोरेशन बैंक  
चापोरा शाखा  
संत एंथोनी चर्च बिल्डिंग कम्पाउंड  
चापोरा-वगातूर, पो. अंजुना, बार्देझ तालुक,  
गोवा-403 509
444. कार्पोरेशन बैंक  
नकेलीम शाखा,  
रोसारी हाई स्कूल के सामने,  
मडगाँव ब्लॉक,  
नवेलीम-403 707, सालसेट तालुक
445. कार्पोरेशन बैंक  
शिवाई अमोणा शाखा,  
इजिनीशन वीला, शिरवाई अमोणा  
क्वैम, पिम्पल्कटा-403705
446. कार्पोरेशन बैंक  
राया शाखा, जी.एस.ए.एम बोर्ड  
कॉम्प्लेक्स, ओल्ड आरटीओ ऑफिस के  
पास, आर्लेम-राया, गोवा-403720

447. कार्पोरेशन बैंक  
बस्तोडा शाखा,  
संत कजेतान चर्च बिल्डिंग; बस्तोडा,  
पी.ओ.म्हाप्सा-403507
448. कार्पोरेशन बैंक  
रॉयबंदर शाखा,  
गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट,  
रॉयबन्दर, पणजी-403006
449. कार्पोरेशन बैंक  
त्रिटोणा शाखा,  
1607, पेन्हा दे फ्रांस, त्रिटोणा-गोवा  
पी.ओ. वेंटिम, बार्देझ-403101
450. कार्पोरेशन बैंक  
रामनाथी शाखा,  
रामनाथी टेदेवस्थान परिसर,  
रामनाथी, पोन्डा-403401 गोवा
451. कार्पोरेशन बैंक  
पणजी शाखा,  
डॉ. आत्माराम बोरकर रोड, म्यूनिसिपल गार्डन्स  
के सामने, डा. पे 87, पणजी-403001
452. कार्पोरेशन बैंक  
काणकोण शाखा,  
प्रथम तल, 93 के, काणकोण पेलैस, चौडी,  
काणकोना-403702
453. कार्पोरेशन बैंक  
ओशल शाखा,  
फेलिजाडो कॉम्प्लेक्स, तरची भट्ट,  
ओशल 403517 गोवा
454. कार्पोरेशन बैंक  
कुर्चोरिम शाखा,  
ग्राउन्ड फ्लोर, वामुंडा अपार्टमेंट्स,  
विनायक प्लाजा, कुर्चोरिम पोस्ट, गोवा 403706
455. कार्पोरेशन बैंक  
पिलर्ण शाखा,  
संत अन्नेएस सामुदायिक एवं सांस्कृतिक सेंटर  
मेररा-पिलर्ण, बार्देझ 403114 गोवा
456. कार्पोरेशन बैंक  
लोलियें शाखा,  
ग्राम पंचायत बिल्डिंग, लोलीम,  
काणकोण-403728
457. कार्पोरेशन बैंक  
रेवाडा शाखा सुर्य प्रभा अपार्टमेंट्स,  
माजिलवाडो, मेन रोड, रेवोरा  
कोलवाळे 403513
458. कार्पोरेशन बैंक  
पर्वरी शाखा प्लॉट नं. 405, अम्बोर्ना, अवर लेडी ऑफ  
सुकूर चर्च के पास,  
डा.पे, पर्वरी, बार्देझ गोवा-403501
459. कार्पोरेशन बैंक  
वेर्ना शाखा  
909 डी हेंडकांत, मेनिजरिया कम्प्लेक्स, वेर्ना  
साल्सेट, गोवा-403722
460. कार्पोरेशन बैंक  
पणजी सेवा शाखा  
मेज्जानैन फ्लोर, जॉन पॉल बिल्डिंग, चर्च  
स्कंवर, पणजी - गोवा-403001
461. कार्पोरेशन बैंक  
पणजी रूआ द ओरें शाखा  
प्रथम तल, सालगांवकर सेंटर, रूआ द ओरें,  
पणजी-403001
462. कार्पोरेशन बैंक  
प्लॉट सं. 121 एवं 122, कारवेल नगर, स्टेशन  
एस क्यू; भुवनेश्वर-751001,  
जिला: कुरुधा  
राज्य: उड़ीषा
463. कार्पोरेशन बैंक  
रिपब्लिक होटल के सामने, एक्सिबिशन रोड,  
पटना-800001  
जिला : पटना  
राज्य: बिहार
464. कार्पोरेशन बैंक  
487, कासिदिग साक्ची, जमशेडपुर, 831001  
जिला : पूर्व सिंगभम, राज्य : झारखंड
465. कार्पोरेशन बैंक  
50 एच बी रोड,  
तरपाखाना, राँची-834001  
जिला : राँची  
राज्य: झारखंड
466. कार्पोरेशन बैंक  
इंदिरा भवन, बौरिंग कनाल रोड, पटना 800001  
जिला : पटना  
राज्य: बिहार
467. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, हेम टावर्स, लूबी सर्कुलर रोड,  
धनबाद-826001  
जिला : धनबाद  
राज्य: झारखंड

468. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, क्लब रोड, मितानपुरा,  
मुजाफर नगर-842002  
जिला मुजाफरनगर, राज्य: बिहार
469. कार्पोरेशन बैंक  
जीवन ज्योति, पुरलिया रोड, राँची-834001  
जिला : राँची  
राज्य: झारखंड
470. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, अगरवाल भवन, बाईपास रोड,  
सीएचएस, बोकारो-827013  
जिला : बोकारो  
राज्य: झारखंड
471. कार्पोरेशन बैंक  
प्रथम तल, खुशवाहा मार्केट, सोहसाराई,  
बिहार, शरीफ-803118  
जिला : नालंदा  
राज्य: बिहार
472. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 1, जी.बी.रोड, जिला स्कूल (ईस्ट गेट),  
गया-823001  
जिला गया, राज्य: बिहार
473. कार्पोरेशन बैंक  
सं. 126, भूमि तल, रानी सति कॉम्प्लेक्स,  
इंदरपुरी चौक, एन.एच.-100,  
हजारीबाग-825301  
जिला : हजारीबाग  
राज्य: झारखंड
474. कार्पोरेशन बैंक  
भूमि तल, जी.एम.रोड, आयकर चौक के पास,  
भूमिभंगा, बिहार-785640  
जिला : भूमिभंगा  
राज्य: बिहार
475. कार्पोरेशन बैंक  
मेला रोड, तेहता-804427  
जिला : जेहानाबाद  
राज्य: बिहार
476. कार्पोरेशन बैंक (114)  
मुंबई वर्सोवा शाखा  
शेरू विल्ला जे.पी.रोड, अंधेरी (पश्चिम),  
मुंबई-400058
477. कार्पोरेशन बैंक (444)  
मुंबई -ओवरसीस शाखा, एर्नेस्ट हाऊस,  
पहली मंजिल, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021
478. कार्पोरेशन बैंक (160)  
एल जे रोड, शिवाजी पार्क,  
नं. 238, जेनाब निवास, महिम,  
मुंबई-400028
479. कार्पोरेशन बैंक (493)  
मुंबई एआरएमबी शाखा  
मेजानाइन तल, वीणा चेंबर्स, फोर्ट मुंबई
480. कार्पोरेशन बैंक (163)  
मुंबई-ए आर स्ट्रीट शाखा  
45/47, अब्दुल रेहमान, पापुलर जगदीश्वरी पैलेस,  
मुंबई-400003
481. कार्पोरेशन बैंक (495)  
मुंबई, विले पार्ले शाखा, बिल्डिंग नं. 8 और 9, हनुमान  
रोड, विले पार्ले (पू) मुंबई-400057
482. कार्पोरेशन बैंक (168)  
मुंबई-कोलाबा शाखा  
दौलतराम मैशन, 6, रामभाऊ सलगौनकर,  
मार्ग, कोलाबा,  
मुंबई-400005
483. कार्पोरेशन बैंक (497)  
मुंबई अशोकवन,  
पवनपुत्र बिल्डिंग, शिव वल्लभ रोड,  
दहिसर (पू)  
मुंबई-400068
484. कार्पोरेशन बैंक (174)  
मुंबई वर्ली शाखा (भट बाजार)  
शिवस्मृति चेंबर्स, 49, भू-तल. डॉ. ए बी रोड,  
वर्ली मुंबई 400018
485. कार्पोरेशन बैंक (508)  
मरोल, एसएमई शाखा  
बानांजा सहारा प्लाजा, जेबी नगर,  
अंधेरी पूर्व, मुंबई-400059
486. कार्पोरेशन बैंक (330)  
मुंबई-कांदिवली तुराखिया पार्क, एम जी रोड,  
कांदिवली (प) मुंबई-400067
487. कार्पोरेशन बैंक (511)  
मुंबई कैप्स शाखा  
409/412, दलामल टावर्स, चौथी  
मंजिल, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021
488. कार्पोरेशन बैंक (332)  
मुंबई-मालाड अर्लेम शाखा  
गोम्स मैनशन 26, लार्डस कॉलोनी, अर्लेम,  
मालाड (प)-400064

489. कापेरिशन बैंक (543)  
मुंबई महाकाली मार्ग पीबीबी सेंट  
जेवियर्स कॉलेज, महापालिका मार्ग के सामने  
मुंबई-400001
490. कापेरिशन बैंक (401)  
सीटीएस 836, प्रतीक्षा अपार्टमेंट, फिल्मिस्तान स्टुडियो  
के सामने, एस वी रोड, गोरेगांव (पश्चिम)-400062
491. कापेरिशन बैंक (662)  
मुंबई-पूजी बाजार शाखा पहली मंजिल  
एनेस्ट हाउस, एनसीपीए मार्ग, नरीमन  
पाइंट मुंबई-400021
492. कापेरिशन बैंक (429)  
मुंबई बोरिविली-आईसी कॉलोनी शाखा रायल टावर्स,  
आई सी कॉलोनी, बोरिविली (प)-400103
493. कापेरिशन बैंक (631)  
मुंबई सेवा शाखा, लॉटिन चेंबर्स, दलाल स्ट्रीट,  
मुंबई-400023
494. कापेरिशन बैंक (430)  
मुंबई दहिसर शाखा  
अवदूत नगर, लक्ष्मी अपार्टमेंट्स शाबंकराय  
हाउसिंग 400068
495. कापेरिशन बैंक  
मुंबई-बोरिविली योगीनगर शाखा  
पीबीबी योगीनगर मॅडन गेट, होटल  
ऋद्राक्षी के बाद, सीटीएल नं. 173/28,  
बोरिविली पश्चिम, मुंबई-400091
496. कापेरिशन बैंक (443)  
मुंबई आईएफबी  
104 भारत हाउस, मुंबई समाचार मार्ग, फोर्ट,  
मुंबई-400023
497. कापेरिशन बैंक (655)  
मुंबई निक्षेपी सेवा शाखा  
45/नरीमन भवन, 227 बैंक बे रिकलमेशन,  
नरीमन पाइंट  
मुंबई-400021
498. कापेरिशन बैंक (674)  
मुंबई पीएम रोड, पहली मंजिल, एलआईसी ऑफ इण्डिया  
जीवन प्रकाश पी एम रोड, फोर्ट, मुंबई-400001
499. कापेरिशन बैंक (829)  
मुंबई कांदिविली (पूर्व)  
शॉप सं. 2,3,4,5, और 5ए भू-तल, लोखंडवाला,  
कांदिविली (पूर्व)
500. कापेरिशन बैंक (695)  
मुंबई फॉरेक्स शाखा पहली मंजिल, एनेस्ट,  
हाउस, एनसीपीए मार्ग, नरीमन पाइंट,  
मुंबई-400021
501. कापेरिशन बैंक (845)  
मुंबई अंधेरी रीटेल हब  
तीसरी मंजिल, द ईगल फाइट, सं. 301 302ए सुरेन रोड  
अंधेरी-कुर्ला रोड,  
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400093
502. कापेरिशन बैंक (731)  
मुंबई आरटीजीएस  
66/67, छठी मंजिल, मित्तल चेंबर्स  
नरीमन पाइंट मुंबई-400021
503. कापेरिशन बैंक (826)  
मुंबई जुहु शाखा  
सादना एजुकेशन साइट, रहेजा कालेज  
के पास, रिलीफ  
रोड, जुहु, सांताक्रूज,  
मुंबई-400054
504. कापेरिशन बैंक (750)  
मुंबई लोवर परेल शाखा 30(ए) फीनिक्स, मिल्स  
कॉम्पाउंड, एसबीमार्ग, लोवर परेल,  
मुंबई-400013
505. कापेरिशन बैंक (903)  
मुंबई बोरिविली पश्चिमी नं. 3, जॉय  
अपार्टमेंट आईसी कॉलोनी, बोरिविली पश्चिम,  
मुंबई-400103
506. कापेरिशन बैंक (872)  
मुंबई सीएमएस कोर शाखा  
409-412, दलामल टावर्स, फ्री प्रेस जर्नल रोड,  
नरीमन पाइंट मुंबई-400021
507. कापेरिशन बैंक (870)  
मुंबई लार्ज कापेरिट शाखा  
द ईगलस फाइट, तीसरी मंजिल, 301-302,  
सुरेन रोड अंधेरी कुर्ला रोड,  
अंधेरी (पूर्व) मुंबई-93
508. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
अकलतारा शाखा  
पोस्ट अकलतारा अकलतारा  
जिला जांजगीर चंपा रायपुर  
पिन कोड 495552  
टेलि. नं. 7817-252248  
फैक्स नं. 7817-252248



509. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बारद्वार शाखा  
शक्ति ब्लॉक  
बारद्वार, जिला जांजगीर चंपा रायपुर  
पिन कोड 495687  
टेलि. नं. 7757-278237
510. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
चंपा शाखा  
नैलवाला भवन  
बापू मार्ग सदर बाजार, रायपुर  
चंपा जिला जांजगीर चंपा  
पिन कोड 495671  
टेलि. नं. 7819-244981, 245961  
फैक्स नं. 7819-245961
511. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कोरबा शाखा  
पाँवर हाऊस रोड़  
कोरबा जिला कोरबा, रायपुर  
पिन कोड 495667  
टेलि. नं. 7759-230184, 230265  
फैक्स नं. 7759-230265
512. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
व्यापार विहार शाखा  
छोटी पार्किंग, व्यापार विहार,  
बिलासपुर, जिला बिलासपुर, पिन कोड-495001  
टेलि. नं. 7752-261207,
513. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
रेलवे एरिया शाखा  
रेलवे एरिया कार्यालय  
डी आर एम ऑफिस, बिलासपुर  
जिला बिलासपुर, पिन कोड-495001  
टेलि. नं. 7752-247024
514. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बिलहा शाखा  
पोस्ट बिलहा  
बिलहा जिला बिलासपुर  
पिन कोड-495224  
टेलि. नं. 7752-259241
515. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
स्टेशन रोड, कारगी रोड  
कोटा  
जिला बिलासपुर  
पिन कोड 495113  
टेलि. नं. 7753-253243
516. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
तखतपुर शाखा  
पोस्ट- तखतपुर  
जिला बिलासपुर  
पिन कोड-495330  
टेलि. नं. 7753-264635
517. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कांकेर शाखा  
मेन रोड़ राष्ट्रीय मार्ग नं. 43,  
कांकेर, जिला कांकेर  
पिन कोड-494334  
टेलि. नं. 7868-241054
518. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
धनेली कन्हार शाखा  
ग्राम पोस्ट, धनेली कन्हार,  
तहसील-कांकेर, धनेली कन्हार  
जिला कांकेर  
पिन कोड -494 670  
टेलि. नं. 7868-270161
519. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
डोंगरगढ़ शाखा  
महावीर मार्ग,  
नगर पालिका उद्यान के पास,  
गोल बाजार, रायपुर  
डोंगरगढ़ जिला -राजनंदगांव  
पिन कोड-491 445  
टेलि. नं. 7823-233555
520. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बिलासपुर शाखा  
पाँस्ट बॉक्स नं. 52.  
पेटल भवन  
बिलासपुर, जिला बिलासपुर रायपुर  
पिन कोड-495001  
टेलि. नं. 7752-413829, 238432/224821  
फैक्स नं. 7752-413829/237911
521. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर  
ब्लॉक सी; पहली मंजिल बॉम्बे मार्केट,  
जी ई रोड़,  
रायपुर,  
जिला रायपुर  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2254141/2253169 2255687  
फैक्स नं. 771-4267943

522. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
महसामुंद शाखा  
शंकर नगर वार्ड, चांडक पेट्रोल पंप के पास  
महसामुंद जिला - महसामुंद  
पिन कोड  
टेलि. नं. 7723-224822
523. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
टोरेसिंघा शाखा  
ग्राम. विलेज - पोस्ट टोरेसिंघा  
टोरेसिंघा  
जिला - महसामुंद  
पिन कोड - 935558  
टेलि. नं. 7757-212226
524. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
धमतरी शाखा  
प्रभु मार्केट, सिहावा चौक, रायपुर रोड,  
धमतरी, जिला-धमतरी,  
पिन कोड-493773  
टेलि. नं. 7722-237661, 237038  
फैक्स नं. 7722-237038
525. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कावर्धा शाखा  
गुरुकृपा भवन,  
रायपुर रोड,  
कावर्धा, जिला - कावर्धा  
पिन कोड-491995  
टेलि. नं. 7741-232361
526. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सुपेला  
मोर्या टॉकीज के पास  
चव्हाण इस्टेट, जी ई रोड  
सुपेला, भिलाई,  
जिला - दुर्ग  
पिन कोड - 490023  
टेलि. नं. 778-2295177
527. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
दुर्ग शाखा  
रुगंठा भवन,  
जी ई रोड  
सुपेला, भिलाई,  
जिला - दुर्ग  
पिन कोड-491001  
टेलि. नं. 788-2322991, 2332098  
फैक्स नं. 2332098
528. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
पडानाभपुर शाखा  
विन्सेंटियन प्रोविंसिएट हाऊस  
चर्च कैम्पस, उताई रोड  
पडानाभपुर, दुर्ग, जिला - दुर्ग  
पिन कोड-491 001  
टेलि. नं. 788-2310041
529. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बेमतारा शाखा  
सुंदर नगर, रायपुर रोड  
बेमतारा, जिला-दुर्ग  
पिन कोड -491 335  
टेलि. नं. 7824-222765
530. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
विवेकानंद विद्यापीठ शाखा  
कोटा  
रायपुर,  
जिला - रायपुर  
पिन कोड-492010  
टेलि. नं. 771-2575168
531. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
भातापारा शाखा  
डॉ. शुक्ला भवन, शक्ति वार्ड,  
भातापारा,  
जिला - रायपुर  
पिन कोड-493118  
टेलि. नं. 7726-220193
532. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
देवसुंदरा शाखा, बुधपार (सांदी)  
पोस्ट-जारवे, ब्लॉक पाल्लारी, देवसुंदरा, जिला - रायपुर,  
पिन कोड-493229  
टेलि. नं. 7727-275281
533. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ट्रान्सपोर्ट नगर, जी ई रोड,  
राम मंदिर के सामने, भिलाई - 3  
भिलाई जिला - दुर्ग,  
पिन कोड-490021  
टेलि. नं. 788-2286694
534. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
खामतारी शाखा  
रिंग रोड नं. 2, महेश काल्ड स्टोरेज के पीछे,  
खामतारी, रायपुर, जिला - रायपुर  
पिन कोड -492001  
टेलि. नं. 771-4283955

535. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सुंदर नगर शाखा  
महादेव घाट रोड, सुंदर नगर,  
रायपुर, जिला - रायपुर  
पिन कोड -492013  
टेलि. नं. 771-2241874
536. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
शंकर नगर शाखा  
एमआईजी 62, सेक्टर -1,  
अशोक टावर चौक,  
शंकर नगर, जिला - रायपुर  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-4040447
537. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सेन्ट विन्सेट पल्लोटी कॉलेज शाखा,  
लोधीपारा चौक, कापा, रायपुर,  
जिला - रायपुर, पिन कोड-492005  
टेलि. नं. 771-2282211
538. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सदर बाजार शाखा  
नाथानी बिल्डिंग,  
सद्दानी चौक,  
सदर बाजार, रायपुर,  
जिला - रायपुर  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2228854, 2534485  
फैक्स नं. 771-2534485
539. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
विवेकानंद आश्रम शाखा  
नेशनल हाईवे नं. 16  
जी ई रोड, विवेकानंद आश्रम,  
रायपुर, जिला - रायपुर  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2229158, 2234892  
फैक्स नं. 771-2534438
540. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
छत्तीसगढ़ कॉलेज शाखा  
ब्लॉक नं. 19  
छत्तीसगढ़ कॉलेज के सामने,  
सिविल लाईन्स एरिया, बिरोन बाजार,  
रायपुर, जिला - रायपुर,  
पिन कोड -492001  
टेलि. नं. 771-2422350, 2428212  
फैक्स नं. 771-2428212
541. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
रायपुर शाखा  
पोस्ट बैग नं. 17,  
जे ई रोड,  
रायपुर,  
जिला - रायपुर,  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2228819, 2229549  
फैक्स नं. 771-2537912
542. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
फाफाडीह शाखा  
श्री गुरु गोविंद सिंग चौक,  
के के रोड, फाफाडीह  
रायपुर,  
जिला - रायपुर,  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2523048, 2880155  
फैक्स नं. 771-2880155
543. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सिविल लाईन्स शाखा  
गोविन्द धाम, सिविल लाईन्स,  
रायपुर,  
जिला - रायपुर,  
पिन कोड-492001  
टेलि. नं. 771-2435965, 2435865  
फैक्स नं. 771-2435865
544. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर  
ब्लॉक सी  
प्रथम तल,  
बॉम्बे मार्केट, जी. ई. रोड,  
रायपुर,  
जिला - रायपुर,  
पिन कोड 492001  
दूरभाष नं. 771-2254141/2253169  
2255687  
फैक्स नं. 771-4267943
545. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ग्रेटर नोएडा शाखा  
मे. जे पी असोशिएशन लि.  
सेक्टर 128, गौतम बुद्ध नगर (उप्र),  
दिल्ली, नोएडा  
पिन कोड-201 301

546. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
पीजीडीएवी कॉलेज, नेहरु नगर  
नई दिल्ली  
पिन कोड 110 065
547. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सीडब्ल्यूजी 2010 (कॉमन वेल्थ गेम 2010)  
एनडीसीसी टॉवर II, फिन्जा लेवल (भूतल)  
जंतर मंतर, जय सिंह रोड  
दिल्ली, पिन कोड 110 001
548. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
नोएडा सेक्टर 22,  
बी-24, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर (उप)  
पिन कोड
549. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल  
ओ आर बी 1-2, पांचकुईयां रोड, दिल्ली  
पिन कोड 110 001
550. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
न्यू ग्रीन फिल्ड पब्लिक स्कूल  
मार्ग नं. 22, साकेत,  
नई दिल्ली, पिन कोड 110 017
551. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ताज पैलेस होटल  
2 सरदार पटेल मार्ग, डिप्लोमैटिक एन्क्लेव  
दिल्ली,  
पिन कोड 110 021
552. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
मिड कार्पोरेट  
219, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,  
जेएलएनवाईसी,  
नई दिल्ली,  
पिन कोड 110 002
553. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
असेट रिकवरी शाखा  
70, जनपथ  
नई दिल्ली,  
पिन कोड 110 001
554. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
जसोला शाखा  
जी-47, मेन रोड, कालिंदी कुंज  
जसोला एक्सटेंशन, (सरिता विहार)  
दिल्ली,  
पिन कोड 110 044
555. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
एअर फोर्स स्टेशन शाखा  
412, एअर फोर्स स्टेशन, क्लब रोड,  
नई दिल्ली,  
पिन कोड 110 003
556. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कार्पोरेट वित्त शाखा  
जीवन तारा बिल्डिंग पार्लियामेंट रोड,  
नई दिल्ली,  
पिन कोड 110 001
557. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
द्वारका शाखा  
मॉडर्न इंटरनैशनल स्कूल,  
18th 19th 1st I, पोलिस स्टेशन के पास  
द्वारका, दिल्ली,  
पिन कोड 110 075
558. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल  
हरी नगर, जैतपुर रोड,  
बदरपुर, दिल्ली,  
पिन कोड 110 044
559. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मांस कम्युनिकेशन  
आईआईएमसी सेंटर, जे एन यू न्यू कॉम्प्लेक्स  
अरुणा असफ अली मार्ग,  
नई दिल्ली,  
पिन कोड 110 067
560. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ट्रक यूनिन मोड के पास,  
न्यू इंडिया एश्यो. कं. ले. के सामने  
नैनीताल रोड, बहेडी,  
जिला बरेली (उप्र)  
पिन कोड 05822-221040
561. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
महसवड शाखा  
वेदांत अपार्टमेंट  
दिंडोरी रोड, रिलायन्स पेट्रोल पंप के पास  
नासिक, पिन कोड -422 004
562. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
अंबड शाखा  
सिंबॉयसिस चौक  
शॉप नं. 2-3, उज्जयंत आर्कड  
अंबड लिंक रोड, पाथर्डी फाटा, अंबड  
नासिक, पिन कोड -422 009

563. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बीड शाखा  
हाउस नं. 2-10-749 और 750  
वार्ड नं. 2, घर नं. 10  
मशरत नगर, मोंढा रोड  
सावता माली चौक  
बीड, पिन कोड -431 122
564. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
उस्मानाबाद शाखा  
शॉप नं. 1 और 2  
आजाद अलीज अमन कॉम्पलेक्स  
महात्मा गांधी नगर कॉर्नर  
मेन रोड, उस्मानाबाद  
पिन कोड -413 501
565. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
हिंगोली शाखा  
जायसवाल सदन  
शास्त्री नगर  
जिला हिंगोली  
पिन कोड -413 513
566. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
परभनी शाखा  
देवदत्ता शॉपिंग कॉम्पलेक्स  
वास्मत रोड, जिला परभनी  
परभनी  
पिन कोड -413 401
567. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सिलोद शाखा  
राज कॉम्पलेक्स  
जलगांव रोड, तालुका सिलोद  
जिला औरंगाबाद  
पिन कोड -
568. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
उल्हासनगर कैम्प नं 4  
विशाल मेगा कमर्शियल कॉम्पलेक्स  
चिनस चौक, पेट्रोल पंप के पास  
उल्हासनगर  
पिन कोड -421 004
569. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कल्याण पूर्व शाखा  
शिव सदन बिल्डिंग  
हाऊस नं. 29/ए,  
पुणे लिंक रोड, तीसगांव कल्याण  
पिन कोड -421 306
570. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कौसा मुंब्रा शाखा  
ओएसिस आर्कैड,  
शॉप नं 10 और 11,  
काका नगर के सामने  
मुंबई पुणे रोड,  
कौसा मुंब्रा  
पिन कोड -400 612
571. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
डी ए वी कॉलेज बांदा  
डी ए वी इंटर कॉलेज, बांदा  
जिला बांदा (उप्र)  
पिन कोड -210 001
572. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
के एल पी बबीना कैन्ट  
के एल पी एरिया, बबीना कैन्ट  
तहसील - झांसी, जिला - झांसी (उप्र)
573. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
अत्तरपुर शाखा  
4-3-143/ए बीपीआर टॉवर्स,  
पिलर नं. 126, राजेन्द्र नगर मंडल,  
अत्तरपुर, हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश, पिन कोड -500 048  
टेलि. नं. 23468956, 23468958
574. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ईस्टमरादपल्ली शाखा  
प्लॉट नं. 256/सी, 10-2-197  
एन्टरचमेंट रोड,  
सिकंदराबाद, हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश, टेलि. नं. 040-23468982, 83
575. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
कापोरेट वित्त शाखा  
पोस्ट बैग नं. 177, 71, 711, 712  
महापत्रम रोड, हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश, पिन कोड -800 095  
टेलि. नं. 040-23468935  
फैक्स नं. 040-23468937
576. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
असेट एण्ड रिकवरी शाखा  
पोस्ट बैग नं. 522, 710, 712  
महापात्रम रोड, बैंक स्ट्रीट, कोटी, हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश  
पिन कोड -800 095  
टेलि. नं. 404-23468929

577. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
बेगमपेट शाखा  
ओल्ड एअरपोर्ट के पास  
प्रकाश नगर, बेगमपेट  
हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश  
पिन कोड -500 016  
टेलि. नं. 040-66314622
578. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
विनय नगर शाखा  
प्लॉट नं. 40-41, शिंगोरी कॉलोनी  
मोहन नगर, कोट्टापेट  
हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश  
पिन कोड -500 035  
टेलि. नं. 404-23468979
579. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
देशमुखी शाखा  
सेंट मेरी कॉलेज कैम्पस  
देशमुखी  
पोचमपल्ली मंडल,  
जिला - नालगोंडा  
आंध्र प्रदेश  
टेलि. नं. 08685-304057
580. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
मियापुर शाखा  
मिनी इंडस्ट्रीयल इस्टेट  
हॉंडा सर्विस स्टेशन के उपर  
हाफिजपेट  
मियापुर,  
हैदराबाद,  
आंध्र प्रदेश  
पिन कोड -500 049
581. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सेन्ट्रल एकेडमी स्कूल,  
रादाबाड़ी,  
कोटा (राजस्थान)
582. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
व्यास सर्किल, मालपुरा  
जिला : टोंक (राजस्थान)
583. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
प्लॉट नं. 120 ए, पटेल नगर  
वार्ड नं. 15, देवली  
जिला : टोंक (राजस्थान)
584. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
एलआईसी बिल्डिंग, रंगबाड़ी रोड,  
आर. के. पुरम,  
कोटा (राजस्थान)
585. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
मिनि सचिवालय, कमरा नं. 105,  
जिला : झालावाड़ (राजस्थान)
586. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ग्राम पंचायत परिसर, छान  
पंचायत समिति खण्डार  
जिला : सवाई माधोपुर (राजस्थान)
587. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
न्यू लुक सेन्ट्रल स्कूल  
महालक्ष्मी चौक, बांसवाड़ा  
जिला : बांसवाड़ा (राजस्थान)
588. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
श्री जैन श्वेताम्बर नागेश्वर,  
पार्श्वनाथ तीर्थ,  
पेढ़ी, उन्हेल  
जिला : झालावाड़ (राजस्थान)
589. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
ग्राम पंचायत परिसर, सेलू  
तहसील व जिला : सवाई माधोपुर (राजस्थान)
590. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
जी.एम. कॉम्प्लेक्स,  
मालवीय नगर,  
पी. ओ. वेस्ट चिरिमिरी  
जिला : कोरिया (छत्तीसगढ़)
591. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
पांडवपारा, व्हाया पटना  
पोस्ट - बैकुंठपुर, एसईसीएल,  
झिलिमिली कॉलरी  
जिला : कोरिया (छत्तीसगढ़)
592. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
देवाडांड,  
पोस्ट - देवाडांड,  
तहसील-खडगवा,  
जिला : कोरिया (छत्तीसगढ़)
593. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
उदारी,  
पोस्ट - उदारी,  
तहसील-लुंडा,  
जिला : सरगुजा (छत्तीसगढ़)

594. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया  
सरगुजा यूनिवर्सिटी,  
पोस्ट - अम्बिकापुर,  
जिला : सरगुजा (छत्तीसगढ़)

**स्टेट बैंक आफ पटियाला के प्रोसेसिंग केन्द्रों की सूची**

595. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी पी पी सी (पटियाला)  
एस. सी. ओ. 114, प्रथम मंजिल  
अर्बन एस्टेट, फेज-II  
पटियाला

596. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए सी पी सी (चंडीगढ़)  
एस. सी. ओ. 99-107  
सेक्टर 8-सी  
चंडीगढ़

597. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस ई सी सी (चंडीगढ़)  
एस. सी. ओ. 99-107  
सेक्टर 8-सी  
चंडीगढ़

598. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एल सी पी सी (पटियाला)  
c/o इन्फोटेक अकादमी  
अर्बन एस्टेट  
पटियाला

599. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (पटियाला)  
लीला भवन चौक  
पटियाला

600. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (बठिंडा)  
गुरु काशी मार्ग  
आंचलिक कार्यालय, बिल्डिंग  
बठिंडा

601. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (जालन्धर)  
311, अम्बेदकर चौक  
जालन्धर

602. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (लुधियाना)  
भारत नगर चौक  
लुधियाना

603. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (अमृतसर)  
49, जे. के. टावर्ज, माल रोड  
अमृतसर

604. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (अम्बाला सिटी)  
111, सदर बाजार  
अम्बाला

605. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए सी पी सी (नई दिल्ली)  
59, कम्युनिटी केन्द्र  
नई दिल्ली

606. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
एस एम ई सी सी सी (नई दिल्ली)  
59, कम्युनिटी केन्द्र  
नई दिल्ली

607. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
टी एफ सी पी सी (नई दिल्ली)  
36, जनपथ, चन्द्रलोक बिल्डिंग  
नई दिल्ली

608. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (जालन्धर)  
शास्त्री मार्किट  
जालन्धर

609. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (पटियाला)  
साई मार्किट  
पटियाला

610. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (बठिंडा)  
सिविल लाईन्ज, मानसा रोड  
बठिंडा

611. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (चंडीगढ़)  
एस. सी. ओ. 125-126  
प्रथम तल  
सेक्टर 17-सी  
चंडीगढ़

612. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (लुधियाना)  
विश्वकर्मा चौक  
मिलर गंज  
लुधियाना

- |   |  |
|---|--|
| 613. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी ए सी (दिल्ली)<br>माडल बस्ती, रानी झांसी रोड, फिल्मिस्तान<br>नई दिल्ली          | 623. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर ए एस एम ई सी सी सी (यमुनानगर)<br>इंडस्ट्रियल एरिया<br>यमुनानगर            |
| 614. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (बठिंडा)<br>गुरू काशी मार्ग<br>आंचलिक कार्यालय, बिल्डिंग<br>बठिंडा     | 624. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी ए सी (यमुनानगर)<br>जगन्धरी रोड<br>यमुनानगर                                |
| 615. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी सी पी सी (चंडीगढ़)<br>एस. सी. ओ. 125-126<br>तीसर तल<br>सेक्टर 17-सी<br>चंडीगढ़ | 625. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी ए सी (गढ़शंकर)<br>रेलवे रोड<br>होशियारपुर                                 |
| 616. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (पटियाला)<br>100, माडल टाऊन, नजदीक गोल चक्कर<br>पटियाला                | 626. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (जौंद)<br>पटियाला चौक<br>जौंद                                    |
| 617. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (चंडीगढ़)<br>एस. सी. ओ. 99-107<br>सेक्टर 8-सी<br>मध्य मार्ग<br>चंडीगढ़ | 627. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (मानसा)<br>मानसा   |
| 618. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (जालन्धर)<br>रैनक बाजार<br>जालन्धर                                     | 628. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (बठिंडा)<br>गुरू काशी मार्ग<br>बठिंडा                            |
| 619. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (अमृतसर)<br>ईस्ट मोहन नगर<br>अमृतसर                                    | 629. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी ए सी (अम्बाला)<br>सदर बाजार अम्बाला कैट<br>अम्बाला                        |
| 620. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>एस ए आर सी (नई दिल्ली)<br>लोधी रोड<br>नई दिल्ली                                   | 630. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>सी सी पी सी (पटियाला)<br>साईं मार्केट<br>पटियाला                             |
| 621. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर ए एस एम ई सी सी सी (करनाल)<br>रेलवे रोड, करनाल                                 | 631. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (कोटकपुरा)<br>प्रथम तल, एसबीओपी बिल्डिंग<br>रेलवे रोड<br>फरीदकोट |
| 622. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर ए एस एम ई सी सी सी (पंचकूला)<br>पंचकूला  | 632. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (अमृतसर)<br>जी.टी.रोड (छेहरटा)                                   |
|   | 633. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला<br>आर सी पी सी (बरनाला)<br>पुराना बाजार<br>संगरूर                               |



634. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर सी पी सी (फतेहगढ़ साहिब)  
जिला प्रशासनिक कम्प्लैक्स  
फतेहगढ़ साहिब

635. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर सी पी सी (गुरदासपुर)  
हनुमान चौक  
गुरदासपुर

636. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर सी पी सी (पटियाला)  
एस.सी.ओ. 17, लीला भवन मार्किट  
पटियाला

637. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर सी पी सी (संगरूर)  
बड़ा चौक  
संगरूर

638. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
सी ए सी (अमृतसर)  
ईस्ट मोहन नगर  
अमृतसर

639. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला  
आर ए एस एम ई सी सी सी (लखनऊ)  
ऐश्वर्य प्लाजा  
लखनऊ

#### विद्या नगर, रामनगरम

640. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
विद्या नगर शाखा, कंदाय भवन के नजदीक,  
बेंगलूर-मैसूर रोड, रामनगरम-571511

#### विजयपुर

641. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
1 मंजिल, पुराने टी एम सी, मेलुर रोड,  
विजयपुरा बेंगलूर ग्रामीण कर्नाटक 562135

#### विकास सौधा (देवनहल्ली)

642. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
विकास सौधा शाखा "समृद्धी", बुदिगेरे रोड,  
देवनहल्ली 562 110, कर्नाटक राज्य

#### मंगलवारपेट

643. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
मंगलवारपेट शाखा, नं. 635/6 और 635/6ए,  
मंगलवारपेट, बेंगलूर-मैसूर रोड, चिक्कमालूर,  
चन्नापट्टना-562 160

#### बदलहल्ली

644. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, 1/40, मेन रोड बदलहल्ली  
कोलार कर्नाटक 563123

#### वाटद होसहल्ली

645. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, स्टेट बैंक रोड वाटदहोसहल्ली  
गौरीबिदनूर तहसील कोलार कर्नाटक 561228

#### विनायकनगर एक्सटेंशन

646. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 43, बी एच रोड विनायकनगर  
एक्सटेंशन तुमकूर कर्नाटक 572101

#### बैथरहोसहल्ली

647. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
बैथरहोसहल्ली, मायसन्दा होबली  
दासीहल्ली पोस्ट तुमकूर कर्नाटक 572221

#### अज्जपुर

648. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, जे एम सी रोड अज्जपुर, तरीकोरे  
तहसील चिक्कमगलूर कर्नाटक 577547

#### अरसीकोरे

649. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 8, नं. 14, बी एच रोड अरसीकोरे तालूक  
हासनकर्नाटक 573103

#### बेलूर

650. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
नं. 1600, श्री वै. डी नंजैगौडा कांप्लेक्स टेंपल  
रोड बेलूर हासन कर्नाटक 573115

#### चिक्कमगलूर

651. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 14, होसमने एक्सटेंशन चिक्कमगलूर  
कर्नाटक 577101

#### इन्दिरा गांधी रोड

652. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 88, रंगा राव टेंवर तल मंजिल,  
आई जी रोड चिक्कमगलूर कर्नाटक 577101

#### पुत्तूर

653. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
1वाँ मंजिल, गजानन टवर्स मेन रोड, पुत्तूर  
दक्षिण कन्नड कर्नाटक 574201

**शिरवा**

654. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
जोसेफैन आरकेड, 1 मंजिल मार्केट सर्कल  
शिर्वा उडुपि कर्नाटक 574116

**विराजपेट**

655. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
1 मंजिल, कावेरी कांफ्लेक्स एफ एम सी रोड,  
विराजपेट कोडगु कर्नाटक 571218

**पोन्नमपेट**

656. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 5, सी.पी. कुशालप्पा रोड पोन्नमपेट  
कोडगु कर्नाटक 571216

**कुशालनगर**

657. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 4, 32/2, बेंगलूर-मंगलूर रोड कुशाल नगर  
कोडगु कर्नाटक 571234

**सोमवारपेट**

658. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 4, नं. 530 मेन रोड, सोमवारपेट  
कोडगु कर्नाटक 571236

**मलवल्लि**

659. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, मैसूर रोड, मलवल्लि मंड्या  
कर्नाटक 571430

**महूर**

660. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, 443/418, एस बी एम स्ट्रीट महूर  
मंड्या कर्नाटक 571428

**पांडवपुर**

661. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, नं. 35, बस स्टैंड रोड 1 क्रास,  
पांडवपुर मंड्या कर्नाटक 571434

**श्रीरंगपट्टण**

662. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, नं. 994947 होटल हरिप्रसाद के पास  
श्रीरंगपट्टण तहसील मंड्या कर्नाटक 571438

**गुण्डलुपेट**

663. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 2, नं. 32, बी एन रोड गुण्डलुपेट  
चामराजनगर कर्नाटक 571111

**बन्नूर**

664. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
सी-81 (2), मैसूर-मलवल्लि रोड बन्नूर मैसूर  
कर्नाटक 571101

**टी नरसीपुर**

665. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
पी बी नं. 1, कालेज रोड टी नरसीपुर मैसूर  
कर्नाटक 571124

**धिंडेलिंग शाखा**

666. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
टी एस टिबेटन सेट्टलमेंट पोस्ट  
ओडेयरपाल्या  
कोल्लेगाल तहसील  
चामराजनगर कर्नाटक 571457

**पेरियापट्टण**

667. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर  
बेंगलूर-मैसूर रोड पेरियापट्टण मैसूर  
कर्नाटक 571107

**दि ओरियण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड**

668. क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर

**क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के अन्तर्गत आने वाले कार्यालय**

669. शाखा कार्यालय, नांदेड  
670. शाखा कार्यालय, जालना  
671. विस्तार पटल, बुलढाणा  
672. शाखा कार्यालय, धुलिया  
673. शाखा कार्यालय, भुसावल  
674. शाखा कार्यालय, वाशिम  
675. विस्तार पटल, नांदेड  
676. विस्तार पटल, सिविल लाईन, नागपुर  
677. विस्तार पटल, आकोट  
678. विस्तार पटल, परतवाड़ा  
679. विस्तार पटल, उमरेड

New Delhi, the 11th June, 2012

**S. O. 2158.**—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purpose of the Union) Rules, 1976 (as amended 1987) the Central Government hereby notifies following branches/offices of Banks/Financial Institutions/Insurance Companies under the control of Department of Financial Services, M/o Finance, whereof more than 80% officers/staffs have acquired working knowledge of Hindi.

Sl. No.	Name of Banks/Financial Institutes/Insurance companies (As per enclosed list)	Number of branch/offices
1.	State Bank of India	269
2.	Corporation Bank	238
3.	Central Bank of India	87
4.	State Bank of Patiala	45
5.	State Bank of Mysore	28
6.	The Oriental Insurance Company Limited	12
<b>Total</b>		<b>679</b>

[No. 11016/3/2012-Hindi]

C. P. DHAUNDIYAL, Jt. Director (O.L.)

List of Branches to be notified under sub-rule 10(4) of Rule 1976 of Official Language Rules (For the official purposes of Union Government)

**Sr. No. Name of Branch/Office**

1. State Bank of India  
Branch Hansi (Code -647)  
Distt. Hisar, Haryana  
Pincode - 125033
2. State Bank of India  
Branch Kaluana (Code -8847)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 125103
3. State Bank of India  
Branch Pai (Code - 2446)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 132043
4. State Bank of India  
Branch Sanghi (Code - 2475)  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124303
5. State Bank of India  
Branch Taraori (Code - 1958)  
Distt. Karnal, Haryana  
Pincode - 132116
6. State Bank of India  
Agricultural Development  
Branch Barwala (Code - 3623)  
Distt. Hisar, Haryana  
Pincode - 126010
7. State Bank of India  
Branch Agroha (Code -2290)  
Distt. Hisar, Haryana  
Pincode - 125047
8. State Bank of India  
Branch Narnaul  
(Code - 12202)  
Distt. Mahendergarh,  
Haryana, Pincode - 123001
9. State Bank of India  
Branch Model Town, Panipat  
(Code-2421) Distt. Panipat,  
Haryana, Pincode - 132103
10. State Bank of India  
Branch Kurukshetra  
University, Kurukshetra  
(Code - 1600)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 136119
11. State Bank of India  
Branch Radaur (Code - 12205)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode -
12. State Bank of India  
Branch Model Town  
Yamunanagar (Code-11953)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode - 135001
13. State Bank of India  
Branch Babial (Code - 2294)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 133005
14. State Bank of India  
Branch Thanesar (Code - 724)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 136118
15. State Bank of India  
Branch Nilokheri  
(Code - 2440), Distt. Karnal,  
Haryana, Pincode - 132117
16. State Bank of India  
Branch Neoli Kalan  
(Code-11868) Distt. Hisar,  
Haryana, Pincode - 125004
17. State Bank of India  
Branch Pipli (Code - 8850)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 125201

18. State Bank of India  
Branch Karnal (Code - 665)  
Distt. Karnal, Haryana  
Pincode - 132101
19. State Bank of India  
Branch Ambala City Mandi  
(Code - 2293)  
Radhakishan Bazar, Ambala  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 134002
20. State Bank of India  
Branch Bahadurgarh  
(Code - 743) Distt. Jhajjar,  
Haryana, Pincode - 124507
21. State Bank of India  
Branch Brass Market, Rewari  
(Code - 11871)  
Maharana Pratap Chowk  
Distt. Rewari, Haryana  
Pincode - 123401
22. State Bank of India  
Branch M.D.U., Rohtak  
(Code - 4734) Distt. Rohtak,  
Haryana, Pincode - 124001
23. State Bank of India  
P. B.B., Rohtak, (Code-4154),  
Roopalay Complex,  
Model Town, Rohtak  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124001
24. State Bank of India  
Branch Jind (Code - 4601)  
Distt. Jind, Haryana  
Pincode - 126102
25. State Bank of India  
Branch Kaithal (Code - 663)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 136027
26. State Bank of India  
Branch Mini Secretariat,  
Kaithal (Code - 4480)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 136027
27. State Bank of India  
Branch Mini Secretariat,  
Kurukshetra, (Code - 6615)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 132118
28. State Bank of India  
Agricultural Development  
Branch Bhuna, (Code - 4508)  
Distt. Fatehabad, Haryana  
Pincode - 125111
29. State Bank of India  
Branch Hisar Road, Rohtak  
(Code-I 766) Distt. Rohtak,  
Haryana, Pincode - 124001
30. State Bank of India  
Branch Uklana Mandi,  
(Code - 2499)  
Distt. Hisar, Haryana  
Pincode - 125113
31. State Bank of India  
Agricultural Development  
Branch, Sirsa (Code - 2432)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 125055
32. State Bank of India  
Branch Rania (Code - 6035)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 125076
33. State Bank of India  
Branch Sirsa (Code - 719)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 133201
34. State Bank of India  
Branch Sikanderpur  
(Code-5607) Distt. Sirsa,  
Haryana, Pincode - 125060
35. State Bank of India  
Branch Bhiwani (Code-1531)  
Distt. Bhiwani, Haryana  
Pincode - 133201
36. State Bank of India  
Branch Matanhail  
(Code-1351) Distt. Jhajjar,  
Haryana, Pincode - 132101
37. State Bank of India  
Branch Bohar, (Code - 2320)  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124023
38. State Bank of India  
Branch Ismaila (Code - 2361)  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124517
39. State Bank of India  
Branch Kahanaur  
(Code-2378) Distt. Rohtak,  
Haryana, Pincode - 124412
40. State Bank of India  
Branch Medical College,  
Rohtak (Code - 4735)  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124001

41. State Bank of India  
Branch Civil Road, Rohtak  
(Code - 706) Distt. Rohtak ,  
Haryana, Pincode - 124001
42. State Bank of India  
Branch Industrial Area, Rohtak  
(Code - 8573) Distt. Rohtak ,  
Haryana, Pincode - 124001
43. State Bank of India  
Branch New Grain Market,  
Rohtak (Code - 7661)  
Distt. Rohtak , Haryana  
Pincode - 124001
44. State Bank of India  
Branch Bhalot (Code - 2312)  
Distt. Rohtak , Haryana  
Pincode - 124401
45. State Bank of India  
Branch Mandi Dabwali  
(Code-677) Distt. Sirsa ,  
Haryana, Pincode - 125104
46. State Bank of India  
Branch Desu Jodha  
(Code - 7578) Distt. Sirsa ,  
Haryana, Pincode - 125104
47. State Bank of India  
Administrative Office,  
Sector - 5 Panchkula,  
Distt. Panchkula , Haryana ,  
Pincode - 134109
48. State Bank of India  
Regional Business Office,  
Region - 1 Sector - 5  
Panchkula, Distt. Panchkula ,  
Haryana , Pincode - 134109
49. State Bank of India  
Regional Business Office,  
Region - 2, S.C.O. 106-108,  
Sector - 14, Hisar ,  
Distt. Hisar , Haryana ,  
Pincode - 125001
50. State Bank of India  
Regional Business Office,  
Region - 3, G.T. Road, Panipat  
Haryana , Pin code - 132103
51. State Bank of India  
Branch N.N. Road ,  
Bahadurgarh (Code -30363)  
Distt. Jhajjar , Haryana  
Pincode - 124507
52. State Bank of India  
Branch circular Road, Rewari  
(Code -30368)  
Distt. Rewari, Haryana  
Pincode - 123401
53. State Bank of India  
Branch Bawal, (Code -6238)  
Distt. Rewari , Haryana  
Pincode - 123501
54. State Bank of India  
Branch Jhajjar Chungi, Rohtak  
(Code -11950) Distt. Rohtak ,  
Haryana, Pincode - 124001
55. State Bank of India  
Branch Huda Complex,  
Rohtak (Code - 11982 )  
Distt. Rohtak, Haryana  
Pincode - 124001
56. State Bank of India  
Agricultural Development  
Branch, Mahendergarh  
(Code - 4946)  
Distt. Mahendergarh , Haryana  
Pincode - 123029
57. State Bank of India  
Branch Dharuhera  
(Code-5699) Distt. Rewari,  
Haryana, Pincode - 122106
58. State Bank of India  
Branch Sanjay Chowk, Panipat  
(Code-30512) Distt. Panipat ,  
Haryana, Pincode - 132103
59. State Bank of India  
Branch Dharuhera Road,  
Rewari (Code - 11872)  
Distt. Rewari, Haryana  
Pincode - 123401
60. State Bank of India  
Branch R.N.W., Delhi Road,  
Hisar (Code-652)  
Distt. Hisar, Haryana  
Pincode - 125001
61. State Bank of India  
Branch Tohana (Code - 1072)  
Distt. Fatehabad , Haryana  
Pincode - 125120
62. State Bank of India  
Branch, Fatehabad  
(Code-1156), Distt. Fatehabad  
Haryana, Pincode - 125050

63. State Bank of India  
Branch H.A.U. Hisar ,  
(Code - 1566), Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125004
64. State Bank of India  
Branch Jeevan Nagar  
(Code - 1788 )  
Vill. & Post. Sant Nagar,  
Tehsil- Rania, Distt. Sirsa,  
Haryana, Pincode - 125075
65. State Bank of India  
Branch Bhirdana  
(Code-2287), Distt. Fatehabad  
Haryana, Pincode - 125050
66. State Bank of India  
Branch Ellenabad  
(Code-2340) Distt. Sirsa ,  
Haryana, Pincode - 125102
67. State Bank of India  
Branch Hisar Mandi, Hisar  
(Code-2356) Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125001
68. State Bank of India  
Branch Jakhal (Code - 2365)  
Distt. Fatehabad , Haryana  
Pincode - 126001
69. State Bank of India  
Branch Kalanwali  
(Code-2381) Distt. Sirsa,  
Haryana, Pincode-125 201
70. State Bank of India  
Branch Oudhan (Code-2443)  
Distt. Sirsa, Haryana  
Pincode - 125077
71. State Bank of India  
Branch Rori (Code - 2462)  
Distt. Sirsa , Haryana  
Pincode - 125201
72. State Bank of India  
Branch Siwani (Code-2486)  
Distt. Bhiwani , Haryana  
Pincode - 125046
73. State Bank of India  
Branch Mangali  
(Code-3625), Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125105
74. State Bank of India  
Branch Ratia (Code-10730)  
Distt. Fatehabad, Haryana  
Pincode - 125050
75. State Bank of India  
Branch Balsamand  
(Code-11844) Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125001
76. State Bank of India  
Branch Adampur  
(Code-11845) Distt. Hisar,  
Haryana, Pincode - 125001
77. State Bank of India  
Branch Bhabalpur ,  
(Code-11867) Distt. Hisar,  
Haryana, Pincode - 125001
78. State Bank of India  
Branch M. S. Sirsa,  
(Code-7662) Distt. Sirsa,  
Haryana, Pincode - 125055
79. State Bank of India  
Branch Hisar Cantt.,  
(Code-8015) Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125044
80. State Bank of India  
Branch Patel Nagar, Hisar  
(Code-9280) Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125001
81. State Bank of India  
Branch Jindal Stainless Steel  
Ltd., Hisar (Code - 10318)  
Distt. Hisar , Haryana  
Pincode - 125005
82. State Bank of India  
Branch J. N.C.D.L.  
Vidhyapeeth Complex, Sirsa  
(Code-10472) Distt. Sirsa,  
Haryana, Pincode - 125055
83. State Bank of India  
Branch Model Town, Hansi  
(Code-11948) Distt. Hisar ,  
Haryana, Pincode - 125033
84. State Bank of India  
Branch Madhosinghana  
(Code-11874) Distt. Sirsa ,  
Haryana, Pincode -
85. State Bank of India  
Branch Shahpur Begu  
(Code-11875) Distt. Sirsa ,  
Haryana, Pincode - 125055
86. State Bank of India  
Branch Ding (Code - 11951)  
Distt. Hisar , Haryana  
Pincode -

- |   |   |
|---|---|
| <p>87. State Bank of India<br/>Branch, A.F.S. Sirsa<br/>(Code - 11952)<br/>Distt. Sirsa, Haryana<br/>Pincode - 125055</p> <p>88. State Bank of India<br/>Branch Garhi (Code - 12197)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125033</p> <p>89. State Bank of India<br/>Branch Umra (Code - 3626)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125033</p> <p>90. State Bank of India<br/>P.B. Branch, Dabra Road,<br/>Hisar (Code - 4171)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125001</p> <p>91. State Bank of India<br/>Branch M.S., Fatehabad<br/>(Code - 4306)<br/>Distt. Fatehabad, Haryana<br/>Pincode - 126121</p> <p>92. State Bank of India<br/>Branch Chautala,<br/>(Code-4599), Distt. Sirsa,<br/>Haryana, Pincode - 125101</p> <p>93. State Bank of India<br/>Branch New Grain Market,<br/>Hisar (Code - 5700)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125001</p> <p>94. State Bank of India<br/>Branch M.S. Hisar<br/>(Code-6661), Distt. Hisar<br/>Haryana, Pincode - 125001</p> <p>95. State Bank of India<br/>Branch Thurana (Code-7183)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125033</p> <p>96. State Bank of India<br/>Branch Bhatla (Code-7578)<br/>Distt. Hisar, Haryana<br/>Pincode - 125033</p> <p>97. State Bank of India<br/>Branch Moth Rangran<br/>(Code-7185) Distt. Hisar,<br/>Haryana, Pincode - 125039</p> <p>98. State Bank of India<br/>Branch Bhatoon Kalan<br/>(Code - 7186)<br/>Distt. Fatehabad, Haryana<br/>Pincode - 125053</p> | <p>99. State Bank of India<br/>Branch Akanwali<br/>(Code - 7573)<br/>Distt. Fatehabad, Haryana<br/>Pincode - 125106</p> <p>100. State Bank of India<br/>Branch Kagdana (Code-7603)<br/>Distt. Sirsa, Haryana<br/>Pincode - 125053</p> <p>101. State Bank of India<br/>Branch Kharian (Code-11873)<br/>Distt. Sirsa, Haryana<br/>Pincode -</p> <p>102. State Bank of India<br/>Branch Haroli (Code-11866)<br/>Distt. Fatehabad, Haryana<br/>Pincode -</p> <p>103. State Bank of India<br/>Branch Panipat (Code -694)<br/>Distt. Panipat, Haryana<br/>Pincode - 125053</p> <p>104. State Bank of India<br/>Branch Rewari (Code -705)<br/>Distt. Rewari, Haryana<br/>Pincode - 123401</p> <p>105. State Bank of India<br/>Branch R.N.W. Panipat<br/>(Code-1620) Distt. Panipat,<br/>Haryana, Pincode - 132103</p> <p>106. State Bank of India<br/>Branch M.T. Karnal<br/>(Code-1761) Distt. Karnal,<br/>Haryana, Pincode - 132001</p> <p>107. State Bank of India<br/>Branch Kunjpura (Code-2400)<br/>Distt. Karnal, Haryana<br/>Pincode - 132023</p> <p>108. State Bank of India<br/>Agricultural Development<br/>Branch Shodapur (Code-3392)<br/>Distt. Panipat, Haryana<br/>Pincode - 132103</p> <p>109. State Bank of India<br/>Branch Assan Kalan<br/>(Code-3627) Distt. Panipat,<br/>Haryana, Pincode - 132105</p> <p>110. State Bank of India<br/>Branch M.S. Karnal<br/>(Code-4334) Distt. Karnal,<br/>Haryana, Pincode - 124360</p> |
|---|---|

- |   |  |
|---|--|
| <p>111. State Bank of India<br/>Agricultural Development<br/>Branch Indri (Code -4945 )<br/>Distt. Panipat , Haryana<br/>Pincode - 132041</p> <p>112. State Bank of India<br/>Agricultural Development<br/>Branch Jatusana (Code -5391 )<br/>Distt. Rewari , Haryana<br/>Pincode - 123401</p> <p>113. State Bank of India<br/>Branch Urlana Kalan<br/>(Code-5404) Distt. Panipat,<br/>Haryana, Pincode - 132103</p> <p>114. State Bank of India<br/>Branch I.C. Bahadurgarh,<br/>(Code-5697) Distt. Jhajjar ,<br/>Haryana, Pincode - 150018</p> <p>115. State Bank of India<br/>Branch Bapoli (Code -6984 )<br/>Distt. Panipat , Haryana<br/>Pincode - 132104</p> <p>116. State Bank of India<br/>Branch Shamgarh,<br/>(Code -7174) Distt. Karnal ,<br/>Haryana, Pincode - 132116</p> <p>117. State Bank of India<br/>Branch Ahar (Code - 7576),<br/>Distt. Panipat, Haryana,<br/>Pincode - 132107</p> <p>118. State Bank of India<br/>Branch Arjaheri (Code - 7772)<br/>Distt . Karnal, Haryana<br/>Pincode - 132116</p> <p>119. State Bank of India<br/>Branch Kishanpura Panipat<br/>(Code-8572) Distt. Panipat ,<br/>Haryana, Pincode - 132103</p> <p>120. State Bank of India<br/>Branch Panipat Refinery<br/>Baholi (Code -8706 )<br/>Distt. Panipat , Haryana<br/>Pincode - 132101</p> <p>121. State Bank of India<br/>Branch Jamba (Code - 8849)<br/>Distt. Karnal , Haryana<br/>Pincode - 132117</p> <p>122. State Bank of India<br/>Branch Patouda, (Code-8904)<br/>Distt. Jhajjar , Haryana<br/>Pincode - 124001</p> | <p>123. State Bank of India<br/>Branch Bhungarika<br/>(Code-8905)<br/>Distt. Mahendergarh, Haryana,<br/>Pincode - 123001</p> <p>124. State Bank of India<br/>Branch Grain Market Karnal<br/>(Code - 9123), Distt. Karnal ,<br/>Haryana, Pincode - 132001</p> <p>125. State Bank of India<br/>Branch Loharu (Code -10731),<br/>Distt. Bhiwani , Haryana<br/>Pincode - 127201</p> <p>126. State Bank of India<br/>Branch Samalkha<br/>(Code-10732) Distt. Panipat,<br/>Haryana, Pincode - 132101</p> <p>127. State Bank of India<br/>Branch Jhajjar (Code - 10733)<br/>Distt. Jhajjar, Haryana<br/>Pincode - 124103</p> <p>128. State Bank of India<br/>Branch Mini Secretariat,<br/>Bhiwani (Code - 11864)<br/>Distt. Bhiwani, Haryana<br/>Pincode - 127021 ,</p> <p>129. State Bank of India<br/>Branch Charkhi Dadri<br/>(Code-11865) Distt. Bhiwani,<br/>Haryana, Pincode - 127306</p> <p>130. State Bank of India<br/>Branch Badli, (Code - 11869)<br/>Distt. Jhajjar, Haryana,<br/>Pincode -</p> <p>131. State Bank of India<br/>Branch Kosali, Rewari<br/>(Code-11870) Distt. Rewari,<br/>Haryana, Pincode - 123401</p> <p>132. State Bank of India<br/>Branch Sanoli Road, Panipat<br/>(Code-11949) Distt. Panipat,<br/>Haryana, Pin code - 132101</p> <p>133. State Bank of India<br/>Branch Industrial Area, Karnal<br/>(Code-11979) Distt. Karnal ,<br/>Haryana, Pincode - 132101</p> <p>134. State Bank of India<br/>Branch Huda Complex, Karnal<br/>(Code-11980) Distt. Karnal,<br/>Haryana, Pincode - 132001</p> |
|---|--|



135. State Bank of India  
Branch Subhash Colony, G.T.  
Road, Panipat (Code - 11981)  
Distt. Panipat, Haryana  
Pincode-132103
136. State Bank of India  
Branch Gharounda  
(Code-12199) Distt. Karnal,  
Haryana, Pincode - 132114
137. State Bank of India  
Branch Ambala Cantt.  
(Code-607), Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 133001
138. State Bank of India  
Branch Ambala City  
(Code-608), Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 133003
139. State Bank of India  
Branch Narayangarh,  
(Code-614), Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 134203
140. State Bank of India  
Branch Jagadhari (Code - 654)  
Distt. Jagadhari, Haryana  
Pincode - 133001
141. State Bank of India  
Branch Yamunanagar  
(Code-1293)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode-135001
142. State Bank of India  
Branch Sector-10, Panchkula  
(Code-1509) Distt. Panchkula,  
Haryana, Pincode - 134109
143. State Bank of India  
Branch Surajpur (Code - 1579)  
Distt. Panchkula, Haryana  
Pincode - 134107
144. State Bank of India  
Agriculture Development  
Branch Narayangarh  
(Code-1691) Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 133201
145. State Bank of India  
Branch Ladwa (Code - 1760)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 133201
146. State Bank of India  
Branch Chandi Mandir  
(Code-2280) Distt. Panchkula,  
Haryana, Pincode - 134107
147. State Bank of India  
Branch M.T. Ambala City  
(Code-2420) Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 133001
148. State Bank of India  
Branch Sadar Bazar, Ambala  
Cantt. (Code - 2468)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 133001
149. State Bank of India  
Branch Sarawan (Code 2478)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode - 133206
150. State Bank of India  
Branch Shahbad Markanda  
(Code 2481) Distt. Kurukshetra,  
Haryana, Pincode-132135
151. State Bank of India  
Branch Kyorak (Code 3125)  
Distt. Kaithal, Haryana,  
Pincode - 132032
152. State Bank of India  
Branch Talai Bazar Kaithal  
(Code 3191) Distt. Kaithal,  
Haryana, Pincode - 136027
153. State Bank of India  
Branch P.B.B., Sector-16,  
Panchkula (Code -4172)  
Distt. Panchkula, Haryana  
Pincode - 134112
154. State Bank of India  
Branch M.S. Jagadhari  
(Code-4332) Distt. Jagadhari,  
Haryana, Pincode - 132236
155. State Bank of India  
Branch Naggal (Code - 5664)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 133003
156. State Bank of India  
Branch Thol (Code -5665)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 132136
157. State Bank of India  
Branch R. A. Bazar, Ambala  
Cantt. (Code - 5670 )  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 133001
158. State Bank of India  
Pathreri (Code - 5701)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 133102

159. State Bank of India  
Branch I. E., Panchkula  
(Code-6157) Distt. Panchkula,  
Haryana, Pincode - 134109
160. State Bank of India  
Branch Pundri (Code - 6158)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 132026
161. State Bank of India  
Branch R.E.C. Kurukshetra  
(Code - 6260)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 132119
162. State Bank of India  
Branch Motor Market, Ambala  
(Code-6595)  
Distt. Ambala, Haryana,  
Pincode - 133002
163. State Bank of India  
Agriculture Development  
Branch Alewa (Code - 6679)  
Distt. Jind, Haryana,  
Pincode - 132111
164. State Bank of India  
Branch Kithana, (Code-7135),  
Distt. Kaithal, Haryana,  
Pincode - 126111
165. State Bank of India  
Branch Naharpur, (Code-7137),  
Distt. Yamunanagar, Haryana,  
Pincode - 135001
166. State Bank of India  
Branch Budhkalan  
(Code-7378)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode - 135106
167. State Bank of India  
Branch Malikpur, (Code-7518)  
Distt. Kurukshetra, Haryana,  
Pincode - 132128
168. State Bank of India  
Branch Siwan, (Code - 7550)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 132033
169. State Bank of India  
Branch Habri (Code - 7579)  
Distt. Kaithal, Haryana  
Pincode - 132128
170. State Bank of India  
Branch Barwala (Code-7604)  
Distt. Panchkula, Haryana  
Pincode - 134118
171. State Bank of India  
Branch I.E. Ambala Cantt.  
(Code-8565) Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode - 133003
172. State Bank of India  
Branch Kalka, (Code - 8742)  
Distt. Panchkula, Haryana  
Pincode - 133302
173. State Bank of India  
Branch Bagru Kalan  
(Code - 8848), Distt. Jind,  
Haryana, Pincode - 126112
174. State Bank of India  
Branch Narwana  
(Code-10003) Distt. Jind,  
Haryana, Pincode - 126116
175. State Bank of India  
Branch Govt. Polotechnic,  
Ambala City (Code-1 0057),  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode - 134003
176. State Bank of India  
Branch Sector-20 Panchkula  
(Code-10374) Distt. Panchkula  
Haryana, Pincode - 134112
177. State Bank of India  
Branch H. T. C., Pinjore  
(Code-10471) Distt. Panchkula  
Haryana, Pincode - 134002
178. State Bank of India  
Branch Pehova (Code-10734)  
Distt. Kurukshetra, Haryana  
Pincode - 136128
179. State Bank of India  
Branch Mulana, (Code-11843)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode -
180. State Bank of India  
Branch Rani Talab, Jind  
(Code - 11846)  
Distt. Jind, Haryana  
Pincode -
181. State Bank of India  
Branch Cheeka, (Code-11847)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode -
182. State Bank of India  
Branch Brara (Code-11863)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode -
183. State Bank of India  
Branch Saphidon  
(Code-12198) Distt. Jind,  
Haryana, Pincode - 126112

184. State Bank of India  
Branch Ismailabad  
(Code-12200) Distt. Ambala,  
Haryana, Pincode -
185. State Bank of India  
Branch Bilaspur  
(Code-12203)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode - 135102
186. State Bank of India  
Branch Sadhoura  
(Code - 12204)  
Distt. Yamunanagar, Haryana  
Pincode - 133204
187. State Bank of India  
Branch Sector - 8, Panchkula  
(Code-12235)  
Distt. Panchkula, Haryana  
Pincode - 134101
188. State Bank of India  
Branch Julana (Code - 12234)  
Distt. Ambala, Haryana  
Pincode -
189. State Bank of India  
Branch, M. S. Rewari  
(Code - 14634) Distt. Rewari,  
Haryana, Pincode - 123401
190. State Bank of India  
Specialised Agriculture  
Commercial Branch, Karnal  
(Code - 14499) S.C.O.- 18,  
Sector-3, Karnal, Distt. Karnal,  
Haryana, Pincode - 132001
191. State Bank of India  
Sco 43-48, Sector 17 -B,  
Bank Square, (Code-628) Chandigarh  
Pin: 160017
192. State Bank of India  
Nabha (Code-1452)  
Dist : Patiala  
Punjab  
Pin: 147201
193. State Bank of India  
SCO-27-28, Sector 7  
Madhya Marg (Code-3246)  
Chandigarh  
Pin: 160019
194. State Bank of India  
New Haryana Secretariat,  
Opposite Fire Station, (Code-10603)  
Sector-17, Chandigarh (Ut)  
Pin: 160017
195. State Bank of India  
Chandigarh Housing Board,  
Sector-9, (Code-10604)  
Chandigarh (Ut)  
Pin: 160009
196. State Bank of India  
SCF 287, Motor Market,  
Manimajra, (Code-10605)  
Chandigarh (Ut)  
Pin: 160101
197. State Bank of India  
Govt. College For Boys,  
Sector-11, (Code-10606)  
Chandigarh (Ut)  
Pin: 160011
198. State Bank of India  
Govt. Medical College,  
Sector-32, (Code-10607)  
Chandigarh (Ut)  
Pin: 160032
199. State Bank of India  
Sri Guru Gobind Singh  
College, Sector-26, (Code-10608)  
Chandigarh (Ut)  
Pin: 160026
200. State Bank of India  
MCM Dav College For Women  
Sector-36, (Code-10609)  
Chandigarh  
Pin: 160036
201. State Bank of India  
Govt. Senior Secondary School  
Naya Nangal,  
Anandpur Sahib (Code-10610)  
Dist : Rupnagar  
Punjab  
Pin: 140124
202. State Bank of India  
Bindal Automobile Complex  
Paras Nagar,  
Chandigarh Ambala Highway,  
Derabassi. (Code-10639)  
Dist : Mohali  
Punjab  
Pin: 140507
203. State Bank of India  
SCO 5-6, Ward No 15,  
Bansawali Chungi,  
Chandigarh Road,  
Kharar Tehsil (Code-10747)  
Dist : Mohali, Punjab  
Pin: 140301

204. State Bank of India  
SCO 36,  
Sector 18-D, (Code-11585)  
Chandigarh  
Pin: 160018
205. State Bank of India  
Shop No. 220 A, Street No 7  
Main Bazaar,  
Tripri, (Code-11586)  
Dist: Patiala  
Punjab  
Pin: 147001
206. State Bank of India  
SME Branch  
SCO 43-48, 3rd Floor,  
Sector 17-B, (Code-11705)  
Chandigarh (UT)  
Pin: 160017
207. State Bank of India  
Opp. HDFC Bank,  
Nabha Road,  
Amloh,  
Dist: Fatehgarh Sahib (Code-11832)  
Punjab, Pin: 147203
208. State Bank of India  
Landran (Code-11836)  
Distt. Mohali Punjab  
Pin: 140307
209. State Bank of India  
Bassi Pathana  
Dist. Fatehgarh Sahib (Code-11898)  
Punjab, Pin: 140412
210. State Bank of India  
Samana (Code-11911)  
Dist. Patiala, Punjab  
Pin: 147101
211. State Bank of India  
Patran  
Distt. Patiala (Code-11912)  
Punjab  
Pin: 1407105
212. State Bank of India  
Banur, Dist. Mohali, (Code-11975) Punjab  
Pin: 140601
213. State Bank of India  
Lalru  
Dist. Mohali (Code-11976)  
Punjab  
140501
214. State Bank of India  
Anandpur Sahab  
Dist. Rupnagar (Code-11977)  
Punjab, Pin: 140118
215. State Bank of India  
Chandigarh-kurali Road  
Near Jand Hospital,  
Mullanpur Garibdas,  
Mohali (Code-11978)  
Dist : Mohali  
Punjab  
Pin: 140901
216. State Bank of India  
SBI, Kandala,  
PO - Dharamgarh, Dist : Mohali (Code-12209)  
Punjab  
Pin: 144306
217. State Bank of India  
SBI, IIT Complex,  
Nangal Road,  
Ropar (Code-13181)  
Punjab  
Pin: 140001
218. State Bank of India  
(Code-30440) SCO 118-119-120  
City Sub Centre,  
Sector 34 A  
Chandigarh  
Pin: 160022
219. State Bank of India  
(Code-10737) Jalandhar Road, Rayya,  
Tehsil Babab Bakala  
Dist : Amritsar  
Punjab  
Pin: 143115
220. State Bank of India  
(Code-10738) Khadoor Sahib Road,  
Jandiala Guru,  
Tehsil : Amritsar  
Dist : Amritsar  
Punjab  
Pin: 143115
221. State Bank of India  
(Code-10743) Gurudwara Road,  
Goindwal Sahib,  
Teh. Khadoor Sahib  
Dist : Tarn Taran  
Punjab, Pin: 143422
222. State Bank of India  
(Code-10744) Gurudwara Dukhniwaran Market.  
Goindwal Road, Dist : Tarn Taran  
Punjab Pin: 143408
223. State Bank of India  
(Code-11582) 12-A, Green Field Avenue,  
Majitha Road, Amritsar  
Punjab  
Pin: 143004

- |  |   |
|--|---|
| <p>224. State Bank of India<br/>(Code-11833) 16/17, Bhullar Avenue<br/>Fatehgarh Churiyan Road<br/>Amritsar<br/>Punjab<br/>143001</p> <p>225. State Bank of India<br/>(Code-11837) Near Satkar Palace,<br/>Amritsar Road,<br/>Tarn Taran<br/>Punjab<br/>Pin: 143401</p> <p>226. State Bank of India<br/>(Code-11858) Ramdass<br/>Distt. Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143603</p> <p>227. State Bank of India<br/>(Code-11894) Jalandhar Road<br/>Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143006</p> <p>228. State Bank of India<br/>(Code-11895) Ajnala Road<br/>Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143008</p> <p>229. State Bank of India<br/>(Code-11896) New Amritsar<br/>Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143006</p> <p>230. State Bank of India<br/>(Code-11959) Chherhata<br/>Distt. Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143105</p> <p>231. State Bank of India<br/>(Code-11960) Verka<br/>Distt. Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143501</p> <p>232. State Bank of India<br/>(Code-11962) Begowal<br/>Distt. Amritsar<br/>Punjab<br/>Pin: 143601</p> <p>233. State Bank of India<br/>(Code-9839) Mamoon Cantt,<br/>Dist. Pathankot<br/>Punjab<br/>Punjab<br/>Pin: 145001</p> | <p>234. State Bank of India<br/>(Code-10611) Hans Raj Arya High School<br/>Garhshankar,<br/>Dist. Hoshiarpur<br/>Punjab<br/>Pin: 144527</p> <p>235. State Bank of India<br/>(Code-10668) Baring Union Christian<br/>College, Jalandhar Rd,<br/>Batala, Dist. Gurdaspur<br/>Punjab<br/>Pin: 143505</p> <p>236. State Bank of India<br/>(Code-10740) Dasuya Road,<br/>Gardhiwala,<br/>Tehsil Dasuya<br/>Dist: Hoshiarpur<br/>Punjab<br/>Pin: 144207</p> <p>237. State Bank of India<br/>(Code-10741) Chandigarh Hoshiarpur Rd<br/>Near Balmiki Mandir,<br/>Mahilpur,<br/>Dist Hoshiarpur<br/>Punjab<br/>Pin: 146105</p> <p>238. State Bank of India<br/>(Code-10742) Bhogpur Rd, Bulhowal,<br/>Tehsil Hoshiarpur<br/>Dist : Hoshiarpur<br/>State: Punjab<br/>Pin: 146113</p> <p>239. State Bank of India<br/>(Code-10745) Near A V R Foundry,<br/>Amritsar Rd,<br/>Batala,<br/>Tehsil Batala<br/>Dist : Gurdaspur Punjab<br/>Pin: 143505</p> <p>240. State Bank of India<br/>(Code-10746) Bikram Palace, Nehru Gate<br/>Near Hansli Bridge,<br/>Jalandhar Road,<br/>Batala<br/>Dist: Gurdaspur<br/>Punjab<br/>Pin: 143505</p> <p>241. State Bank of India<br/>(Code-11834) Air Man Bldg,<br/>Chandigarh Road,<br/>Hoshiarpur (Pb)<br/>Dist : Hoshiarpur<br/>Punjab, Pin: 146001</p> |
|--|---|

242. State Bank of India  
(Code-11835) Jain Bldg,  
Near Bus Stand,  
Haryana,  
Dist : Hoshiarpur  
Punjab  
Pin: 144208
243. State Bank of India  
(Code-11838) Miani  
Distt. Gurdaspur  
Punjab  
Pin: 144202
244. State Bank of India  
(Code-11902) Near Bijlighar  
Fatehgarh Churiyan  
Tehsil - Batala  
Distt. Gurdaspur  
Punjab  
Pin: 143602
245. State Bank of India  
(Code-11903) G. T. Road,  
Gurdaspur,  
Punjab  
Pin: 143521
246. State Bank of India  
(Code-11964) Hargobindpur  
Distt. Hoshiarpur  
Punjab  
Pin: 144205
247. State Bank of India  
Kalanaur  
(Code-12207) Distt. Gurdaspur  
Punjab  
Pin: 143512
248. State Bank of India  
(Code-12236) G. T. Road  
Dasuya, Distt. Hoshiarpur  
Punjab, Pin: 144205
249. State Bank of India  
(Code-13354) Nri Branch  
Hoshiarpur  
Punjab, Pin: 146001
250. State Bank of India  
(Code-13511) Mehtiana  
Distt. Hoshiarpur  
Punjab  
Pin: 146001
251. State Bank of India  
(Code-15161) LCPC  
Plot No D-173, Phase VIII-B, SAS Nagar,  
Mohali,  
Punjab  
Pin: 160056
252. State Bank of India  
(Code-14846) Regional Business Office  
SCO 103-108  
Sector 17 B  
Chandigarh  
Pin: 160017
253. State Bank of India  
(Code-5203) Regional Business Office,  
RBO Complex,  
Above Vajra Canteen,  
Sutehari Road  
Hoshiarpur  
Punjab  
Pin: 146001
254. State Bank of India  
(Code-5207) Regional Business Office,  
Rani Ka Bagh  
Amritsar  
Punjab  
Pin: 143001
255. State Bank of India  
(Code-4486) RACPC  
SCO 103-108  
Sector 17 B  
Chandigarh  
160017
256. State Bank of India  
(Code-5025) RASMECC  
First Floor  
Rani Ka Bagh  
Amritsar  
Punjab, Pin: 143001
257. State Bank of India  
(Code-5022) SMECCC  
SCO 103-108  
Sector 17 B  
Chandigarh, 160017
258. State Bank of India  
(Code-5062) TFCPC  
SCO 103-108  
Sector 17 B  
Chandigarh, 160017
259. State Bank of India  
(Code-10388) CCPC  
SCO 103-108  
Sector 17 B  
Chandigarh, 160017
260. State Bank of India  
Regional Business Office (Region-3)  
Delhi Zonal Office Building  
A-Block  
11, Sansad Marg  
New Delhi-110001

261. State Bank of India  
Regional Business Office (Region-4)  
Delhi Zonal Office Building  
A-Block  
11, Sansad Marg  
New Delhi-110001
262. State Bank of India  
Centralised Pension Processing Centre  
IIIrd Floor, Chandani Chowk  
Delhi-110006
263. State Bank of India  
Liability Centralised Processing Centre  
B-16, Sector-62, Institutional Area  
Noida - 201307  
(Uttar Pradesh)
264. State Bank of India  
Small and Medium Enterprises City Credit Centre  
IIIrd Floor  
State Bank of India Building  
Chandani Chowk  
Delhi-110006
265. State Bank of India  
Retail Assets Small and Medium Enterprises City  
Credit Centre  
62, Basement  
Neelam Bata Road  
NIFT Faridabad-121001  
(Haryana)
266. State Bank of India  
Stressed Assets Recovery Branch  
23, Najafgarh Road  
New Delhi-110015
267. State Bank of India  
Chitrangan Park Branch  
B-107  
Chitrangan Park  
New Delhi-110019
268. State Bank of India  
NIFTEM Campus Branch  
Kundali, Sonapat-131028  
(Haryana)
269. Retail Assets Small & Medium Enterprises  
City Credit Cell (RASMECCC)  
State Bank of India  
Durgapur (Durgapur Branch Premises)  
Dist: Burdwan, West Bengal - 713203
270. Corporation Bank  
Jayashree Bldg., Ambedkar  
Chowk, Gokhale  
Rd., Naupada, H 23  
Thana-400062  
Dist- Thane,  
State Maharashtra
271. Corporation Bank  
Jeevan Suman Bldg, I Floor, No-5,  
Town Centre,  
Dist-Aurangabad-431 003,  
State Maharashtra
272. Corporation Bank  
Aditya Chambers, 201,  
Navipeth, Mahanagar Palika,  
Dist-Jalgaon-425001  
State Maharashtra
273. Corporation Bank  
1st Fl Plot 87, Panchsheela  
Comml. Complex, Sector  
IV, Airoli, New Bombay-400708  
Dist - Thane,  
State Maharashtra
274. Corporation Bank  
Audumbar Apt., G. Gupta  
Rd, Dombivili (W),  
Mumbai-421202  
Dist- Thane,  
State Maharashtra
275. Corporation Bank  
Near Bhagwatidevi  
Mandir, Bhagwatipur Songaon  
Road, Kolhar-413710  
Dist- Ahmednagar  
State Maharashtra
276. Corporation Bank  
Jeevan Tara Bldg (LIC),  
513, Sadar  
Bzr, Ganpatdas Devi Mrg,  
Dist-Satara 415001  
State Maharashtra
277. Corporation Bank  
No. 54, Shivajinagar, Near Apta  
Police Chowki,  
Sangli-416416  
Dist- Pune  
State Maharashtra
278. Corporation Bank  
Maitri Shopping Cpx, Head  
Qtrs, Ern Command, Pune  
Camp, Pune-411001  
Dist- Pune, State Maharashtra
279. Corporation Bank  
125, Ward No. 63, Prakash Bhavan, Link Road,  
Distt. Nagpur-440001 State Maharashtra
280. Corporation Bank  
Vimannagar, Plot 99/2, Mehta  
House, Ground Floor,  
Dist-pune-411014  
State Maharashtra

281. Corporation Bank  
Suyog Plaza, I Flr, 1278, Jungli  
Maharaj Rd, Deccan Gymkhana,  
Service Branch,  
Dist-Pune-411005  
State Maharashtra
282. Corporation Bank  
Kapoor Heights, FP No. 27, TPS  
Pune No. 11, Near MSEB Power  
House, Mali Maharaja Rd.,  
Sonwarpet, Pune-411 001
283. Corporation Bank  
2D Wing, 1st Floor, Javkar Plaza,  
Jai Stambh, Main Rd.,  
Dist. Ratnagiri-415 612  
State Maharashtra
284. Corporation Bank  
Shop No. 2, 3, 4, 5 & 5A, G. Floor,  
Sierratowers,  
Lokhandwala Township,  
Kandivili (E), Mumbai-I  
Dist. Greater Mumbai, State-Maharashtra
285. Corporation Bank  
Murlidham, Indira Market Rd.,  
Opp : Dr. Jangle's Dispensary,  
Dist. Wardha-442 001  
State Maharashtra
286. Corporation Bank  
Ganesh Heights, 100 Ft. Main Road,  
Ganesh Nagar, Dapodi,  
Pune-Army Camp Area, Dist. Pune-411 012  
State Maharashtra
287. Corporation Bank  
National Insurance Bldg.,  
Ground Fl. Kingsway,  
S. V. P. Marg, Dist. Nagpur-440 001  
State Maharashtra
288. Corporation Bank  
Anand Mangal Karyalaya,  
Sahakar Sabha Griha Marg,  
Market Yard, Saras Nagar,  
Dist. Ahmednagar-414 001  
State Maharashtra
289. Corporation Bank  
Gulshan Point, Rajapet Circle,  
Badnera Road, Near Hotel Dream Land,  
Dist. Amaravati-444 601  
State Maharashtra
290. Corporation Bank  
Shivdwar Complex, LRT  
College Road, Civil Lines Square,  
Dist. Akola-444 001  
State Maharashtra
291. Corporation Bank  
1-17 1427, Viswanagar, VIP Road,  
Dist. Nanded-431 601  
State Maharashtra
292. Corporation Bank  
No. 54, Shivajinagar,  
Near Apta Police Chowki,  
Dist. Sangli-416 416  
State Maharashtra
293. Corporation Bank  
No. 466, Avdhoth Plaza,  
Bhigwan Road,  
Baramati-413 102,  
Dist. Pune  
State Maharashtra
294. Corporation Bank  
Plot No. 3, Middle King Road,  
Beside Steel Chamber,  
Wardhaman Nagar,  
Dist : -Nagpur-440008  
State Maharashtra
295. Corporation Bank  
Swasti, G. Floor, Opp. Jain Bhavan,  
Artillery Centre Road,  
Nasik Road,  
Dist. Nasik-422 101  
State Maharashtra
296. Corporation Bank  
D. No. 2, Shradda Complex,  
G. Floor, Shivmandir Road,  
Ambernath-421 501  
Dist. Thane  
State Maharashtra
297. Corporation Bank  
Malpani Plaza,  
Janta Raja Maidan Road,  
Sangamner-422 605  
Dist Ahmednagar,  
State Maharashtra
298. Corporation Bank  
Gat. No. 1156, "Shri Hari"  
Complex, Shikrapur Road,  
Opp. : Vishal Garden,  
Chakan-410 501,  
Dist. Pune  
State Maharashtra
299. Corporation Bank  
"Aum Sai", Shop No. 7 to 11, 23C,  
Sector-7, Service Road,  
Kharghar, Navi Mumbai-410 210  
Dist. Raigrah  
State Maharashtra



300. Corporation Bank  
Laxminarayana Complex,  
Sector-12A, Govind Fakir Naik Road,  
Koperkhairne-400 709  
Dist. Thane,  
State Maharashtra
301. Corporation Bank  
Shubhashree Wood Club House,  
Next to Kunal Icon,  
Pimple Saudagar,  
Pune-411 027  
Dist. Pune  
State Maharashtra
302. Corporation Bank  
G. Floor, A-17, Kasturba Housing Society,  
Main Road, Vishrantwadi,  
Pune-411 015  
Dist. Pune,  
State Maharashtra
303. Corporation Bank  
S. No. 144, 149/1, 'Prem Park',  
Masulkar Colony, Pimpri,  
Pune-411 018  
Dist. Pune,  
State Maharashtra
304. Corporation Bank  
201-202, 2nd Floor, 'Stellar Enclave'  
Near Parihar Chowk, Aundh,  
Dist. Pune-41 007  
State Maharashtra
305. Corporation Bank  
Mezanine Floor, Veena Chambers,  
Fort, Mumbai  
Dist. Greater Mumbai  
State Maharashtra
306. Corporation Bank  
G. Floor, "Ratna Kalyan",  
286/5/6, Budhwarpeth,  
Station Road,  
Karad-415 110  
Dist. Satara  
State Maharashtra
307. Corporation Bank  
H. 2406, Gen. Thimmayya Rd.,  
Street Camp, Pune-411 011  
Dist-Pune  
State Maharashtra
308. Corporation Bank  
Audumbar Apt., G. Gupta Rd.,  
Dombivili (W),  
Mumbai-421 202,  
Dist. Thane,  
State Maharashtra
309. Corporation Bank  
Ground Floor, Plot No. 17,  
Survey No. 112/1, Near Janta  
College square, Civil Lines,  
Dist. Chandrapur-442 401  
State Maharashtra
310. Corporation Bank  
Ground Floor, Gala No. 7, 8, 9 & 10,  
M. K. Plaza, Near Hypercity,  
Kasarvadavali, Ghobunder Road,  
Dist. Thane West-400 607  
State Maharashtra
311. Corporation Bank  
1st Floor, Gurgovind Hse,  
Murbadrd, Opp. Purnima  
Theatre, Kalyan-421 301  
Dist.-Thane  
State Maharashtra
312. Corporation Bank  
SNMC, Bagalkot  
S. Nijalingapa, Medical College Campus,  
Navangar, Bagalkot-578 105  
Dist-Bagalkot  
State Karnataka
313. Corporation Bank  
Vidyanagar, Gulbarga  
Sharana Basa Veshwara  
College of Science,  
College Campus, 1st Floor,  
Dist.-Gulbarga-585 101  
State Karnataka
314. Corporation Bank  
Afzalpur 1st Floor,  
Malendra Soustan Math,  
Main Road,  
Dist.-Afzalpur-585 301  
State Karnataka
315. Corporation Bank  
Bailhongal CTS No. 3343,  
Behind Forest Office,  
Belgaum Road,  
Bailhongal-591 102  
Dist.-Belgaum  
State Karnataka
316. Corporation Bank  
Vijayawada-Suryaraopet  
Branch-35-25-35,  
Dr. B. Rama Rao Street  
Suryaraopet, Vijayawada-520 002  
District-Krishna  
Andhra Pradesh

317. Corporation Bank  
Visakhapatnam-Gajuwaka  
Branch-7-6-17, Chittivanipalem  
NH-5, Gajuwaka  
Visakhapatnam-530 026  
District Visakhapatnam  
Andhra Pradesh
318. Corporation Bank  
Rajam Branch  
LIC Building, Rajam-531 127  
District Srikakulam  
Andhra Pradesh
319. Corporation Bank  
Parvatipuram Branch  
Sri-Venkateswara Shopping Mall,  
Main Road, Parvatipuram-535 501  
District Vizianagaram  
Andhra Pradesh
320. Corporation Bank  
Bheemunipatnam-Tagarapuvallasa  
Branch, Plot No. 36, Santapet,  
Near Ganesh Theatre,  
Chittivalasa, Bheemili Main Road,  
Bhemunipatnam-Tagarapuvallasa-531 162  
Dist. : Visakhapatnam  
Andhra Pradesh
321. Corporation Bank  
Visakhapatnam-Madhurawada Branch  
93, Valli Nagar, NH-5, Madhurawada,  
Visakhapatnam-531 162  
Dist. : Visakhapatnam  
Andhra Pradesh
322. Corporation Bank  
Narasaraopet Branch  
9-9-55, Vidya Towers, First Floor,  
Bank Street, Arandapet  
Narasaraopet-522 601  
Dist : Guntur  
Andhra Pradesh
323. Corporation Bank  
Nandigama Branch  
16-170, Ratham Bazar,  
Nandigama-521 185  
Dist : Krishna,  
Andhra Pradesh
324. Corporation Bank  
Narasannapet Branch  
Main Road, Near Old Bus Stand  
Narasannapet-532 421  
Dist : Srikakulam  
Andhra Pradesh
325. Corporation Bank  
Thotlavalluru Branch  
4-92, Ramachandra Plaza  
Bus Stand Centre  
Thotlavalluru-521 163  
Dist : Krishna  
Andhra Pradesh
326. Corporation Bank  
S. Kota Branch  
Main Road, Near Shirdi Sai Temple  
S. Kota-535 145  
Dist : Vizianagaram  
Andhra Pradesh
327. Corporation Bank  
Kanuru Branch  
Main Road, Ashok Nagar,  
Opp. Time Hospital  
Kanuru-520 007  
Dist : Krishna  
Andhra Pradesh
328. Corporation Bank  
SPUC, Near University  
Admn. Office, Vallabh  
Vidyanagar-388 120  
Dist : Anand  
State : Gujarat
329. Corporation Bank  
Panchavati Main Road,  
Near Jain Derasar,  
Rajkot-360 001  
Dist : Rajkot  
State : Gujarat
330. Corporation Bank  
U-82, Sandhya Darshan Apartment,  
Opp : Bhulka Bhavan School,  
Hazira Road, Adajan,  
Surat-395 009  
Dist : Surat  
State Gujarat
331. Corporation Bank  
Srushti-II, Punit Ashram Road,  
Near Ramji Mandir, Opp : SBI,  
Maninagar-380 008  
Dist : Ahmedabad  
State Gujarat
332. Corporation Bank  
Opp : Bahuddin College,  
College Road,  
Junagadh-362 001  
Dist : Junagadh  
State Gujarat

333. Corporation Bank  
No. 115-125, First Floor,  
Orange Mall, Orange Circle,  
Chandkheda-382 424  
Dist : Gandhinagar  
State Gujarat
334. Corporation Bank  
Samruddhi Arcade,  
G. Floor, Opp : Bagladev Mandir,  
Nr. Petrol Pump,  
Chikhli-396 521  
Dist : Navasari  
State Gujarat
335. Corporation Bank  
Ground Floor, Nisarg Apartment-"A",  
D. No. 2533 (1) to (6), Kilvani Road,  
Silvassa-396 230  
Dist : Dadra Nagar Haveli  
State Gujarat
336. Corporation Bank  
Ground Floor, Sudharma Building,  
Daulat Bhai Road,  
Near Jaganath Temple,  
Nanichhipwad, Valsad-396 001  
Dist : Valsad  
State Gujarat
337. Corporation Bank  
First Floor, Kuber Plaza,  
Station Road,  
Ankleshwar-393 001  
Dist : Ahmedabad  
State Gujarat
338. Corporation Bank  
First Floor, Office No. 1, 2 & 3,  
Shri Mangalam Complex,  
Near Kasak Circle,  
Bharuch-392 002,  
Dist : Bharuch,  
State : Gujarat
339. Corporation Bank  
First Floor, Kiran Complex,  
Near Gayatri Mandir,  
National Highway,  
Deesa-385 535  
Dist : Vanas Kantha  
State : Gujarat
340. Corporation Bank  
Ground Floor, Jagdish Plaza,  
Khed-Tasia Road, Mahavirnagar,  
Himmatnagar-383 001  
Dist : Savajkanth  
State : Gujarat
341. Corporation Bank  
Ground Floor, Dharti Chambers,  
CM8/13, N.H. No. 8, GIDC,  
Vapi-396 195  
Dist : Valsad  
State Gujarat
342. Corporation Bank  
GSM, S-6, First Floor,  
Main Greater Noida-201 308  
District : Gouthambudh Nagar  
State : Uttar Pradesh
343. Corporation Bank  
Garhi Sultanpur Road,  
Gadh Harsaru-123 505  
District : Gurgaon  
State : Haryana
344. Corporation Bank  
No. 34/15, Delhi-Alwar Road,  
Sohna-122 103  
District : Gurgaon  
State : Haryana
345. Corporation Bank  
Kosli Road,  
Near old Tehsil Kaushik Market  
Jhajjar-124 103  
District : Jhajjar,  
State : Haryana
346. Corporation Bank  
SCO-48, Sector-23A,  
Palam Vihar Road,  
Gurgaon-122 017  
District : Gurgaon  
State : Haryana
347. Corporation Bank  
J Block, J-129, Ground Floor,  
Main Road, Vikaspuri  
New Delhi-110018  
District : Delhi  
State : Delhi
348. Corporation Bank  
Pelpa More, Teh-Bahadurgarh,  
Badli-124105  
District : Jhajjar  
State : Haryana
349. Corporation Bank  
No. 141, Rai Industrial Area,  
Rai, Dist : Sonapat  
State : Haryana
350. Corporation Bank  
House No. 10, Plot 8B, Rohini  
Sector-15, New Delhi-110085  
District : Delhi  
State : Delhi

351. Corporation Bank  
C-45, Sector-62,  
Noida-201307  
District : Goutambudh Nagar,  
State : Uttar Pradesh
352. Corporation Bank  
Plot No. 42, Sector-56,  
Shopping Complex,  
Gurgaon, Haryana  
District : Gurgaon  
State : Haryana
353. Corporation Bank  
SCF 87/88, Shopping Area, Sector-14,  
Gurgaon-122001  
District : Gurgaon  
State : Haryana
354. Corporation Bank  
Shop No. 7 & 8, Community Centre,  
Jal Vihar, Lajpat Nagar,  
New Delhi-110074  
District : Delhi  
State : New Delhi
355. Corporation Bank  
G. Floor, Govt. of NCT of Delhi  
Office of the Director (Finance & Accounts),  
Varunalaya, Jhandewalan,  
Phase-II, New Delhi-110005  
District : Delhi  
State : New Delhi
356. Corporation Bank  
Delhi Jal Board Office Complex,  
Greater Kailash-I,  
New Delhi  
District : Delhi  
State : New Delhi
357. Corporation Bank  
Delhi Jal Board, Water Works,  
Shoping Complex,  
Wazirabad,  
New Delhi-110054  
District : Delhi  
State : New Delhi
358. Corporation Bank  
Rama Complex, Sohna Road,  
Opp : Darbaripur Mod.  
Badshahpur-122101  
District : Gurgaon  
State : Haryana
359. Corporation Bank  
No. 248, Opp : Radha Krishna Temple,  
Main Road, Chhawla, Delhi-110071  
District : Delhi  
State : New Delhi
360. Corporation Bank  
No. 68, Ward No. 3, Krishna Colony,  
Near Viveka Nand School,  
Railway Road, Palwal-121 102  
District : Faridabad  
State : Haryana
361. Corporation Bank  
SCF-146, Huda Market,  
Main Road, Sector-14, Faridabad-121001  
District : Faridabad  
State : Haryana
362. Corporation Bank  
56/1, Dharuhera-123106  
District : Gurgaon  
State : Haryana
363. Corporation Bank  
B-1/14 & B-1/15, Main Road,  
Sector-51, Noida-201301  
District : Goutambudh Nagar,  
State : Uttar Pradesh
364. Corporation Bank  
Plot No. 20, Sector-14,  
Milan Business Space,  
Kaushambi, Ghaziabad-201010  
District : Ghaziabad  
State : Uttar Pradesh
365. Corporation Bank  
C-1/30, Model Town,  
Part-III, Delhi-110009  
District : Delhi  
State : New Delhi
366. Corporation Bank  
B-88/4, Mayapuri Industrial Area,  
Phase-I, New Delhi-110064  
District : Delhi  
State : New Delhi
367. Corporation Bank  
Micro Finance, No. 32,  
Rajendra Bhawan,  
Rajendra Place,  
New Delhi-110008  
District : Delhi  
State : New Delhi
368. Corporation Bank  
Plot No. 23/144, Main Kanjhawala Chowk,  
New Delhi-110059  
District : Kanjhawala  
State : New Delhi
369. Corporation Bank  
A-7, 8, G.T. Karnal Road, Jahangirpuri (Ramgarh),  
New Delhi-110092  
District : Delhi  
State : New Delhi

370. Corporation Bank  
WZM-6, Sham Park,  
Nawada, New Delhi-110059  
District : Delhi  
State : New Delhi
371. Corporation Bank  
Khasra No. 507, Plot No. 507,  
Main Bandh Road,  
Village Deoli, Near Chandrawati Hospital,  
New Delhi-110062  
District : Khanpur  
State : New Delhi
372. Corporation Bank  
Vijay Nagar, Yadav Market,  
Paisar Dehat, Faizabad Road,  
Barabanki-225001
373. Corporation Bank  
Chakroata Rd., Near Bus Stand,  
Behat-247 121  
Dist. : Saharanpur
374. Corporation Bank  
Jai Automobiles, G. T. Road,  
Manglor Chowki,  
Deoband-247 554
375. Corporation Bank  
Raghav Nagar,  
Deoria-274 001
376. Corporation Bank  
Near Kapoor Nursing Home,  
Allahabad Bank Road,  
Elite Chowk,  
Jhansi-284 001
377. Corporation Bank  
Caps Branch  
LIC of India, Jeevan Vikas,  
16/98, M.G. Marg,  
The Mall, Kanpur-208001
378. Corporation Bank  
Service Branch, No. C/3, 2nd Floor,  
Center Court Buildings, 5, Park Rd.  
Near Om Pharma, Lucknow-226001
379. Corporation Bank  
Caps No. C/3, 2nd Floor,  
Center Court Buildings, 5, Park Rd.,  
Near Om Pharma, Lucknow-226001
380. Corporation Bank  
6-B, Krishna Nagar,  
Goverdhan Nagar,  
Mathura-281004
381. Corporation Bank  
Jeevan Prakash, LIC of India Building,  
Prabhat Nagar, Meerut-250 001
382. Corporation Bank  
Banjaran Tehsil Rd.,  
Nakur-247 342  
Dist.-Saharanpur
383. Corporation Bank  
Ramalila Ground,  
Budh Bazar, Pakbada-244102  
Dist.-Moradabad
384. Corporation Bank  
C-51, Awas Vikas,  
Nainital Road, Rudrapur-263153  
Dist.-Udhamsingh Nagar
385. Corporation Bank  
Seth Enclave, Main Road,  
Opp : PWD Guest House,  
Civil Court Road,  
Shahjahanpur-242001
386. Corporation Bank  
Mohalla Lal Mohammad,  
G.T. Road, Khatauli-251201
387. Corporation Bank  
No.6-1685, Ramalay Bhawan,  
Kaladhungi Road,  
Haldwani-263139
388. Corporation Bank  
Seth Asha Ram Jain Market,  
Delhi Road, Baghpat-250609
389. Corporation Bank  
Rahe Murtaza, Near Cane Society,  
Civil Lines, Rampur-244901
390. Corporation Bank  
Village & Post : Barla,  
Deoband Road,  
Barla-251307
391. Corporation Bank  
Village Gagalhedi, Dinarpur,  
Opp. Telephone Exchange,  
Muzaffarnagar Road, Gagalhedi,
392. Corporation Bank  
Village : Talehri Buzurg,  
G.T. Road-247554  
Dist- Muzaffarnagar
393. Corporation Bank  
NH-02, Village Usaini-283203  
Dist- Firozabad
394. Corporation Bank  
Hindu Inter College, Railway Road,  
Kenal Side, Kandhla-247775
395. Corporation Bank  
Vikram Compound, Nauganj,  
Near Water Tank, Anupshahar Road,  
Shikarpur-202395

- |   |   |
|---|---|
| <p>396. Corporation Bank<br/>New Police Chowki, Opp. ICICI Bank,<br/>Khasra No. 345,<br/>Agra Aligarh Road, Hathras</p> <p>397. Corporation Bank<br/>G.T. Road, Opp. Vaishali Guest House,<br/>Kannauj - 209727</p> <p>398. Corporation Bank<br/>No.637, Near Firoz Gandhi<br/>Degree College Chauraha,<br/>Kutchehry Road, Raibareilly</p> <p>399. Corporation Bank<br/>Munshiganj Road,<br/>Opp. Chandan Petrol Pump, Near Central Bank,<br/>Amethi-227405<br/>Dist.- C S M Nagar</p> <p>400. Corporation Bank<br/>Main Road, Bhadokhar,<br/>Raibareilly-Pratapgarh Road,<br/>Dist.- Raibareilly</p> <p>401. Corporation Bank<br/>Opp. Police Station,<br/>Bharavan Block, Atarauli<br/>Dist.- Hardoi-241204</p> <p>402. Corporation Bank<br/>Ananth Complex, 3/38,<br/>Rekabganj, Faizabad-224001</p> <p>403. Corporation Bank<br/>No.7, Vijay Laxmi Nagar,<br/>Station Road, Sitapur-261001</p> <p>404. Corporation Bank<br/>238, Kothiyat Civil Lines,<br/>Opp : Old Dist Jail, Harihar Press Compound,<br/>Bulandshahr-247554</p> <p>405. Corporation Bank<br/>Teachers Colony, Bijnore Road,<br/>Gajraula-244235<br/>Dist - Moradabad</p> <p>406. Corporation Bank<br/>C- 7, L I C<br/>Rajajipuram,<br/>Lucknow -226 017</p> <p>407. Corporation Bank<br/>Leela Steel Emporium Building,<br/>Raibareilly Road, Gandhi Nagar,<br/>Telibagh, Lucknow-226 002</p> <p>408. Corporation Bank<br/>No. 15/28/8, Harthala,<br/>Moradabad-244001</p> <p>409. Corporation Bank<br/>Station Road, Chhatari Chauraha,<br/>Pilibhit -262001</p> | <p>410. Corporation Bank<br/>Dheeman Pura,<br/>Shamli-247776<br/>Dist.-Muzaffarnagar</p> <p>411. Corporation Bank<br/>No.288, Hiran Nagar,<br/>Raibareilly Road,<br/>Near Govt. Hospital,<br/>Unnao-209801</p> <p>412. Corporation Bank<br/>Near Civil Hospital,<br/>Mohan Rice Mill Compound,<br/>Ram Nagar Road,<br/>Kashipur-244713</p> <p>413. Corporation Bank<br/>Near Shyamlal Inter College,<br/>Nawabganj-209859</p> <p>414. Corporation Bank<br/>115-116, Nai Basti,<br/>M/s Arihant Timber Traders,<br/>Kandhla Road,<br/>Budhana-251309</p> <p>415. Corporation Bank<br/>Etah Road, Town Tundla-283204<br/>Dist- Firozabad</p> <p>416. Corporation Bank<br/>Jyoti Towers, 257/1,<br/>Sahadatpura,<br/>Near Bumai Vidyalaya,<br/>Mau Nath Bhanjan-2751</p> <p>417. Corporation Bank<br/>Village Bharethia, Pura Gancsh<br/>Lal, Block, Amethi-Durgapur Road,<br/>Bhetua -<br/>Dist.- C S M Nagar</p> <p>418. Corporation Bank<br/>Near Bhola Purwa, NH-24,<br/>Sitapur Road,<br/>Bakshi Ka Talab-227202</p> <p>419. Corporation Bank<br/>L.I.C. of India,<br/>Jeevan Jyothi,<br/>Ground Floor, G. T. Road,<br/>Moga -142001<br/>District: Moga,<br/>State: Punjab</p> <p>420. Corporation Bank<br/>Jeevan Udyog Building,<br/>City Centre Scheme,<br/>Amritsar-143001<br/>District : Amritsar<br/>State : Punjab</p> |
|---|---|

- |  |   |
|--|---|
| <p>421. Corporation Bank<br/>R-M-B Nijjer Complex,<br/>144, Nurmahal Road, Nakodar Dist.<br/>Jalandhar-144042<br/>District: Jalandhar<br/>State: Punjab</p> <p>422. Corporation Bank<br/>22 Acre Market,<br/>SCF No.18, Opp : LIC Office,<br/>Bamala-148101<br/>District: Barnala, State: Punjab</p> <p>423. Corporation Bank<br/>Purewal Tower, Samrala Chowk,<br/>G.T. Road, Khanna-141401<br/>District: Ludhiana<br/>State : Punjab</p> <p>424. Corporation Bank<br/>Opp: New Grain Market,<br/>Gaushala Road, Sangrur-148101<br/>District: Sangrur<br/>State: Punjab</p> <p>425. Corporation Bank<br/>G.T. Road, Fatehabad-125050<br/>District: Fatehabad<br/>State : Haryana</p> <p>426. Corporation Bank<br/>Opposite Power House,<br/>Dhangu Road, Pathankot-145001<br/>District: Gurdaspur, State: Punjab</p> <p>427. Corporation Bank<br/>SCO 81-82, Urban Estate, Phase-II,<br/>Jalandhar-144022<br/>District: Jalandhar<br/>State : Punjab</p> <p>428. Corporation Bank<br/>SCF-35, New Grain Market,<br/>Muktsar-152026<br/>District: Muktsar<br/>State : Punjab</p> <p>429. Corporation Bank<br/>1404 &amp; 1405, Ambala Road,<br/>Kaithal-136027<br/>District : Kaithal<br/>State : Haryana</p> <p>430. Corporation Bank<br/>Hoshiarpur Chowk.<br/>133, GT Road, Dasuya-144205<br/>District : Hoshiarpur<br/>State: Punjab</p> <p>431. Corporation Bank<br/>SCO 16, Sector-32A,<br/>Chandigarh Road, Ludhiana-141001<br/>District: Ludhiana<br/>State : Punjab</p> | <p>432. Corporation Bank<br/>D.No.12, Ward No.11,<br/>Bangran Chowk,<br/>Bye Pass Road,<br/>Ponta Sahib-173025<br/>District : Sirmour<br/>State : Himachal Pradesh</p> <p>433. Corporation Bank<br/>B-9/13, Railway Road,<br/>Opp : Vodafone Mini Store,<br/>Mahendragarh-123029<br/>District : Mahendergarh<br/>State: Haryana</p> <p>434. Corporation Bank<br/>Ward No. 3, Hamirpur Road,<br/>Near Hotel Suvidha Palace, Una-174303<br/>District: Una<br/>State: Himachal Pradesh</p> <p>435. Corporation Bank Railway<br/>Station Road, Kosli-123302<br/>District: Rewari<br/>State : Haryana</p> <p>436. Corporation Bank<br/>SCO 187-188, District Shopping Centre,<br/>Huda Complex, Gohana Road,<br/>Jind-126102<br/>District : Jind<br/>State : Haryana</p> <p>437. Corporation Bank<br/>FCO 27/28, Bela Road,<br/>Sardar Beanth Singh Aman Nagar,<br/>Roopnagar-140001<br/>District: Roopnagar<br/>State: Punjab</p> <p>438. Corporation Bank<br/>Main G.T. Road,<br/>Goraya-144409<br/>District: Jalandhar<br/>State: Punjab</p> <p>439. Corporation Bank Painguinim Branch<br/>959, Yaswant Nivas,<br/>Dayanand Smriti,<br/>K M Main Road, Painguinim,<br/>P.O. N.H. 17, Goa - 403702</p> <p>440. Corporation Bank Bicholim Branch<br/>Vynkatesh Prasad Building,<br/>Bordem, Bicholim, North Goa-403504</p> <p>441. Corporation Bank Murida Cuncolim Branch<br/>Main Road, Murida-Cuncolim - 403703</p> <p>442. Corporation Bank Varca<br/>Ground Floor, Shop No. 10 &amp; 11<br/>Varca Sports Club Complex<br/>Varca-Cavelossim Road<br/>Varca - Salcete, Goa - 403721</p> |
|--|---|

- |   |  |
|---|--|
| <p>443. Chapora Branch<br/>ST. Anthony Church Building<br/>Compound, Chapora-Vagator,<br/>PO. Anjuna, Bardez Taluk,<br/>Goa-403509</p> <p>444. Navelim<br/>Rosary High School<br/>Opp Margao Block<br/>Salcette Taluk,<br/>Navelim-403707 Goa</p> <p>445. Shirwai Amona Branch<br/>Ignition Villa,<br/>Shirwai-Amona PO,<br/>Quepem, Pimpalcatta-403 705</p> <p>446. Raia Branch<br/>G.S.A.M Board Complex,<br/>Near Old. RTO. Office,<br/>Arlem-Raia, Goa-403720</p> <p>447. Bastora Branch<br/>Near St. Cajetan Church Bldg.,<br/>Bastora Po : Mapuca-403507</p> <p>448. Ribandar<br/>Goa Institute Of Management,<br/>Ribandar,<br/>Panjim-403006</p> <p>449. Britona Branch<br/>House No.1607,<br/>Penha De France, PO: Betim,<br/>Britona-403101</p> <p>450. Ramanathi Branch<br/>Sri Ramanath Mutt<br/>P. O. Ramanathi,<br/>Ponda-403401 Goa</p> <p>451. Panjim Branch<br/>Dr. Atmaram Borkar Road,<br/>Opp. Municipal Gardens,<br/>P.B. No.87,<br/>Panjim-403001</p> <p>452. Canacona Branch<br/>Floor, 93K,<br/>Canacona Palace,<br/>Crawdi, Canacona - 403 702</p> <p>453. Oxel Branch<br/>Felizardo Complex,<br/>Tarchi Bhat,<br/>Oxel -403517</p> <p>454. Curchorem Branch<br/>Lower Ground Floor,<br/>Vinayaka Plaza, Curchorem Post,<br/>Goa-403 706</p> | <p>455. Pilerne Branch<br/>ST. Anne's Social &amp; Cultural Centre,<br/>Marra, Pilerma,<br/>Bardez, Goa - 403114</p> <p>456. Loliem Branch<br/>Village Panchayat Building,<br/>Loliem,<br/>Cancona-403728</p> <p>457. Revora Branch<br/>Surya Prabha Aprtmts,<br/>Mazil Vado Main Rd, Revora<br/>Colvale-403513</p> <p>458. Porvorim<br/>Plot No. 405, Ambirna, Near Our<br/>Lady of Socorro Church,<br/>Socorro, P.O. Porvorim, Bardez,<br/>Goa-403501</p> <p>459. Verna Branch<br/>909/D, 'Menizaria' Complex,<br/>Handkant, Verna, Salcete,<br/>Goa-403722</p> <p>460. Panjim Service Branch<br/>Mezzanine Floor, John Paul<br/>Building, Church Square,<br/>Panjim-Goa-403001</p> <p>461. Panjim Rua De Oream Branch<br/>First Floor, Salgaoncar<br/>Centre, Rua De Oream,<br/>Panjim - 403 001</p> <p>462. Corporation Bank<br/>Flat No.121 &amp; 122, Karvel<br/>Nagar, STN.SQ; Bhubaneswar-751001<br/>District:Kurdha<br/>State : Orissa</p> <p>463. Corporation Bank<br/>Opp: Republic Hotel, Exhibition<br/>Road, Patna-800001<br/>District:Patna<br/>State:Bihar</p> <p>464. Corporation Bank<br/>487,Kasidih<br/>Sakchi, Jamshedpur-831001<br/>District : East Singhbhum<br/>Jharkhand</p> <p>465. Corporation Bank<br/>50.H.B.RD, Tharp Akhana,<br/>Ranchi,834001<br/>District:Ranchi<br/>State: Jharkhand</p> <p>466. Corporation Bank<br/>Indira Bhavan, Bowring Canal<br/>Road, Patna-800001<br/>District:Patna, State: Bihar</p> |
|---|--|



467. Corporation Bank  
G Floor, Hem Towers, Luby  
Circular Rd, Dhanbad-826001  
District: Dhanbad  
State: Jharkhand
468. Corporation Bank  
Ground Floor, Club Road,  
Mithanpura,  
Muzaffarpur-842002  
District: Muzaffarnagar  
State: Bihar
469. Corporation Bank  
Jeevan Jyothi Bldg,  
Purlia Road,  
Ranchi-834001  
District: Ranchi  
State: Jharkhand
470. Corporation Bank  
1st Floor, Agarwal Bhawan,  
Bypass Road, Chas, Bokaro-827013  
District: Bokaro  
State: Jharkhand
471. Corporation Bank  
1st Floor, Kushwaha Market,  
Sohsara, Bihar Sharif-803118  
District: Nalanda  
State: Bihar
472. Corporation Bank  
No. 1, G.B. Road, Opp: Zila  
School (East Gate), Gaya-823001  
District: Gaya  
State: Bihar
473. Corporation Bank  
No. 126, G floor,  
Rani Sati Complex,  
Inderpuri Chowk, NH-100,  
Hazaribagh-825301  
District: Hazaribagh  
State: Jharkhand
474. Corporation Bank  
Ground Floor,  
G.M. Road,  
Near Income Tax Chowk,  
Darbhanga, Bihar-785640  
District: Darbhanga  
State: Bihar
475. Corporation Bank  
Mela Road, Tehta-804427  
District: Jehanabad  
State: Bihar
476. Corporation Bank  
Mumbai-Versova Sheroo Villa,  
J. P. Road Andheri (W),  
Mumbai-400058
477. Corporation Bank (444)  
Mumbai-Overseas Earnest  
House, 1st Fl., Nariman Point,  
Mumbai-400021
478. Corporation Bank (160)  
L.J. Road, Shivaji Park, No.238,  
Zenab Niwas, Mahim  
Mumbai-400028
479. Corporation Bank  
493 Mumbai-Armb  
Mezanine Floor,  
Veenachambers,  
Fort, Mumbai
480. Corporation Bank (163)  
Mumbai-A.R.ST 45/47,  
Abdul Rehmanst,  
Popular Jagdishwaria Palace,  
Mumbai-400003
481. Corporation Bank (495)  
Mumbai-Vileparle East  
Kodamgiri Complex A  
Bldg, No. 8&9, Hanuman RD,  
Ville Parle (E), Mumbai-400057
482. Corporation Bank  
Mumbai-Colaba Doulatram  
Mansion 6, Rambhau Salgaonkar,  
Marg, Colaba Mumbai-400005
483. Corporation Bank (497)  
Mumbai-Ashokvan Pavanaputra  
Bldg, Shiva Vallabh  
RD, Dahisar (E), B'Bay-400068
484. Corporation Bank (174)  
Mumbai-Worli (Bhatbazar)  
Shivsmruti Chambers 49, GR  
FL, DR. A B Road, Worli,  
Mumbai-400018
485. Corporation Bank (508)  
Mumbai-Ashokvan 'Pavanaputra  
Bldg, Shiva Vallabh  
RD, Dahisar (e), B'Bay-400068
486. Corporation Bank (330)  
Mumbai - Kandivili turakhia  
Park, M. G. Road,  
Kandivli (W)-400067
487. Corporation Bank (511)  
Mumbai-Caps '409-412 Dalamal  
Towers 4th FL, Nariman  
Point, Mumbai-400021
488. Corporation Bank (332)  
Mumbai-Malad Orlem  
Gomesmansi 26, Lourdes Colony  
On Orlem, Malad West-400064

489. Corporation Bank (543)  
Mumbai-Mahakali C.RD-PBB Holy  
Family High School, Mahakali  
Caves Rd, MIDC, Mumbai-400093
490. Corporation Bank (401)  
CTS 836, Pratiksha Apartment  
Opp. Filimisthan Studio, SV Rd  
Goregaon (W)-400062
491. Corporation Bank (662)  
Mumbai-Capital Market  
1st Floor, Earnest House,  
NCPA Marg,  
Nariman Point,  
Mumbai-400021
492. Corporation Bank (429)  
Mumbai-Borivili-I.C.Colony  
Royal Towers I.C.Clny  
Boriwali (W)-400103
493. Corporation Bank (631)  
Mumbai-Service BR Lentin  
Chambers, Dalal St, Bombay-400023
494. Corporation Bank (430)  
Mumbai-Dahisar Avdoot Nagar  
Lakshmi Apts, Shabamkaroi  
Housing Lakshmi  
Apts. Shabamkaroi  
Housing-400068
495. Corporation Bank (648)  
Mumbai-Borivili- Yogi Nagar-PBB  
Yoginagar Main Gate, Next to  
Hhotelrudrakshi, CTS No. 1723/28, BO  
RIV/LI West, Mumbai-400091
496. Corporation Bank (443)  
Mumbai-I.F.B 104 Bharat  
House, Bombay Samachar  
Marg, Fort, Mumbai-400023
497. Corporation Bank (655)  
Mumbai-Depository Participant  
45/ Narimanbhavan 227-Backbay  
Reclamation Nariman pt-400021
498. Corporation Bank (674)  
Mumbai-P.M. Road  
1st Floor, LIC of India, Jeevan  
Prakash, P.M.Road, Fort, Mumbai-400001
499. Corporation Bank (829)  
Mumbai-Kandivili (East)  
Shop. No. 2, 3, 4, 5, & 5A. G. Floor, Sierra  
Towers, Lokhandwala Township, Kandivili (E)
500. Corporation Bank (695)  
Mumbai-Forex Branch  
1st Floor, Earnest House,  
NCPA Marg, Nariman Point,  
Mumbai-400021
501. Corporation Bank (845)  
Mumbai-Andheri Retail  
Hub IIIrd Floor, The Eagle's  
Flight, No. -301-302,  
Suren Rd, Andheri-Kurla  
Rd, Andheri (E),  
Mumbai-400093
502. Corporation Bank (731)  
Mumbai-Rtgs 66/67,  
6th Floor, Meetal Chambers,  
Nariman Point, Mumbai-400021
503. Corporation Bank (826)  
Mumbai-Juhu Sadana Education  
Society, Beside LS Rejaha College,  
Relief RD, Juhu,  
Santacruz, Mumbai -400 054
504. Corporation Bank (750)  
Mumbai-Lower Parel  
30(A) Phoenix Mills Compound,  
S.B. Marg, Lower Parel,  
Mumbai-400013
505. Corporation Bank (903)  
Mumbai-Borivili West No.3. Joy  
Apartment, IC Colony,  
Borivili West,  
Mumbai -400103
506. Corporation Bank ( 872)  
Mumbai-Cms Core Branch  
409-412, Dalmal Towers  
The Eagle's Flight  
Suren Road, Andheri-Kurla Road  
Andheri ( East)  
Mumbai -400 093
507. Corporation Bank (870)  
Mumbai-Large Corporate Branch  
The Eagle's Flight,  
3rd Fr, 301-302,  
Suren Rd, Andheri-Kurla Rd.  
Andheri (E),  
Mumbai-400 093
508. Central Bank of India  
Akaltara Branch  
Post Akaltara  
Akaltara, Dist Janjgir, Champa,  
Raipur Pin Code 495552  
Tel. No.7817-252248  
Fax No. 7817-252248
509. Central Bank of India  
Baradwar Branch  
Shakti Block  
Baradwar, Raipur  
Dist Janjgir, Champa  
Pin Code-495687  
Tel. No.7757-278237

- |   |  |
|---|--|
| <p>510. Central Bank of India<br/>Champa Branch<br/>Nailwalla Bhavan<br/>Bapu Marg, Sadar Bazar,<br/>Champa, Raipur<br/>Dist Janjgir, Champa<br/>Pin Code-495671<br/>Tel.No. 7819-244981, 245961<br/>Fax No. 7819-245961</p> <p>511. Central Bank of India<br/>Korba Branch<br/>Power House Road,<br/>Korba, Raipur<br/>Dist Korba<br/>Pin Code-495667<br/>Tel No. 7759-230184, 230265<br/>Fax No. 7759-230265</p> <p>512. Central Bank of India<br/>Vypar Vihar Branch<br/>Chhoti Parking<br/>Vypar Vihar Bilaspur<br/>Distt. Bilaspur, Pin Code-495001<br/>Tel. No. 7752-261207</p> <p>513. Central Bank of India<br/>Railway Area Branch<br/>Railway Area Office<br/>D.R.M. Office, Bilaspur<br/>Distt. Bilaspur, Pin Code-495001<br/>Tel.No.7752-247024</p> <p>514. Central Bank of India<br/>Bilha Branch<br/>Post Bilha, Bilha, Distt. Bilaspur<br/>Pin Code-495224<br/>Tel. No.7752-259241</p> <p>515. Central Bank of India<br/>Station Road<br/>Kargi Road<br/>Kota<br/>Distt. Bilaspur<br/>Pin Code-495113<br/>Tel. No. 7753-253243</p> <p>516. Central Bank of India<br/>Takhatpur Branch,<br/>Post- Takhatpur,<br/>Distt. Bilaspur<br/>Pin Code-495330<br/>Tel. No. 7753-264635</p> <p>517. Central Bank of India<br/>Kanker Branch<br/>Main Road,<br/>National Road No. 43,<br/>Kanker, Dist Kanker,<br/>Pin Code-494 334<br/>Tele No. 7868-241054</p> | <p>518. Central Bank of India<br/>Dhaneli Kanhar Branch<br/>Gram Post, Dhaneli Kanhar<br/>Tahsil- Kanker,<br/>Dhaneli Kanhar<br/>Dist Kanker<br/>Pin Code-494670<br/>Tele. No.7868-270161</p> <p>519. Central Bank of India<br/>Dongargarh Branch<br/>Mahaveer Marg,<br/>Near to Nagar Palika Garden,<br/>Gol Bazar, Raipur<br/>Dongargarh,<br/>Dist - Rajnandgaon<br/>Pin Code-491 445<br/>Tele. No.7823-233555</p> <p>520. Central Bank of India<br/>Bilaspur Branch<br/>Post Box No.52,<br/>Patel Bhavan<br/>Bilaspur, Dist - Bilaspur,<br/>Raipur<br/>Pin Code-495 001<br/>Tele No. 7752-413829, 238432/224821<br/>Fax No. 7752-413829/237911</p> <p>521. Central Bank of India<br/>Regional Office,<br/>Raipur Block C,<br/>First floor,<br/>Bombay Market,<br/>G E Road,<br/>Raipur,<br/>Dist Raipur<br/>Pin Code-492 001<br/>Tele No. 771-2254141/2253169<br/>2255687<br/>Fax No. 771-4267943</p> <p>522. Central Bank of India<br/>Mahasamund Branch<br/>Shanker Nagar Ward,<br/>Near to Chandak<br/>Petrol Pump Mahasamund,<br/>Dist-Mahasamund<br/>Pin Code<br/>Tele. No. 7723-224822.</p> <p>523. Central Bank of India<br/>Toresingha Branch<br/>Village-Post<br/>Toresingha<br/>Toresingha<br/>Dist-Mahasamund<br/>Pin Code- 493558<br/>Tele. No. 7725-212226</p> |
|---|--|

524. Central Bank of India  
Dhamtari Branch  
Prabhu Market,  
Sihawa Chowk,  
Raipur Road, Dhamtari,  
Dist - Dhamtari  
Pin Code-493773  
Tele No. 7722-237661, 237038  
Fax No. 7722-237038
525. Central Bank of India  
Kavardha Branch  
Gurukripa Bhawan,  
Raipur Road, Kavardha, Dist-Kawardha  
Pin Code-491995  
Tele No. 7741-232361
526. Central Bank of India  
Supela  
Near to Morya Talkies  
Chavan Estate,  
G E Road Supela, Bhilai, Dist-Durg,  
Pin Code-490023  
Tele No. 778-2295177
527. Central Bank of India  
Durg Branch  
Rungta Bhawan,  
G E Road,  
Supela, Bhilai,  
Dist- Durg,  
Pin Code- 491001  
Tele. No. 788-2322991, 2332098  
Fax No. 2332098
528. Central Bank of India  
Padmanabhpur  
Vinsantian Provinciat House  
Church Campus,  
Uttai Road,  
Padmanabhpur, Durg,  
Dist. - Durg,  
Pin Code-491.001  
Tele No. 788-2310041
529. Central Bank of India  
Bemetara Branch,  
Sunder Nager,  
Raipur Road, Bemtara,  
Dist - Durg  
Pin Code-491 335  
Tele No. 7824-222765
530. Central Bank of India  
Vivekanand Vidyapith Branch,  
Kota  
Raipur,  
Dist - Raipur,  
Pin Code-492010  
Tele No. 771-2575168
531. Central Bank of India  
Bhatapara Branch  
Dr. Shukla Bhawan,  
Shakti Ward,  
Bhatapara,  
Dist - Raipur,  
Pin Code - 493118  
Tele No. 7726- 220193
532. Central Bank of India  
Deosundra Branch  
Budhpar (Sandi)  
Post-Jarve,  
Block-Pallari,  
Deosundra,  
Dist -Raipur,  
Pin Code-493229  
Tele No. 7727-275281
533. Central Bank of India  
Transport Nagar,  
G.E. Road, .  
Opp. Ram Mandir, Bhilai- 3,  
Bhilai  
Distt - Durg,  
Pin Code- 490021  
Tele No. 788-2286694
534. Central Bank of India  
Khamtarai Branch,  
Ring Road No. 2,  
Behind Mahesh Cold Storage.  
Khamtarai  
Raipur, Dist-Raipur,  
Pin Code - 492001  
Tele No. 771-4283955
535. Central Bank of India  
Sunder Nagar Branch  
Mahadev Ghat Road,  
Sunder Nagar, Raipur,  
Dist - Raipur, Pin Code - 492013  
Tele No. 771- 2241874
536. Central Bank of India  
Shankar Nagar Branch.  
MIG 62, Sector-1, Ashok Tower Chowk,  
Shankar Nagar, Dist. - Raipur,  
Pin Code-492001  
Tele No. 771-4040447
537. Central Bank of India  
St. Vicent Palloti College Branch,  
Lodhipara Chowk,  
Kapa, Raipur Dist - Raipur,  
Pin Code- 492005  
Tete No. 771-2282211

538. Central Bank of India  
Sadar Bazar Branch,  
Nathani Building,  
Saddani Chowk,  
Sadar Bazar, Raipur,  
Dist - Raipur,  
Pin Code - 492001  
Tele No. 771-2228854, 2534485  
Fax No. 771-2534485
539. Central Bank of India  
Vivekanand Ashram Branch  
National Highway No. 16,  
G F Road, Vivekanand Ashram,  
Raipur,  
Dist - Raipur,  
Pin Code - 492001  
Tele No. 771-2229158, 2234892  
Fax No. 771-2534438
540. Central Bank of India  
Chhatisgarh College Branch  
Block No. 19,  
Opp. Chhatisgarh College,  
Civil Lines Area,  
Byron Bazar, Raipur  
Dist. - Raipur,  
Pin Code-492001  
Tele No. 771-2422350, 2428212  
Fax No. 771-2428212
541. Central Bank of India  
Raipur Branch,  
Post Bag No. 17,  
J E Road,  
Raipur,  
Dist - Raipur,  
Pin Code—492001  
Tele No. 771-2228819/20, 2229549  
Fax No. 771-2537912
542. Central Bank of India  
Fafadih Branch  
Shri Guru Govind Singh Chowk,  
K. K. Road, Fafadih,  
Raipur,  
Dist - Raipur,  
Pin Code - 492001  
Tele No. 771-2523048, 2880155  
Fax No. 771-2880155
543. Central Bank of India  
Civil Lines Branch  
Govind Dham, Civil Lines,  
Raipur  
Dist. - Raipur,  
Pin Code-492001  
Tele No. 771-2435965, 2435865  
Fax No. 771-2435865
544. Central Bank of India  
Regional Office,  
Raipur Block C,  
First Floor,  
Bombay Market,  
G E Road, Raipur,  
Dist - Raipur  
Pin Code - 492001  
Tele No. 771-2254141/2253169, 2255687  
Fax No. 771-4267943
545. Central Bank of India  
Greater NOIDA  
M/s. J P Association Ltd  
Sector 128,  
Gautam Buddh Nagar (UP)  
Delhi, NOIDA  
Pin Code-201 301
546. Central Bank of India  
PGDAV College,  
Nehru Nagar,  
New Delhi,  
Pin Code-110 065
547. Central Bank of India  
CWG 2010, (Common Wealth Game 2010)  
NDCC Tower II Pizza Level  
(Ground Floor)  
Jantar Mantar,  
Jai Singh Road, Delhi,  
Pin Code 110 001
548. Central Bank of India  
NOIDA Sector 22,  
B-24, NOIDA,  
Gautam Buddh Nagar (UP)  
Pin Code.
549. Central Bank of India  
Lady Harding Medical College & Hospital  
O R B 1-2, Panchkuian Road, Delhi,  
Pin Code-110 001
550. Central Bank of India  
New Green Field Public School,  
Marg No. 22, Saket,  
New Delhi,  
Pin Code-1100 17
551. Central Bank of India  
Taj Palace Hotel,  
2 Sardar Patel Marg,  
Diplomatic Enclave,  
Delhi,  
Pin Code-110021
552. Central Bank of India  
Mid Corporate,  
219, Deen Dayal Upadhyay Marg, JLNYC,  
New Delhi,  
Pin Code-110002

- |  |  |
|--|--|
| <p>553. Central Bank of India<br/>Asset Recovery Branch<br/>70, Janpath,<br/>New Delhi,<br/>Pin Code-110001</p> <p>554. Central Bank of India<br/>Jasola Branch<br/>G-47, Main Road,<br/>Kalindi Kunj<br/>Jasola Extn.,<br/>(Sarita Vihar)<br/>Delhi,<br/>Pin Code-110044</p> <p>555. Central Bank of India<br/>Air Force Station Branch<br/>412, Air Force Station, Club Road,<br/>New Delhi,<br/>Pin Code-110003</p> <p>556. Central Bank of India<br/>Corporate Finance Branch<br/>Jeevan Tara Building Parliament Road,<br/>New Delhi,<br/>Pin Code-110001</p> <p>557. Central Bank of India<br/>Dwarka Branch<br/>Modern International School,<br/>Sector 19, Phase I, Near Police Station,<br/>Dwarka, Delhi,<br/>Pin Code-110075</p> <p>558. Central Bank of India<br/>Green Valley Public School,<br/>Hari Nagar, Jaitpur Road,<br/>Badarpur, Delhi,<br/>Pin Code-110044</p> <p>559. Central Bank of India<br/>Indian Institute of Mass Communication,<br/>IIMC Centre, JNU New Complex,<br/>Aruna Asaf Ali Marg,<br/>New Delhi,<br/>Pin Code-110067</p> <p>560. Central Bank of India<br/>Near Truck Union Mod.,<br/>Opposite New India Ass. Co. Ltd.<br/>Nainital Road, Bahedi<br/>Dist Bareilly (UP)<br/>Pin Code-05822-221040</p> <p>561. Central Bank of India<br/>Mhasvad Branch<br/>Vedant Apts.,<br/>Dindori Road<br/>Near to Reliance Petrol Pump Nasik<br/>Pin Code-422004</p> | <p>562. Central Bank of India<br/>Ambad Branch<br/>Symboisys Chowk<br/>Shop No. 2-3, Urjayant Arcade<br/>Ambad Link Road<br/>Pathardi Phata, Ambad<br/>Nasik<br/>Pin Code - 422 009</p> <p>563. Central Bank of India<br/>Beed Branch<br/>House No. 2-10-749 &amp; 750<br/>Ward No. 2, Ghar No. 10<br/>Mashrat Nagar,<br/>Mondha Road,<br/>Savta Mali Chowk, Beed<br/>Pin Code - 431 122</p> <p>564. Central Bank of India<br/>Usmanabad<br/>Shop No. 1 &amp; 2<br/>Azad Ali's Aman Complex<br/>Mahatma Gandhi Nagar Corner<br/>Main Road, Usmanabad<br/>Pin Code - 413 501</p> <p>565. Central Bank of India<br/>Hingoli Branch<br/>Jaiswal Sadan<br/>Shashtrinagar<br/>Dist Hingoli<br/>Pin code - 413 513</p> <p>566. Central Bank of India<br/>Parbhani Branch<br/>Devdatta Shopping Complex<br/>Vasmat Road, Dist Parbhani<br/>Parbhani<br/>Pin Code - 413 401</p> <p>567. Central Bank of India<br/>Sillod Branch<br/>Raj Complex<br/>Jalgaon Road, Taluka Sillod<br/>Dist Aurangabad<br/>Pin Code-</p> <p>568. Central Bank of India<br/>Ulhasnagar Camp No. 4<br/>Vishal Mega Commercial Complex<br/>Vinus Chowk, Near to Petrol Pump<br/>Ulhasnagar<br/>Pin Code - 421 004</p> <p>569. Central Bank of India<br/>Kalyan East Branch<br/>Shiv Sadan Bldg.,<br/>House No. 29/A,<br/>Pune Link Road,<br/>Tisgaon Kalyan<br/>Pin Code - 421 306</p> |
|--|--|

570. Central Bank of India  
Kousa Mumbra Branch  
Oasis Arcade,  
Shop No. 10 & 11,  
Opp. To Kaka Nagar  
Mumbai Pune Road,  
Kousa Mumbra  
Pin Code - 400612
571. Central Bank of India  
DAV College  
DAV Inter College, Banda  
Dist Banda (UP)  
Pin Code- 210 001
572. Central Bank of India  
K. I. P Babina Cantt  
K. I. P Area, Babina Cantt  
Tahsil - Jhansi  
Dist - Jhansi (UP)
573. Central Bank of India  
Attarpur Branch  
4-3-143/A BPR Towers,  
Pillar No. 126,  
Rajendra Nagar Mandal,  
Attarpur,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code-500 048  
Tele. No. 23468956, 23468958
574. Central Bank of India  
Eastmaradpalli Branch  
Plot No. 256/C, 10-2-197,  
Entrenchment Road,  
Secunderabad,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh,  
Tele. No. 040-23468982, 83
575. Central Bank of India  
Corporate Finance Branch  
Post Bag No. 177, 71, 711, 712  
Mahapatram Road,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code-800 095  
Tele. No. 040-23468935  
Fax No. 040-23468937
576. Central Bank of India  
Asset & Recovery Branch  
Post Bag No. 522, 710, 712  
Mahapathram Road  
Bank Street, Koti,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code - 800 095  
Tele No. 404-23468929
577. Central Bank of India  
Begaumpet Branch  
Near Old Airport  
Prakash Nagar, Begampet  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code-500 016  
Tel No. 040-66314622
578. Central Bank of India  
Vinay Nagar Branch  
Plot No. 40-41, Shingori Colony  
Mohan Nagar, Kottapet  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code-500 035  
Tele.No.404- 23468979
579. Central Bank of India  
Deshmukhi Branch  
St.Mery's College Campus  
Deshmukhi  
Pochampalli Mandal,  
Dist - Nalgonda  
Andhra Pradesh  
Tele. No. 08685-304057
580. Central Bank of India  
Miyau Branch  
Mini Industrial Estate  
Upstairs of Honda Service Station  
Hafizpet, Miyapur,  
Hyderabad,  
Andhra Pradesh  
Pin Code-500 049
581. Central Bank of India,  
Central Academy School,  
Dadabari,  
Kota (Rajasthan)
582. Central Bank of India,  
Vyas Circle, Malpura,  
Distt. Tonk (Rajasthan)
583. Central Bank of India,  
Plot No. 120 A, Patel Nagar,  
Ward No. 15, Deoli  
Distt. : Tonk (Rajasthan)
584. Central Bank of India,  
L.I. C. Building, Rangbari Road,  
R. K. Puram,  
Kota (Rajasthan)

- |  |   |
|--|---|
| <p>585. Central Bank of India,<br/>Mini Secretariat, Room No. 105,<br/>Disstt. : Jhalawar (Rajsthan)</p> <p>586. Central Bank of India,<br/>Gram Panchayat Parisar, Chhan,<br/>Panchayat Samiti, Khandar,<br/>Disstt. : Sawai Madhopur (Rajsthan)</p> <p>587. Central Bank of India,<br/>New Look Central School,<br/>Mahalakshmi Chowk, Banswara,<br/>Disstt. : Banswara (Rajsthan)</p> <p>588. Central Bank of India,<br/>Shree Jain Shwetamber Nageshwar,<br/>Parshavanath Tirth,<br/>Pedhi, Unhel,<br/>Disstt. : Jhalawar (Rajsthan)</p> <p>589. Central Bank of India<br/>Gram Panchayat Premises, Selu,<br/>Tehsil &amp; Distt. : Sawai Madhopur (Rajsthan)</p> <p>590. Central Bank of India,<br/>G.M. Complex,<br/>Malviya Nagar,<br/>P.O. West Cirimiri,<br/>Distt. Korea (Chattisgarh)</p> <p>591. Central Bank of India<br/>Pandavpara, Via Patna,<br/>Baikunthpur, SECL,<br/>Jhilimili Colliery<br/>Distt. Korea (Chattisgarh)</p> <p>592. Central Bank of India<br/>Devadand,<br/>Post. Devadand,<br/>Tehsil- Kharagwa<br/>Distt. Korea (Chattisgarh)</p> <p>593. Central Bank of India,<br/>Udari,<br/>Post Udari,<br/>Tehsil- Lundra<br/>Distt. Sarguja (Chattisgarh)</p> <p>594. Central Bank of India,<br/>Sarguja University,<br/>Post- Ambikapur<br/>Distt. Sarguja (Chattisgarh)</p> | <p>596. State Bank of Patiala<br/>Chandigarh-RACPC<br/>SCO 99-107<br/>Sector 8-C<br/>Chandigarh</p> <p>597. State Bank of Patiala<br/>Chandigarh -SECC<br/>SCO 99-107<br/>Sector 8-C<br/>Chandigarh</p> <p>598. State Bank of Patiala<br/>Patiala-LCPC<br/>C/o Infotech Academy<br/>Urban Estate<br/>Patiala</p> <p>599. State Bank of Patiala<br/>Patiala-RASMECCC<br/>Leela Bhawan Chowk<br/>Patiala</p> <p>600. State Bank of Patiala<br/>Bathinda-RASMECCC<br/>Guru Kashi Marg<br/>Zonal Office Building<br/>Bathinda</p> <p>601. State Bank of Patiala<br/>Jalandhar- RASMECCC<br/>311, Ambedkar Chowk<br/>Jalandhar</p> <p>602. State Bank of Patiala<br/>Ludhiana-RASMECCC<br/>Bharat Nagar Chowk<br/>Ludhiana</p> <p>603. State Bank of Patiala<br/>Amritsar-RASMECCC<br/>49, J.K. Towers, Mall Road<br/>Amritsar</p> <p>604. State Bank of Patiala<br/>Ambala City-RASMECCC<br/>111, Sadar Bazar<br/>Ambala</p> <p>605. State Bank of Patiala<br/>New Delhi-RACPC<br/>59, Community Centre<br/>New Delhi</p> <p>606. State Bank of Patiala<br/>New Delhi-SMECCC<br/>59, Community Centre<br/>New Delhi</p> |
|--|---|
- State Bank of Patiala**
595. State Bank of Patiala  
CPPC  
SCO 114  
1st Floor  
Urban Estate, Phase-II  
Patiala



- |  |   |
|--|---|
| 607. State Bank of Patiala<br>New Delhi-TFCPC<br>36, Janpath, Chanderlok Building<br>New Delhi         | 617. State Bank of Patiala<br>Chandigarh-SARC<br>SCO 99-107<br>Sector 8-C,<br>Madhya Marg<br>Chandigarh |
| 608. State Bank of Patiala<br>Jalandhar-CAC<br>Shastri Market, Jalandhar                               | 618. State Bank of Patiala<br>Jalandhar-SARC<br>Rainak Bazar<br>Jalandhar                               |
| 609. State Bank of Patiala<br>Patiala-CAC<br>Sai Market<br>Patiala                                     | 619. State Bank of Patiala<br>Amritsar-SARC<br>East Mohan Nagar<br>Amritsar                             |
| 610. State Bank of Patiala<br>Bathinda-CAC<br>Civil Lines, Mansa Road<br>Bathinda                      | 620. State Bank of Patiala<br>New Delhi-SARC<br>Lodhi Road<br>New Delhi                                 |
| 611. State Bank of Patiala<br>Chandigarh-CAC<br>SCO 125-126, 1st Floor<br>Sector-17<br>Chandigarh      | 621. State Bank of Patiala<br>Kamal- RASMECCC<br>Railway Road<br>Karnal                                 |
| 612. State Bank of Patiala<br>Ludhiana -CAC<br>Vishwakarma Chowk<br>Miller Gani<br>Ludhiana            | 622. State Bank of Patiala<br>Panchkula- RASMECCC<br>Panchkula  |
| 613. State Bank of Patiala<br>Delhi- CAC<br>Model Basti<br>Rani Jhansi Rd., Filmistan<br>New Delhi     | 623. State Bank of Patiala<br>Yamuna Nagar- RASMECCC<br>Industrial Area<br>Yamuna Nagar                 |
| 614. State Bank of Patiala<br>Bathinda-SARC<br>Guru Kashi Marg<br>Zonal Office Building<br>Bathinda    | 624. State Bank of Patiala<br>Yamuna Nagar-CAC<br>Jagadhari Road<br>Yamuna Nagar                        |
| 615. State Bank of Patiala<br>Chandigarh-CCPC<br>SCO 125-126<br>3rd Floor<br>Sector-17 C<br>Chandigarh | 625. State Bank of Patiala<br>Garhshankar-CAC<br>Railway Road<br>Hoshiarpur                             |
| 616. State Bank of Patiala<br>Patiala-SARC<br>100, Model Town<br>Near Goal Chakkar<br>Patiala          | 626. State Bank of Patiala<br>Jind-RCPC<br>Patiala Chowk, Jind  |
|  | 627. State Bank of Patiala<br>Mansa-RCPC, Mansa   |
|  | 628. State Bank of Patiala<br>Bathinda- RCPC<br>Guru Kashi Marg<br>Bathinda                             |

629.	State Bank of Patiala Ambala-CAC Sadar Bazar Ambala Cantt Ambala	641. Vijayapura	State Bank of Mysore 1 Floor, Opp. OLD TMC, Melur Road Vijayapura, Bangalore Rural, Karnataka 562135
630.	State Bank of Patiala Patiala-CCPC Sai Market Patiala Patiala	642. Vikasa Soudha (Devanahalli)	State Bank of Mysore Vikasa Soudha Branch "Samrudhi" Budigere Road, Devanahalli-562110 Karnataka State
631.	State Bank of Patiala Kotkapura- RCPC 1st Floor SBOP Building, Railway Road Faridkot	643. Mangalwarpet	State Bank of Mysore Mangalwarpet Branch No. 635/6 & 635/6A Mangalwarpet Bangalore-Mysore Road Chikkamalur Channarayana-562160
632.	State Bank of Patiala Amritsar-RCPC G.T. Road (Chhehratta) Amritsar	644. Batlahalli	State Bank of Mysore PB No. 1, No. 1/40, Main Road Batlahalli, Kolar, Karnataka-563123
633.	State Bank of Patiala Barnala-RCPC, Purana Bazar, Sangrur	645. Vatada Hosahalli	State Bank of Mysore PB No 1, State Bank Road, Vatadahosahalli, Gouribidnur Taluk, Kolar, Karnataka-561228
634.	State Bank of Patiala Fatehgarh Sahib-RCPC Distt. Administration Complex Fatehgarh Sahib	646. Vinayakanagar Extn	State Bank of Mysore PB No 43, BH Road Vinayakanagar Extension Tumkur Karnataka-572101
635.	State Bank of Patiala Gurdaspur-RCPC Hanuman Chowk Gurdaspur	647. Bytharahosahalli	State Bank of Mysore Bytharahosahalli, Mayasandra Hobli Dasihally Post Tumkur Karnataka-572221
636.	State Bank of Patiala Patiala-RCPC SCO 17, Leela Bhawan Market Patiala	648. Ajjampura	State Bank of Mysore PB No 1, JMC Road ajjampura, Tarikere Taluk Chikmagalur, Karnataka-577547
637.	State Bank of Patiala Sangrur-RCPC Bara Chowk, Sangrur	649. Arsikere	State Bank of Mysore PB No. 8, No. 14, B H Road Arsikere Hassan, Karnataka-573103
638.	State Bank of Patiala Amritsar-CAC East Mohan Nagar Amritsar	650. Belur	State Bank of Mysore No 1600, Sri Y D Nanjagowda Complex Temple Road Belur Hassan Karnataka-573115
639.	State Bank of Patiala Lucknow-RASMECCC Aishwarya Plaza Lucknow		
<b>State Bank of Mysore</b>			
640.	Vidya Nagar Ramanagaram	State Bank of Mysore Visyanagar Branch Opp. Kandaya Bhavana Bangalore-Mysore Road, Ramanagaram-571511	

651. Chickmagalur	State Bank of Mysore PB No.14, Hosamane Extension Chikmagalur Karnataka-577101	662. Srirangapatna	State Bank of Mysore PB No 1, No 994947 Opp. Hotel Hariprasad Srirangapatna Taluk Mandya Karnataka-571438
652. Dira Gandhi Road	State Bank of Mysore PB No 88, Ranga Rao Tower Ground Floor, I G Road Chickmagalur Karnataka-577101	663. Gundlupet	State Bank of Mysore PB No 2, No.32, B. N Road Gundlupet Chamarajanagar Karnataka-571111
653. Puttur	State Bank of Mysore First Floor, Gajanana Towers Main Road, Puttur Dakshina Kannada Karnataka-574201	664. Bannur	State Bank of Mysore C-81 (2), Mysore- Malavalli Road Bannur Mysore Karnataka-571101
654. Shirva	State Bank of Mysore Josephine Arcade, 1st Floor Market Circle Shirva Udipi Karnataka-574116	665. T Narasipur	State Bank of Mysore PB No 1, College Road Narasipura Mysore Karnataka-571124
655. Virajpet	State Bank of Mysore I Floor Cauvery Complex F M C Road, Virajpet Kodagu Karnataka-571218	666. Dhondeling	State Bank of Mysore T S Tibetan Settlement Post Odeyarpalya, Kollegal Taluk Chamarajanagar Karnataka-571457
656. Ponnampet	State Bank of Mysore PB No 5C.P.Kushalappa Road Ponnampet Kodagu Karnataka-571216	667. Periyapatna	State Bank of Mysore Bangalore-Mysore Road, Periyapatna Mysore Karnataka-571107
657. Kushalanagar	State Bank of Mysore PB No 4, 32/2, B'lore-M'lore Road Kushalnagar Kodagu Karnataka-571234	<b>The Oriental Insurance Company Limited</b>	
658. Somwarpet	State Bank of Mysore PB No 21, No 530 Main Road, Somwarpet Kodagu Karnataka-571236		
659. Malavalli	State Bank of Mysore PB No 1, Mysore Road, Malavalli Mandya Karnataka-571430	668. Regional Office, Raipur	<b>Offices Under Regional Office, Nagpur</b>
660. Maddur	State Bank of Mysore PB No 1, 443/418, SBM Street Maddur Mandya Karnataka-571428	669. Branch Office, Nanded	
661. Pandavapura	State Bank of Mysore PB No 1, No 35, Bus Stand Roadi Cross, Pandavapura Mandya Karnataka-571434	670. Branch Office, Jalana	
		671. Extension Counter, Buldhana	
		672. Branch Office, Dhulia	
		673. Branch Office, Bhusawal	
		674. Branch Office, Washim	
		675. Extension Counter, Nanded	
		676. Extension Counter, Civil Lines, Nagpur	
		677. Extension Counter, Akot	
		678. Extension Counter, Paratwada	
		679. Extension Counter, Umrud	

नई दिल्ली, 14 जून, 2012

**का.आ. 2159.**—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री अनिल अग्रवाल को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के निदेशक मण्डल में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करती है:—

[ फा. सं. 24/5/2002-आई एफ-1-वालयूम (IV) ]

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

New Delhi, the 14th June, 2012

**S.O. 2159.**—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Central Government hereby appoints Shri Anil Agrawal, as part-time non-official Director on the Board of Small Industries and Development Bank of India (SIDBI) for a period of three years or until further orders, whichever is earlier with effect from the date of notification.

[ F.No. 24/5/2002-IF-I Vol. (IV) ]

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

नई दिल्ली, 15 जून, 2012

**का.आ. 2160.**—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में राजस्व विभाग, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल-I का कार्यालय, लुधियाना (पंजाब)-141003
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल-II का कार्यालय, लुधियाना (पंजाब)-141003
3. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल का कार्यालय, फगवाड़ा-144401 (पंजाब)
4. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल का कार्यालय, अमृतसर (पंजाब)-143001
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कार्यालय, जालंधर मंडल (पंजाब)-144001.

[ फा. सं. ए-11017/1/2012-हिन्दी-II ]

चन्द्र भान नारनौली, निदेशक (राजभाषा)

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

New Delhi, the 15th June, 2012

**S.O. 2160.**—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, The Central Government hereby

notifies the following office of the Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, whereof more than 80% of the staff have acquired the working knowledge of Hindi:—

1. Office of the Central Excise, Division-I Ludhiana (Punjab)-141003
2. Office of the Central Excise, Division-II Ludhiana (Punjab)-141003
3. Office of the Central Excise, Division Phagwara 144401 (Punjab)
4. Office of the Central Excise, Division Amritsar (Punjab)-143001
5. Office of the Central Excise, Jalandhar Division (Punjab)-144001.

[ F.No.A-11017/1/2012-Hindi-II ]

CHANDRA BHAN NARNAULI, Director (OI.)

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर

भोपाल, 18 जून, 2012

क्र. 12/2012

**का.आ. 2161.**—आयुक्त कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, आयुक्तालय भोपाल के निम्नलिखित समूह 'ख' एवं 'ग' अधिकारी सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने पर उनके नाम के आगे दर्शाये गए दिनांक से शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम सर्व श्री	पदनाम	सेवानिवृत्ति की दिनांक
1.	डी. एम. पंचगाम	अधीक्षक	30-4-2012
2.	आर. एस. ठाकुर	अधीक्षक	31-5-2012
3.	एस डी. वैद्य	कर सहायक	30-4-2012

[ फा. सं.-II (3) 08 2010/स्था. 1/873 ]

इरफान अहमद, अपर आयुक्त (का./स)

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF  
CUSTOMS, CENTRAL EXCISE AND SERVICE TAX

Bhopal, the 18th June, 2012

No. 12/2012

**S.O. 2161.**—Following officers of Group 'B' & 'C' Customs, Central Excise and Service Tax Commissionerate Bhopal having attained the age of superannuation, retired from Government service from the date shown against their name.

Sr. No.	Name of Officer	Designation	Date of retirement
1.	D.M. Panchgam	Superintendent	30-4-2012
2.	R.S. Thakur	Superintendent	31-5-2012
3.	S.D. Vaidya	Tax Assistant	30-4-2012

[ F.No.-II (3) 08/2010/Et.1/873 ]

IRFAN AHMED, Addl. Commissioner (P&V)

भोपाल, 18 जून, 2012

क्र. 13/2012

का.आ. 2162.—श्री अब्दुल सलीम खान, हेड हवलदार, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय भोपाल का देहावसान दिनांक 25-4 2012 को हो गया है।

[ फा. सं.-II (3)08/2010/स्था. I/902 ]

इरफान अहमद, अपर आयुक्त (का./स)

Bhopal, the 18th June, 2012

No. 13/2012

S.O. 2162.—Shri Abdul Salim Khan, Head Hawaldar, Customs and Central Excise, Bhopal Commissionerate has passed away on 25-4-2012.

[ F.No.-II (3)08/2010/El.I/902 ]

IRFAN AHMED, Addl. Commissioner (P&amp;V)

## सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

का.आ.2163.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के निम्नलिखित अधीनस्थ केन्द्रों/कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक कर्मचारिवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है :-

1. आकाशवाणी, कुल्लू (हिमाचल प्रदेश)
2. आकाशवाणी, जगदलपुर
3. आकाशवाणी, गान्तोक (सिक्किम)

[ फा. सं. ई 11017/6/2012-हिन्दी ]

प्रियम्वादा, निदेशक (राजभाषा)

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th June, 2012

S.O. 2163.—In pursuance of sub-rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, The Central Government hereby notifies the following offices under Directorate General of All India Radio, New Delhi (Ministry of Information and Broadcasting), more than 80% of the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :-

1. All India Radio, Kullu (Himachal Pradesh)
2. All India Radio, Jagadalpur
3. All India Radio, Gangtok

[ F.No. E-11017/6/2012-Hindi ]

PRIYAMVADA, Director(O.L.)

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

का. आ. 2164.—केन्द्रीय सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 11 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा परिषद् से परामर्श करके, संबद्ध विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन के कारण उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :

(क) जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू के सामने मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता [जो कि आगे कालम (2) के रूप में संदर्भित है] के अंतर्गत अंतिम प्रविष्टि और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद शीर्षक पंजीकरण के लिए संक्षेपण [जो कि आगे कालम (3) के रूप में संदर्भित है] के सामने निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा, नामतः :

बैचलर ऑफ मेडिसिन  
(बाल चिकित्सा)

एम. डी. (बाल चिकित्सा)

(यह वर्ष 1997 में अथवा उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू में प्रशिक्षित किए जा रहे विद्यार्थियों के संबंध में जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू द्वारा स्वीकृत किए जाने पर मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।)

सभी के लिए टिप्पणी :

1. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत ऐसी मान्यता अवधि अधिकतम 5 वर्षों की होगी, जिसे बाद में नवीकरण कराया होगा।

2. उप-खण्ड 4 में जैसा कि अपेक्षित है, मान्यता को समाप्त पर नवीकरण करने में असफल होने के परिणामस्वरूप संबंधित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश रुक जाएगा।

[ सं. यू.-12012/31/2012 एमई (पी II) ]

अनीता त्रिपाठी, अव्वर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

New Delhi, the 29th May, 2012

S.O. 2164.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section 11 of the Indian Medical

Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, due to change in name of affiliating University namely:-

(a) against "Jammu University, Jammu" under the heading 'Recognised Medical Qualification' [ hereinafter referred to as column (2)], after the last entry and entry relating thereto under the heading 'Abbreviation for Registration' [ hereinafter referred to as column (3)], the following shall be inserted, namely:—

(2)	(3)
"Doctor of Medicine (Paediatrics)"	MD (Paediatrics)
	This shall be a recognised medical qualification when granted by Jammu University, Jammu in respect of students being trained in Govt. Medical College, Jammu on or after 1997.

Note to all : 1. The recognition so granted to a Postgraduate Course shall be for a maximum period of 5 years, upon which it shall have to be renewed.  
2. Failure to seek timely renewal of recognition as required in sub-clause-4 shall invariably

result in stoppage of admissions to the concerned Postgraduate Course.

[No. U.-12012/31/2012-ME (P-II)]

ANITA TRIPATHI, Under Secy.

नई दिल्ली 19 जून, 2012

**का.आ. 2165.**—स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, अधिनियम, 1966 (1996 का 51) की धारा 5 के खण्ड (छ) के अनुसरण में डॉ. एम.एस. गिल, सदस्य, राज्य सभा को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ के सदस्य के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए राज्य सभा द्वारा दिनांक 4 मई, 2012 को विधिवत रूप से निर्वाचित किया गया है बशर्ते कि वे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ अधिनियम, 1966 के प्रावधानों को पूरा करते हों।

[सं. वी. 17011/1/2006-एम. ई.-II]

विश्वनाथ मेहता, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 19th June, 2012

**S.O. 2165.**—In pursuance of clause (g) of Section 5 of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Act, 1966 (51 of 1996) Dr. M.S. Gill, Member, Rajya Sabha has been duly elected on 4th May, 2012 by Rajya Sabha to serve as Member of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh subject to the fulfillment of provisions of the Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Act, 1966.

[No. V-17011/1/2006-M.E.-II]

VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

### उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 19 जून, 2012

**का.आ. 2166.** भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिस भारतीय मानक का निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है वे स्थापित हो गया हैं:

#### अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमिण भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 10500 : 2012 पीने का पानी विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	आई एस 10500 : 1991	31 मई, 2012

इस भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों:

नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : एफएडी/जी 128]

डा. आर. कं. बजाज, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (खाद्य एवं कृषि)

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)**

New Delhi, the 14th June, 2012

**S. O. 2166.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standard, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been established on the date indicated against it :

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 10500 : 2012 Drinking water - Specification (Second Revision)	IS 10500 : 1991	31 May, 2012

Copy of this Standard are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: EAD G-128]

Dr. R.K. BAJAJ, Scientist 'F' &amp; Head (Food &amp; Agri.)

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

**का.आ. 2167.**— भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :-

**अनुसूची**

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 6874 : 2008	1, जून 2012	30.06.2012

इस संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सीईडी/राजपत्र]

डी. कं. अग्रवाल, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 18th June, 2012

**S. O. 2167.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been issued :—

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standard	No. and Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 6874:2008	1, June 2012	30-6-2012

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, P. Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-1100 02 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram.

[Ref: CED/Gazette]

D. K. AGRAWAL, Scientist 'F' and Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2168.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे रद्द कर दिए गए हैं और वापस ले लिये गये हैं :—

**अनुसूची**

क्रम सं.	रद्द किये गये मानक की संख्या और वर्ष	भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. संख्या और तिथि प्रकाशित	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 2843 : 1964 प्रक्रिया उपस्कर की नामिनल क्षमताओं संबंधी अनुशंसाएँ		अप्रचलित प्रौद्योगिकी अतः 31 मार्च 12 से रद्द
2.	आई एस 2844 : 1964 प्रक्रिया उपस्कर की नामिनल व्यास संबंधी अनुशंसाएँ		वही
3.	आई एस 3030 : 1965 केमिकल इंजिनियरिंग में प्रयुक्त लेंटर सिंगलों, साइनों, एंब्रिवियेशनों संबंधी अनुशंसाएँ		वही
4.	आई एस 8658 : 1978 वाइब्रेटिंग स्क्रीनों की खरीदी का डाटा शीट		वही
5.	आई एस 8659 : 1978 बास्केट टाइप सेंट्रीफ्यूजों की खरीदी की डाटा शीट		वही
6.	आई एस 8660 : 1978 बिन एवं होपेर के साथ प्रयुक्त वाइब्रेटिंग वाइब्रेटर की खरीदी की डाटा शीट		वही
7.	आई एस 9082 : 1979 ब्रस्टिंग डिस्क एवं एसंबलियों की खरीदी की डाटा शीट		वही
8.	आई एस 9083 : 1979 स्वर लाइन टैकों की डाटा शीट		वही



(1)	(2)	(3)	(4)
9.	आई एस 9084 : 1979 फ्लूड स्टोरेज स्फेरिफ्ल टैंकों की नॉमिनल क्षमताओं की अनुशंसाएँ	-	अप्रचलित प्रौद्योगिकी अतः 31 मार्च 12 से रद्द
10.	आई एस 9151 : 1979 प्रक्रिया उपस्कर की पारिभाषिक शब्दावली	-	वही-
11.	आई एस 9240 : 1979 गैस स्क्रबर कूलर या एब्सोरबर की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
12.	आई एस 9241 : 1979 इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीविटेटर्स की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
13.	आई एस 9254 : 1979 इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रीसीविटेटर्स के सप्लायरों की डाटा शीट	-	वही-
14.	आई एस 9260 : 1979 क्रिस्टलाजर के सप्लायरों की डाटा शीट	-	वही-
15.	आई एस 9289 : 1979 एजिटेटरों की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
16.	आई एस 9539 : 1980 सॉलिड बाउल स्कॉल डिस्चार्ज सेंटीफ्यूजों की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
17.	आई एस 9540 : 1980 प्लेट एवं फ्रेम फिल्टरों की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
18.	आई एस 9578 : 1980 लिक्विड सॉलिड सैपेरेशन सेंटीफ्यूजों की खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
19.	आई एस 9579 : 1980 हैम्पर मिलों के सप्लायरों की डाटा शीट	-	वही-
20.	आई एस 9580 : 1980 हैम्पर मिलों के खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
21.	आई एस 9602 : 1980 एजिटेटरों के सप्लायरों की डाटा शीट	-	वही-
22.	आई एस 9693 : 1980 स्पे शुष्कित्रों के खरीदी की डाटा शीट	-	वही-
23.	आई एस 10444 : 1983 हैम्पर मिलों की विशिष्टि	-	वही-
24.	आई एस 10843 : 1984 क्रशरों की पारिभाषिक शब्दावली	-	वही-
25.	आई एस 12995 : 1990 प्रोसेस/बेसिक इंजिनियरिंग/नौ हाओ पैकेजिंग - डाटा शीट	-	वही-
26.	आई एस 11122 (भाग 1) : 1985 लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटों तथा उपकरण भाग 1 ओरिजनल प्रिंटिंग प्लेटों की विशिष्टि	-	वही-
27.	आई एस 11122 (भाग 2) : 1984 लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटों तथा उपकरण भाग 2 फ्लैट मेटल डुप्लीकेट प्लेटों की विशिष्टि	-	वही-
28.	आई एस 11122 (भाग 3) : 1984 लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटों तथा उपकरण भाग 3 गैलेज की विशिष्टि	-	वही-
29.	आई एस 11122 (भाग 4) : 1984 लेटर प्रेस प्रिंटिंग प्लेटों तथा उपकरण भाग 4 जोबिंग चेजिज	-	वही-

[संदर्भ : एमईडी/जी-2:1]

जे. ए. सिद्दीकी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (यांत्रिक इंजीनियरिंग)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S. O. 2168.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it is hereby notified that the Indian Standards, particulars of which are mentioned in the Schedule given hereafter, have been cancelled and stand withdrawn.

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. and Year of the Indian Standards Cancelled	S.O. No. and Date Published in the Gazette of India, Part II, Section-3, Sub-section (ii)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2843 : 1964 Recommendation on nominal capacities for process equipment	-	Obsolete technology, therefore, withdrawn w.e.f. 31st March, 12
2.	IS 2844 : 1964 Recommendation on nominal diameter for process equipment	-	-do-
3.	IS 3030 : 1965 Recommendation for letter symbols, signs and abbreviations used in chemical engineering	-	-do-
4.	IS 8658 : 1978 Purchaser's data sheet for vibrating screens	-	-do-
5.	IS 8659 : 1978 Purchaser's data sheet for basket type centrifuges	-	-do-
6.	IS 8660 : 1978 Purchaser's data sheet for vibrating vibrators for use with bin and hopper	-	-do-
7.	IS 9082 : 1979 Purchaser's data sheet for bursting discs and assemblies	-	-do-
8.	IS 9083 : 1979 Purchaser's data sheet for rubber lined tanks	-	-do-
9.	IS 9084 : 1979 Recommendation for nominal capacities for fluid storage spherical tanks	-	-do-
10.	IS 9151 : 1979 Glossary of terms for process equipment	-	-do-
11.	IS 9240 : 1979 Purchaser's data sheet for gas scrubber cooler or absorber	-	-do-
12.	IS 9241 : 1979 Purchaser's data sheet for electrostatic precipitators	-	-do-
13.	IS 9254 : 1979 Supplier's data sheet for electrostatic precipitators	-	-do-
14.	IS 9260 : 1979 Supplier's data sheet for crystallizer	-	-do-
15.	IS 9289 : 1979 Purchaser's data sheet for agitators	-	-do-
16.	IS 9539 : 1980 Purchaser's data sheet for solid bowl scroll discharge centrifuges	-	-do-
17.	IS 9540 : 1980 Purchaser's data sheet for plate and frame filters	-	-do-
18.	IS 9578 : 1980 Purchaser's data sheet for liquid/solid separation centrifuges	-	-do-
19.	IS 9579 : 1980 Supplier's data sheet for hammer mills	-	-do-
20.	IS 9580 : 1980 Purchaser's data sheet for hammer mills	-	-do-
21.	IS 9602 : 1980 Supplier's data sheet for agitators	-	-do-
22.	IS 9693 : 1980 Purchaser's data sheet for spray dryers	-	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)
23.	IS 10444 : 1983 Specification for Hammer mills	-	Obsolete technology, therefore, withdrawn w.e.f. 31st March, 12
24.	IS 10843: 1984 Glossary of terms for crushers	-	-do-
25.	IS 12995: 1990 Process/basic engineering/know how packages - data sheet	-	-do-
26.	IS 11122 (Pt-1) : 1985 Specification for letter press printing plates and equipment Part 1 Original printing plates	-	-do-
27.	IS 11122 (Pt-2) : 1984 Specification for letter press printing plates and equipment Part 2 flat metal duplicate plates	-	-do-
28.	IS 11122 (Pt-3) : 1984 Specification for letter press printing plates and equipment Part 3 Galleys	-	-do-
29.	IS 11122 (Pt-4) : 1984 Specification for letter press printing plates and equipment Part 4 Jobbing chases	-	-do-

[Ref: MED/G-2:1]

J. A. SIDDIQUI, Scientist 'F' and Head (Mechanical Engineering)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2169.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं:—

**अनुसूची**

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक, अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस/आईएसओ 3457 : 2003 मिट्टी उठाने की मशीनरी - गार्ड - परिभाषाएं एवं अपेक्षाएं	-	29 फरवरी 2012
2.	आईएस/आईएसओ 11112 : 1995 मिट्टी उठाने की मशीनरी - चालक की सीट - आयाम एवं अपेक्षाएं	-	29 फरवरी 2012
3.	आईएस/आईएसओ 17292 : 2004 (आईएस 11792 : 1986 का अतिक्रमण) पेट्रोलियम पेट्रोलसायन तथा संबद्ध उद्योगों के लिए धातु के बाल वाल्व	आईएस 11792 : 1986 पेट्रोलियम पेट्रोलसायन तथा संबद्ध उद्योगों के लिए स्टील के बाल वाल्व	31 मार्च 2012
4.	आई एस/आईएसओ 7134 : 1993 [आईएस 4988 (भाग 5) : 1968 का अतिक्रमण] मिट्टी उठाने की मशीनरी ग्रेडर्स - परिभाषिक शब्दावली और वाणिज्यिक विशिष्टियां	आईएस 4988 (भाग 5) : 1968 मिट्टी उठाने की मशीनरी का वर्गीकरण और पारिभाषिक शब्दावली भाग 5 - मोटर ग्रेडर्स	31 मार्च 2012

इन भारतीय मानक की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ : एमईडी/जी 2:1]

जे. ए. सिद्दीकी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (यांत्रिक इंजीनियरिंग)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S. O. 2169.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards Established	No. and Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS/ISO 3457 Earth moving machinery — Guards - Definition and Requirements	-	29th February, 2012
2.	IS/ISO 11112 : 1995 Earth moving machinery - Operator's seat - Dimensions and requirements	-	29th February, 2012
3.	IS/ISO 17292 : 2004 (Superseding IS 11792: 1986) Metal ball valves for Petroleum, Petrochemical and allied industries	IS 11792: 1986 Steel ball valves for the Petroleum, Petrochemical and allied industries.	31st March, 2012
4.	IS/ISO 7134: 1993 [Superseding IS 4988 (Pt 5) : 1968] Earth-moving machinery - Graders - Terminology and Commercial Specifications.	IS 4988(Pt 5): 1968 Glossary of terms and classification of Earth - moving machinery : Part 5 Motor graders.	30th April, 2012

Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram. On-line purchase of Indian Standard can be made at : <http://www.standardsbis.in>.

[Ref: MED/G-2:1]

J. A. SIDDIQUI, Scientist 'F' and Head (Mechanical Engineering)

नई दिल्ली, 20 जून, 2012

**का.आ. 2170.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिये गये मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

**अनुसूची**

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 655 : 2012 वायु डक्ट - विशिष्ट (दूसरा पुनरीक्षण)	संशोधन नं. 1 मार्च 2012	30 मार्च 2012

इस संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों को <http://www.standardsbis.in> द्वारा इंटरनेट पर खरीदा जा सकता है।

[संदर्भ : एमईडी/जी-2:1]

जे. ए. सिद्दीकी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (यांत्रिक इंजीनियरिंग)

New Delhi, the 20th June, 2012

**S. O. 2170.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been issued :—

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No. and Year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 655: 2006 Air ducts - Specification (Second Revision)	Amendment No. 1 March 2012	30 March 2012

Copies of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune and Thiruvananthapuram. On-line purchase of Indian Standard can be made at : <http://www.standardbis.in>

[Ref: MED/G-2:1]

J. A. SIDDIQUI, Scientist 'F' and Head (Mechanical Engg.)

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

**का.आ. 2171.**—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं:-

**अनुसूची**

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (को) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 1271 : 2012 विद्युत रोधन तापीय मूल्यांकन और अभिनाम (आई एस 1271 का दूसरा पुनरीक्षण)	-	21-6-2012
2.	आई एस/12747 (भाग 2) : 2012 विद्युत रोधन के लिए संयुक्त नम्य सामग्री भाग 2 परीक्षण पद्धतियां [आई एस 12747 (भाग 2) का प्रथम पुनरीक्षण]	-	21-6-2012

इन भारतीय मानकों की एक प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी 02/टी-3, टी 126]

आर. के. त्रेहन, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

New Delhi, the 21st June, 2012

**S. O. 2171.**—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987 it is, hereby notified that these Indian Standards, particulars of which are mentioned in the the Schedule given hereafter, have been cancelled and stand withdrawn :—

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and Year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1271 : 2012 Electrical insulation - Thermal evaluation and designation (Second Revision of IS 1271)	-	21-06-2012
2.	IS 12747 (Part 2) : 2012 Combined flexible materials for electrical insulation - Part 2 : Methods of test [ First Revision of IS 12747 (Part 2)]	-	21-06-2012

Copy of this Standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref:ET 02/T-3, T-126]

R. K. TREHAN, Scientist 'E' &amp; Head (Electro Technical)

**कोयला मंत्रालय****शुद्धि-पत्र**

नई दिल्ली, 19 जून, 2012

**का.आ. 2172.**—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1336 तारीख 10 अप्रैल, 2012 द्वारा जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) तारीख 14 अप्रैल, 2012 में प्रकाशित की गई थी, का संशोधन करती है, अर्थात: -

उक्त अधिसूचना में :-

'अनुसूची' में कॉलम 'मौजा/ग्राम का नाम\*' के नीचे :

'ललमटिया' के स्थान पर 'लोहण्डिया' प्रतिस्थापित किया जाए।

[ फा. सं. 43015/3/2010-पीआरआईडब्ल्यू-1]

ए. के. दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF COAL

## CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th June, 2012

**S.O. 2172.**—In exercise of the powers confirmed by sub-section (1) of Section 9 of the coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby amends the notification dated 10th April, 2012 of the Government of India, Ministry of Coal vide number S.O. 1336 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 14th April, 2012, namely :

In the said Notification :—

In the "Schedule" under the column "Name of Mouza/Village":

'Lalmatia' shall be substituted by 'Lohandia'.

[ F.No. 43015/3/2010-PRIW-I ]

A. K. DAS, Under Secy.

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून, 2012

**का.आ. 2173:**—भारत सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में मैसर्स ब्रह्मपुत्र केकर एण्ड पोलिमेर लिमिटेड द्वारा रिच गैस पाइपलाइन दुलियाजान से लेपेटकाटा और लीन गैस पाईप लाईन लेपेटकाटा से दुलियाजान, सी 2+ द्रवित हाई वेपर प्रेशर पाइपलाइन लकवा से लेपेटकाटा (डिब्रूगण खण्ड), रा वाटर इन्टेक पाईप लाईन वूरीदिहिंग रिवर (53 एफ एस ग्रांट) से पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा, ट्रीएटेड इफ्लुएंट डिस्पोजल, पाईप लाईन पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा से ब्रह्मपुत्र रिवर (चोलखोवा एन सी) और नेफथा पाईप लाईन, नेफथा अनलोडिंग स्टेशन तिनसूकिया गाँव से पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा (डिब्रूगण खण्ड) बिछाने के लिये उक्त अधिनियम के अधीन संलग्न सूची के स्तम्भ (1) में वर्णित व्यक्ति को एवं स्तम्भ (2) में वर्णित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये नियुक्त करती है।

## अनुसूची

व्यक्ति का नाम और पता	अधिकारिता का क्षेत्र
(1)	(2)
श्री मृगेन गोगोई, अतिरिक्त उप कमिश्नर, जिला डिब्रूगण, आसाम	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. आसाम राज्य जिला डिब्रूगण रिच गैस दुलियाजान से लेपेटकाटा और लीन गैस लेपेटकाटा से दुलियाजान पाईप लाईन बिछाने हेतु</li> <li>2. आसाम राज्य जिला डिब्रूगण सी 2+ द्रवित हाई वेपर प्रेशर पाइपलाइन लकवा से लेपेटकाटा (डिब्रूगण खण्ड) पाईप लाईन बिछाने हेतु</li> <li>3. आसाम राज्य जिला डिब्रूगण, नेफथा पाईप लाईन, नेफथा अनलोडिंग स्टेशन तिनसूकिया गाँव से पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा (डिब्रूगण खण्ड) बिछाने हेतु</li> <li>4. आसाम राज्य जिला डिब्रूगण, रा वाटर इन्टेक पाईप लाईन वूरीदिहिंग रिवर (53 एफ एस ग्रांट) से पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा तक बिछाने हेतु</li> <li>5. आसाम राज्य जिला डिब्रूगण, ट्रीएटेड इफ्लुएंट डिस्पोजल पाईप लाईन पेट्रोकेमिकल काम्पलैक्स लेपेटकाटा से ब्रह्मपुत्र रिवर (चोलखोवा एन सी) तक बिछाने हेतु।</li> </ol>

[ फा. सं. एल 14014/33/12-जी.पी. ]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 21st June, 2012

**S.O. 2173.**—Whereas, in pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorizes the person mentioned in column (1) of the schedule given below to perform the functions of the Competent Authority under the said Act for laying of Rich gas (Duliajan-Lapetkata) and Lean Gas (Lapetkata-Duliajan) pipelines, C2+ Liquid High Vapor Pressure pipeline (Dibrugarh Section) from Lakwa to Lapetkata, Raw Water Intake Pipeline from Buridhing River (53 F.S. Grant) to Petrochemical complex Lapetkata, Treated Effluent Disposal Pipeline from Petrochemical complex Lapetkata to Brahmaputra River (Chaulkhowa NC) and Naphtha pipeline from Naphtha Unloading station at Tinsukia Gaon, Dibrugarh to Petrochemical complex, Lapetkata by the M/s Brahmaputra Cracker and Polymer Limited (BCPL) in the area mentioned in column (2) of the said schedule.

## SCHEDULE

Name and Address of the person	Area of Jurisdiction
Shri Mrigen Gogoi, ACS (Additional Deputy Commissioner) Dibrugarh (Assam)	1. State of Assam areas falling in Dibrugarh District for laying of Rich gas (Duliajan-Lapetkata) and Lean Gas (Lapetkata-Duliajan) pipelines
	2. State of Assam areas falling in Dibrugarh District for laying of C2+ Liquid High Vapor Pressure pipeline from Lakwa to Lapetkata.
	3. State of Assam areas falling in Dibrugarh District for laying of Naphtha pipeline from Naphtha Unloading station at Tinsukia Gaon, Dibrugarh to Petrochemical complex Lapetkata.
	4. State of Assam areas falling in Dibrugarh District for laying of Raw Water Intake Pipeline from Buridhing River (53 F. S. Grant) to Petrochemical complex Lapetkata.
	5. State of Assam areas falling in Dibrugarh District for laying of Treated Effluent Disposal Pipeline, from Petrochemical complex Lapetkata to Brahmaputra River (Chaulkhowa NC)

[F. No. 1-14014 33 12-G.P.]

A. GOSWAMI, Under Secy.



**श्रम और रोजगार मंत्रालय**

नई दिल्ली, 25 मई, 2012

**का.आ. 2174.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स एयर इण्डिया लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय सं.-1, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या 4/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-5-2012 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-20025/14/2005-आई आर (सी-1) ]

जोहन तोपनो, अवर सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

New Delhi, the 25th May, 2012

**S.O. 2174.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 4/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-1, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Air India Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 25-5-2012.

[No. I.-20025/14/2005-IR (C-I)]

JOHAN TOPNO, Under Secy.

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1,  
MUMBAI**

JUSTICE G. S. SARRAF, Presiding Officer

**REFERENCE No. CGIT-1/4 OF 2006**

**Parties :** Employers in relation to the management of  
Air India

And

Their Workmen

**Appearances :**

For S.C. Adhikari and Ors. : Shri M.B. Singh, Adv.

For the Management : Shri Lancy D'souza  
Management  
Representative.

For the Indian Pilots Guild : Shri Palkar, Adv.

State : Maharashtra

Mumbai, dated the 14th day of March, 2012

**AWARD**

The facts in brief are that pursuant to the advertisement for co-pilots issued by Air India the 14 pilots (who will be hereafter referred to as the Adhikari Group)

holding ALTP licence with 500 flying hours as pilots in command joined Air India as co-pilots in November, 1996. Their letters of appointment contained a clause that they would be informed about their seniority subsequently.

The Adhikari group filed a writ petition being W.P.(I.) no. 1615 of 1997 seeking enforcement of clause 3 (d) of the 1989 Settlement which read as under:

(d) The pilots joining the Corporation with ALTP will always have higher line seniority over the co-pilots who are already in the employment of the Corporation without ALTP licence.

The writ petition was dismissed on 16-10-1997. The Court held that the 1989 settlement had already been terminated and was non-existing. It was noted that negotiations were in progress between the Air India and the Indian Pilots Guild (hereinafter referred to as the Guild) and that if the Adhikari group felt aggrieved by any settlement which might be arrived at they could raise a dispute before the Conciliation Officer. The High Court also said that in case of failure of conciliation proceedings the dispute could be referred to National Industrial Tribunal. It was observed that there was a pending reference before the Tribunal and that it was always open to the Adhikari group to join in the said reference and raise their demands. It was also held that there was a efficacious alternate remedy.

Aggrieved, the Adhikari group filed a special leave petition in the Supreme Court. While the special leave petition was pending on 3-1-1998 a Settlement was arrived at between the Guild and the Air India. As regards seniority of the pilots the Settlement noted earlier discussions held in 1995 and the following terms were recorded.

**7. Seniority of pilots.—(a)-(b)**

(c) Based on these discussions, the seniority of trainee pilots/co-pilots has been determined as a one-time exercise as indicated in the seniority list contained in Annexure 'D' and this will not be cited as a precedent in future.

(d) Clause 3(d) of Schedule 2 of the Memorandum of Settlement dated 21-7-1989 stands deleted. Henceforth, line seniority of co-pilots joining the Company will be based on the date of entry of the pilot in the grade of a first officer.

Annexure 'D' referred to in clause 7 (c) was a seniority list which placed the Adhikari group against serial nos. 205 to 218. The Adhikari group, however, withdrew their special leave petition stating that "since the petition before the High Court was pre-mature they wish to withdraw the special leave petition so that they may take appropriate steps later". They then filed a writ petition being no. 2930 of 1999 before the Bombay High Court challenging clause 7(c) of the 1998 Settlement. The writ petition was dismissed on 14-11-2000. The High Court held that "the petitioners

may challenge clause 7 (c) of the Settlement, if so advised, and if they are entitled to do so, by raising an industrial dispute. The question as to whether the Settlement is just, fair and bona fide or that it is vitiated by fraud, misrepresentation or concealment of facts in the first instance, must be examined by the Industrial Tribunal on a reference being made to it by the State Government. Of course, the award of the Tribunal may be challenged in a proceeding under Article 227 of the Constitution on the grounds permissible in law". The High Court refused to set aside clause 7 (c) of the 1998 Settlement in exercise of its jurisdiction under Article 226 of the Constitution saying that "It is not as if the settlement is so blatantly arbitrary unreasonable or irrational that the same should be quashed by this Court without anything more." The Adhikari group challenged the order of the High Court by filing a special leave petition which, however, was withdrawn on 19-3-2001.

The Adhikari group then filed a complaint before the National Industrial Tribunal being reference no. NTB-1 of 1990 under Section 33-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act) which they withdrew on 6-10-2003.

The Adhikari group then raised the dispute relating to the fixation of their seniority under the 1998 Settlement under Section 12 of the Act before the Conciliation Officer. The Conciliation Officer recommended to the Air India that considering the historical background of the question relating to seniority and the fact that the Adhikari group had joined on 25-11-1996 prior to coming into operation of the 1998 Settlement they should be granted seniority as claimed by them. Meanwhile, on 8-12-2000 the period of 5 years for CPL pilots to obtain their ALTP was extended by six months. The period of six months was again extended by 7 years on 27-6-2002 and ultimately the requirement for an ALTP for co-pilots was wholly removed by 1-8-2002/2-8-2002, when the decision was taken by the Air India that "in order to give a fair and reasonable chance to all co-pilots" the requirement to obtain an ALTP with 5 years should be removed altogether for all co-pilots and all that was required was that a co-pilot should be in possession of ALTP by the time he/she comes up for command training as per line seniority.

The Adhikari group made a representation to the Air India on the basis of the recommendation of the Conciliation Officer. The General Manager, Human Resource Development, supported the representation by his letter dt. 20-4-2004. The Chairman and Managing Director of the Air India appointed a four member committee to go into the issue. The committee submitted a lengthy report on 4-6-2004 and recommended that the Adhikari Group who joined in November 1996 should be placed only below those ALTP holders who had already attained command or those who were undergoing command training. The Chairman, Air India passed an order on

23-9-2004/28-9-2004 and approved the recommendations of the committee. According to him the seniority of the Adhikari group had been decided 'improperly'.

The CPL holders of 1995 batch filed a writ petition no.3108 of 2004 in the Bombay High Court. By judgement dt.10-3-2005 the High Court allowed the writ petition. Aggrieved, the Adhikari group as well as the Air India filed a special leave petition in the Supreme Court. Honourable the Apex Court set aside the decision of the Bombay High Court and directed that the appropriate government should refer the question for adjudication by the appropriate tribunal.

Accordingly, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Act the Central Government has referred this dispute for adjudication. The terms of reference based on the questions framed by honourable Apex Court in the judgement reported in (2005) 13 SCC 42 are as under:

- (1) Whether the 1998 settlement (memorandum of settlement dated 3-1-1998 between the Indian Pilots Guild and Air India) or any portion thereof is liable to be set aside on the grounds of fraud, undue influence etc. as alleged by the Adhikari Group?
- (2) Whether the requirement of ALTP licence was necessary for co-pilots?
- (3) Whether the Adhikari Group was entitled to seniority over the CPL holders in the line of seniority list?
- (4) What is the legal effect of the Conciliation Officer's recommendation of the Adhikari group's case and Air India's acceptance thereof?
- (5) To what relief are the parties entitled?

According to the statement of claim filed by the Adhikari group until 1986 only ALTP holders were eligible for appointment as co-pilots in Air India but from 1986 CPL holders were also recruited as probationary co-pilots with the condition that their probation would continue till they obtained ALTP and failure to obtain ALTP resulted in termination of their employment. It was also provided that they would be promoted as first officers (co-pilots) only after obtaining ALTP. Their seniority in the cadre of first officer would count from the date of receiving ALTP. The CPL holders then joined the Guild and became majority members. They were helped by their influential guardians who were senior officers in the Air India as well as senior office bearers in the Guild. The CPL holders successfully negotiated the 1998 Settlement whereby the requirement of having ALTP as a pre-condition for line seniority was done away with and seniority henceforth was to be determined with effect from the date of entering the grade of first officer. However, the Settlement was prospective

in nature and hence having joined before the Settlement became operative w.e.f. Jan 1998 the Adhikari group was still entitled to seniority as per Settlement of 1989. To get over this problem as well as to help a large number of CPL holders who had not completed their first solo flight before the 1996 ALTP batch pilots, namely, the Adhikari group joined, the Guild and the Air India attached a seniority list to the wage Settlement of 1998. The seniority list has no rationale logic or basis. It was called one-time Settlement and was not to be cited as a precedent in future. Such a list had never been attached to any previous settlement and its main purpose was to anyhow bestow seniority to the chosen sons, daughters and relatives of the senior officers of the Air India and senior office bearers of the Guild. According to the statement of claim ALTP is the highest cadre of commercial pilots licence and the Adhikari group were holders of ALTP at the time they joined the Air India in 1996. Every committee appointed to look into the matter of pilots recommended that the Adhikari group of pilots holding ALTP should be given seniority over all CPL holders. The Adhikari group has, therefore, prayed that it be given seniority in accordance with the 1989 settlement.

The Air India has filed written statement wherein it has stated that the Chairman and Managing Director passed an order dtd. 23/28-9-2004 inter alia holding that the question of seniority of 14 pilots had been decided improperly and their seniority needed to be restored. A corrigendum to this order was issued on 8-10-2004. It was considered view of all the committees that the seniority of the 14 ALTP holders appointed in 1996 ought to have been in accordance with 1989 Settlement. The seniority list enclosed to the 1998 Settlement is not only inconsistent with the 1989 Settlement, but also with the 1998 Settlement itself as the 1998 Settlement expressly provided that clause 3(d) of 1989 Settlement stood deleted prospectively and henceforth line seniority of co-pilots joining the Air India would be based on the date of entry of the pilots in grade of first officer. Undoubtedly, Air India defended the Settlement of 1998 when it was challenged by the 14 ALTP holders but, upon their representation, Air India reviewed the matter objectively and took decision governing the seniority of the 14 ALTP holders in accordance with 1989 Settlement. In view of the orders passed by the Chairman and Managing Director and the consequential benefits granted to the 14 ALTP holders none of the issues referred to by the Government in the schedule would survive and the reference should be disposed of accordingly.

The Guild has also filed written statement and has denied the allegations levelled in the statement of claim and has supported the cause of Vishal Capoor and others. According to the Guild all line pilots have accepted the Settlement of 1998 and the Adhikari group has put up an imaginary case. The Guild has prayed that the reference be rejected.

An application was filed on behalf of Vishal Capoor and 8 others on 28.6.2007 to implead them as parties to these proceedings which was dismissed on 23-3-2011 by this Tribunal for want of prosecution.

It appears that from the Adhikari group, K.N. Khankhoje, S.J.S. Gill, Jasbir Singh and L.N. Pande have withdrawn from this reference while Adhikari, Arun Sehgal, K.S. Chahal and P.K. Ghosh have retired.

The Adhikari group has filed affidavit of Capt. Digvijay Singh who has been cross examined by learned counsel for the Guild and learned counsel for the Air India and the Guild has filed affidavit of Capt. Erjahn Adi Kapadia who has been cross-examined by learned counsel for the Adhikari group and learned counsel for the Air India.

Heard at length Shri M.B. Singh, learned counsel for the Adhikari group, Shri Lancy D'Souza learned representative of the Air India and Shri Palkar learned counsel for the Guild.

**ISSUE NO. 1 :** The Air India has not led any oral evidence. It has, however, stated in its written statement that the Chairman and Managing Director passed an order dtd. 23/28.9.2004 inter alia holding that the question of seniority of the Adhikari group had been decided improperly and their seniority needed to be restored. It has also admitted that it was considered view of all the committees that the seniority of the 14 ALTP holders (Adhikari group) appointed in 1996 ought to have been in accordance with 1989 Settlement. It has also stated emphatically that the seniority list enclosed to the 1998 Settlement is not only inconsistent with the 1989 Settlement but also inconsistent with the 1998 Settlement itself as the 1998 Settlement expressly provided that clause 3 (d) of 1989 Settlement stood deleted only prospectively.

The Guild has filed affidavit of Captain Erjahn Adi Kapadia who has been cross-examined by learned counsel for the Adhikari group and learned counsel for the Air India. He states in his cross-examination

"This is correct that the person at serial number 167 in that list (seniority list of the first officers attached to the 1998 Settlement) is the son of President at that time of I.P.G and a signatory to that Settlement.... This is true that the persons at serial.no.124, 127, 131, 134, 135, 171 to 175 and 181 are the children of I.P.G or management personels"

What has been stated by Kapadia is a clear proof of the fact that many persons who have been benefitted by the seniority list of first officers attached to 1998 Settlement are the children of senior officers of the Air India and senior office bearers in the Guild.

There is no doubt that the seniority list of first officers enclosed to the 1998 Settlement is not only a clear departure from the rule that ALTP holders will always have

higher line seniority over the co-pilots without ALTP as contained in clause 3(d) of the 1989 Settlement and the practice that prevailed up to the coming into operation of the 1998 Settlement but is also inconsistent with the 1998 Settlement itself as the 1998 Settlement expressly provided that clause 3(d) of the 1989 Settlement stood deleted only prospectively.

Looking to the above facts and circumstances the irresistible conclusion is that the seniority list of first officers attached to the 1998 Settlement is a result of fraud and undue influence.

**ISSUE NO. 1** is, therefore, decided in favour of the Adhikari group.

**ISSUE NO. 2 :** Learned counsels for the parties agree that the requirement of ALTP licence was not necessary for appointment as co-pilot. The issue is, therefore, decided as above.

**ISSUE NO. 3 :** According to clause 3(d) of the 1989 Settlement the co-pilots joining with ALTP would always have higher line seniority over the co-pilots who were already in employment without ALTP. This Settlement was terminated w.e.f.1-9-1990.

The Bombay High Court in its judgement dtd.16.10.1997 passed in W.P.(L) no.1615 of 1997 held that the 1989 Settlement was terminated and was non-existing.

However, in (2005) 13 SCC 42 the Apex Court has held as under:

Although the view expressed in WP (L) No. 1615 of 1997 is erroneous, nevertheless, the question whether the 1989 Settlement can found an enforceable right in respondents 7 to 12 is concluded against them. But the decision would not debar the raising of a dispute that the 1998 Settlement was vitiated by fraud, corruption as the Settlement was entered into after those proceedings were concluded before the High Court. Furthermore, although the decision precludes the Adhikari group from claiming a right under the 1989 Settlement, they can certainly rely upon it as evidencing a continuation of an established practice and requirement. It would also be open to the Adhikari group to rely on all other factors in support of their claim for seniority over the CPL holders.

Exhibit W-3 is a letter dated 10-4-1992 written by Director of Operations, Air India to Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation wherein it has been stated that all ALTP holders who joined subsequent to the CPL holders had a higher seniority as compared to the CPL holders and the corporation was not in a position to give the CPL holders the seniority as per the date of joining in the corporation. Ex.W-35 is a letter dated 20-4-2004 from Industrial Relations Division of Air India to Director, HRD, Air India wherein it has been stated that batches of 1992

and 1994 ALTP were placed in seniority as per the 1989 Settlement. It also recommended that seniority of ALTP batch of November 1996 be fixed as per 1989 Settlement also recommended by the seniority committee in their report dtd. 2-4-1996. Ex.W-36 is a report dtd.4-6-2004 of the committee constituted to study the issue regarding seniority of pilots wherein it has been observed that a group of 4 pilots possessing ALTP joined in October 1992 and they were placed in seniority above those CPL holders who joined since 1988 onwards but did not have ALTP. and similarly a group of 10 pilots possessing ALTP joined in November 1994 and were placed in seniority above those CPL holders who joined since June 1989 onwards but were still not in possession of ALTP. Ex.W-37 is an order dtd. 23/28-9-2004 issued by Chairman and Managing Director of the Air India wherein it has been stated that the question of seniority of 14 pilots (Adhikari group) had been decided improperly and their seniority needed to be restored.

The Air India has stated in the written statement that it was the considered view of all the committees that the seniority of the 14 ALTP holders appointed in 1996 (Adhikari group) ought to have been in accordance with the 1989 Settlement. It has also stated in the written statement that the seniority list enclosed to the 1998 Settlement is not only inconsistent with the 1989 Settlement but is also inconsistent with the 1998 Settlement itself as the 1998 settlement expressly provided that clause 3(d) of 1989 Settlement stood deleted prospectively.

It is thus clear that before the seniority list of first officers came to be attached with the 1998 Settlement the practice was to place the ALTP holders senior to those who held only CPL.

In view of the above discussion I have come to the conclusion that the Adhikari group was entitled to seniority over the CPL holders in the line of seniority list.

Issue no. 3 is, therefore, decided in favour of the Adhikari group.

**ISSUE NO. 4 :** The Conciliation Officer's recommendation is that the 1998 Settlement came into operation w.e.f. 3-1-1998 and the Adhikari group joined on 25-11-1996, therefore, the benefit under clause 3(d) of the 1989 Settlement be extended to the Adhikari group. In view of the judgement dtd.16-10-1997 of the Bombay High Court passed in W.P. (L) no.1615 of 1997 the 1989 Settlement was non-existing w.e.f.1-9-1990 and, therefore, the Conciliation Officer's report has no legal effect.

The Issue is decided as above.

**ISSUE No. 5 :** The Adhikari group are entitled to relief as per the decision of the Issue no.3.

Award is passed accordingly.

JUSTICE G. S. SARRAF, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

क्र.आ. 2175.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार चीफ जनरल मैनेजर, मैसर्स हेवी वाटर प्लांट (मानुगुरु) के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 18/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/61/2010-आई आर (डी.यू.)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi; the 31st May, 2012

S.O. 2175.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No 18/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of The Chief General Manager, M/s Heavy Water Plant, (Manuguru) and their workman, which was received by the Central Government on 31-5-2012.

[No. L-42011/61/2010-IR (DU)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT  
HYDERABAD**

Present : Shri VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Dated the 26th day of March, 2012

**INDUSTRIAL DISPUTE No. 18/2011**

Between :

Sri Syed Khasim Hussain,  
(Rep. of workman)  
Ex. Scientific Asstt. 'D',  
H.No. 11-2-71, Sree Nagar Colony,  
New Palvoncha (P.O.)-507115,  
Khammam District.

....Petitioner

AND

The Chief General Manager,  
M/s. Heavy Water Plant (Manuguru),  
Aswapuram-507116,  
Khammam District.

....Respondent

**Appearances**

For the Petitioner : Sri M. V. E. Narasiah, Advocate

For the Respondent : Representative

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour by its  
order No. L-42011/61/2010-IR(DU) dated 4-4-2011 referred

the following dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of M/s. Heavy Water Plant and their workmen. The reference is,

**SCHEDULE**

"Whether the demand of Shri Yenna Samyalu, contract labour employed by the Heavy Water Plant (Manuguru) SC, BC and other Land Loosers Contract Labour Cooperative Society Ltd., Aswapuram for payment of Bonus as per provisions of the Payment of Bonus Act, 1965, is legal and justified? What relief the workman is entitled to?"

The reference is numbered in this Tribunal as I.D. No. 18/2011 and notices were issued to the parties.

2. Petitioner and his counsel called absent on the date of hearing fixed for filing of claim statement. Management representative present. Petitioner has not filed claim statement after appearing in the month of September, 2011 before this Tribunal. There is nothing on record in support of Petitioner's contention or otherwise. It appears that Petitioner is not interested to contest the case as such, reference is answered in negative. Accordingly a 'Nil' Award is passed, Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her and corrected by me on this the 26th day of March, 2012.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

**Appendix of evidence**Witnesses examined for  
the Petitioner

NIL

Witnesses examined for  
the Respondent

NIL

**Documents marked for the Petitioner**

NIL

**Documents marked for the Respondent**

NIL

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

क्र.आ. 2176.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सुपरन्डेंट आफ पोस्ट आफिस, कच्छ के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.जी.आई.टी.ए. आफ 972/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/110/1993-आई आर (डीयू.)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 2176.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the award (Ref. No. CGITA of 972/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of The Supt. of Post Offices, Kutch and their workman, which was received by the Central Government on 31-5-2012.

[No. L-40012/110/1993-IR (DU)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, AHMEDABAD

#### Present :

Binay Kumar Sinha,  
Presiding Officer,  
CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad.

Dated 14th May, 2012

Reference : CGITA of 972/2004

Reference : ITC, 24/1994 (Old)

The Supdt. of Post Offices,  
Kutch Division,  
P.O. Bhuj (Kutch)-370001

... First Party

And their workman

Shri B. D. Chauhan,  
Village : Kadol,  
Taluka : Bhachau,  
Distt. : Kutch-370140

... Second Party

For the first party : Shri Prakashchand M. Rami,  
Advocate

For the second party : Shri Azad Singh Parihar,  
Advocate

#### AWARD

The Appropriate Government/Government of India, Ministry of Labour, considering the Industrial Dispute exists between the employers in relation to the management of Supdt. Post Office, Bhuj and their workman, by its order No. L-40012/110/1993-IR (DU), New Delhi dated 30-9-1994 in exercise of powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Dispute Act, 1947, referred the dispute for adjudication to the Industrial Tribunal, Rajkot by formulating the terms of reference under schedule as follows :

#### SCHEDULE

“ Whether the action of Supdt. of Post Office, Kutch Division, Bhuj in terminating the services of Shri B.D. Chauhan, Extra Dept. Agent as Branch Post Master, Kadol w.e.f. 12-6-1990 is proper, legal and

justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. On registering of the ITC case, notices to the parties was issued. Consequent upon notices the parties appeared in the case. 2nd party workman filed statement of claim at Ext. 2 and the 1st party filed its written statement at Ext. 13.

3. The case of the workman (2nd party) as per statement of claim is that he was engaged as E.D. Branch Post Master from 16-1-1988 at Kadol and his wages was Rs. 450 p.m. and in that capacity he was working for the last two and half years. But from 12-6-1990 he was illegally terminated from the service by the 1st party without notice pay or retrenchment compensation. He requested to the 1st party to reinstate him on the job of ED BPM at Kadol but no heed was paid. Further case is that when he was removed from work, juniors were still working in the Post Office and a new person was employed as Branch Post master at Kadol without observing seniority list. The management of the Post Office without following legal procedure under the provision of the ID Act removed him and so as per case laws reported in 1986 (52) F.L.R. 634 Bombay, 1987 (54) F.L.R. 512 Delhi High Court and 1988 (1) L.L.J. 297, he is entitled for his reinstatement at kadol as EDBPM with back wages and interest after declaring the action of the 1st party illegal and unjustified. Also praying for getting Rs.500 as litigation cost.

4. The first party pleaded inter-alia as per w.s. that the reference is not maintainable and the workman has no cause of action. 1st Party has denied the claim of the 2nd party parawise contending therein that the workman was casually/temporarily appointed as extra department agent branch post master at Kadol on 16-1-1988 with specific condition that when eligible candidate having requisite qualification will be available to be posted as Branch Post Master Kadol, his (workman's) service will come to an end. Thereafter eligible candidate was selected having requisite qualification and was posted at Kadol and so the workman Shri B.D. Chauhan was removed from 12-6-1990 as he was casual worker and there were no requirement of paying notice pay or retrenchment compensation under the provision of ID Act, and that the action was rightly taken against the workman under ED Agent (conduct an. Rules 1967). It has been denied that junior was retained to work as EDA after removing the concern workman Shri B.D. Chauhan, there was no question of maintaining seniority list of EDA. Further case of the 1st party is that the workman Shri B.D. Chauhan was only 7th pass where as minimum qualification for appointment as E.D.A.B.P. M. is 8th pass and since no eligible candidate could have been found earlier so the workman had been appointed temporarily on condition that whenever suitable candidate will be selected then he has to left and suitable candidate was appointed as Kadol as BPM and so the workman had to go. Further contention is that the three case laws cited

by the workman in his statement of claim is not applicable in this case. On these scores prayer has been made for rejecting the reference with cost.

5. In view of the rival contention of the parties in their respective pleadings statement of claim and written statement, following issues are taken up for determination in this case.

#### ISSUES

- (I) Whether the reference is maintainable ?
- (II) Has workman got valid cause of action ?
- (III) Whether by working as E.D.A/B.P.M. at Kadol from 16-1-1988 the 2nd party workman Shri B.D. Chauhan has completed 240 days of works in calendar year preceding his removal/termination from 12-6-1990 ?
- (IV) Whether the 2nd party workman is entitled for the relief as claimed?
- (V) What orders are to be passed ?

#### FINDINGS

6. Issue No. III. It is admitted fact that the workman Shri B.D. Chauhan was engaged as Extra Department Agent at Kadol Branch Office from 16-1-1988 and worked in that capacity till before his termination on 12-6-1990. He has working on monthly wages of Rs. 400. Admitted fact is that he had read up to 7th class. He worked up to about two and half year. As per evidence of workman Shri B.D. Chauhan at Ext. 10, he was doing work of village office postmaster. He admitted in his evidence during cross-examination that no written order had been given to him to work as Branch Post Master (BPM). He and one more namely Ugemsingh were working as E.D. (Extra Department Agent) at Kadol. However he showed ignorance that post of B.P.M. is of ED Category. He also showed ignorance that minimum qualification for BPM is class VIII pass. But he admitted during cross-examination that for posting as BPM at particular village, it was essential that the candidate must have his own house in that village. He also admitted that he does not know whether he had applied for post of BPM taking ground that he had his own house at village Kadol. On the other hand the witness of the 1st party namely Shri Baljibhai B. Mohpase deposed in his evidence at Ext. 25 that Shri B.D. Chauhan was appointed E.D.A. at Kadol purely on temporary basis up to the period a suitable and eligible candidate of Kadol village is appointed as B.P.M. It is admitted fact that after removal of the workman Shri B.D. Chauhan on Kamlaben of Kadol village was appointed as BPM. According to the 2nd party workman there was no any minimum qualification prescribed for E.D.A/BPM, whereas according to 1st party minimum qualification was 8th class pass and the workman Shri B.D. Chauhan was not possessing such qualification.

But 1st party witness at Ext. 25 stated that he has no idea that for posting as B.P.M. a person shall have qualification of 8th class pass. Further management witness during cross-examination has admitted that the work performed by Shri B.D. Chauhan at Kadol and the work performed by new appointed person are of similar nature.

7. It has come in evidence of workman at Ext. 10 that he is a disabled person and after removal he is unemployed and is maintained by his brother. His such evidence is unchallenged. There is no evidence on behalf of management (1st party) that the workman after removal is in gainful employment.

8. The management witness at Ext. 25 has admitted that no notice pay or retrenchment compensation was provided to the 2nd party workman. More so, there is no contrary evidence of the 1st party to discard the claim and evidence of workman at Ext. 10 that he completed more than 240 days of works in every calendar year during the period of 2 1/2 years of his employment at E.D.B.P.M at Kadol. It is admitted fact that before termination on 12-6-1990 the workman Shri B.D. Chauhan continuously worked from 16-1-1988 till before 12-6-1990. That means he completed 240 days of works preceding his termination w.e.f. 12-6-1990.

9. It is also admitted fact that Shri B.D. Chauhan was a workman under the management of Supdt. of Post Office, Kutch (Bhuj) and he was working as E.D.B.P.M. at Kadol and there was employees employer relationship.

10. As per discussions made above I find and hold that the 2nd party workman Shri B.D. Chauhan completed more than 240 days of works in calendar year preceding termination on 12-6-1990. This issue is decided in favour of the 2nd party workman.

#### 11. ISSUE No. I & II

In view of the findings given to issue No. (III) in the forgoing paragraphs I further find and hold that this reference is maintainable and the 2nd party workman has valid cause of action. These two issues are answered accordingly in affirmative.

#### 12. ISSUE No. IV & V

After findings given to issue No. III that the workman completed 240 days of work in the calendar year preceding his termination. So there was requirement by the 1st party either to give one month notice pay or retrenchment compensation under the provision of section 25F of the ID Act, 1947. But 1st party admittedly did not comply with and thus violated the provision of law. But due to this fact the 2nd party workman is not entitled for reinstatement as a matter of right because he was a casual/temporary workman and not appointed in regular way observing all rules and regulation of appointment of regular employees. There is catena of decision of the Hon'ble Apex Court that

instead of reinstatement a lumpsum compensation should be awarded according to the circumstances of the case. In the case of senior Supdt. Telephone (Traffic) Bhopal V/s. Santosh Kumar Seal, the Division bench of the Hon'ble Supreme Court, reported in 2010 (0) GLHEL SC 48285 has held to give compensation instead of reinstatement that will meet the ends of justice.

13. In such view of the matter, I find and hold that the 2nd party workman is not entitled for reinstatement or for back wages, as claimed. But he is found entitled for compensation due to violation of the provision of Section 25F of ID Act by the 1st party. It has come in evidence that the 2nd party workman is a disabled men and remained unemployed after his termination on 12-6-1990. So, in the circumstances, he is entitled for a lumpsum compensation of Rs. 30,000 from the 1st party. These issues are decided accordingly.

This reference is accordingly allowed in part, with cost of Rs. 500. The 1st party is directed to pay compensation of Rs. 30,000 to the 2nd party workman Shri B.D. Chauhan within thirty days of publication of award. Failing which the amount of compensation will carry interest @ 9% per annum.

This my award.

BINAY KUMAR SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 मई, 2012

का.आ. 2177.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेशन कमान्डेन्ट, ई. एम. ई. स्कूल, वडौदा के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, अहमदाबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या सी.जी.आई.टी.ए. ऑफ 779/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-5-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-13011/06/2001-आई आर (डी.यू.)]  
रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st May, 2012

S.O. 2177.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. CGITA of 779/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Ahmedabad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of The Station Commandant. EME School Baroda and their workman, which was received by the Central Government on 31-5-2012.

[No. L-13011/06/2001-IR (DU)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,**  
**AHMEDABAD**

**Present :**

Binay Kumar Sinha,  
Presiding Officer,  
CGIT-cum-Labour Court,  
Ahmedabad,

Dated 8th May, 2012

**Reference : CGIT A of 779/2004**

**Reference : ITC. 28/2002 (Old)**

The Station Commandant,  
Institute, EME School,  
Fatehgunj,  
Baroda-390008.

.....First Party

And their workman

Shri Ramanbhai N. Makwana and 6 others  
Through the President,  
Gujarat Majoor Kamdar Urja, 29/B,  
Jayshree Society, Karelibaug,  
Vadodara (Gujarat)-390008.

.....Second Party

For the first party : 1. Shri K.C. Raval, General Secretary,  
2. Shri P.G. Danak, Office President, Gujarat Industrial Employers, Baroda

For the second party : Shri R.N. Makwana, Treasurer,  
Gujarat Majoor Kamdar Urja,  
Baroda

**AWARD**

The dispute was referred for adjudication to Industrial Tribunal, Baroda by order No. I-13011/6/2001-IR(DU)) New Delhi dated 18-7-2002 by the appropriate Government/Government of India. Ministry of Labour formulating the terms of reference under the schedule as follows:-

**SCHEDULE**

“Whether the action of the Employer i.e. EME Golf Club in terminating the services of S/Shri (1) Ramanbhai Narsinghbhai Makwana (2) Satish Fatesingh Rajput (3) Pravinbhai Trikambhai Vankar (4) Gopal Rajput (5) Pravinbhai A. Parmar (6) Manharbhai J. Parmar & (7) Kanubhai Sahanabhai Rajput is legal, proper and justified? If not, to what relief the concerned workmen are entitled to and what other directions are necessary in the matter?”

2. Each of the 7 workmen involved in this case filed separate statement of claims at Ext. 7 to 13. The grounds



taken by each of the workmen are verbatim reproduction of the facts in para 1 to 7. So, there is no need for dealing separately each of the statement of claims. Commonly the case of the workmen is that they were working in the Golf Club of EME School for the last 10 to 12 years as a full time worker without having any break in their works and that they were working as a regular workman. They were working as Mali (Gardener) in the Golf Club and they were getting wages per month of Rs. 1300 and, PF was also been deducted and that they were working for 8 hours daily. They were working sincerely and honestly. In spite of that suddenly the first party removed them from work w.c.f. 23-6-2001 without sending any reason and without giving prior notice for retrenchment or without paying retrenchment compensation. Further case is that the works performed by the workman's were of perennial in nature. But the action of the first party in terminating their services is against the principles of natural justice and is also illegal and unwarranted and is also by way of unfair labour practice and colourable exercise of power by the first party. Due to removal the workmen's have suffered mentally as well as physically disturbance. Further case is that the workmen had demanded for payment of their wages in accordance with the provisions of minimum wages act and also demanded for the payment of difference of wages and due to that reason the first party terminated them from 23-6-2011. Prayer has been made for provide the reliefs for declaring the termination order dated 23-6-2001 illegal and unwarranted and against the principles of natural justice and for payment of wages according to the provisions of minimum wages Act from 1-4-2000 to 31-1-2001 with interest together with 10 times compensation that comes Rs. 1,34,046.40 to each of the workmen and also the relief for their reinstatement to the post on which they were working prior to termination, they have also claimed for cost of Rs. 500 each.

3. Against these seven statement of claims at Ext. 7 to 13, the first party has also filed separate written statement at Ext. 32, 33, 34, 35, 36 taking the common defence in each of the written statement separately filed against the separate statement of claim pleading inter-alia that the reference is not tenable in the eye of the law and the statement of claims are not supported by the provisions of law and documentary evidence. The reference is not maintainable. The first party has denied all the allegations made parwise in the statement of claims. Further contention is that the terms of reference referred for adjudication clearly indicate that reference is between EME Golf Club and Employees. But the statement of claim have been filed against Station Commandant EME School Baroda, has not been referred as one of the party in the present reference. Further contention is that the EME is different organization working under the Ministry of Finance, Central Government and it has its well define charter of duties appointment and enrollment of its employees which is govern by the rules of Central

Government. No official of the EME School has any authority to appoint and enroll any employee even temporary without explicit written instruction. The appointment when required is made as per instruction of the Central Government Rule. Further contention is that the EME Golf Club is not industry as define under the Industrial Dispute Act. The Golf Club has its governing body having its own rules and regulation framed. The Golf Club is a sport body run purely by the members of the Golf Club and club is govern by its own set of rules and provides facilities for playing Golf to its members who are pre-dominantly serving and retired soldier also includes outsiders who are not within the service of EME. The club function on no profit no loss basis and the nominated governing body of the Golf Club does this honorary job without any remuneration. There is no direct relationship between Golf Club and EME School or Station Commandant EME School, Golf Club is not instrumentality of state as per article 12 of the constitution and the club is an independent unit. The workmen's through the union had raised the dispute before the Central Commissioner of Labour for non payment of minimum wages to the employees and RLC (C) vide order dated 7-9-2001 dismissed the application filed by the employees holding that minimum wages Act is not applicable to this establishment and that EME Golf club is not under the authority of Central Government and hence Central Government is not an Appropriate Government and the authority appointed by the Central Government has no jurisdiction to decide the claim. Apart from these grounds contention of the first party is that workmen's of the Golf Club were working on probation and were being paid monthly salaries so agreed as such those employees were not needed by the Golf Club at the time the service was terminated by the Secretary of Golf Club and it is settled law that unless probation is given confirmation order the employee remain on probation and long period of probation does not give right to the employee of permanence. It has been denied that the workmen's were working in the Golf Club of EME School because Golf Club is an independent establishment having no nexus with EME School. On these grounds prayer has been made to reject the reference.

4. It may not be out of place to mention that the 7 workmen's involve in this case also filed joint statement of claim at Ext. 18 on 27-01-2005 incorporating the Station Commandant EME School, Fatehgunj, Baroda as opposite party the facts stated in the joint statement of claim at Ext. 18 are similar to that of separate statement of claim at Ext. 7 to 13. In the joint statement of claim some fact has been stated that the workmen's were working in the Golf Club as Mali (Gardener) for the last 10-12 years and were working for 8 hours and were making their attendance sheet register and out of their wages, PF was being deducted on monthly basis. Further ground has been taken that besides gardeners works in Golf Club they were also deployed for work in the EME School as a daily rated labourers and that

they have demanded for payment of wages according to minimum wages Act from the Commandant EME School and has also made complaint before ALC (Central) and that there had been settlement with the management for making payment according to minimum wages and that these workmen raised their demand through the union Gujarat Majdoor Kamdar Urja before ALC (Central), Ahmedabad and the workmen have claimed for the difference of wages with interest and 10 times compensation from 1-4-2000 to 31-1-2001 and the matter was pending before RLC (C) in the mean time the workmen's were terminated from their service from 23-6-2001 and they were not allowed to enter into EME School Golf Club from 24-6-2001. Dispute was raised before the Regional Labour Commissioner and thereafter the dispute on failure of conciliation was sent and the appropriate government referred the dispute for adjudication. In the joint statement of claim the reliefs has been sought for declaring the termination order dated 23-6-2001 unwarranted and illegal and against the principles of natural justice and have demanded for payment of Rs. 748843.67 to each of the workmen's with 10 times compensation. Further for payment of Rs. 748843 with 10 times compensation to the tune of Rs. 7,48,843 and also for their reinstatement to work as Gardener in the Golf Club.

5. The first party also filed written statement at Ext. 25 dated 20-8-2008 taking all those objection which were incorporated in the separate written statement from Ext. 32 to 36 already discussed in the forgoing para, pleading inter-alia that the reference is not at all maintainable, the workman have no cause of action and they are not entitled to get any relief and the reference is fit to be rejected.

6. As per rival contention of the parties in their pleadings the following issues are taken up for discussions and considerations:

#### ISSUES

- (I) Whether the reference is maintainable?
- (II) Have the workmen's/union valid cause of action?
- (III) Whether the Golf Club of EME School is an industry under the section 2 (J) of the Industrial Dispute Act, 1947?
- (IV) Whether the workmen's are entitled for the claim of difference of wages with 10 times compensation from the first party?
- (V) Whether the second party workmen are entitled for the relief of reinstatement as Mali (Gardener) in the Golf Club?
- (VI) What orders are to be passed?

#### FINDINGS

#### 7. ISSUE No. III

Section 2 (j) of I.D. Act, 1947 defines "industry" which means any systematic activity carried on by

co-operation between an employer and his workman (whether such workman are employed by such employer directly or by or through any agency including a contractor for the production, supply, or distribution of goods or service with a view to satisfy human wants or wishes (not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature whether or not-

- (i) any capital has been invested for the purpose of carrying on such activity; or
- (ii) such activity is carried on with a motive to make any gain or profit, and (a) (b)-

**but does not include-** (1) any agricultural operation except where such agricultural operation is carried on in an integrated manner with any other activity (2) Hospital or dispensaries; (3) educational, scientific research or training institutions; or (4) Institution owned and managed by organization wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic, service; or (5) Khadi or village industries (6) any activity for government relatable to the sovereign functions of the government including all the activities carried on by the department of Central Government dealing with defence research, atomic energy and space; or (7) any domestic service; or (8) any activity being a profession practised by an individual or body of individuals in relation to such profession is less then ten; or (9) any activity, being an activity carried on by a co-operative society or a club or any other like body of individuals, if the member of persons employed for the co-society, club or other like body of individuals in relation to such activity is less then ten. As per terms of reference the dispute has been raised by only 7 workmen claiming to have been employed on daily rated wages as Mali (Gardener) in the EME Golf Club. In this regard specific case of the first party EME Golf Club is that the Golf Club is a sport body run purely by the members of the club and provides facilities for playing golf to its member who are pre-dominantly serving and retired soldiers and that the club function on no profit no loss basis and that there is no direct relationship between golf club and EME school or Station Commandant EME school. More so, as per exception. 9 discussed above in the category.

**Does not include as industries.** if number of persons employed is less then ten do not come under the category of "industry". From the appointment letter of one of the workman namely Pravinbhai it appear that this appointment letter had been issued by Honorary Chairman of EME Golf Club appointing him for six months probation as Mali in EME Golf Club w.e.f. 1-1-1990 mentioning his duties will be to maintain Golf Club green and fairness. He will be given a weekly holiday on Sunday or a convenient day decided by club secretary. Further condition was that he will be on probation for 6 months w.e.f. 1-1-1990 and the next condition was i.e. salary will be Rs. 800 per month. Even if such appointment letters issued to seven workmen's involved in this case are taken into

consideration it can be said that the workmen had agreed for their monthly wages of Rs. 800/- per month for the works of maintaining Golf Club greens and fairness. It is admitted position that the number of workmen employed as gardener were 7 only i.e. less than 10. So, when the workmen employed in the Golf Club run by the Honorary Secretary for the recreation of the serving or retired soldiers/military personal then EME Golf Club cannot be said to be an "industry" as defined under Section 2 (j) of the Act, 1947 when the workmen's had not been employed in any industry. So, the dispute raised by the workmen either individually or through the union cannot come under the category of Industrial Dispute.

(8) More so, there is no cogent evidence on behalf of the workmen to prove that the EME Golf club is an "industry" and is being carried on with a motive to make any gain or profit. Out of 7 workmen's involved in this case, two of them namely Ramanbhai N. Makwana at Ext. 23 and Pravinbhai N. Parmar at Ext. 24 have deposed to support in oral evidence, they were thoroughly cross-examined by 1st party representative. The workmen's in their evidence could not bring any cogent evidence to show that the Golf Club run for the recreation of serving and retired soldiers is coming in the category of "industry". On the other hand the witness Subedar Rampratap Assistant Secretary to EME Golf Club in his oral evidence at Ext. 44 clearly states that the dispute raised is between EME Golf club and employees who were appointed by the Golf Club. Statement of claim filed by the workmen is against the commandant EME School, Baroda which is not tenable because EME School is not party to the present reference. His further evidence is that EME school is a organization under the Ministry of Defence, Central Government it has its well charter of duties. Appointment and enrolment of employees are governed by the rules of Central Government. The appointment are required to be made as per the instruction of Central Government. Second party workmen are not appointed by EME School. His further evidence is that EME Golf Club is institution formed by officers of EME for their welfare and recreation. All officers contribute and from that contribution the Golf Club is maintained and employees are not paid by the union of India rather the employees are appointed by Golf Club they are not appointed by EME School. Golf club is sport body having purely run by the members of Golf Club and governed by its own set of rules and provide facilities for playing golf to its members and that the club function on no profit no loss basis sustained by a nominal fees and thus EME Golf Club is not an "industry" and there is no direct relationship between Golf Club and EME School or Station Commandant. His further evidence is that the club is a regimental institute in order for the welfare of soldiers having no character of "industry" or any systematic activities.

(9) Upon consideration of the materials and evidence on the record discussed above this tribunal is of

considered opinion that EME golf club is not an industry as defined under Section 2 (j) of the ID Act, 1947. This issue is accordingly decided against the workman second party and in favour of the first party.

#### (10) ISSUE No. IV

There is no scope for examining the claim of the workman for their entitlement for the condition of wages under Section 20 of the minimum wages Act 1948 and also regarding 10 times compensation such provisions has been enumerated under Section 20 of the minimum wages Act, 1948. The authority under the minimum wages Act, 1948 is either ALC (C) or the RLC (Central) for giving appropriate orders/directions regarding payment of difference of the minimum wages together with multiplied by maximum up to 10 times compensation. On behalf of the first party several documents with list at Ext. 37 has been filed. Ext. 37/2 is the order dated 9-8-2000 passed by Assistant Labour Commissioner (C), Baroda on the grievance of non payment of minimum rate of wages to the unskilled who are engaged in the agricultural/Horticultural work in Golf club EME School, Baroda. It may be pertinent that the dispute was raised before the ALC (C) where the employees (present workman) are part time or full time workers and so it is advised to file claim application before the authority under the minimum wages Act, 1948 i.e. The Regional Labour Commissioner (Central), Ahmedabad as per provisions of Section 20 of minimum wages Act read with Rules 27, 28, 29 minimum wages (Central Rules 1950) and the application submitted on behalf of the workman through the union was disposed of. It is also not disputed that the workmen's through union had approached before the authority i.e. the Regional Labour Commissioner, Central Ahmedabad for redressal of their grievance of payment of difference of minimum wages with 10 times compensation which was rejected. Thereafter the present dispute was raised making grievance for their illegal termination and seeking for the reliefs. Considering all these aspects I am also of considered opinion that the entitlement regarding difference of wages with 10 time compensation claim of Rs. 74,843.67 of the 7 workmen involve in this, case together with 10 times compensation making total claim of Rs. 8,23,280.37 is not at all entertainable under this reference case because the reference case are to be decided under the provisions of Industrial Dispute Act, 1947 and there is none of business of the Industrial Court to decided the claim of the workmen's under Section 20 of the minimum wages Act, 1948. This issue is therefore also decided against the second party workman.

#### (11) ISSUE No. V

Even if it is accepted that the 7 workmen involve in this case have continued their works as Mali (Gardener) for maintaining Golf course greens and fairness since after their appointment in the year 1990 from 1-1-1990 till before their termination in the year 2001 and such long period of service and during that period also even completing more

than 240 days of work in a calendar year do not make them entitled for their reinstatement to their works of gardener in the EME Golf Club run on the basis of no profit no loss basis because not coming in the category of "industry". So, when the EME Golf club is not coming under the category of industry and so there would be no any Industrial Dispute of the workmen's with the employer of the Golf Club and so even if those workmen's would have completed more than 240 days of work in calendar year and if they are not entitled for reinstatement then alternatively they are also not entitled for getting any compensation instead of reinstatement because of the findings given to issue No. II in the forgoing para this issue is also decided against the second party workman.

#### (12) ISSUE Nos. I & II

In view of the findings given to issue no. III, IV and V in the foregoing paragraphs, I further find and hold that the reference is not maintainable because as per terms of reference action of the employer i.e. EME Golf club in terminating the service of the 7 workmen was challenged by the workmen and the dispute was referred for adjudication for such action of the employer i.e. EME Golf Club is legal, proper and justified or not but the reference order was sent to the Station Commandant, Institute EME School, Fatehgunj instead of Chairman or Secretary of the Golf Club run by the Honorary chairman and Honorary Secretary of EME Golf Club as per appointment letter issue by Honorary Chairman and deduction of contributory funds by the Honorary Secretary of the Golf Club and order as to termination of employees issued by Honorary Secretary EME School Golf Club dated 22-1-2001 against Pravinbhai as per Ext. 37/3, 37/4 and 37/5. So this reference is not maintainable. The workman or their union has also got no valid cause of action to raise the dispute since the EME Golf Club is not an "industry" rather it is being run on no profit no loss basis and the payment of wages of the workman were being paid through the contribution made by the member of the Golf Club being service or retired soldiers/military personals. These two issues are answered accordingly in negative.

#### (13) ISSUE No. VI

It appears from Ext. 27/5 that Honorary Secretary EME School Golf Club by issuing termination order of Shri Pravinbhai Trikambhai Vankar terminated from his service as Mali (Gardener) w.e.f 23-6-2001 and an amount of Rs. 11999 as per details given below.

- One month advanced pay as a special case.—Rs. 1304.00.
- Pay for the month of June (for 22 days)—Rs. 902.00.
- ECF along with interest.—Rs. 9793.00 total Rs. 11993 was provided to workman Pravinbhai Trikambhai Vankar who refused to accept the termination letter and the notice

pay etc. as indicated in Ext. 37/5. So it may be safely presumed that the first party Hon'ble Secretary of EME Golf Club must have issued such termination orders with one month advance pay as a special case, pay for the last month of employer and ECF along with interest in favour of the workmen involve in this case, but the workmen refused to accept the termination letter and the notice pay etc. So, at best the workmen involve in this case can only claim for one month advanced pay as special case and for the month of their lost works prior to date of termination with ECF along with interest up to date of their termination only from the first party. Since the first party EME Golf Club is not an "industry" and the reference is not maintainable. So, no any direction can be given to the first party for payment of the one month advanced pay with pay for the last month with ECF along with interest up to the date of termination in this reference case. However workmen's themselves may approach to the Honorary Chairman and Secretary of the EME school Golf club for making payment of one month advanced pay with pay for the last month of their work with ECF along with interest up to the dates of their termination. With this observation made in issue No. VI, this reference is rejected on contest made by the first party. No order as to any cost.

This is my award.

BINAY KUMAR SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 1 जून, 2012

का.आ. 2178.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 19/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/19/2009-आईआर (बी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 1st June, 2012

S.O. 2178.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 19/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Southern Railway, and their workmen, received by the Central Government on 1-6-2012.

[No. L-41011/19/2009-IR (B-1)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT**  
**CHENNAI**

Tuesday, the 22nd May, 2012

Present:

A.N. JANARDANAN,

Presiding Officer

INDUSTRIAL DISPUTE No. 19/2011

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Southern Railway and their Workmen)

BETWEEN

The Secretary  
All India Loco Running Staff  
Association

16/1, Senghol Nagar

Madurai-18

1st Party/Petitioner

Vs.

1. The Divisional Railway Manager  
Southern Railway, Madurai  
Division Madurai

2nd Party/1st  
Respondent

2. The Chief Operation Manager  
Southern Railway, Park Town  
Chennai-600003

2nd Party/  
1st Respondent

**Appearance:**

For the 1st Party : M/s. G.R. Swaminathan,  
Petitioner Union Authorized Representative

For the 1st & 2nd Party : Sri P. Srinivasan, Advocates  
Managements

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-41011/19/2009-IR (B-I) dated 08.03.2011 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

“Whether the action of the management of Southern Railways in not calculating the out station rest hours for weekly average hours is legal and justified?”

“Whether the action of the management of Southern Railways in implementing the crew link on 8-12-2007 despite notice issued on 06-12-2007 fixing conciliation proceeding on 14-12-2007 amounts to violation of Section-33 of Industrial Dispute Act, 1947? To what relief the Association is entitled?”

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 19/2011 and issued notices to both sides. First Party entered appearance through Authorized Representative and Second Party through Advocate and filed their Claim and Counter Statement as the case may be.

3. The averments in the Claim Statement briefly read as follows :

The Loco Running Staff of Indian Railway constitute workers comprising of the Loco Pilots of Mail and Express Train, Asstt. Loco Pilots, Passenger Pilots, Goods Pilots and Shunting Pilots and stand classified as "Continuous" class as per regulation of hours of work and periodical rest rules for Railway Servants incorporated in Chapter-XIV of Indian Railways Act, 1989. The running staff are booked and utilized as per Link Rosters prepared and effected by the COM/MAS with reference to each divisional set-up and crew depots within division and the workers of goods trains are booked out for their operation of goods trains from one place to the other/destinations. In day to day work, while the workers are working trains they are made to break their duties and wait at stations away from their home stations to pick up their trips to home stations. The workers are expected to come prepared for their duty to be away for 3 or 4 days from their home stations which means they have to be or remain for such period of time under the control and disposal of the Railway management and it is specified under Railway Board's orders on the matter under their number. During the period of waiting at outstations the workers are not permitted or free to leave their place of their relaxation maintained by the Management under record without the permission or relief. Section-134 of the Indian Railways Act, 1989 prohibits any employee from leaving the place of work simply on the plea that he had completed his prescribed hours of work, until he is properly relieved to go. However, the Management is not accounting the period spent at outstation under their control as duty just to exploit the time of workers and avoid paying their overtime allowance, beyond 104 and 108 hours of bi-weekly averaging. In the official rosters only the journey time with P&C is accounted as duty/working hours and the time spent for disposal or orders at outstations are shown as OSR and not accounted as duty and hence it is the urge of the Union to treat and account the period at outstation as duty as such time are not at the disposal and they are not to the place which can be evidently seen from the cases of disciplinary action and penalties imposed for leaving or not available when orders were served for return/pairing trips. The definitions in the HOER, the handbook of compilation of the provisions in the Act, 1989 and rules made under define working hours to say over the period the workers are kept under control of the management of the employer is duty until he is relieved free and liberty to leave his place of work. It also states that such period includes periods of lunch or tea breaks and periods of inaction without any physical exercise even though the

worker is on duty. Hon'ble Justice M.M. Miabhoy observed in the Railway Labour Tribunal Award 1969 "the hours of work commences from the time the workers (places himself) report at the place of work and it extends to the time he is at liberty to go free from his place of work, it includes tea or lunch break and periods of relaxation". As such the urge of the Union for accounting the period of stay of the workers at outstation in action waiting for orders or disposal of the Management on their returning back to home either by working at train or travelling as passenger on duty is quite justified and lawful in characters. On the other part of the schedule referred before the Tribunal he is on the glaring violation and neglect of the provisions and the orders of the RLC under ID Act and such attitude of the Railway Management stands a testimony for their disrespect towards laws and orders of the legal authorities under the law and such conditions need to be addressed with to meet with penal provisions to curb, curtail and discipline them to abide by labour laws. The Union is submitting some of the records as record of evidence, justifications in support of their claim for the being consideration of the Tribunal. The claim may be viewed with due sympathy and pass two orders to protect the interest of the workers to render justice and rule of law.

4. Counter Statement averments briefly read as follows :

Petition is not maintainable on law or on facts. The name of category i.e, Running Staff itself clearly expresses the nature of the duty which necessitates to work back train from a destination e.g. a crew working a train from Madurai to Tirunelveli has necessarily to work another train from Tirunelveli to Madurai for which a stay at outstation between the arrival at Tirunelveli and departure to Madurai is a must. To facilitate the crew to avail proper rest at outstations, necessary infrastructures like running room with all facilities like bed, serving of food and call boys to assist, etc. are provided. Madurai division employees are being utilized for a period of 80 hours (calculated on an average basis for Madurai Division) only against the maximum permissible working hours of 104 for continuous classification under the HOER for a fortnight period. In calculating the outstation rest hours as duty for the calculation of weekly average hours it is to be stated that Chapter-XIV Regulation of Hours of Work and Period of Rest of the Railways Act, 1989 enacted by Parliament, Section-136 of the Act has conferred to the Central Government to make rules and accordingly Railway Servants (Hours of Work and Period of Rest) Rules, 2005 have been made to amend the Railway Servants (Hours of Employment) Rules, 1961. Rule-12 of RS (H&P) Rules, 2005 deals with periodical rest and Sub-Rule (3) is "Locomotive of traffic running staff shall be granted, each month a rest of at least of five periods of not less than twenty-two consecutive hours each or a rest of at least four persons of not less than thirty

consecutive hours each including a full night. The hours of work for this purpose shall be calculated from "signing on" to signing off". Thus the hours of work for the running staff can be taken from the time they sign on and upto the time they sign off e.g. if a running staff commences his duty by signing on at Madurai and reaches Tirunelveli and sign off after completion of his work the duty hours will come to an end. Again if he signs on for performing duty in a train from Tirunelveli the duty hours will commence from that time and will continue till such time he completes his work and sign off at another place. It is clear that time spent on outstation after sign off will not be taken for purposes of duty in terms of the above rules. Further crew link followed now, the running staff of Madurai Division are provided with a five 22 hours and three 30 for a month which is much more than the rest provided in the rules which is five 22 hours four 30 hours only. The running staff of Madurai Division are getting an additional rest of three 30 hours over and above what was provided in the rules. This rest is given to them at their Headquarters only and does not include the rest given to them at outstations. The claim is against the rules and they are not entitled to it. On the advice of the Chief Personnel Officer by letter dated 30.11.2007 communicating the approval of the crew link by the Chief Operations Manager and as per the instructions of the General Manager, Divisional Railway Managers have been advised to implement the crew link from 05.12.2007 and the same was implemented and accordingly introduced at Madurai Division for Mail/Express Trains from 05-12-2007. On the First Party moving before Assistant Commissioner of Labour (Central), Madurai and receiving notice from there by 10-12-2007 only the status-quo order of Assistant Commissioner of Labour (Central), Madurai is only from 06-12-2007 in terms of Section-33 of the ID Act. Hence there is no violation on the part of 2nd Party. The date mentioned as 08-12-2007 as date of implementation of the crew link is not correct. ID is to be dismissed as being devoid of merits.

5. Points for consideration are:

- (i) Whether not calculating the outstation rest hours for weekly average hours is legal and justified?
- (ii) Whether the action in implementing the crew link on 08.01.2007 despite notice dated 06-12-2007 fixing conciliation proceedings on 14-12-2007 amounts to violation of Section-33 of the ID Act?
- (iii) To what relief the concerned workmen are entitled?

6. Evidence consists of the oral evidence of WW1 and Ex.W1 to Ex.W7 on the petitioner's side with no evidence adduced on the Respondent's side.

**Points (i) (ii) and (iii)**

7. Heard both sides. Perused the records, documents and written arguments on either side. Both sides argued in terms of their respective contentions in their pleadings. The thrust of the arguments on behalf of the petitioner is that on account of the breaking of duty of the running staff at outstation/destination away from their home stations and having to wait at outstation in order to pick up their return trips to home station the Railway is not accounting the period spent at outstation as duty. The period of their detention is purely a requirement of their roster and for administrative purpose. At the outstations at nominated places of waiting they are required to wait but are prohibited in using the time duration of such waiting as they desire. Hence their detention at outstation must be treated as duty and counted for the calculation in averaging their weekly hours in fortnight. The provision under Rule-11 of the Running Allowance Rules, 1981 allowing credit of 70 kms. for every 24 hours or part thereof after the expiry of 16 hours from the time of signing off when running staff are detained at outstations is to be construed as enabling to count the periods of detention at outstation for being counted as duty necessitating payment of outstation detention allowance. The act or the rules do not prohibit accounting any part of duty in any trip either on rosters or assignment of work trip. Hence not accounting the rest or waiting period in the outstation is illegal and exploitation of workers. Effecting of change in the crew link w.e.f. 08-12-2007 is in violation of Section-33 of the ID Act despite status-quo order of the Assistant Commissioner of Labour (Central) on 06-12-2007. It is Contempt of Court. Even unrecognized unions can raise ID and therefore petitioner association has locus-standi to file this petition. Under Rule-12(4) the running staff shall not normally be away from Headquarters for more than 3-4 days at a stretch and the periodic rest shall be given at Headquarters which shall always include a night in bed and as far as possible to be once in every 10 days.

8. Contra arguments are that the running duty necessitates to work back train from a destination. To facilitate the crew with proper rest to running crew with bed, serving of food and call boys, etc. are provided. Under Rule-12 of RS (H&P) Rules, 2005, the hours of work for the purpose of calculating rest of locomotive staff shall be calculated from signing on the signing off i.e. between the time of "sign on" or "sign off" the hours of work of the running staff has to be reckoned. It is clear that time spent at outstation after "sign off" will not be taken for purposes of duty. As per the crew link followed now running staff of Madurai Division are getting an additional rest of three 30 hours over and above what was provided in the rules, given at their Headquarters and not including the rest at outstations. The crew link was introduced at Madurai Division from 05-12-2007 as per the orders of the Railway authorities. Under Ex. W6 it could be seen that the status-quo of the Assistant Commissioner of Labour (Central) is

effective from 06-12-2007 in terms of Section-33 of the ID Act. Hence there is no violation on the party of the 2nd Party. Notice of the Assistant Commissioner of Labour (Central) dated 06-12-2007 was received only on 10-12-2007. The allegation is not specific, is general in nature and vague. The same is also not substantiated by clear evidence.

9. On an analysis of the pros and cons of the contentions on either side it is brought home that there is no force in the contentions or claim of the Petitioner Association for calculating period of detention at outstations as hours of weekly average duty. In fact the running staff are extended rest hours at Headquarter Stations and they cannot leave Headquarter Station more than 3-4 days at a stretch. What the rules, in the circumstances provide for has been pointed out on behalf of the Respondent as mentioned above. The claim of the Petitioner Association is therefore not in consonance with rules. Though it may confer them with benefits of some convenience while they are at outstations and are having to wait for some time to work back their train, the said situation is not warranted to be suitably adjusted by the rules framed by the Government of India under Section-136 of the Railways Act to carry out the purpose of Chapter-XIV under which the Railway Servants (Hours of Work) and period of rest) Rules, 2005 have been framed to amend the Railway Servants (Hours of Employment), Rule-1961. The claim for treating the outstations Rest hours as duty is against the rules and cannot be sustained. That the negation of the claim by the Railway in not doing so is therefore not illegal. Dispensation of justice has always to be according to law only. Proved instances of some of the members of the running staff having incurred some hardships or risks in their personal relations in regard to men and matters, while may be persuading factors to moot for a change of the rules by the Government of India to make or amend rules under S.136 of the Indian Railways Act, 1989. Yet until that is done, the rule or the force of the rule, now in vogue, is only to be continued to be observed or followed. The imperative of Rule-11 of the Running Allowance Rules, 1981, by or on parity, cannot be made applicable to the present context in view of the express provision under Rule-12 of RS (H&P) Rules, 2005 specifically providing for the manner of treatment of hours of work for the calculation of rest of locomotive staff. There cannot be any overriding impact of Rule-11 of Running Allowance Rules, 1981 on Rule-12 of RS (H&P) Rules, 2005. As to whether implementing the crew links amount violation of Section-33 of the ID Act as is seen from Ex. W7-Press Release of the Railway the date of implementation is 8-12-2007 and not 5-12-2007 as is the case of the Management. Again without that being deposed to or proved by document on the part of the Management there cannot be said any evidence is adduced to prove that. Pleading is not proof. Management has not come to the box to testify to that. So much so it is only to be held that the date of implementation is



8-12-2007, which is after 6-12-2007, the date of status-quo order of Assistant Commissioner of Labour (Central). Hence it is to be maintained that there is a slight violation of Section-33 of the ID Act.

10. The petitioner is entitled to relief to the above extent only. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the PA, transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 22nd May, 2012)

A.N. JANARDANAN, Presiding Officer

#### Witnesses Examined:

For the 1st Party/ : WW1, Sri R. Kannan  
Petitioner Union : WW2, Sri M. Dhanaraj  
 : WW3, Sri M.S. Rajeev  
For the 2nd Party/ : None  
Respondents

#### Documents Marked :

##### On the petitioner's side

Ex.No.	Date	Description
Ex.W1	6-5-1986	Registration Certificate of the 1st Party
Ex.W2	8-3-2011	Order by the Central Government
Ex.W3	2-8-2008	Penalty Advice issued to Sri A. Sivaraman
Ex.W4	31-3-2003	Penalty Advice issued to Sri Dhanaraj
Ex.W5	21-10-2010	Memorandum issued to Sri M.S. Rajeev
Ex.W6	19-2-2008	Communication by Senior Personnel Officer
Ex.W7	10-12-2007	Press release issued by the Chief Public Relations Officer

#### Documents Marked :

##### On the Management's side

Ex.No.	Date	Description
	N/A	
	नई दिल्ली, 4 जून, 2012	

**का.आ. 2179.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.आई.बी. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 139/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/256/2001-आईआर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012.

**S.O. 2179.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 139/

2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Subsidiary Intelligence Bureau, and their workmen, received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-42012/256/2001-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI J.P. CHAND, PRESIDING OFFICER,  
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

**Case No. CGIT/NGP/139/2002**

Date: 14-05-2012.

Party No.1 : The Joint Director,  
Subsidiary Intelligence Bureau,  
Bungalow No. 19/1, Civil Lines,  
Nagpur.

#### Versus

Party No. 2 : Shri Dharendra Pratap S. Bhagat  
R/o Bajrang Chowk, Behind Fair Price  
Shop, Seminary Hills, Surendra Garh,  
Nagpur.

#### AWARD

(Dated: 14th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of Subsidiary Intelligence Bureau and their workman, Shri Dharendra Pratap S. Bhagat, for adjudication, as per letter No. L-42012/256/2001-IR (CM-II) dated 17-07-2002, with the following schedule:

"Whether the action of the Joint Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Nagpur in terminating the employment of Shri Dharendra Pratap Singh Bhagat, Gardener w.e.f. 14-7-2001 by oral orders is legal and justified? If not, to what relief is entitled?"

2. On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement and accordingly, the workman, Shri Dharendra Pratap S. Bhagat, ("the workman" in short), filed the statement of claim and the management of the Subsidiary Intelligence Bureau, ("Party No. 1" in short) filed its written statement.

The case of the workman as projected in the statement of claim is that he had been in continuous and uninterrupted employment of party no. 1 from the year 1993, as a gardener and he was appointed in 1993 by the party no. 1 as an unskilled labourer and from the date of his appointment, he worked sincerely and honestly and there



was no complain against him by anybody and his service was clean and unblemished and he was performing his duty from 9.AM to 6 PM and also beyond the duty hours, as per needs and requirements of the office and as per the direction of party no. 1 and he was looking after the maintenance of the garden of the office of party no. 1 and also used to work in the canteen, as per orders of the superiors and he was not allowed even to avail the weekly off day and initially he was getting Rs. 25 per day as wages, which was subsequently increased to Rs. 66 per day, which was less than the minimum wages of Rs. 110 per day fixed by the Government, as per resolution dated 21-9-1999 of the Government of Maharashtra and he was hopeful that party no. 1 would give him the status of permanent employee, by taking into consideration his continuous, uninterrupted and meritorious service for more than eight years, but as such status was not given to him, he approached party no. 1 repeatedly to give him the status of permanent employee, but his requests were turned down and by his representation dated 21-10-2000, he applied to give him the status of permanent employee and the letter was received and acknowledged by party no. 1, but instead of giving him permanent status, party no. 1 orally terminated his services w.e.f. 14-07-2001, without any prior notice or without showing any reason and while terminating his service, neither one month's notice nor notice pay in lieu of notice was given to him and such termination was illegal, and he was not given any chance to defend his case and the illegal termination amounted to retrenchment and as such, he was entitled for retrenchment compensation but such compensation, was not paid by party no. 1 to him and the termination was in colourable exercise of powers by party no. 1, without compliance of the mandatory provisions of sections 25-F and 25-G of the Act and after such termination of his service, he repeatedly approached the party no.1 for reinstatement in service, but no action was taken in the matter by party no.1 and lastly he gave the approach notice dated 30-07-2001 to party no. 1 to withdraw the order of termination and to reinstate him in service with continuity and full back wages and though such notice was received and acknowledged by the party no. 1, neither any reply to the said notice was given nor any action was taken in the matter by party no. 1, so he raised the industrial dispute before the ALC (C) Nagpur.

3. The party no.1 in its written statement has pleaded inter-alia that it does not fall under the definition of "industry" as defined under section 2(j) of the Act and the provisions of the Act are not applicable to it and the workman was not at all in its employment and he never worked as a gardener and as the workman was never in its employment, the question of granting weekly off day does not arise and there is no question of termination of his services, or service of one month's notice or payment of one month's pay in lieu of notice and retrenchment compensation and provisions of section 25-F and 25-G are not applicable to it and the workman on some occasions

had worked as unskilled labour on daily wages to weed out grass in the precinct of its office and not on regular basis and there is no vacant post of gardener or workman for maintenance of the office and the workman by taking undue advantage of his having worked on same stray occasions is trying to lay his claim for permanent employment and the allegations made by the workman are totally false and the reference is to be answered in negative.

4. In support of his claim, the workman has examined himself as a witness. The workman has reiterated the facts mentioned in the statement of claim, in his examination-in-chief, which is on affidavit.

It is necessary to mention here that the evidence of the workman remained unchallenged, as none appeared on behalf of party no.1 to cross-examine the workman.

5. It is also necessary to mention here that on 15-06-2009 and thereafter, neither the party no.1 nor anybody else on his behalf appeared in the case, so on 7-12-2011, order was passed to proceed with the case ex-parte against the party no. 1

6. So far the first objection raised by the party no. 1 regarding the non applicability of the provisions of the Act to it, as it is not an industry as per the definition of Section 2(j) of the Act is concerned, from the pleadings of the party no. 1 and applying the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the case the Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa, 1978 (36) F.L.R-266 to this case, it is found that the party no.1 is an industry as per the definition of Section 2 (j) of the Act and the provisions of the Act are applicable to it.

7. In view of the stands taken by the parties, I think it apt to mention the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in this regard, before embarking upon the discussion of the merit of the case.

The Hon'ble Apex Court, in the decision reported in AIR 1966 SC-75 (Employees, Digawadih Colliery Vs. Their workmen) have held that :

"Though Section 25- F speaks of continuous service for not less than one year under the employer, if the workman has actually worked for 240 days during a period of 12 calendar months both the conditions are fulfilled. The definition of "Continuous Service" need not be read into Section 25-B. The fiction converts service of 240 days in a period of twelve calendar months into continuous service for one complete year. The amended Section 25-B only consolidates the provisions of Section 25(B) and 2(eee) in one place, adding some other matters. The purport of the new provisions, however, is not different. In fact, the amendment of Section 25-F of the principal Act by substituting in clause (b) the words "for every completed year of continuous service" has removed a discordance between the unamended section 25B and the unamended Cl. (b)

of Section 25-F. No uninterrupted service is necessary if the total service is 240 days in a period of twelve calendar months either before the several changes or after these. The only change in the Act is that this service must be during a period of twelve calendar months preceding the date with reference to which calculation has to be made. The last amendment has now removed a vagueness which existed in the unamended Section 25-B".

In the decision reported in AIR 1981 SC-1253 (Mehanlal Vs. M/s. Bharat Electronics Ltd.), the Hon'ble Apex Court have held that,

"Industrial Disputes Act (14 of 1947). Section 25-B (1) and (2)- Continuous service-Scope of sub-sections (1) and (2) is different, (words and phrases-Continuous Service)

Before a workman can complain of retrenchment being not in consonance with Section 25-F, he has to show that he has been in continuous service for not less than one year under that employer, who has retrenched him from service. Section 25-B as the dictionary clause for the expression "continuous". Both in principle and are precedent it must be held that Section 25-B (2) comprehends a situation where a workman to not in employment for a period of 12 calendar months, but has rendered for a period of 240 days within the period of 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date, i.e. the date of retrenchment. If he has, he would be deemed to be in continuous service for a period of one year for the purpose of Section 25-B and chapter V-A".

The Hon'ble Apex Court in the decision reported in AIR 2003 SC-38 (M/s. Essen Deinay Vs. Rajeev Kumar) has held that :

"Industrial Disputes Act (14 of 1947- S.25-F, 10-Retrenchment compensation-Termination of services without payment of -Dispute referred to Tribunal-Case of workman/claimant that he had worked for 240 days in a year preceding his termination-Claim denied by management-Onus lies upon claimant to show that he had in fact worked for 240 days in a year-In absence of proof of receipt of salary workman is not sufficient evidence to prove that he had worked for 240 days in a year preceding his termination".

So, it is clear from the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above that for applicability of Section 25-F of the Act, it is necessary to prove that the workman worked for 240 days in preceding 12 calendar months commencing and counting backwards from the relevant date and the burden of such proof is upon the workman.

The present case at hand is now to be considered with the touch stone of the principles enunciated by the

Hon'ble Apex Court and it is to be found out, if the workman has been able to prove that he had in fact worked at least for 240 days in a year preceding his termination. According to the workman, his services were orally terminated on 14-7-2001. So, it is necessary to prove that in the preceding twelve calendar months of 14-07-2001, the workman had worked for 240 days.

8. In this case, besides filing his affidavit, the workman has filed Xerox copies of some attendance register and one alleged duty performance report, in support of his claim of working continuously from 1993 to 14-07-2001.

It is necessary to mention here that the workman has neither in the statement of claim nor in his affidavit has mentioned about the existence of such documents. Such documents have also not been proved and admitted in evidence. So far the called duty performance report is concerned, the same is a computer generated document. The said document does not bear any seal or signature of anybody. Hence the said document has no evidentiary value. So far the Xerox copies of the attendance registers is concerned, it is found that nothing has been mentioned in the same that the same are the Xerox copies of the attendance register maintained by the party no.1. In the said copies, in number of pages, the word "Dhirendra @" has been added before Munna Bhagat to show that the same were attendance sheets of the workman. However, the workman nowhere including in his affidavit has mentioned that his name is Dhirendra @ Munna Bhagat. According to the workman, he was working as the gardener from 1993 to 14-7-2001. It is not the case of the workman that he was helping the gardener. On perusal of the copy of the alleged attendance sheets for February-99 to June- 99, it is found that one C.J. Chidam was working as the "Mali" (Gardener). If C.J. Chidam was working as the gardener, then the claim of the workman that he was working as the gardener does not seem to be correct. The attendance sheets of the months of September, June, May, April, January, February, April, May, June and September, 2000 show "November, 1999" at the top of the sheets, raising suspicion that the same were prepared by Xeroxing the attendance sheet of November, 1999. The most important thing is that the so called attendance sheets relate to the period from November, 1997 to September, 2000. The said documents do not show that the workman in fact had worked for 240 days in the preceding 12 months of 14-07-2001.

As the workman has failed to satisfy the eligibility qualification prescribed in Section 25-F read with Section 25-B of the Act, the provisions of Section 25-F are not applicable to his case and as such, he is not entitled for any relief.

### ORDER

The action of the Joint Director, Subsidiary Intelligence Bureau, Nagpur in terminating the employment

of Shri Dharendra Pratap Singh Bhagat, Gardener w.e.f. 14-7-2001 by oral orders is legal & justified. The workman is not entitled to any relief.

J. P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

**का.आ. 2180.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एन.एल.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चैनई के पंचाट (संदर्भ संख्या 4/2012) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/155/2011-आईआर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

**S.O. 2180.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 4/2012) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of The Neyveli Lignite Corporation Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. 1-22012/155/2011-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASARAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT CHENNAI

Monday, the 14th May, 2012

Present : A.N. JANARDANAN, Presiding Officer

INDUSTRIAL DISPUTE No. 4/2012

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Neyveli Lignite Corporation Ltd. and their Workman)

#### BETWEEN

The General Secretary : 1st Party/Petitioner

N.L.C Workers Solidarity Union Union

A-2, Screw Lane, Block-11

Neyveli-607803

Vs.

The Director/HR : 2nd Party/Respondent

The Neyveli Lignite Corporation Ltd.

Corporate Office

Neyveli-607801

#### APPEARANCE:

For the 1st Party/ : M/s R. Prabhakaran, Advocate

Petitioner Union

For the 2nd Party/ : M/s T.S. Gopalan & Co., Advocate

Management

#### AWARD

The Central Government, Ministry of Labour vide its Order No. L-22012/155/2011-IR (CM-II) dated 11-1-2012 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is:

"Whether the action of the Management of NLC Ltd. in removing the rolls of Sri M. Selvaraj, Senior Technician, Grade-I Employee No. 31648 is legal and justified? To what relief the concerned workman is entitled to?"

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 4/2012 and issued notices to both sides. First Party entered appearance initially and thereafter filed a Vakalat. Second Party entered appearance and filed a Vakalat. Thereafter on 14-03-2012, 22-03-2012, 03-04-2012, 19-04-2012, 30-04-2012 and finally today i.e. 14-05-2012 when the ID stood posted for further proceedings the petitioner did not turn up. No Claim Statement or Counter Statement was filed. Respondent filed Memo of Objection alleging three charges to have been framed against the concerned workman, Sri M. Selvaraj and an enquiry having been conducted which was by a Retired District and Sessions Judge. By the finding dated 28-12-2010 he was found guilty. On 28-05-2011 he was removed from service, which punishment was confirmed by the Appellate Authority by an order dated 18-07-2011. The punishment is fair and proper and is not to be interfered with. The dispute is to be dismissed.

#### 3. Points for consideration are:

(i) Whether the removal from service of Sri M. Selvaraj, Senior Technician, Grade-I is legal and justified?

(ii) To what relief the concerned workman is entitled?

#### Points (i) & (ii)

4. The petitioner remained absent. He has not chosen to adduce any evidence to prove his claim. The contention of the Respondent raised in the Memo of Objection is that the charges against him have been proved in a properly conducted enquiry which was held by a Retired District and Sessions Judge. He was found guilty of charges. Punishment is fair and proper and is not to be interfered with. Needless to say, it is upon the petitioner to substantiate his case that the punishment of removal inflicted on him by the Management is not legal and justified, if it is actually so. When he wishes the Court to be satisfied and made believe that it is so it is for him to discharge that burden

which has not been done. The inevitable conclusion is that the punishment of removal imposed on him is only legal and justified and he is not entitled to any order in his favour.

5. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the PA, transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 14th May, 2012)

A. N. JANARDANAN, Presiding Officer

#### Witnesses Examined:

For the 1st Party/Petitioner : None

For the 2nd Party/1st Management : None

#### Documents Marked:

##### On the Petitioner's side

Ex.No.	Date	Description
	N/A	

##### On the Management's side

Ex.No.	Date	Description
	N/A	

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

**का.आ. 2181.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.ई.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 94/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/59/1996-आईआर (सी-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

**S.O. 2181.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 94/1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between employers in relation to the management of SECL, and their workmen, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-22012/59/1996-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASARAO, Desk Officer

ANNEUXRE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL

TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR

NO. CGIT/LC/R/94/97

Presiding Officer : Shri Mohd. Shakir Hasan

Shri Ramdas Vishwakarma

C/o Shri S.K. Namdeo,

President, NTUC,

Development Area,

Shahdol (MP)

: Workman

Versus

General Manager,

SECL, Johilla area.

Post Nowrozabad Colliery,

Disit: Shahdol (MP)

: Management

#### AWARD

Passed on this 7th day of May 2012

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-22012/59-96-IR(C-II) dated 14-3-97 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:-

"Whether the action of the Sub Area Manager, Birsinghpur Pali, Sub Area of SECL Johilla Area in superceding Shri Ramdas Vishwakarma Mech. Fitter, Category V by promoting juniors to him to the post of Mech. Fitter Category VI vide order dated 26-30-11-94 is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. The case of the workman, in short, is that Shri Ramdas Vishwakarma was initially appointed as General Mazdoor in the year 1972 in SECL and promoted on the post of Helper Category II. Thereafter he was promoted as Khalasi in Cat.III and further as Pump Driver in Cat IV. It is stated that the cadre of Pump Driver and Mechanical Fitter were of equal status and in the same category. As such he was promoted as Mechanical Fitter Cat V w.e.f. 1-1-1990 and was working alongwith one Shri Rampal Singh. The next promotion in the Category No. VI was ordered on 26/30-11-94 to other employees including Shri Rampal Singh and Shri Bansilal but he had been ignored without any reason. He had been discriminated though there was no complaint against him. The workman represented but it was not considered. It is submitted that the workman is also entitled to be promoted as Mechanical Fitter Category VI from the date of his junior Shri Bansilal was promoted with all consequential benefits.

3. The management appeared and filed Written Statement. The case of the management, inter alia, is that the workman was admittedly appointed as General Mazdoor Cat-I on 10-11-1972. Subsequently he was promoted as Helper Cat-II, then Pump Khalasi Cat III on availability of post on 1-1-1979. He was again promoted as Pump Driver Cat IV on 30-4-83. The workman had chosen the job of Mechanical fitter Cat-IV instead of Pump Driver Cat IV as both were of the same category and the management had accommodated on availability of post on 7-7-84. Thereafter he was promoted as Mechanical Fitter Cat-V as per Cadre Scheme I.I.No.30 on 1-1-1990 on Seniority-cum-Merit Basis as per Cadre Scheme. The management did next promotion in the said cadre from Mechanical Fitter V to Mechanical Fitter Cat-VI on 30-11-94 but the said workmen did not appear in

Trade Test as per Cadre scheme organized by the Departmental Promotion Committee (in short DPC). As such he was not considered for promotion by the DPC on 30-11-94 and his name was not recommended by the DPC. Under the above circumstances, the workman is not entitled to any relief.

4. On the basis of the pleadings of the parties, the following issues are settled for adjudication—

I. Whether the action of the management in superseding the workman but promoting Juniors from Mech. Fitter Cat V to Cat VI vide order dated 26/30-11-94 is legal and justified?

II. To what relief the workman is entitled?

5. The workman appeared in the case and filed Statement of claim. He adduced his evidence. Thereafter he became absent. The then Tribunal proceeded the reference ex parte against the workman on 10-9-2008.

#### 6. Issue No. I

The workman Shri Ram Das Vishwakarma is examined in the case. He has supported his case. He has stated that he was appointed General Mazdoor Cat-I in the year 1972. Thereafter he was promoted as Helper Cat-II then Khalasi, Cat-III and then Pump Driver Cat-IV. He has stated that Pump Driver and Mechanical Fitter are in the same category. He and Shri Rampal Singh were promoted as Mechanical Fitter, Category-V vide order dated 1-1-90. He has further stated that on 26-11-94 Shri Rampal Singh and junior workers were promoted as Mechanical Fitter, Category VI but he was not promoted in the said category VI though he was fully competent to be promoted on the said post. In cross-examination, he has stated that there is a channel for promotion. He has admitted that there is no examination for promotion upto Category V. The workman has not filed the cadre scheme and its procedure for promotion. However he has filed the same office order dated 1-1-1990 (Paper No. 7/2) which is also filed by the management to show that he was promoted from Mechanical Fitter Category IV to Mech. Fitter Cat-V alongwith Shri Rampal Singh. He has also filed the admitted office order dated 26-30/11/94 whereby Shri Rampal Singh and others were promoted from Mech. Fitter Cat-V to Mech. Cat-VI. This order doesnot show as to why the workman is not promoted. In absence of cadre scheme and its procedure it is difficult to say that there was any discrimination done to the workman.

7. On the other hand, the management has adduced oral and documentary evidence. The management has filed cadre scheme circulated vide I.I.No. 20/30 dated 26-6-84 which is paper No. 9/11. Clause 3.2 deals promotional channel in Mechanical discipline which is as follows—

“ Clause 3.2

Selection for the posts upto Category V shall be on the basis of seniority-cum-merit and from category V to VI on the basis of merit-cum-seniority. Selection to Supervisory Gr.C shall be on the basis on selection on merit from employees in Category VI. Similar promotion from Gr.C to B and from Gr. B to A shall be on the basis of skill/merit-cum-seniority.”

Thus it is clear that the promotion from Category V to Category VI is on the basis of merit-cum-seniority.

8. Annexure VII-B is the promotion channel of the Mechanical Fitter of the Cadre Scheme which are paper nos 9/9 to 9/10. The said channel shows that the promotion in Mechanical Fitter Category VI is to be done by DPC and Trade Test. Thus it is clear that Trade Test is required for promotion in Cat-VI. The management has filed the DPC report which are paper Nos. 9/4 and 9/5. The report shows that DPC was constituted who met on 15-11-94. It also shows that for promotion from Mech. Fitter Cat-V to Cat-VI a trade test was taken and Shri Ram Singh and Others appeared in the test. Their marks are indicated in the report. The report further shows that the workman Shri Ramdas Token No. 35 had not appeared in the Trade Test as such DPC did not consider his case. The report shows that the management was legal and justified for not promoting the workman vide order dated 26/30-11-94. The management has filed the copy of the notice dated 9-10-94, which is paper No. 9/3, to show that the workman Shri Ramdas was also noticed to appear in Trade Test for considering promotion from Cat- V to Cat-VI. There is no case of the workman that he had appeared in the Trade Test organized by the management. The only contention of the workman is that the promotion in Cat. VI is based on seniority-cum-merit. Thus it is clear from the documents' referred above that the promotion was on the basis of merit-cum-seniority and the workman did not participate in the trade test. As such the action of the management is justified.

9. The management has also examined one witness namely Shri Rajendra Singh who was working as Superintendent Engineer (E&M) from Nov. 90 to April 98. He was also one of the member of the DPC. He has supported the case of the management. He has stated that except the workman Shri Ramdas, all other eligible departmental candidates appeared in the said DPC/Trade Test. He had not attended the said Trade Test held on 15-10-94 and as such his name was not recommended for promotion on the post of Mech. Fitter Cat-VI. He is not cross-examined. His evidence is un rebutted. There is no reason to disbelieve his evidence specially because his evidence is in corroboration with the documentary evidence. Thus it is clear that the workman was not entitled to be promoted w.e.f. 26-30/11/94. This issue is decided against the workman and in favour of the management.

**10. Issue No. II**

On the basis of the discussion made above, it is clear that the workman is not entitled to any relief. It is out of place to say that subsequently the workman appeared in the Trade Test and he is promoted from Mech. Fitter Cat-V to Mech. Fitter Cat-VI by the recommendation of DPC vide office order dated 3-2-99 (Paper No. 8/7). Accordingly the reference is answered.

11. In the result, the award is passed without any order to costs.

MOHD. SHAKIR HASAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

का.आ. 2182.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ.सी.आई. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, जबलपुर के पंचाट (आईडी संख्या 113/1994) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/124/1994-आईआर (सी-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

S.O. 2182.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 113/1994) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workman, which was received by the Central Government on 4/6/2012.

[No. L-22012/124/1994-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASARAO, Desk Officer

**ANNEUXRE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/113/94**

Presiding Officer: SHRI MOHD. SHAKIR HASAN

Shri Bindabai Dongre,  
W/o Shri Omprakash Dongre,  
Near Firanteen Mandir,  
Basantpur, Ward No. 10,  
Rajnandgaon (MP)

... Workman

**Versus**

The Divisional Manager,  
Food Corporation of India,  
PO : Durg (MP)

... Management

**AWARD**

Passed on this 10th day of May, 2012

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-22012/124/F/94-IR(C-II) dated 29-7-94 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :—

“Whether the action of the management of Food Corporation of India in relation to their Rajnandgaon Depot in not including the name of Smt. Binda Bai Dongra W/o Shri Om Prakash Dongra, Hamal for departmentalization and in refusing her employment w.e.f. 1-4-1992 is lawful and justified? If not, to what relief the workman shall be entitled to?”

2. The case of the workman, in short, is that Smt. Binda Bai was working since 1983 at Rajnandgaon Depot of Food Corporation of India (in short FCI) under the contractor as Lady Labourer. In the year 1988 she met an accident and was hospitalized for three months. After discharging from hospital she was unfit for several months. She filed case before the Court at Durg under Workman's Compensation Act. On settlement with contractor Sri Pradeep Mirani of FCI, Rajnandgaon, she received compensation amount. After settlement, the said contractor again engaged her on work and was working regularly. In the year 1990 there was a strike of the Union. Thereafter the work was being taken by the department directly and there was no contractor. The workers of Rajnandgaon were departmentalized w.e.f. 1-4-91 vide order passed by the FCI in May 1992 except this lady worker and few others. It is stated that this lady worker was disengaged w.e.f. March 1992 without notice and without payment of retrenchment compensation. It is alleged that Hafiz Khan, Shanker Sahu and Santosh Sahu were departmentalized w.e.f. 1-4-91 who were not engaged before at Rajnandgaon depot. It is submitted that this worker be reinstated with back wages from the date of termination and the management be further directed to departmentalize her w.e.f. 1-4-91 with all consequential benefits.

3. The management appeared and filed Written Statement to contest the reference. The case of the management, inter alia, is that the FCI is a corporation established under Food Corporation Act, 1964. The non-applicant/management has several godowns and storage depots through out the country who awarded contracts for two years or so for handling and transportation of food grains to the contractors. The contractors were paid on piece rated as per bag only. The contractors engaged labourers and there was no disciplinary or administrative

control on the labourers so engaged by the contractors. The Govt. of India vide notification dated 7-9-90 prohibited the employment of contract labour in few godowns of M.P. including FSD Rajnandgaon under Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Thereafter the Union started pressing for implementation of the notification. It is stated that on 12-4-1991 a settlement was arrived between FCI Management and FCI Workers, Union for departmentalization/regularization of labourers. In terms of settlement, the management had to provide bio-data forms to the Union which was to be filled in by the workers and furnished by the Union to the management. The bio-data was to be examined by the management and the Union. Thereafter after ascertaining physical fitness and age, the management had to issue identity cards to the workers. In terms of settlement, the management finalized 98 handling and 60 ancillary labours of FSD Rajnandgaon after identification process and were regularized w.e.f. 1-4-1991.

4. The further case of the management is that the name of the applicant/workman and 7 others did not appear in the list of labourers whose names were finalized by the management after verification of the bio-datas and identification conducted in association with FCI workers Union. However the names of Shri Santosh Sahu, Shankarlal Sahu and Mohd. Hafiz were in the list whose names were identified by the FCI Management in association with FCI workers Union. It is stated that during the year 1987 to 1992 the name of the applicant/workman does not appear in the attendance register. The applicant was never employed by the management as such the question of giving notice or retrenchment compensation does not arise. Under the circumstances, the applicant/workman is not entitled to any relief.

5. On the basis of the pleadings of the parties, the following issues are framed for adjudication—

I. Whether Smt. Binda Bai was in the employment of management of FCI? If so, whether the action of the management in refusing her employment w.e.f. 1-4-1992 is lawful and justified?

II. Whether the action of the management in not including the name of Smt. Binda Bai for departmentalization is lawful and justified?

III. Relief and costs?

#### 6. Issue No. I

According to the applicant/workman, she was working since 1983 at Rajnandgaon Depot of FCI under contractor and met an accident in the year 1988. She was hospitalized for three months. After discharge from the hospital, she was unfit for several months and compensated by the contractor under workman's Compensation Act by the order of the Court. He was again engaged by the contractor Shri Pardeep Mirani of FCI, Rajnandgaon. In

the year 1990 after strike of the Union, the work was being taken directly by the management. The workman has not filed any document to show that she was working with the contractor and from which date and she was compensated by the contractor Shri Pardeep Mirani by the Court under workman's Compensation Act and thereafter she was again engaged by the said contractor till 1990. It appears that there is existence of document whereby it can be established that she was compensated by the contractor Shri Pardeep Mirani. In absence of those documents, the oral evidence is not believable when there is documentary evidence. However it is clear that it is admitted by the workman that she was not an employee of the management. Now the question is as to whether she was engaged by the management in direct control or not. There is no documentary evidence to show that Smt. Binda Bai was under direct control of the management and she was ever paid wages directly by the management.

7. The workman Smt. Binda Bai is examined in the case. She has stated that in the year 1990 she was paid by the Collector on Collector's rate but no paper is filed to show that she was employed after met with an accident in the year 1988. In cross-examination, she has stated that from 1983 to 1988 she was working under contractor and the contractor had given compensation. There is no documentary evidence to show that thereafter she was again engaged by the contractor. Her evidence is not sufficient to prove that she was in the employment of the management of FCI and was refused her employment w.e.f. 1-4-92.

8. On the other hand, the management specific case is that the Govt. of India vide notification dated 7-9-90 prohibited the employment of contract labour in specified godowns and depots of the FCI for work of handling of food grain including loading and unloading. It is stated that on 12-4-91 a settlement was arrived between FCI management and FCI Workers Union for departmentalization/regularization of labours. Thereafter a list was finalized on furnishing the bio-data by the FCI Workers Union and were regularized w.e.f. 1-4-91. The name of Smt. Binda Bai did not appear in the list furnished by the FCI Union. The management's specific case is that she was never employed by the management.

9. The management has also adduced oral evidence. The management witness Shri S. J. Uke has not turned up for further cross-examination. As such his evidence cannot be looked into. Another witness Shri P. L. Parte was posted as Manager, District Office, Durg. He has supported the case of the management. He has stated that in the year 1989 to 1991 Universal Transport Company was contractor for handling and transporting of Food grains of FCI at Rajnandgaon and there was no control on the labourers of the contractor. His evidence shows that the workman was not under the employment of FCI. He has further stated

that on 1-11-1990 the Govt. of India prohibited contract labour through contractor by notification. They the FCI Workers Union settled with the management on 12-4-1991 for departmentalization of the contract labours of the contractor. He has stated that FCI Workers Union furnished the list of 159 workers with biodatas who were working with the contractor and the name of Smt. Binda Bai did not appear in the list. This clearly shows that she was not working with the contractor at the very time and as such her name was not in the list. There is nothing in the cross-examination to disbelieve the evidence of this witness. His evidence is also in corroboration with the documentary evidence. Thus his evidence shows that Smt. Binda Bai was not in the employment of the management and therefore the question for refusing her in employment w.e.f. 1-4-1992 does not arise.

10. The applicant/workman has filed the copies of settlement dated 12-4-91 arrived between the FCI management and the list of workers finalized by the management on furnishing bio-data of the workers by the FCI Workers Union which are marked as Exhibit W/1 and W/2. The same documents are also filed by the management. These are admitted document. Exhibit W/1 is a settlement dated 12-4-91 arrived in between the management and FCI Workers Union in view of the number of notifications issued by the Govt. under section 10 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 whereby the contract labours were prohibited and the management decided to introduce departmentalization of the contract labours working in the depots through contractors and Rajnandgaon depot of MP was also in the list. Clause 3(c) of the said settlement appears to be the manner in finalizing the list of workers for departmentalization. Clause 3(c) runs as follows—

“The management shall provide bio-data forms to the Union for the number of hands so assessed which would be filled in by the workers and furnished by the union to the management. The bio-data so furnished will be jointly examined by the management and the Union. The same bipartite team will ascertain physical fitness and age of the workmen whereafter the management shall issue identity cards to the workers concerned.”

This settlement clearly shows that FCI workers Union had to furnish the biodatas of the workers who were working with the contractors.

11. Exhibit W/2 is the final list of the labourers of Rajnandgaon which was decided for departmentalization. The said list is filed by both the parties. The said list shows that the name of Smt. Binda Bai does not appear in the list. This clearly shows that Smt. Binda Bai was not working during the relevant period with contractor as such the FCI workers Union had not furnished her bio-data to the management. This clearly shows that Smt. Binda Bai was

not in employment of the management and therefore the question to refuse her employment w.e.f. 1-4-92 does not arise. This issue is decided against the workman and in favour of the management.

## 12. Issue No. II

On the basis of the discussion made above, it is clear that the workers were departmentalized on the basis of biodata furnished by the FCI Workers Union and finalized by the management and the workers Union together. This further shows that these workers who were working at the relevant time were regularized on the identification of the Union. There is no pleading of the applicant/workman that the FCI Workers Union had intentionally omitted her name and had not furnished her bio-data to the management in terms of the settlement. It is evident that Smt. Binda Bai was not working at the relevant period. Thus it is clear that the action of the management in not including the name of Smt. Binda Bai for departmentalization is lawful and justified. This issue is also decided against the applicant/workman and in favour of the management.

## 13. Issue No. III

Considering the entire evidence, I find that Smt. Binda Bai is not entitled to any relief. The reference is, accordingly, answered.

14. In the result, the award is passed without any order to costs.

MOHD. SHAKIR HASAN, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

का.आ. 2183.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, श्रम न्यायालय असंसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/1997) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/167/1996-आई आर (सी-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

S.O. 2183.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 25/1997) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of ECL and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-22012/167/1996-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer



## ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
ASANSOL**

**PRESENT:** Sri Kishori Ram,  
Presiding Officer/Link Officer

**REFERENCE NO. 25 of 1997**

**PARTIES:** The management of Sodepur(R)  
Colliery of M/s. ECL

Vs.

Sh. Rameshwar Prasad Singh

**REPRESENTATIVES:**

For the management : Sri P.K. Das, Ld. Adv.

For the union. (Workman) : Sri S.K. Pandey, Ld.  
Representative

Industry : Coal

State : West Bengal

Dated the- 4-5-12

**AWARD**

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section(1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter No.L-22012/167/96- IR(C-II) dated 20-5-97 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Sodepur(R) Colliery of ECL in not regularizing Sh. Rameshwar Prasad Singh, C.H.P. Khalasi, as Sand Stowing Supervisor is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled and from which date?”

Having received the Order of Letter No. L-22012/167/96-IR(C-II) dated 20-5-97 of the above said reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 25 of 1997 was registered on 30-05-97 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the registered post were sent to the parties concerned.

Sri S.K. Pandey, Ld. Representative for the Union/workman and Sri P.K. Das, Ld. Adv. For the management are present and they submit that the workman Sh. Rameshwar Prasad Singh died and his dependent has been given employment by the management. I find no longer the Industrial Dispute exists. So the case is closed and accordingly an order of “No Dispute” is hereby passed.

## ORDER

Let an “Award” be and the same is passed as no dispute existing. Send the copies of the order to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for information and needful. The reference is accordingly disposed of.

KISHORI RAM, Presiding Officer/Link Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

का.आ. 2184.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, असंसोल के पंचाट (संदर्भ संख्या 59/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/265/1998-आई आर (सी- II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

**S.O. 2184.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 59/1999) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Asansol as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of ECL and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-22012/265/1998-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
ASANSOL**

**PRESENT:** Sri Kishori Ram,  
Presiding Officer/ Link Officer

**REFERENCE NO. 59 OF 1999**

**PARTIES:** Area Org. Secretary, Colliery Mazdoor  
Congress (HMS), Dhemomain Colliery,  
Burdwan

Vs.

The Agent, Dhemomain Colliery, M/s.  
ECL, Burdwan

**REPRESENTATIVES:**

For the management : Sri P.K. Das, Advocate

For the union (Workman) : Sri M. Mukherjee, Advocate

Industry : Coal

State : West Bengal.

Dated - 27-4-12

**AWARD**

In exercise of powers conferred by clause (d) of Sub-section (1) and Sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), Govt. of India through the Ministry of Labour vide its letter No.L-22012/265/98- IR(CM-II) dated 26-5-1999 has been pleased to refer the following dispute for adjudication by this Tribunal.

**SCHEDULE**

"Whether the action of the Management of Dhemomain Colliery of M/s. ECL in dismissing Sh. Tarkeshwar Nunia, U.G. Loader is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Having received the Order of Letter No. L-22012/265/98- IR(CM-II) dated 26-5-1999 of the above said reference from the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi for adjudication of the dispute, a reference case No. 59 of 1999 was registered on 07-6-1999 and accordingly an order to that effect was passed to issue notices through the registered post to the parties concerned directing them to appear in the court on the date fixed and to file their written statements along with the relevant documents and a list of witnesses in support of their claims. In pursuance of the said order notices by the registered post were sent to the parties concerned.

3. The case of the sponsoring union for workman Tarakeshwar Nunia, has been unblemishedly working as U.G. Loader since his appointment at Dhemomain Incline Colliery, Sodepur Area of M/s. ECL. But he was issued Charge Sheet No. DMC/L-6/2/97/27 dated 11-3-97 under Sec.17(i) (c) & (r) Model Standing Order for his alleged attempt to rape and molest Miss Dulali Mejhan, Piece-rated Kamin, UM. No. 125318 in duty which was witnessed by seven co-workers and as well as he was suspended. Denying the charge, the workman replied to it, requesting for withdrawal of suspension order, as he was admitted to Sanctoria Hospital for treatment of a dog bite(rabies) on the same day. On 11-04-97, the workman with his co-worker B.S. Pandey, Miss Dulali Mejhan, witnesses Smt. Allahdi Mejhan and other witnesses attended the Domestic Enquiry, in which Mr. S.K. Chatterjee in his statement alleged the molestation of aforesaid Miss Dulali as compared to the allegation of his attempt to molest or rape her as stated by witnesses Smt. Reba Devi, but none including the alleged victim referred to the charge of molestation or rape. Though it was alleged against the workman as drunk at that time, he was not medically examined for it. In spite of the charge as unproved, the Enquiry Officer held him guilty of the said charge. Neither proper opportunity of hearing was given for his defence nor the Enquiry Report was based on any material of the record. Thereafter, the workman was dismissed from service as per the letter No. ECL/STA/C-6/1822A dated 08-5-1997 of the Deputy Chief Personal Manager of Sitarampur Area

of M/s. ECL. The dismissal of the workman was mala fide, improper and illegal as well as highly shocking for the said charge. The Criminal Case No. 297/1997 initiated against him, in which he was arrested but released on bail, has been settled between both the parties on 05-9-2001 at Asansol Court.

4. Admitting the charge sheet and suspension of the workman, the Management with specific denials adversely pleaded that on finding the explanation of the workman totally unsatisfactory, an enquiry into the charge was fairly held by independent Enquiry Officer properly in accordance with law. The workman duly participated and was given full opportunity for his defence in the enquiry proceeding. At its completion, the Enquiry Officer submitted his enquiry report, holding him guilty of the charge proved against him. Hence, after on careful consideration of all the facts, the Disciplinary Authority awarded him punishment of dismissal as per dismissal order dated 16-6-1997 which was right in view of the gravity of his misconduct involving immoral turpitude. The criminal proceeding against him for it is entirely independent of the disciplinary proceeding against him for it according to the provisions of the Standing Order. The torture upon a female employee on duty is inexcusable in view of the discipline and culture of the industry. His acquittal could not be equated with his such misconduct.

**Finding with reasoning**

In the instant case, after hearing both the parties, on the preliminary point, I find that since the Learned Lawyer of the workman has not challenged the fairness of the enquiry, because the workman had personally appeared and actively participated in Domestic Enquiry availing of the full opportunity for his defence. So the Domestic Enquiry was held to be valid and fair as per Order dated 08-12-04 of the Tribunal in this case. Then the case came up hearing arguments on merits.

Workman Tarakeshwar Nunia himself appeared and submitted that since he was acquitted by the Criminal Court the offence in a Criminal Case for the same charge on the basis of the compromise, so his dismissal from the service for the aforesaid charge of attempt to molest/rape co-female worker Dulali Mejhan, piece-rated Kamin on 11-3-97 was very harsh for him. On the other hand, the Learned Advocate for the management Contended that outraging the modesty of a co-lady worker on duty amounts to graver misconduct of the present workman, so his dismissal as a punishment for his misconduct can not be softened with the compassion of the lady woman and it was quite proportion to the gravity of his misconduct during employment.

On appreciation of the materials available on the case record under Section 11A of the Industrial Dispute Act, I find that workman Tarakeshwar Nunia known as "Khichri" was found guilty of his gross misconduct i.e.

drunkenness, disorderly or indecent behavior, threatening, accusing and assaulting a co-worker and habitual indiscipline under Section 17(i) (e) (g & r) respectively of the Model Standing Order 1946 as per the Enquiry Report dated 13-04-97 (Exhibit M6) which is based on the statements of the witnesses and the workman himself. Such type of indecent miss-deal of the workman with a female worker Dulali Mejhan, piece-rated worker on duty in presence of other co-workers near V.T.C. of Dhemomain Colliery on 11-03-97 goes contrary to the industrial discipline and culture. So I am of the view that the dismissal of the workman for his such hateful and shameful misconduct was quite proportionate to his misconduct of serious nature under the provision of the Model Standing Order. It is remarkable to note that it is a settled law that acquittal of an accused worker in his criminal case for an offence of outraging modesty of a woman will not affect the Departmental Enquiry, because the Enquiry is quite independent of it under the rules of the Company.

In result it is held the action of the management of Dhemomain Colliery, M/s. ECL in dismissing Sri Tarakeshwar Nunia (Khichri), U.G. Loader is quite justified. Therefore, he is not entitled to any relief in this case.

#### ORDER

Let an "Award" be and same is passed as per above. Send the copies of the Award to the Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, for information and needful.

KISHORI RAM, Presiding Officer/  
Link Officer

नई दिल्ली, 4 जून, 2012

का.आ. 2185.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ. सी. आई. के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय संख्या-1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[ सं. एल-22012/166/2000-आई आर (सी-II) ]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th June, 2012

S.O. 2185.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No.-I, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-22012/166/2000-IR (C-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 1, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1) (d) (2A) of the Industrial Dispute Act, 1947.

Reference No. 41 of 2001

Parties : Employers in relation to the management of  
F.C.I. Patna

AND

Their Workman.

Present : Shri H. M. Singh, Presiding Officer

#### Appearances :

For the Employers : Shri A.M. Das, A.G.M.

For the Workman : Shri V. Kumar, Authorised  
Representative,

State : Bihar

Industry : Food

Dated, the 3-5-2012

#### AWARD

By Order No. L-22012/166/2000-IR (C-II) dated 29-1-2001 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of FCI, Patna in not regularising the workman Sh. Birendra Rai and Sh. Girija Bharti, Drivers is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case of the concerned workman is that Birendra Rai was employed by the management of FCI at Regional Office, Patna on 30-8-1994 as Car Driver and he worked so Driver till 5-6-1999 and Shri Girija Bharati was employed on 23-9-1995 and worked till 3-6-1999 regularly as staff Car Driver in the Regional Office, FCI, Patna. They were driving the office car of the then Sr. Regional Manager and other car of the office regularly they were also employed at the disposal of visiting officers. Both the concerned workman have completed much more then 240 days service within 12 calendar months. Birendra Rai was stopped from attending his job w.e.f. 6-5-1999 in utter violation of Sec. 25(F) of the I.D. Act, 1947, whereas Girija Bharati was stopped from attending his job w.e.f. 4-6-1999 and that too in contravention of Sec 25(F) of the I.D. Act. Before retrenching them from their services they were not give notice, notice pay in lieu of notice and compensation. They were being paid wages @ Rs. 50 per day which was much less then the wages of regular driver of the management. Later on their wages was enhanced to Rs. 60 per day. After their retrenchment other person from outside were employed as driver to drive the office vehicle of the

management and they are still driving the office car at Regional Office, FCI, Patna. One Promode Tiwari was employed from outside, Sakthichand Prasad was employed after his retirement and Md. Yanish was also employed to drive the official vehicle of the management but the claim of the concerned workman was not considered and they have been illegally stopped from attending their job with a view to accommodate their own men. There was vacancies against the post of driver at the time of retrenchment and still there are vacancies available as such there is no difficulty is their regularisation. The concerned workman are entitled to get wages and other benefits at par with regular driver from the date of their initial engagement and they are also entitled to for their regularisation w.e.f. 5-5-99 and 3-6-99. In such circumstances, it has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to pass an award in favour of the workman by directing the management to reinstate and regularise the services of the concerned workman as driver w.e.f. the date of their stoppage/retrenchment i.e. 5-5-99 and 3-6-99 with back wages and other benefits.

3. The case of the management is that Birendra Rai and Girija Bharti were not employed by the management of FCI, RO, Patna as regular car driver during the period 30-8-1994 to 5-5-1999 and 28-9-1995 to 3-6-99 respectively. Their services have been utilised on the other hand in FCI, RO, Patna and DO, Patna to run the cars of these offices on daily wages basis as and when required as per their idleness in local market along with several other car drivers engaged for same purpose on daily wage basis as per their availability from the local market. But it is absolutely not true that Birendra Rai and Girija Bharti were engaged by any of the above officers of FCI regularly during the above mentioned period. Birendra Rai and Girija Bharti as and when engaged by RO/DO Patna of FCI were used for driving the cars of these offices for official purpose. There is no such office order that Birendra Rai was deputed to FCI, DO, Patna to drive the car of District Manager, Patna. It was the District Manager, Patna who started availing the services of Sri Rai for driving the car of FCI, DO, Patna from 1-12-1996 to 24-12-1997 that too not regularly but as and when required. They have not completed work for more than 240 days without any break during 12 calendar months of any of the year. As such the question of stopping Birendra Rai and Girija Bharti from driving car of the office 6-5-99 and 3-6-99 respectively in violation of Sec. 25-F of the ID Act does not arise. It has been submitted that from 1st April, 1999 the services of M/s. Bansal Communication Centre, Patna was availed for provision of driver, for driving the cars of FCI, RO, Patna as and when required and as such the allegation of Birendra Rai and Girija Bharti that they were deprived from attending the job for driving the cars of FCI Patna from 6-5-99 and 3-6-99 respectively are baseless and irrelevant. Departmental benefits like salary, leave, OTC, bonus, medical facilities etc. extended by the corporation to its employees/drivers cannot be extended

to drivers engaged from local market or from any agency on adhoc basis on daily wages.

In view of the facts explained above, it has been submitted that the sponsoring union has no right to demand for regularisation of these two persons who have been engaged by the Corporation only on certain occasions as and when required to drive its vehicle.

4. The management produced MW-1, Anand Mohan Das, MW-2, Ajay Kumar Singh and proved documents as Exts. M-1 to M-4.

The concerned workman produced WW-1, Birendra Rai and WW-2, Girija Bharti.

They have filed photo copy of Log Books maintained by them.

5. Argument advanced on behalf of the concerned workmen is that Birendra Rai worked as Driver from 30-8-94 to 5-5-99 and Girija Bharti worked as Driver from 28-5-95 to 3-6-99 Birendra Rai was stopped from working w.e.f. 6-5-99 and Girija Bharti was stopped from work w.e.f. 4-6-99. It has also been argued that they have worked for more than 240 days in a calendar year. They were working with the management even on holidays, but the management is not regularising them.

6 The management argued that they are casual workmen. They are not the employees of the management of FCI. They were engaged for need of the management as and when required.

7. The representative of the workmen argued that the certificates issued by Sr. Regional Manager, Sri K.P. Bakshi and District Manager as per Exts. M-1, M-2 and M-3. They have also filed photo copies regarding of Parliament Election Duty. The Log Books have been signed by them. It only shows that they had been performing duties of General Election. They have filed Log Books as per Ext. M-4.

8. In this respect the evidence of the management is very much material. The management's witness, MW-1, Anand Mohan Das, stated in cross-examination that I cannot say if they were given notice before stopping from service. Even after the stoppage the work is taken through agency. Drivers get Log Book. Details are entered in the log books. I cannot say if advance was being paid to the casual drivers for purchasing diesel.

Management's witness MW-2, Ajay Kumar Singh, stated in cross-examination that the concerned workmen was working there as driver at that time. At that time Sri Bakshi was Sr. Regional Manager and Sri C.P. Gond was District Manager. These certificates are under the signatures of Mr. Bakshi and Mr. Bond. Exts. M-1, M-2 and M-3. The Log Book of FCI, Ext. M-4 is maintained by FCI. I cannot say if any notice pay was given to them or not. At that time Sri K.P. Bakshi was Sr. Regional Manager and Sri C.P. Gond was District Manager who issued certificates

to the concerned workmen, Exts. M-1, M-2, M-3 They have worked as per Ext. M-4. This also maintained by the concerned drivers. It shows that they have worked for more than 240 days. No notice have been given to them for stopping their work. The management is taking work through agency. It shows that vehicle is there, and they are working and it shows that the management want to pay meagre wages to them. As per written statement of the management they have admitted in para 2 that the concerned workmen are regular car driver. Their services have been utilised in FCI, DO, Patna and DO, Patna to run the cars of these offices on daily wages basis as and when required and again it has been stated in para 4 that the District Manager, Patna started availing the services of Sri Rai for driving the car of FCI, DO, Patna from 1-12-1995 to 24-12-1997. Even after their stoppage from service the concerned workmen performed the election duty, It shows that the concerned workmen are entitled for their reinstatement and regularisation from the date of their stoppage/retrenchment.

9. In the result, I hold that the action of the management of FCI, Patna, in not regularising the workmen, Birendra and Girija Bharati, Drivers, is not legal and justified. Hence, the concerned workmen are entitled to be reinstated and regularised i.e. Birendra Rai from 5-5-99 and Girija Bharati from 3-6-99 with 50% back wages and other consequential benefits. The management is directed to implement the award within 30 days from the date of publication of the award.

This is my Award.

H. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2186.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डबल्यू. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 46/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/63/2009-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2186.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 46/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between management of Western Coalfields, Limited, and their workman, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/63/2009-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

### BEFORE SHRI J. P. CHAND, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No. CGIT/NGP/46/2009

Date : 23-5-2012

- Party No. 1 (a). The Chairman-cum-Managing Director,  
Western Coalfields Ltd., Coal Estate,  
Civil Lines, Nagpur.
- (b). The Chief General Manager (IR),  
Western Coalfields Ltd., Coal Estate,  
Civil Lines, Nagpur.
- (c). The Dy. Chief Engineer / HOD GS),  
Western Coalfields Ltd., Coal Estate,  
Civil Lines, Nagpur.

Vs.

- Party No. 2. Shri Suresh Kumar Arya,  
R/o Qtr. No. A/16, WCL Colony,  
Civil Lines, Nagpur.

## AWARD

(Dated : 23rd May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman, Shri Suresh Kumar Arya, for adjudication, to CGIT-cum-Labour Court, Nagpur as per letter No. L-22012/63/2009-IR (CM-II) dated 23-2-2010, with the following schedule:-

"Whether the action of the management of M/s. WCL in awarding the punishment of dismissal from service w.e.f. 19-12-2008 to Shri Suresh Kumar Arya is legal and justified? To what relief is the workman concerned entitled?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement, in response to which, the workman, Shri Suresh Kumar Arya, ("the workman" in short) filed the statement of claim and the management of WCL, ("party no. 1" in short) filed the written statement.

The case of the workman as projected in the statement of claim is that the Party No. 1 is a subsidiary of Coal India Limited and the provisions of Bombay Shops and Establishments Act are applicable to it and he was working as a driver of motor vehicle with Party No. 1 (b) and on 28-7-2008, he was deployed in duty in the Secretariat of the Chairman-cum-Managing Director and he was informed by the CMD's secretariat about allotment of his duty to drive ambassador car no. MI131-II-6483 and accordingly, he took the key of the said car and verified the log book and on such verification, he found the said car not to be in use since 7-7-2008 and he checked with

other drivers and was informed that the said car was kept idle, as it was having problem with the break and just to ensure himself, he took out the car from gate no. 1 for trial and during testing of the car at C.P. Club lawn, he felt restless and had vomiting sensation, so he stopped the car on the road and started vomiting and at that time, he was helped by one Mr. Manoj Anand in washing his face with a bottle of water kept in the car and during that time, an officer, namely, Mr. Ghosal while going on that way in his car faced problem in passing the car, so Mr. Ghosal shouted in anger and hurled abuses at him and when Mr. Ghosal was informed about his not feeling well, Mr. Ghosal instead of showing any pity, warned him that he would face the music and left the place and after some time, when he felt better, he brought back the car and parked the same in the CMD's bungalow and as he was still not feeling well, he was taken to WCL Dispensary by Shri Selokar and after treatment and check up by the doctor of WCL Dispensary, he was referred to Arneja Hospital, where he was treated and was asked to come to the hospital again after 24 hours for check up and the treatment papers of Arneja Hospital were produced in the inquiry initiated against him and he clarified that he had taken the car for testing at 9 a.m. and due to uneasiness, he did not make entry in the log book and on 29-07-2008, a written complaint was filed by Mr. Ghosal against him, alleging that he was taking out fuel from the car on 28-7-2008 and for that investigation was necessary and on 29-7-2008, he was served with a charge sheet under clause 26.01 of the 'Certified Standing Orders, on the allegation that he was found taking out petrol from vehicle MH 31- H-6483 on 28-7-2008, and on 31-7-2008, he replied to the said charge sheet denying the allegations and Shri U.R. Bagade was appointed as the Enquiry Officer and during the enquiry, he was not supplied with copies of the documents and list of witnesses and the management was represented by Shri Arora, Superintending Engineer and the charge being serious, it was necessary to grant permission to him to engage an advocate, but such permission was not granted and the report submitted by the Enquiry Officer was on sided and without evidence and the findings are perverse and the evidence of Shri Ghosal was unreliable and two other witnesses did not support the allegations and it can therefore be held that the charges have not been proved and the conclusions drawn by the enquiry officer are baseless and the final show cause notice issued on 24-11-2008 was mechanical and he filed his reply stating there in about seven defects in the enquiry and the enquiry was conducted in violation of the principles of natural justice and sanction of the appropriate authority was not obtained before dismissing him and the appeal filed by him was rejected without going to the merit of the case and his past service record was clean and excellent and therefore, the punishment of dismissal is shockingly disproportionate. The workman has prayed for reinstatement in service with continuity and back wages.

3. The Party No.1 in its written statement has pleaded that, the provisions of Bombay Shops and Establishment Act are not applicable to it and it has its own Certified Standing Orders which is applicable to it since 1993 and the workman was working as a driver and for the serious act of misconduct committed by him, charge sheet dated 29-7-2008 was served on him and in the said charge sheet, it was alleged inter-alia that on 28-7-2008 at about 9.00 a.m., the workman had unauthorizedly took the key of the Ambassador Car No. MH-31-AH-6483 belonging to the company, from the security guard posted at CMD's Bungalow and took the vehicle from the parking shed of WCL office to outside the company premises and near C.P. Club Lawn, he stopped the car and drained out petrol from the vehicle unauthorizedly and at 9.30 a.m., he brought back the car and parked the same at the parking shed and deposited the key of the vehicle with the security guard and Shri S.K. Ghosal made complaint of the matter to the management of WCL and the workman submitted his reply and the departmental enquiry was conducted by following the principles of natural justice and all the opportunities were given, to the workman to defend himself in the enquiry and he was allowed to engage co-worker and copies of documents were given to him and witnesses were examined in his presence and he was allowed to cross-examine the witnesses and he was also given scope to adduce defence evidence and reasons have been assigned by the Enquiry Officer in support of his findings and the enquiry was legal and proper.

4. As this is a case of dismissal of the workman from service, after holding a departmental enquiry, the validity of departmental enquiry was taken up as a preliminary issue for consideration and as per order dated 22-7-2011, the enquiry conducted against the workman was held to be legal, proper and in accordance with the principles of natural justice.

5. At the time of argument, it was submitted by the learned advocate for the workman that it is clear from the evidence adduced in the departmental enquiry that the workman was not keeping well and the car in question was taken by the workman for testing at 9.00 a.m. and during testing, the workman felt uneasy, so he returned back at 9.30 a.m. and there was no siphoning of petrol and there is absolutely no evidence about theft, dishonesty and therefore, the charge under clause 26.01 is not all proved and the workman being a driver was entitled to test the car, whenever it was lying idle for some days and the charge has not been proved and the findings recorded with reference to such evidence are totally false and the officer in charge of the vehicle was not examined as a witness in the enquiry, so there is no evidence that the car was taken away by the workman illegally and the key of the car was taken from the security guard, therefore, there is absolutely no dishonesty or fraud and the findings of the Enquiry Officer are based on imagination and the

findings are perverse and the order of dismissal dated 19-12-2008 does not disclose that past record of the workman was considered before passing of the said order and as such, the same is liable to be set aside and the workman is entitled for reinstatement in service with continuity and back wages.

6. Per contra, it was submitted by the learned advocate for the Party No. 1 that the enquiry has already been held to be legal, proper and in accordance with the principles of natural justice and the findings of the Enquiry Officer are not perverse and even by applying the tests as laid down by the Hon'ble Apex Court to the present case, it cannot be said that the findings of the Enquiry Officer are perverse and the workman was a driver and it has been proved that he was involved in dishonesty and the Party No. 1 lost confidence in him and the punishment therefore is commensurate with the gravity of the misconduct and there is no scope for the Tribunal to interfere with the same.

7. At this juncture, I think it proper to mention about the jurisdiction of the Tribunal in the matter of interference with the disciplinary matter for punishment. In this regard, it is well settled by string of decisions of the Hon'ble Apex Court that a disciplinary proceeding is not a criminal trial and the standard of proof required is that of preponderance of probability and not proof beyond reasonable doubt and the jurisdiction of the Tribunal to interfere with the disciplinary matters for punishment cannot be equated with appellate jurisdiction and the Tribunal cannot interfere with the findings of the enquiry officer or competent authority, where they are not arbitrary or utterly not perverse and the power to impose penalty on the delinquent workman is conferred on the competent authority and if there has been an enquiry consistent with the rules and in accordance with the principles of natural justice, what punishment would meet the ends of justice is a matter exclusively within the jurisdiction of the competent authority and if the penalty can be lawfully imposed and is imposed on the proved misconduct, the Tribunal has no power to substitute its own discretion for that of the authority.

Keeping in view the settled principles as mentioned above, now, the present case in hand is to be considered.

8. On perusal of the record including the documents of the departmental proceedings, it is found that this is not a case of no evidence before the enquiry officer. It is also found that the findings of the enquiry officer are based on the evidence adduced in the enquiry. The enquiry officer has not taken any extraneous materials into consideration to arrive at the findings. He has analyzed the evidence in a rational manner. He has also assigned cogent reasons in support of his findings. Hence, the findings of the enquiry officer cannot be said to be perverse.

9. So far the proportionality of punishment is concerned, it is found that grave misconduct of theft of fuel has been proved against the workman in a properly conducted departmental proceeding. The party no. 1 has lost confidence in the workman. So, the punishment of dismissal from services imposed against the workman cannot be said to be shocking disproportionate. Hence, it is ordered:—

### Order

The action of the management of M/s. WCL in awarding the punishment of dismissal from service w.e.f. 19-12-2008 to Shri Suresh Kumar Arya is legal and justified. The workman is not entitled to any relief.

J. P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2187.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डबल्यू. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर, के पंचाट (संदर्भ संख्या 39/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/96/2001-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2187.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 39/2002) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. WCL, Nakoda (Ghugus Sub Area), and their workmen, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/96/2001-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

### ANNEXURE

### CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NAGPUR

#### Case No. CGIT/NGP/39/2002

Party No. 1 : The Sub Area Manager,  
WCL Nakoda (Ghugus Sub Area)  
Post : Cementnagar, Ghugus,  
Chandrapur (MS).

V/s

Party No. 2 : Jt. General Secretary,  
Rashtriya Koyla Khadan Mazdoor  
Sangh (INTUC),  
WCL Coal Estate, Nagpur

**AWARD**

(Dated: 22nd May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman, Shri M.B. Nagpure, for adjudication, as per letter No. L-22012/96/2001-IR (CM-II) dated 17-4-2002, with the following schedule:—

"Whether the action of the management of WCL through its General Manager, Majri Area of WCL, at Kuchana, PO : Shembul, Distt. Chandrapur in not regularizing Shri M.B. Nagpure as per settlement dated 02-11-1992 arrived between the management and union is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement, in response to which, the workman Shri M.B. Nagpur, ("the workman" in short) through his union, "Rashtriya Koyal Khadan Mazdoor Sangh (INTUC)", ("the union" in short) filed the statement of claim and the management of WCL ("party no. 1" in short) filed the written statement.

3. In the statement of claim the union made prayer to regularize the services of the workman and to designate him as PIT Supervisor w.e.f. 1-1-1994 or 1-1-1995 and to fix his pay as PIT Supervisor from 1-1-1994 or 1-1-1995 d to pay the arrears.

4. The party no. 1 in the written statement denied the pleadings made in the statement of claim and prayed for answering the reference in negative, stating that the workman is not entitled for any relief.

5. It is necessary to mention here that on 22-5-2012, the case was posted for cross examination of the workman. However, the union representative, (the Joint General Secretary of the union, who had filed the statement of claim on behalf of the workman) filed an application stating that the workman, Shri M.B. Nagpure has already been retired from service of WCL on 29-2-2012 and as such, the present industrial dispute has become infructuous. He made prayer to close the reference on the ground that in view of the retirement, the workman will not get any benefit even if the award is passed in his favour. In view of the application filed by the union representative, it is necessary to pass a "no dispute" award in this case. Hence, it is ordered: -

**ORDER**

The award in this reference be treated as "no dispute" award. The application filed by the union representative is made part of the award.

J. P. CHAND, Presiding Officer

**BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER CGIT, NAGPUR****Ref. Case No. CGIT/NGP/39/2002****Between**

The management of WCL, Majri Area through its  
General Manager

**V/s**

Their workman represented by RKKMS (INTUC) Union  
Nagpur case of Shri M. B. Nagpure

An application to close the proceedings pending before this Tribunal as the workman Sri M.B. Nagpure has retired from service of WCL on 29-2-12 as such the Present I.D. has become infructuous as such the matter may kindly be closed as the workman would not get any benefit even if the Tribunal passes an Award in favour of the workman as he retired from service of WCL on 29-2-12.

Nagpur.

Dated 22-5-12

Sd/-

(G.V.R. Sarma)

for Union

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2188.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. ई. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 284/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/64/2000-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2188.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 284/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure. in the Industrial Dispute between the management of Sohagpur Area of SECL and their workmen, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/64/2000-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

**ANNEXURE****BEFORE SHRI J.P. CHAND, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR****Case No. CGIT/NGP/ 284/2000****Date : 29-05-2012****Party No.1**

The General Manager,  
Sohagpur Area of SECL,  
PO: Dhanpuri, Distt. Shahdol (MP).

**Versus****Party No. 2**

The General Secretary,  
Sanyukta Koyla Mazdoor Sangh (AITUC),  
Sanjay Nagar,  
Distt. Shahdol (MP).



**AWARD**

(Dated: 29th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of SECL and their workman, Shri K.S. Abraham, for adjudication, as per letter No. L-22012/64/2000-IR (C-II) dated 18-09-2000, with the following schedule:—

"Whether the action of the management of Sohagpur Area of SECL, PO: Dhanpuri, Distt. Shahdol (MP) in not promoting Sh. K.S. Abraham from Sr. Cashier in clerical special grade to Chief Cashier in Cash Cadre is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. On receipt of the reference, the parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement and accordingly, the Union, "Sanyukta Koyla Mazdoor Sangh, (AITUC), ("the union" in short) filed the statement of claim on behalf of the workman, Shri K.S. Abraham ("the workman" in short), and the management of the SECL ("Party No.1" in short) filed its written statement.

The case of the workman as presented by the union in the statement of claim is that party no. 1 has laid down certain promotions policies known as cadre scheme for the employees as per the provisions of Joint Bipartite Committee of Coal Industry ("JBCCI" in short) and the cadre scheme is applicable to the employees of party no. 1 and such cadre schemes are not subjected to change/interpretations/modifications/alteration/amendments automatically or arbitrarily by the management on their own or in consultation with the trade unions and such cadre schemes include cadre scheme for ministerial staff (Cash personnel cadre) and cadre for Accounts Personnel and such cadre schemes were violated by party no.1 in the matter of promotion of the workman to the post of Chief Cashier and the workman was promoted as Sr. Cashier, Special Grade on 17-10-1990, after working as cashier since 24-09-1985 at Dhanpuri OCM under the party no.1 and one Shri Udai Pratap Chand, whose initial designation/post was supervisor-cum-clerk was promoted as Accountant in T&S grade 'A' as on 22-09-1995 and he was all along in the cadre of Accounts Personnel and his promotional avenues were in the cadre of Accounts personnel and he had nothing to do with the cadre scheme meant for Ministerial Staff (Cash Personnel Schemes) and as per the cadre scheme, Shri Udai had no claim what so ever in cash personnel cadre and he also did not have the required experience for the said cadre, in comparison to the workman, but party no. 1, in violation of the cadre scheme, re-designated Shri Udai as Senior Cashier and promoted him as Chief Cashier at Area Cash section and subsequently

transferred him to Amlai OCM unit and for changing the designation, the required option was not even exercised by Shri Udai, nor did the party no.1 obtain the same from him and on 24-09-1990, Shri Udai was unilaterally and arbitrarily re-designated as senior cashier with a malafide intention, on the basis that his initial date of joining was earlier to the workman, which ultimately resulted into promotion of Shri Udai as Chief cashier on 09-05-1997 in cash section of Area office at Sohagpur Area, who was subsequently transferred to Amlai OCM unit.

The further case of the workman as presented by the union is that the workman was working in cash section of Dhanpuri OCM as senior cashier, much prior to the re-designation of Shri Udai as senior cashier and the party no.1 wrongfully, maliciously and unilaterally inducted Shri Udai into the cash personnel cadre, which was detrimental to the interest of the workman, who was the senior most senior cashier in the Area Cash department and due to the action of party no. 1, the workman was superseded by Shri Udai in the matter of promotion as Chief Cashier and the seniority of the workman was adversely affected and the case of the workman should have been considered for promotion as Chief Cashier and Shri Udai, a stranger to the cash personnel cadre should not have been inducted by party no.1 in violation of the cadre scheme and the claim of the workman for his promotion as chief cashier with protection of seniority over Shri Udai is quite genuine, rightful and justified.

Prayer has been made by the union for a direction for promotion of the workman w.e.f. 08-05-1997 with all consequential benefits and protection of seniority over Shri Udai.

3. The party no. 1 in its written statement has admitted that there are two separate cadre for accounts and cash personnel viz. cadre scheme for Ministerial Staff (Cash Personnel cadre) and cadre for Accounts personnel and cadre scheme for Ministerial Staff Cadre came into effect in 1984, by implementation instruction no. 34 dated 17-07-1984 and cadre for Accounts personnel came into existence in 1985 by implementation instruction no. 99 dated 22-07-1985 and due to introduction of cash and Accounts cadre, it was necessary to streamline the system in compliance to the cadre scheme and taking the said facts into accounts and also finding the many employees were working as cashiers, though they were not designated as such, the Deputy Chief Finance Manager, Sohagpur initiated note sheet No. 2365 dated 18-09-1992 proposing to invite applications from departmental candidates in cash section to absorb them in cash section and re-designate them as cashier/Sr. Cashier/Chief Cashier and in compliance to such note sheet, the Deputy CPM, Sohagpur directed to submit the details of the persons working as cashiers, but not designated as such, for their re-designation and on receipt of details of such employees, the Deputy CPM, by letter dated 2488 dated 09-10-1992,

directed the concerned officers to obtain and forward options from such employees expressing their willingness to continue in cash section, so as to re-designate them and the Deputy Chief Finance Manager, Sohagpur by letter no. 2465 dated 02-11-1992, forwarded the options submitted by Shri Udai, cashier / cash accounts clerk dated 20-10-1992 and that of Shri M.K. Soni, cashier/cash clerk dated 20-10-1992 to the Deputy Chief Personnel Manager, Sohagpur and the Deputy Chief Personnel Manager, by note sheet no. 1244 dated 29-12-1992, proposed for re-designation of Shri Udai and Shri M.K. Soni in cash cadre and on approval of the proposal by the competent authority, officer order no. 453 dated 20-04-1993 was issued effecting re-designation of Shri Udai and Shri Soni as Sr. Cashier and cashier respectively coming into the said post i.e. from 24-05-1990 and 14-05-1988 respectively and the re-designation of Shri Udai and Shri Soni was done by taking their options in corresponding scale, in compliance to notes 1 and 2 of the cadre scheme and the workman was promoted as Sr. Cashier by order no. 3856 dated 17-10-1990 and Shri Udai was much senior and qualified than the workman and was re-designated/promoted on 24-09-1990 and he was senior to the workman in the said post and Shri Udai was by mistake promoted as Accountant in Technical & Supervisory grade 'A' by office order no. 166 dated 22-09-1995 and when it came to its notice that Shri Udai had already been re-designated as Sr. cashier and did not belong to Accounts cadre, the order no. 166 dated 22-09-1995 was cancelled by office order no. 966 dated 10-01-1996 and though Shri Udai represented against the cancellation of his promotion by letter dated 26-02-1996, no relief was granted to him owing to the reason of his re-designation in cash cadre.

It is further pleaded by the party no. 1 that a D PC was constituted by office order no. 6063 dated 20-02-1997, for consideration of the eligible senior cashiers for promotion to the post of chief cashiers and the committee met on 05-01-1997 and put up the recommendations and there were three vacancies of chief cashiers, out of which, one was reserved for SC & ST employees out of which, one was and out of the three candidates, Viz. Shri Udai, Shri M. Varghese and the workman, Shri Udai and Shri Varghese were selected and promoted as chief cashiers vide office order no. 1113 dated 09-05-1997, as they were at serial no. 1 and 2, as per merit and there were only two vacancies of the post of chief cashiers and the claim of the workman is based on unreal condition and there was never any violation of the cadre scheme and the re-designation of Shri Udai was in strict compliance of the cadre scheme and though Shri Udai was from Account cadre, he was doing the work of cashier and opted for the same and as such, the regularization of Shri Udai as Sr. cashier in line with cadre scheme is legal and justified and as such, the workman is not entitled to any relief.

4. In the rejoinder, it is pleaded by the workman that streamlining the system as claimed by party no. 1 is not

automatic and even the SECL (Company) including Area Manager, Sohagpur was not empowered to violate the cadre scheme and the process of re-designation of Shri Udai did not bear the approval of the company or the corporate office and Shri Udai did not have 5 years experience in the next below grade/post before his re-designation as Sr. cashier as on 24-09-1990 in the cash cadre and due to untimely re-designation of Shri Udai as Sr. cashier, he became senior to the workman and the option submitted by Shri Udai was actually not an option, but a predetermined selection of Shri Udai to please him and for promotion over the workman and the cancellation order of the promotion of Shri Udai is irrelevant in view of the fact that the claim of the workman was related to dated 24-09-1990 and not to what happened on 22-09-1990 and as Shri Udai did not have 5 years of experience in cash section as cashier, prior to his re-designation as on 24-09-1990, his re-designation as Sr. cashier was not at all justified and was not legal, in view of the foot notes in the cash personnel cadre scheme.

5. Besides placing reliance on documents, both the parties led oral evidence in support of their respective claims. The workman examined himself as a witness in support of his claim. His examination-in-chief is on affidavit. The workman in his examination-in-chief has reiterated the facts mentioned in the statement of claim. In his cross-examination, the workman has stated that it may be right to say that the dispute was raised before the ALC on 18-08-1999 and he cannot say if management had obtained the option of Shri V.P. Chand for his change of his designation on 24-09-1990 or not. However, the workman has again stated that the option was taken in 1993 and management was authorized to change the designation of the employees including Shri V.P. Chand by taking option from the employees.

6. One Kishore Pathak, the Personal Manager, SECL, Sohagpur has been examined as a witness on behalf of the party no. 1. The evidence of the said witness is also on affidavit. Witness for the party no. 1 has reiterated the facts mentioned in the written statement, in his evidence on affidavit. It is necessary to mention here that the evidence of this witness has remained unchallenged, as none appeared on behalf of the union to cross-examine him.

7. At the time of argument, it was submitted on behalf of the workman that the cadre scheme is not subjected to any change or modification at the option of the company or the management or even with consultation of the union and Shri Udai had no claim in cash cadre and he had no experience as required in the said cadre scheme and in violation of the cadre scheme, Shri Udai was designated as senior cashier w.e.f. 24-09-1990 vide order dated 24-04-1993, without any working experience in cash cadre and office order regarding promotion of Shri Udai in Accounts cadre w.e.f. 24-09-1990 as Accounts Assistant proves that he was working in Accounts cadre and the re-

designation of Shri Udai as Sr. cashier was done without of his having any experience in cash cadre and as such, the same was not legal and justified and an individual option for a change in the cadre makes the said employee the junior most in the cadre seniority as the change is to be deemed as "on one's own request" and as Shri Udai gave such option, he should have been placed at the bottom of the seniority list and not above the workman and Shri M. Varghese, who was working in cash section as senior cashier and such exercise was done by the management only to give illegal promotion to Shri Udai and therefore, the workman is entitled for the reliefs claimed in the statement of claim.

8. Per contra, the learned advocate for the management, in the written notes of argument, reiterated the stands taken by the party no. 1 in the written statement. It was also submitted that Shri Udai was working as cashier and regularizing him as cashier was in the line with cadre scheme and Shri Udai has already been retired from services of SECL in 2001 and the workman challenged the seniority of Shri Udai by way of raising industrial dispute on 18-08-1999 i.e. after a lapse of six years and after two years of the promotion of Shri Udai and Shri Udai was senior to the workman and the claim of the workman that his colleagues were given promotion by superseding him is incorrect and without any basis and the workman is not entitled for any relief.

In support of such contentions, reliance was placed on the decision reported in 1995-II-LLJ-885 (SC) (Telecommunication Engineering Services Association Vs. Union of India).

9. Before delving into the merit of the matter, I think it necessary to mention here that it is well settled in a number of decisions by the Hon'ble Apex Court that the Tribunal cannot travel beyond the schedule of reference and the adjudication must be done as per the schedule of reference. In this case, the schedule of reference is only in regard the legality or otherwise of not giving promotion to the workman as chief cashier. Nothing has been mentioned in the schedule of reference regarding re-designation of Shri Udai as senior cashier or regarding giving him promotion by the management as Chief Cashier on 09-05-1997. However, the union has virtually challenged the legality of the action of the party no. 1 in re-designating Shri Udai as senior cashier in the statement of claim, which is beyond the schedule of reference made by the Central Government.

10. It is not disputed by the parties that Shri Udai was re-designated as senior cashier in the cash cadre scheme as per order dated 20-04-1993, w.e.f. 24-09-1990. According to the union, such action of party no. 1 was in violation of the cadre scheme and therefore, was illegal, whereas, according to the party no. 1, the re-designation of Shri Udai was in line with the cadre scheme and was done to streamline the cadre scheme and no illegality was

committed by it in that respect. It is necessary to mention here that the materials on record clearly show that no objection was raised either by the union or the workman, when Shri Udai was re-designated as senior cashier w.e.f. 24-09-1990 by office order dated 20-04-1993. It is found from the record that when Shri Udai was promoted as chief cashier as per office order 09-05-1997, the workman was not promoted as chief cashier, then only for the first time the workman raised objection as to the promotion of Shri Udai and the party no. 1 intimated him that as Shri Udai was senior to him as senior cashier, he was given promotion (as per the letter no. 2163 dated 17/19-07-1997 on record). Thereafter also, the union and so also the workman remained silent for about two years without taking any action or raising any industrial dispute. The industrial dispute was first raised by the union before the ALC (Central), Shahdol on 18-08-1999. No explanation has been offered for such delay. So, the claim of the union is a state claim.

11. Foot note 2 of cadre scheme for Ministerial staff (Cash Personnel Cadre) shows that clerical special grade and Tech & Supervisory grade-A can be re-designated as cashier according to the corresponding scales of the said cadre scheme and accordingly, party no. 1 took steps to streamline the cadre scheme. It is found from the documents on record that party no. 1 asked for the name of the persons and other details working as cashier, though not designated so and then obtained the option from the said employees including Shri Udai for their re-designation in cash personnel cadre. So, it cannot be said that the option of Shri Udai was his individual option for a change in the cadre. Hence, there is no force in the contention raised by the union that Shri Udai should have been placed at the bottom of the seniority list of cashier.

It is also found from record that the promotion of Shri Udai as Accountant w.e.f. 22-09-1995 by office order dated 22-09-1995 was a mistake and prior to such order, Shri Udai was already re-designated as senior cashier and such mistake was rectified by party no. 1, by cancelling the promotion of Shri Udai by order dated 10-01-1996. It is also found from record that the case of the workman alongwith Shri Udai and Shri M. Varghese was considered for promotion as Chief Cashier, by the DPC, but as there were only two posts of Chief Cashier, DPC recommended the names of Shri Udai and Shri Varghese for promotion to the post of Chief Cashier and accordingly Shri Udai and Shri Varghese were promoted as Chief Cashier, as per office order dated 09-05-1997. As the name of the workman was not recommended for promotion by the DPC, he was not given promotion to the post of Chief Cashier.

In view of the materials on record and the discussions made above, it is found that there is no force in the contentions raised by the union. Hence, it is ordered:-

#### ORDER

The action of the management of Sohagpur Area of SECL, PO: Dhanpuri, Distt. Shahdol (MP) in not

promoting Sh. K.S. Abraham from Sr. Cashier in clerical special grade to Chief Cashier in Cash Cadre is legal & justified. The workman is not entitled to any relief.

J.P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2189.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 58/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/321/2004-आई आर (सीएम-11)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2189.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58 / 2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Western Coalfield Limited, and their workmen, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/321/2004-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI J.P. CHAND, PRESIDING OFFICER,  
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

**Case No. CGIT/NGP/58/2004** Date: 28-05-2012

**Party No. 1**

The General Manager,  
Pench Area of WCL, PO:Parasia  
Distt. Chhindwara, (M.P.)

V/s

**Party No.2**

The General Secretary,  
Sanyukta Khadan Mazdoor Sangh (AITU C),  
Central Office: CRO Camp Ikalhara,  
Chhindwara, (M.P.)

#### AWARD

(Dated: 28th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman Shri Sunil Das, for adjudication, as per letter No.L-22012/321/2004-IR (CM-II) dated 20-07-2005, with the following schedule:—

"Whether the action of the management of Mathani Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area in

terminating She Sunil Das, General Mazdoor from services is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement in response to which, the workman Shri Sunil Das, ("the workman" in short) through his union, the SKMS (AITUC) ("the union" in short) filed the statement of claim and the management of WCL Pench Area ("party no. 1" in short) filed the written statement.

3. The case of the workman is that while he was working as a D.P.R. in the underground mine of Nehariya, charge sheet bearing No.02/418 dated 07-12-02 was submitted against him and he submitted his explanation, but the management was not satisfied with his explanation and decided to proceed against him in a departmental proceeding and though he attended the inquiry, during the enquiry, he became ill and could not able to attend the inquiry and he gave intimation to the Enquiry Officer in writing about the same and also about the absence of his co-worker, but the Enquiry Officer refused to accept the same and as such, he was compelled to send his application by registered post and inspite of the same, the Enquiry Officer did not stop the enquiry and completed the same, which was nothing but violation of the code of conduct by the management. Prayer has been made by the union to set aside the departmental inquiry and to reinstate the workman in service with continuity and full back wages.

4. The party no. 1 in its written statement has pleaded inter alia that the workman was deployed as D.P.R. at Nehariya UG mine, before his services were terminated on the charges of proved misconduct and the workman was in halt of remaining unauthorized absence and he remained unauthorized absence for more than 10 days which constituted misconduct under the certified standing orders so the workman was issued with a charge sheet and the charges were specific and detailed in the charge sheet and the workman was asked to submit his explanation within 3 days of the receipt of the charge sheet, but he did not submit any explanation and as such, it was decided to hold a departmental enquiry into the charges and Shri G.K. Gupta was appointed as the enquiry officer, vide letter dated 25-03-2003 and the workman received the copy of the said letter on 28-03-2003, but he did not raise any objection either to the constitution of the enquiry or the appointment of the enquiry officer and the enquiry officer vide his letter dated 27-03-2003 fixed the enquiry to 01-04-2003 at 4.00 pm, and advised the workman to appear in the enquiry with his documents, witnesses and co-worker on the appointed date, time and place and the workman received the letter on 28-03-2003 and he appeared in the enquiry on 01-04-2003 and sought for adjournment, on the ground of taking assistance of a co-worker and the enquiry officer allowed the prayer and fixed the next sitting of the enquiry to 05-04-2003 at 03.00 pm, which was noted by the parties including

the workman and on 05-04-2003, though the workman appeared in the enquiry, he did not bring his co-worker and on the request of both the parties, the enquiry was fixed to 11-04-2003, with due intimation to the workman vide letter dated 07-04-2003, which was received by him and on 11-04-2003, the workman did not appear in the enquiry and he also did not send any information to the enquiry officer regarding his inability to attend the enquiry and though the management representative prayed to precede with the enquiry ex-parte, the enquiry officer did not proceed with the enquiry ex-parte and deferred the enquiry to 16-04-2003, for giving another chance to the workman to take part in the enquiry in the interest of natural justice and the workman was intimated about the date of the next sitting of the enquiry by the enquiry officer, vide his letter dated 11-04-2003, which was received by the workman and in spite of receiving the letter and having intimated the date of the departmental enquiry, on 16-04-2003 neither the workman nor, his co-worker appeared in the enquiry and the enquiry officer decided to hold the enquiry ex-parte and accordingly, on 16-04-2003 ex-parte hearing was held and the management representative presented the case of the management and filed documents in support of the charges and thereafter, the enquiry was closed and the enquiry officer submitted his report on 22-04-2003, holding the workman guilty of the charges and while writing the report, the enquiry officer analyzed the evidence and documents produced before him in an objective and unbiased manner and arrived at a natural and reasonable conclusion and a copy of the enquiry report was sent to the workman vide letter dated 24-04-2003, by the Sub Area Manager, Neheriya UG Mine, asking him to offer his comments within a stipulated time and the same was, received by the workman on 03-05-2003 and as the workman did not offer any comments or make any representation against the enquiry report, the Disciplinary Authority after considering the repetitive misconduct and habitual absenteeism, imposed the punishment of termination of his services vide his letter dated 17-05-2003 with immediate effect and while imposing the punishment, the past service record of the workman was taken into consideration and the workman did not file any appeal against the punishment and the enquiry held against the workman was fair and proper and the punishment of termination is legal, justified and proportionate to the charges. It is also pleaded by the party no. 1 that the workman initially attended the enquiry and sought adjournments, but ultimately he did not participate in the enquiry nor sent any information about the reason of his non-attending the enquiry and as such, the enquiry was held ex-parte and the workman had not intimated about the reason of his absence in the enquiry by registered post and even though several opportunities were given to the workman to put up his defence in the enquiry, he did not avail the same and the workman is not entitled for any relief.

5. As this is a case of termination of services of the workman after holding of a departmental enquiry, the validity of the departmental enquiry was taken up as a preliminary issue for consideration and as per order dated 17-08-2011, the departmental enquiry conducted against the workman was held to be proper, legal and in accordance with the principles of natural justice.

6. At the time of argument, it was submitted by the union representative that though the workman appeared in the enquiry on 04-02-2003, but the subsequent dates of enquiry were not intimated to him and as such, he could not able to appear in the enquiry and the Enquiry Officer and the management representative inconnivence with each other, proceeded with the enquiry ex-parte against the workman and as such, the entire enquiry was illegal.

However, at the cost of repetition, it is to be mentioned here that the departmental enquiry conducted against the workman has already been held to be legal, proper and accordance with the principles of natural justice. Hence, there is no scope to consider the submission made by the union representative again in that regard.

7. On the other hand, it was submitted by the management representative that at no stage, the union has challenged about the perversity of the findings of the Enquiry Officer or the quantum of punishment and on that ground alone, the findings of the Enquiry Officer can be held to be not perverse and otherwise also, the Enquiry Officer has based his findings on the evidence adduced in the enquiry and his report is not contrary to the evidence on record and as such, the findings are not perverse. It was further submitted that commission of grave misconduct by the workman has been proved in a properly held departmental enquiry and the punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate and therefore, there is no scope to interfere with the punishment.

In support of such contentions, reliance has been placed on the decisions reported in AIR 1970 SC-1334 (M/s Perry & Co. Ltd. Vs the Labour Court), 1996 LAB IC-467 (SC) (B.C. Chaturvedi Vs Union of India), 2003 LAB IC-757 (SC) (Regional Manager, UPSRTC, Etawah Vs Hotilal), 2005 LAB IC-4158 (SC) (V. Ramina Vs APSRTC) and 2005 LAB IC- 854 (SC) (Bharat Forge Co. Ltd. Vs Uttam Manohar).

So, keeping in view the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above, the present case in hand is to be considered.

8. Perused the record. Admittedly, there is no challenge in the statement of claim or at any stage of this case regarding the perversity or otherwise of the findings of the Enquiry Officer or regarding the proportionality of the punishment by the union. Moreover, from the materials on record, it is found that the Enquiry Officer has given his findings on the basis of evidence

adduced in the departmental enquiry. He has not taken any extraneous material for consideration to reach at the findings. The Enquiry Officer has assigned cogent reasons in support of his findings, after analyzing the evidence on record in a rational manner. This is not a case of no evidence or that the findings of the Enquiry Officer are against the evidence on record. Hence, the findings of the Enquiry Officer cannot be said to be perverse.

9. So far the proportionality of the punishment is concerned, grave misconduct of remaining unauthorized absence for more than 10 days has been proved against the workman in a properly conducted departmental enquiry against him. The punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate to the proved misconduct against him. Taking into consideration the facts and circumstances of the case and applying the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above to the present case in hand, it is found that there is no scope to interfere with the punishment imposed against the workman. Hence, it is ordered:—

#### ORDER

The action of the management of Mathani Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area in terminating She Sunil Das, General Mazdoor from services is legal and justified. The workman is not entitled to any relief.

J. P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2190. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डबल्यू. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 9/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/254/2006-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O.2190**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 9/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of WCL and their workmen, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/254/2006-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE SHRI J.P. CHAND, PRESIDING OFFICER, CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No. CGIT/NGP/9/2007

Date : 20-05-2012

#### Party No. 1

The Chief General Manager,  
WCL, Pench Area, PO: Parasia,  
Chhindwara. (MP)

#### Versus

#### Party No. 2

The General Secretary,  
Sankyukta Koyla Mazdoor Sangh (AITUC),  
Central Office, Iklehra,  
Pench Kanhan Area,  
Chhindwara. (MP)

#### AWARD

(Dated: 30th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman, Shri Patiram, for adjudication, as per letter No.L-22012/254/2006-IR (CM-II) dated 18-01-2007, with the following schedule:—

"Whether the action of the management of M/s. WCL in dismissing Shri Patiram from services w.e.f. 24-12-2005 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Being noticed, the union Sankyukta Koyla Mazdoor Sangh (AITUC) ("the union in short) filed the statement of claim on behalf of the workman, Shri Patiram, ("the workman" in short) and the management of WCL, ("Party No. 1" in short) filed the written statement.

The case of the workman is that while he was working in Nehariya underground mine, a false charge sheet was submitted against him, on the allegations that he remained unauthorized absence from 20-03-2004 and actually, he was undergoing treatment from 20-03-2004 to 03-09-2004 and he had applied for permission to join duty, along with the prescriptions regarding his treatment and the party no. 1 had sent the documents regarding his treatment. to the chief medical officer of Badkuhi hospital, by letter no. 1069 dated 04-10-2004 for verification and thereafter, he worked continuously in the mine and the management after making note sheet for giving him permission to join duty had sent the note sheet to the G.M. Office, Parasia, but as the note sheet was lost, a fresh note sheet was prepared on 09-04-2005 and vide order no. 1.01/2005/05, he was allowed to resume duty, inspite of the same, but the party no. 1 proceeded with the false departmental enquiry and by order dated 10-02-2005, he was dismissed from service and the departmental enquiry conducted by

the party no. 1 was quite illegal, as because, by one hand, he was dismissed from service, but on the other, by order dated 25-05-2005, change of his designation was allowed and by order dated 11-1-2005, his designation was changed. It is also pleaded by the workman that in the departmental enquiry, shri G.A. Dutta was the representative for the management and the second sitting of the departmental enquiry was fixed at 11. A.M. on 09-07-2005 and the departmental enquiry against one shri Salikram was also fixed on the same date and time and in that enquiry also, the enquiry officer and the management representative were the same and it is quite impossible for a single enquiry officer to conduct two different enquires at the same time and as such, it can be held that the enquiry against him was in violation of the principles of natural justice and the entire enquiry was illegal.

3. In its written statement, the party no. 1 has pleaded that the workman was working as a DPR at Neharia UG Mine, before his services were terminated on the charges of proved misconduct and the workman became a habitual absentee, so much so that during the years 2002 and 2003, he had worked only for 113 and 90 days respectively and for the remaining period of the said years, he remained unauthorized absent, without any intimation and he again started to remain absent unauthorisedly without any intimation to the management and without obtaining sanctioned leave from 20-03-2004 and the management after waiting for nearly one year, issued the charge sheet dated 10-02-2005, asking him to submit his explanation and the charges were detailed in the charge sheet and the workman submitted his written explanation on 14-02-2005, denying the charges and as the explanation submitted by the workman was found not to be satisfactory, the matter was referred to a departmental enquiry and Shri G.K. Gupta was appointed as the enquiry officer with intimation to the workman and the workman received the intimation letter, but did not protest either against the constitution of the enquiry or the appointment of the enquiry officer and the enquiry officer fixed the enquiry to 01-07-2005 and informed and advised the workman vide his letter dated 23-06-2005 to attend the enquiry on the date fixed with his witnesses, documents and co-workers, if any, but the workman did not attend the enquiry on 01-07-2005, so the enquiry was adjourned to 09-07-2005, on which date, the workman appeared in the enquiry and filed an application to allow shri Balwant Singh to act his co-worker and the application was allowed by the enquiry officer and at the outset of the enquiry, the enquiry officer explained the procedure of the enquiry to the parties and being asked, the workman did not admit the charges leveled against him and thereafter, the management representative made a statement in support of the charges and the workman made his own defence statement and filed documents, which were taken on record and the workman was cross-examined by the management representative and thereafter, the enquiry was closed with consent of both the parties

and the enquiry officer submitted a detailed report after analyzing the evidence and found the workman to be guilty of the charges and copy of the enquiry report was sent to the workman vide letter dated 30-09-2005/07-10-2005, asking him to submit his comments/reply within 15 days, but the workman did not submit any comments/reply to the enquiry report and considering the serious nature of the misconduct and examining his past service record, the workman was dismissed from services by letter dated 24-12-2005 with immediate effect and the workman had never informed the management nor sent any medical certificate nor applied for leave during the entire period of his alleged sickness and the medical certificates were manipulated later on to cover up the unauthorized absence and when outside treatment certificates are brought, the same are sent to the company doctor for verification and counter signature and the workman was allowed to join duty, pending enquiry and the conversion of the workman from piece rated to time rated had nothing to do with his unauthorized and habitual absenteeism and the enquiry held against the workman was just, fair and proper and his dismissal from services is legal and proportionate to the charges.

4. As this is a case of dismissal of the workman from services, after holding a departmental enquiry, the validity of the departmental enquiry was taken as a preliminary issue for consideration and by order dated 06.07.2011, the departmental enquiry conducted against the workman was held to be legal, proper and in accordance with the principles of natural justice.

5. At the time of argument, it was submitted by the union representative that the workman appeared in the enquiry with his co-worker and denied the charges leveled against him and the workman also produced the evidence in support of his defence case and as the workman was ill, he remained absent from duties and he had intimated about such illness to the office of the management in the hand of one Dinesh Odiya and the workman had produced the documents regarding his illness and treatment in the office of the management and those documents were sent by the management on 04-10-2004 to the Chief Medical Officer, Badkuhi hospital and the workman was all along asking the management to allow him to join his duties and a note sheet was sent to Parasia colliery to allow the workman to join duty, but as the said note sheet was lost, on 09-04-2005 another note sheet was sent in that respect and as per the order of Dy. Chief Personnel Manager, he was allowed to join duty and inspite of production of documents by workman in support of his illness and treatment before the enquiry officer and inspite of proving that he was no guilty, the management imposed the punishment against the workman, without any basis and imposition of such punishment was illegal, unconstitutional and against the principles of natural justice and though according to the Certified Standing Orders, 8 types of punishments have been prescribed, the severe most



punishment has been imposed against the workman, which is illegal and as such, it is necessary to set aside the order of punishment and to reinstate the workman in service.

However, at the cost of repetition, it is to be mentioned here that the departmental enquiry conducted against the workman has already been held to be legal, proper and accordance with the principles of natural justice. Hence, there is no scope to consider the submission made by the union representative again in that regard.

6. On the other hand, it was submitted by the management representative that at no stage, the union has challenged about the perversity of the findings of the Enquiry Officer or the quantum of punishment and on that ground alone, the findings of the Enquiry Officer can be held to be not perverse and otherwise also, the Enquiry Officer has based his findings on the evidence adduced in the enquiry and his report is not contrary to the evidence on record and as such, the findings are not perverse. It was further submitted that commission of grave misconduct by the workman has been proved in a properly held departmental enquiry and the punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate and therefore, there is no scope to interfere with the punishment.

In support of such contentions, reliance has been placed on the decisions reported in AIR 1970 SC-1334 (M/s Perry & Co. Ltd. Vs. the Labour Court), 1996 LAB IC-467 (SC) (B.C. Chaturvedi Vs. Union of India), 2003 LAB IC-757 (SC) (Regional Manager, UPSRTC, Etawah Vs. Hotilal), 2005 LAB IC-4158 (SC) (V. Ramina Vs. APSRTC) and 2005 LAB IC- 854 (SC) (Bharat Forge Co. Ltd. Vs. Uttam Manohar).

So, keeping in view the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above, the present case in hand is to be considered.

7. Perused the record. Admittedly, there is no challenge in the statement of claim or at any stage of this case regarding the perversity or otherwise of the findings of the Enquiry Officer or regarding the proportionality of the punishment by the union. Moreover, from the materials on record, it is found that the Enquiry Officer has given his findings on the basis of evidence adduced in the departmental enquiry. He has not taken any extraneous material for consideration to reach at the findings. The Enquiry Officer has assigned cogent reasons in support of his findings, after analyzing the evidence on record in a rational manner. This is not a case of no evidence or that the findings of the Enquiry Officer are against the evidence on record. Hence, the findings of the Enquiry Officer cannot be said to be perverse.

8. So far the proportionality of the punishment is concerned, grave misconduct of remaining unauthorized absence for more than 10 days has been proved against the workman in a properly conducted departmental enquiry against him. The punishment imposed against the

workman cannot be said to be shockingly disproportionate to the proved misconduct against him. Taking into consideration the facts and circumstances of the case and applying the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above to the present case in hand, it is found that there is no scope to interfere with the punishment imposed against the workman. Hence, it is ordered:

### ORDER

The action of the management of M/s. WCL in dismissing Shri Patiram from services w.e.f. 24-12-2005 is legal and justified. The workman is not entitled to any relief.

J.P.CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2191.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II/श्रम न्यायालय धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 02/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-06-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/210/2004-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2191.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 02/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/210/2004-IR (C-1)]

D. S. S. SRINIVASARAO, Desk Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

PRESENT : Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act. 1947

Reference No. 2 of 2006

PARTIES : Employers in relation to the management of E. J. Area of M/s. BCCL and their workman



**APPEARANCES:**

On behalf of the workman : Mr. S. N. Goswami,  
Ld. Advocate.

On behalf of the employers : Mr. S. Sinha,  
Ld. Advocate.

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th April, 2012

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their order No. L-20012/210/04-IR (C-I), dated 12-1-2006

**SCHEDULE**

"Whether the demand of the Bihar Mines Lal Jhanda Mazdoor Union from the management of BCCL, EJ Area that Sh. A. K. Chatterjee be granted upgradation to grade T & S 'A-I' w.e.f 1-1-2000 in terms of the provisions of I.I.32 under NCWA-VI is justified? If so to what relief is the workman entitled?"

2. The case of the sponsoring union is that workman A. K. Chatterji is presently engaged on the post of the Chief Draftsman in the scale of T & S Grade 'A' in the BCCL, Eastern Jharia Area. He possesses the I. I. T. Certificate of the Draftsman. He had got promotion (SLU) from Grade B to A, as he remained engaged with his service since 1993. He has completed his service in the same grade A for six years on 31-12-1999 more than three years as recommended under para 2 of the Instruction Implementation (I.I.) Order No. 32 of the J.B.C.I. National Coal Salary Settlement 6, according to which the I.T.T. Certificate holder employee completing 3 years service in a Grade on 31-12-1999 stands eligible for further upper gradation in T & S Grade A with financial benefits w.e.f 1-1-2001. But despite his letter on 27-3-2002, later on many ones including review one dt. 28-2-2003 to the Chief Personnel Manager for his claim, it was unconsidered and rejected in violation of the aforesaid settlement informing him as per Management's letter No. GMPER/EJ/2003/1070 dt. 7/8-2-2003 that he was promoted to the post of the Chief Draftsman in Grade A on 11-4-2000, only after waiving it in written, he would get benefits under the said I.I. no. 32. The workman is entitled to it.

The Union in its rejoinder categorically denied all the allegations of the management.

3. The contra pleaded case of the Management with specific denials is that the present Industrial dispute is unmaintainable, as the Union raising the Industrial dispute is unrecognised one having no locus standi to raise an Industrial dispute. Workman A. K. Chatterji is I.T.I. (Mechanical Certificate Holder. He works at Survey Department where there is no need of mechanical personnel.

He was upgraded from T & S Grade B to A on 25-8-1993, and again another S.L.U. (the post of Chief Draftsman with monetary benefits) on 11-4-2000, of which all benefits he enjoyed satisfactorily without an objection until on 27-3-2000 as per the I.I.No. 32 of NCWA VI. On sympathetically and liberal consideration of the workman by the Management, he was instructed to forgo in writing his aforesaid already promotion in order to avoidable the benefits under the I.I., so his demand for it in lack of his written waive of earlier promotion was not acceptable. Moreover the I.I.No. 32 came into the force w.e.f. 11-4-2002 as a special one time package for the I.T.I. personnel. He can not claim for two benefits simultaneously. Hence, the claim of the workman for it was unjustified.

**FINDING WITH REASONING**

4. In this case, WWI Ashish Kumar (A. K.) Chatterjee the workman for the Union examined and cross examined but despite ample opportunity, not a single witness examined for the management.

Sri S. Sinha, the Learned Advocate for the management submits that workman A.K. Chatterjee serving as a Draftsman in the department of Survey was given S.L.U./upgraded to the post of Technical Grade A as a Sr. Draftsman from Grade B as per the office order dt. 25-8-93 (Ext. W.3). and he was promoted to the post of the Chief Draftsman Grade A as per the office order dt. 6-7-2000 (Ext.W4), enjoying the benefits upto 27-3-2002, when I.I.No.32 (Ext.W. 5) came into force, and that the N.C.W.A. provides for no double-benefits, so he is alleged not entitled to it as per the management's letter dt. 7/8-2-03 (Ext.W. 9). Whereas emphatic contention of Sri S. N. Goswami the Learned Counsel for the Union/workman is that since the workman has completed six years more than three years in the same grade as per the aforesaid circular, he is entitled to get next grade of T & S Grade A I as demanded by the Union concerned.

On the pursal and consideration of relevant oral and documentary evidence of the workman (WWI), it is found the indisputable fact that the workman was already promoted to the post of Chief Draftsman Grade A as per the Management's office order dt. 6-7-2000 prior to the 22nd day of Jan., 2002 when the aforesaid I.I. No. 32 of NCWA VI came into force but with retrospective effect w.e.f. 1-1-2000. This circular under para (2) reads as such :

"Existing I.T.I. Personnel who have completed three years in the existing grade as on 31-12-1999 will be notionally placed in the next higher category/grade w.e.f. 1-1-2000 but the financial benefit will accrue w.e.f. 1-1-2001 and this will be personal to them as one time arrangement."

5. In view of unrebutted statement of the workman he was given S.L.U. to the post of Tech. Supervisor Gr. A as Sr. Draftsman as per the office order of the Management dt.25-8-1993 (Ext.W. 3), and was promoted to the post of

Chief Draftsman Gr. A as per the Management's office order dt. 6-7-2000 (Ext. W. 4) which was much later than his remaining in the same grade A of Tech. Supervisor for six years as on 31-12-1999 with S.L.U. only, as contrasted with his notional place in next higher category/grade w.e.f. 1-1-2000 as provided by the circular. At this point the submission of Mr. S. Sinha, the Learned Advocate of the Management, appears to be untenable as misconstrued. The aforesaid circular under its para (2) in its spirit undoubtedly holds good with the case of the workman.

It is therefore awarded that the demand of the Bihar Mines Lal Jhanda Mazdoor Union from the Management of BCCL that A.K. Chatterjee be granted to Grade T & S 'A' I w.e.f. 1-1-2000 in the terms of the provisions of I.I.No.32 of N.C.W.A. VI is quite justified. Therefore, the workman is hereby held to be entitled to his placement in A-I and accordingly his financial benefit to be accrued w.e.f. 1-1-2001 subtracting already drawn.

The management is directed to implement the award within one month from the date of its receipt after its publication in the Gazette of India.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2192.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II/श्रम न्यायालय धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-06-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012/6/2007-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2192.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 53/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. I-20012/6/2007-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

**PRESENT :** Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### Reference No. 53 of 2007

**PARTIES :** Employers in relation to the management of E. J. Area Bhowra of M/s. BCCLtd.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workman : Mr. K. N. Singh, Advocate

On behalf of the employers : None

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 19th March, 2012

#### ORDER

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/6/2007-IR (CM-I), dated, the 17th August, 2007.

#### SCHEDULE

" Whether the action of the Management of Bhowra (N) DG Mines of M/s BCCL in denying wage protection on regularization from PR to TR to S/Shri Sambhu Yadav, Ganesh Kr. Sahish, Bhutnath Singh, Prem Kumar Singh Birbal Majhi, is justified and legal? If not, to what relief are the concerned workmen entitled and from which date ?"

2. None represented either workmen or their sponsoring union. None also appeared on the behalf of the management. Perused the case record. I find that the case has been pending for WS-cum-Rejoinder of the management since 30-08-2008, for which Registered notices dated 8-11-2010, 16-11-2011 & 18-01-2012 and Show Cause notice dated 29-06-2011 were issued to the respective parties through the union viz. The Vice President, Janta Mazdoor Sangh, At Vihar Building, Jharia, Dhanbad and The General Manager, E. J. Area Bhowra of M/s. BCCL, Bhowra, Dhanbad, It appears that in spite of giving sufficient opportunity both the parties even then the union representative/workman never appeared to pursue the case on account of their disinterestedness.

In view of the aforesaid facts, proceeding with the case for uncertainty is worthless and wastage of time, Therefore, the case is closed and accordingly an order of no industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2193.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैं बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण II/श्रम न्यायालय धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 29/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-5-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-20012/250/2002-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2193.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 29/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. BCCL and their workman, which was received by the Central Government on 4-05-2012.

[No. L-20012/250/2002-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

**PRESENT :** SHRI KISHORI RAM, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

**Reference No. 29 of 2003**

**PARTIES :** Employers in relation to the management of Sijua Area of M/s. BCCL and their workman.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : None

On behalf of the employer : D. K. Verma, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 12th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/250/2009-IR (C-I), dated 10-3-2003.

#### SCHEDULE

"Whether the demand of the union from the management of BCCL, Sijua Area to provide employment to Sri Nandal Rajwar as dependent son-in-law of Late Sitaram Rajwar is proper and justified? If so to what relief is the said dependent entitled?"

2. None representation on behalf of the Sponsoring Union/workman nor any workman witness was produced despite the issuance of successive four Regd. Notices dt. 21-4-03, 24-12-2007, 9-11-2010 and 16-11-2011 respectively and one Show Cause Notice dt. 22-9-2011 to the address of the Union noted in the Reference Mr. D. K. Verma, Ld. Advocate for the Management is present.

Perusal of the case records reveals that it has been pending for evidence of the workman since 20-3-2006. Despite providing sufficient opportunity, the Union/workman did not make any appearance for getting the evidence examined. This also shows unwillingness on the part of the Sponsoring Union to contest the case at all. So

the Tribunal does not find any reason to let it continue for the indefinite period. Under the circumstances the case be closed and accordingly, no dispute order is passed as non-existent of any Industrial issue related to providing employment to the dependant son-in-law of the deceased workman.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2194.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में टी. एस. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद केन्द्रीय सरकार में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय-II धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 56/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-06-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/106/2007-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2194.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 56/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. T.S.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-06-2012.

[No. L-20012/106/2007-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 AT DHANBAD

**PRESENT :** SHRI KISHORI RAM, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

**Reference No. 56 of 2007**

**PARTIES :** Employers in relation to the management of M/s. Tata Steel Ltd., Jamadoba, Dhanbad and their workman.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : None

On behalf of the employers : Mr. D. K. Verma,  
Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 12th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute

to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/106/2007-IR (CM-I), dated 23-08-2007.

### SCHEDULE

“Whether the action of the Management of 6 and 7 Pits Colliery of Jamadoba of M/s. Tata Steel Ltd. in re-designating Shri Naushad Ali Khan, Electric Fitter as Roof Bolter, is justified and legal? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. Mr. D. K. Verma, the Ld. Advocate for the management is present. None appears on behalf of the workman/sponsoring union. It transpires from record that this is case of year 2007 and workman/union has not yet filed W.S. The conduct of the workman/union clearly shows that they are not interested to proceed with hearing of this case henceforth. It also appears from the record that two registered notices dt. 5-11-2010 and 2-11-2011 and one Regd. Show Cause Notice dt. 20-11-2011 have already been sent to the union on its address as noted in the Reference but neither the workman nor the union Representative filed Written Statement inspite of giving ample opportunity.

In view of above facts and circumstances, there is no scope to drag this case further for dates together for filling written statement. Accordingly, the case is closed, presuming non-existence of any dispute between the Parties. Hence No dispute Order is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2195.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी.एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 132/1995) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/418/1994-आई आर (सी-I)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2195.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 132/1995) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/418/1994-IR (C-I)]

D.S.S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT : Shri KISHORI RAM, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### REFERENCE NO. 132 OF 1995

PARTIES : Employers in relation to the management of Salanpur Colliery under Katras Area of M/s. BCCL and their workman.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workman : Mr. C. Prasad, Ld. Advocate

On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 26th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/418/94- IR (Coal-I) dated 10-10-1995.

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Salanpur Colliery under Katras Area of M/s. BCCL, in dismissing Shri Naki Khan, Ex-Security Guard w.e.f. 3-5-93 is justified? If not, to what relief Shri Khan is entitled?”

2. The case of workman Naki Khan as sponsored by the Union concerned is that he was a permanent employee as Night Guard of Salanpur Colliery under Katras Area since his employment under the Central of Security Department of M/s. BCCL. A chargesheet dtd. 17-3-1993 was issued to him by the Project Officer of the Colliery who was not an appropriate authority for it. He submitted his reply to it denying the allegation of it. The Management arranged a show of enquiry contrary to laws and natural justice and dismissed as per its letter dtd. 30-4-/3-5-1993. The Security Department did not investigate into the matter of the charges during the chargesheet and dismissal of the workman. He was not given an opportunity to show cause against the order of dismissal. The action of the management was illegal and unjustified. He is entitled to reinstatement in his service with full back wages etc.

Categorically denying the allegations of the Management, the pleading of the union for the workman in its rejoinder is that on submitting of an explanation to the chargesheet, the management firstly did not hold a preliminary enquiry, rather statway set up a department enquiry which was conducted by the Senior Personnel Officer, at whose report, he was dismissed. The Management did not offer his any chance to appeal before the Higher Authority, resulting in serious prejudice to his interest.

3. Challenging the maintainability of the case the contra pleaded case of the Management with specific denials is that workman Naki Khan, the Security Guard of the Colliery, was chargesheet for the theft of two batteries during his duty hours on 16-3-93 under the clause 26-1-2 and 26-1-11 of the Certified Standing order. After finding his reply to it unsatisfactory, it was decided to hold an inquiry into the charge by Sri S.P.N. Singh, the then Senior Personnel Officer, as the Enquiry Officer. The enquiry, in course of which the workman was given full opportunity for his evidence and cross examination of the Management's witnesses was as per the rules of natural justice. On the finding of the Enquiry Officer the charges as proved against the workman, he (workman) was dismissed from the service of the Company as per the Letter No. SP/PD/93/1375 dtd.30-4-3-5-1993. So the action of the management in dismissing the workman in view of seriousness of the offence was fully justified.

4. The further plea of the Management in its rejoinder is that the chargesheet and dismissal order was issued by the appropriate authority. The workman in course of the enquiry did not raise any objection concerning its procedure. In case of holding the enquiry as unfair and improper, the Employers would be allowed to establish it.

#### FINDING WITH REASONING

5. At the very outset, it is pertinent to mention that consequent upon setting aside the previous Award dtd. 8th June, 1999 whereby declaring the action of the management concerned for the dismissal of the workman was held quite justified in the present case as per the order dtd. 18-7-2001 of the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi, passed in C.W.J.C. No. 3639/1999 (R) with the observation:

"The said Naki Khan (workman) may point out the defect, if any, in the enquiry report and file an objection before the Project Officer, Salanpur Colliery of M/s. BCCL, Katras Area, Dhanbad, by 31st Aug. 2001. The said Authority in its turn will take into consideration the objection, as may be preferred by the workman and pass appropriate order by 30th Sept. 2001 it will be open to the competent authority to recall the order of dismissal, it satisfied with the objection, if any, place by the workman."

On the other hand, if the objection is rejected by a reasoned order, it will be communicated to the workman as also the Presiding Officer, Central Govt. Industrial Tribunal (CGIT) No. 2, Dhanbad. In such case, the learned Presiding Officer, the CGIT No. 2, Dhanbad will re-open the Reference Case No. 132/95 and after notice to the parties will decide the case on merit and may appreciate the matter under Section 11(A) of the I.D.Act.

"It is expected that the total formalities will be completed on an early date, preferably within six months."

But unfortunately, the petitioner workman admittedly failed to file his any objection before the authority concerned at any time, it rendered the aforesaid direction of the Hon'ble High Court inexecutable by this Tribunal in reopening the case having no scope for its re-opening for afresh decision as evident from the order dtd. 3-5-2005 of the Tribunal. Later on as per order dtd. 21-10-2005 of the Tribunal instructing the parties at liberty to get further direction of the Hon'ble High Court in respect of future course of action in the case. At last at the W.P. (L) No. 5729/2006 of workman Naki Khan, the Hon'ble High Court of Jharkhand, Ranchi was pleased to dispose of his writ petition, observing as under :

"Considering the aforesaid facts and circumstances, this writ application is disposed of directing the Tribunal to pass final award on the basis of material available on record or after affording the parties opportunity to adduce further evidence, as the case may be. As earlier Award had been set aside by order dtd. 18th July, 2001 passed in C.W.J.C. No. 3639/2001, Learned Tribunal shall treat the case as simple remission of the matter for fresh decision/award."

6. In this reference very earlier on conceding by the Union Representative for the workman to the fairness of the Domestic Enquiry, the Tribunal as per its order dtd. 20-7-1998 held the enquiry as fair and proper, accordingly the produced documents of the Enquiry proceeding were marked as Ext. M.1 to M.9 for the Management for perusal, and thereafter it came for hearing argument on merit.

But after giving both parties opportunity for evidence for final award as result of the remission of the case the workman Naki Khan as WW 1 was examined, cross examined and discharged on 28-3-2008, and the further evidence of the workman was closed on 1-8-2011 but despite ample opportunity, since the management declined to adduce its evidence, so its evidence was closed on 10-1-2012, resulting in its coming up for hearing arguments on merit. Mr. C. Prasad, Ld. Advocate for the sponsoring union/workman submits that the Enquiry was vague for vague charges, it was quite unfair and despite charges unproved, the workman punished with the punishment of his dismissal which was disproportionate to the charge of alleged theft. The evidence of the workman is that not any show cause was given to him before his dismissal. But the contention of Mr. Prasad, the Learned Advocate for the workman about fairness of the Enquiry in the face of the acceptance of the enquiry as fair and proper is untenable. Likewise, the evidence of the workman about not giving him second Show Cause is inadmissible, because despite ample opportunity, he failed to represent or point out any defect in the Enquiry Report so as to be considered by the

Management in setting aside his dismissal as per the Order dtd. 18-7-2001 of the aforesaid Hon'ble High Court in C.W.J.C. No. 3639 (R). So there is no prejudice to the workman whereas Mr. D.K. Verma, Learned Advocate for the Management has to contend that the dismissal of the workman was quite justified in view of the gravity of his misconduct.

7. On appreciation of the materials/the entire domestic enquiry proceeding (Ext. M.1 to M.9) including the statement of Management's witnesses and of the workman under Section 11A of the I.D. Act, 1947, I find that the workman failed to firmly account for his liability while on his duty of guarding the L.M.P. on the south side of Salanpur O.C.P. Project in his third shift from 10 P.M. to 4.00 A.M. on 16-3-1993 but admittedly he did not report of the theft of the two batteries of L.M.P. during his duty hours, if he was solely responsible for the theft of both the batteries due to his dereliction/negligence in his duty, amounting to grave misconduct under clause 26.1.2. of the Certified Standing Order for which his punishment of his dismissal for the service of the company based on the Enquiry Report (Ext. M.7) as per the Project Officer's Letter dtd. 30-4/3-5-1993 (Ext. M.9) was correct.

In result, it is held that the action of the management of Salanpur Colliery under Katras Area of M/s. BCCL in dismissing Shri Naki Khan, Ex. Security Guard w.e.f. 3-5-1993 is quite justified. So he is not entitled to any relief.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2196.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 124/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/552/2000-आई आर (सी-1)]  
डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2196.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 124/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L. and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/552/2000-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT : Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### REFERENCE NO. 124 OF 2001

PARTIES: Employers in relation to the management of Kusunda Area of M/s. BCCL and their workman.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : Mr. C. Prasad, Ld. Advocate

On behalf of the employer : Mr. S. N. Ghosh, Ld. Advocate

State : Jharkhand

Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 26th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/552/2000 (C-I) dated 29-3-2001.

#### SCHEDULE -

"Whether the action of the management of Godhur Colliery of M/s. BCCL in denying employment to dependent Smt. Fatima Bibi wife of Late Khalil Mia, Ex-M/Loader of Godhur Colliery under the provisions of NCWA-V is fair and justified. If not, to what relief is the said dependant of Late Khalil Mia entitled?"

Neither Mr. C. Prasad, the Learned Advocate for the Union/workman Late Khalil Mia's wife/petitioner Smt. Fatima Bibi appeared nor any witness for the evidence of the petitioner produced. But Mr. S.N. Ghosh, the Learned Advocate for the management is present.

After going through the case record, I find that the case has been pending for the evidence of petitioner (workman's wife) since 16-3-2005, for which several registered notices dtd. 14-3-2008, 21-10-2010, 6-7-2011 and 28-10-2011 (the last letter returned as "no trace") were issued to the Secretary, to the Bihar Mines Lal Jhanda Mazdoor Union on its address noted in the Reference specifically, but even then not a single witness for the evidence of the petitioner Smt. Fatima Bibi wife of Late Khalil Mia, Ex M/Loader of Godhur Colliery has been produced. The conduct of the sponsoring union and the petitioner clearly indicates that they are not willing to pursue the case for its proper adjudication. This is the oldest case of the year 2001. Under these circumstances, proceedings with the case for infinity would be mere wastage of time and energy of the Tribunal for nothing. Hence, the case is closed and accordingly an award of no industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2197.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 05/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/365/2000-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2197.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 05/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/365/2000-IR (C-I)]

D.S.S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

**PRESENT:** Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### REFERENCE NO. 05 OF 2001

**PARTIES:** Employers in relation to the management of Sijua Area of M/s. BCCL and their workman.

#### APPEARANCES:

On behalf of the workman : Mr. N.G. Arun, Rep. of Union

On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma, Ld. Advocate  
State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 26th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/365/2000 (C-I) dated 12-1-2001.

#### SCHEDULE

“Whether the demand of the union to regularise Sri Deepak Paswan, in the Clerical Cadre is proper and justified? If so, to what relief is the concerned workman entitled and from what date?”

2. Mr. N.G. Arun, the Union Representative for the workman is not present. Mr. D.K. Verma, the Learned Advocate for the management is present, though no Management's witness is present nor workman Deepak

Paswan. From perusal of the case record, it clearly transpires that previously due to the failure of the sponsoring union concerned to examine any witness without assigning any reason, the evidence of the workman was closed on 29-3-2006, fixing the next date for the evidence of the management, providing the next date as last chance, but even then not a single witness was examined on behalf of the workman even on 7-6-2006. Since thereafter, it came up for the evidence of the management, which as I think would not in any way help in its proper adjudication, because of the fact that in the present case related to the regularisation of the workman Deepak Paswan in the Clerical Grade, onus of proof lies upon the sponsoring union raising the industrial dispute for him. This is the oldest case of the year 2001. Under these circumstance, proceeding with the present case in lack of the interest of the sponsoring union/workman for infinite period is useless. Hence, the management also declined to produce any witness on behalf of the management. Therefore, the case is closed and accordingly an order of no industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

**का.आ. 2198.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 9/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/141/2007-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2198.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 9/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/141/2007-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

**PRESENT:** Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Disputes under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947

#### REFERENCE NO. 9 OF 2008

**PARTIES:** Employers in relation to the management of Katras Area of M/s. BCC Ltd.

**APPEARANCES:**

On behalf of the workman : None

On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 20th March, 2012

**ORDER**

The Government of India, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/141/2007-IR(C-I) dated the 21st January, 2008.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Katras of M/s. BCCL in denying regularisation as Electrical Supervisor T & S Gr. “A” to Shri Mohan Lal Srivastava, Foreman (Electrical), is justified and legal? If not, to what relief is the concerned workman entitled and from which date?”

2. None represented either workman or sponsoring union. Mr. D.K. Verma, Ld. Advocate for the management is present. Perused the case record, I find that the case has been pending for filling Written Statement of the workman since 18-3-2011, for which Registered notices dated 18-3-2011, 11-5-2011, 11-10-2011 & 30-11-2011 and Show Cause notice dated 01-07-2011 were issued to their Union Representative on its address as noted the Reference. The Organisation Secretary, R.C. M.S. Rajendra Path, Dhanbad. It appears that in spite of giving sufficient opportunity to the Union/workman, even then the union representative/workman never appeared to pursue the case on account of their disinterestedness.

In view of the aforesaid facts, proceeding with the case for uncertainty is worthless and wastage of time. Therefore, the case is closed and accordingly an order of No industrial dispute existent is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2199.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या 28/2011) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/62/2009-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2199.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 28/2011) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court-II, Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11012/62/2009-IR(C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.2, MUMBAI**

Present : K. B. KATAKE, Presiding Officer

Reference NO. CGIT-2/28 of 2011

**Employers in relation to the management of Go  
Airlines (India) Pvt. Ltd.**

The Manager  
Go Airlines (India) Pvt. Ltd.  
Neville House  
J. N. Heredia Marg  
Ballard Estate  
Mumbai-400 001

**AND****Their Workmen**

Ms. Madhuri Sudhakar Ugaokar  
C/o. Jayat Rohankar  
LG-94-22 Shivshrushti Road  
Brush Wali Chawl  
Nehru Nagar  
Kurla (E)  
Mumbai

**APPEARANCES:**

For the Employer : Mr. Prasad Pathare,  
Representative

For the Workmen : No appearance

Mumbai, dated the 27th March, 2012

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour & Employment by its Order No. L-11012/62/2009-IR (CM-I), dated 18-5-2011 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2 (A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of GO Airlines (India) Pvt. Ltd. in terminating Ms. Madhuri Sudhakar Ugaokar from their services w.e.f. 2-7-2009 is legal and justified? To what relief the workman is entitled?”

2. After receipt of the reference, notices were issued to both the parties. Union's notice returned un-served with postal remark 'unclaimed'. It amount to service. Since Second party workman did not remain present, again



notices were issued to the parties vide Ex.6. Second party workman did not appear and file the statement of claim. Without Statement of claim, the reference cannot be decided on merits and the same deserves to be dismissed. Thus I pass the following order :

### ORDER

Reference stands dismissed for want of prosecution.  
Date: 27-3-2012

K. B. KATAKE, Presiding Officer/Judge  
नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2200.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में. बी.सी.सी. एल. के. प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 18/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/634/1997-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2200.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 18/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-I, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/634/1997-IR (C-I)]

D.S.S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1) (d) (2A) of the Industrial disputes Act, 1947

Reference No. 18 of 1998

PARTIES: Employers in relation to the management of Bhowra Area of M/s. BCCL.

#### AND

Their Workmen

Present : Shri H.M.Singh, Presiding Officer

#### APPEARANCES:

For the Employers : Shri B.M. Prasad,  
Advocate

For the Workman : Shri B.B.Pandey, Advocate  
State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, the 16th May, 2012

### AWARD

By Order No. L- 20012/634/97-IR (Coal-I) dated 27-4-1998 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of

sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bhowra Area of M/s. BCCL in dismissing Shri H.N. Singh, Ex-O.S. w.e.f. 28-3-1996 from the services of the company is justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. The case of the concerned workman is that he was working as Office Superintendent in the Estate Department, Bhowra Area at Bhowra office under M/s. BCCL. He was issued charge-sheet dated 5/7-4-90 for the charges mentioned in the said chargesheet. He submitted his explanation on 10-4-90 denying the charges emphatically. The management conducted a departmental enquiry relating to the said charges ignoring the principles of natural justice. The management did not supply a copy of the enquiry report to the concerned workman and dismissed him w.e.f. 3-7-93. He preferred a writ petition being CWJC No. 1997 of 1993 (R) before Hon'ble High Court Ranchi bench, Ranchi and the Hon'ble set aside the dismissal order. Later on the said management dismissed him w.e.f. 28-3-96 on the basis of above referred enquiry proceedings and enquiry report etc. The dismissal of the concerned workman is unjustified and he is entitled to be reinstated with full back wages.

It has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to answer the reference in favour of the concerned workman by directing the management to reinstate him with full back wages and consequential benefits.

3. The case of the management is that the concerned workman was working as Office Superintendent Estate Department at Bhowra Area of M/s. BCCL was charge-sheeted vide order dated 5/7-4-90 for fraud and dishonesty in connection with the employer's business and property as to favoured some persons, namely, Dilip Mahato and Ganesh Mahato, ward of Sri Joyti Mahato and Nimal Mahato respectively against Khata No. 65 against 1.42½ Acres of land which is less than 2 (two) Acres of land percapita and as such they were not entitled to get the employment as per norms of the company, was issued to him. The concerned workman submitted his reply which was not found satisfactory by the management and accordingly an enquiry officer was appointed to conduct the enquiry against the concerned workman. After holding domestic enquiry the Enquiry Officer submitted his report holding the concerned workman guilty of the charge levelled against him and on the basis of the report of the Enquiry Officer, the concerned workman was dismissed by the competent authority from service w.e.f. 2-7-94. The concerned workman preferred a writ before the Hon'ble High Court, Ranchi Bench, Ranchi in 1993. After hearing Hon'ble High Court was pleased to set aside the same and sent back to the disciplinary authority with

direction thereto, accordingly after observing the formalities as enunciated he was dismissed from service w.e.f. 28-3-96 vide order dated 28-3-96. The action of the management in dismissing the service of the concerned workman is justified.

Accordingly, it has been prayed that the Hon'ble Tribunal be pleased to pass an award by rejecting the claim of the union.

4. The management produced MW-1, Bhagwan Prasad and MW-2, S.A. R. Bizvi and proved documents as Exts. M-1 to M-15. The concerned workman examined himself as WW-1.

5. In the meantime concerned workman died on 11-3-2010 and his son, Satendra Kumar Singh, filed petition for substituting him in the case as he is the only son and legal heir in his family. His mother already died on 19-7-2000 as per death certificate. The substitution petition was allowed.

6. The domestic enquiry was held to be fair and proper by order dated 4-2-2010. Thereafter the case was heard on merit.

7. The argument advanced on behalf of the concerned workman is that he was Office Superintendent Estate Department at Bhowra Area. He was clerk, so he is not responsible for showing excess of land. The charge-sheet has been issued for doing this work for fraud and dishonesty in connection with the company's business and property as to favoured Dilip Mahato and Ganesh Mahato ward of Joyti Mahato and Nirmal Mahato respectively against Khata No. 65 against 1.42½ Acres of land which is less than 2 Acres per capita as per norms of the company.

This shows that the concerned workman has done fraud with the business of the company for which proper enquiry was conducted and after enquiry he was found guilty and the enquiry was found fair and proper.

8. Considering the above facts and circumstances I hold that the action of the management of Bhowra Area of M/s. BCCL in dismissing Shri H. N. Singh, Ex.-O.S. w.e.f. 28-3-96 from the services of the company is justified and the concerned workman is not entitled to any relief.

This is my award.

H. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2201.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-1, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 67/1998) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/633/1992-आई आर (सी-1)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2201.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 67/1998) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-I, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/633/1992-IR (C-I)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference U/s. 10(1) (d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 67 of 1998

**PARTIES:** Employers in relation to the management of M/s. B.C.C.Ltd.

AND

Their Workmen

**Present :** Shri H.M.Singh, Presiding Officer

#### APPEARANCES:

For the Employer : None

For the Workman : Shri Prabodh Kumar, Advocate

State : Jharkhand Industry : Coal

Dated, the 17th May, 2012

#### AWARD

By Order No. L-20012/633/92-IR (C-I) dated 14-8-1998 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. BCCL, in not regularising the services of S/Shri Arjun Pandit and 15 others (as per details given in the Affidavit No. 53 dated 14-6-95 sworn by Sri Arjun Pandit and in the inspection report dated 30-6-95 of Sr. P.O. Sri Amit Bhushan, Sendra Bansjora Colliery) who are engaged for the supply of domestic coal to the staff of the Sendra Bansjora Colliery from 1981 till date is legal & justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The case of the concerned workman is that they had been working as Mazdoor for supply of domestic coal to the staff of Sendra Bansjora Colliery from 1981 under the Dangal Head Shri Arjun Pandit. The work of fuel coal supply in different quarters of employees of the Sendra Bansjora colliery by the concerned workman is of

permanent nature. They were performing the jobs under the supervision of the management. All the workman have put more than 240 days attendance in every year. They represented before the management for their regularisation but without any effect. Thereafter an industrial dispute was raised before the ALC(C) which ended in failure and the Ministry of Labour, Govt. of India, has referred the dispute for adjudication to this Tribunal.

It has been prayed that the Hon'ble be pleased to pass an award holding that the action of the management of M/s. BCCL in not regularising the service of S/Sri Arjun Pandit and 15 other from 1981 till date is illegal and justified and the concerned workmen are entitled to be regularised from the date of their doing the said job.

3. The case of the management is that one Arjun Pandit was awarded contract of supplying domestic coal in 1981 to some employees and officers of the colliery. For performing the contract work, Arjun Pandit was paid on the basis of the actual work done per bullockcart/thela and ricksaw load at the prescribed rate of the company. The sponsoring union raised an industrial dispute with the management and demanded regularisation of domestic coal supplier of the Sendra Bansjora colliery. The management had never engaged the aforesaid persons for supply of domestic coal to the company's employee and hence there is no employer-employee relationship between them. The demand of the union that Arjun Pandit and others were doing the perennial nature of job, such as, loading and unloading of coal is baseless, meritless, improper and unjustified. As a matter of fact, Arjun Pandit, the contractor had been supplying domestic coal to some employees of the company. In such circumstances it has been submitted that the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/s. BCCL in not regularising the services of S/Sri Arjun Pandit and 15 others in the company from 1981 in legal, proper and justified and the aforesaid persons are not entitled to any relief.

In view of such submission it has been prayed that the Tribunal be pleased to pass an award holding that the action of the management is justified and the concerned persons are not entitled to any relief.

4. Both the parties have filed their respective rejoinders admitting and denying the contents of some of the paragraphs of each other's written statement.

5. The management produced MW-1, Amit Bhusan, MW-2, Kalyan Kumar Choudhary and MW-3, K.K. Brahmachari and proved documents as Exts. M-1, to M-3.

On behalf of the workmen WW-1, Arjun Pandit, has been examined and documents have been proved as Exts. W-1 to W-11.

6. Main argument advanced on behalf of the workmen that they had been working in Sendra Bansjora Colliery sine 1981 relating to the job of transportation of domestic coal to the employees of B.C.C.L. which is

permanent nature of job, but since 12-3-1998 they have been stopped from the work by the management. For carrying out their job they used to cover a distance of about 3 K.M. In this respect they have filed Ext. W-1 attendance register and order placed by the management, Exts. W-2 to W-2/11, for supply of coal.

7. The management's representative argued that the concerned persons are workers of the contractor for supply of coal to the staff and officers of the company for which order is placed. They are not the employees of the management and for this payment is made through voucher.

8. In this respect WW-1, Arjun Pandit in his cross-examination at page 2 stated that we had received the order from the management for the supply of coal. We used to get the payment from the management through vouchers.

It shows that they are never workers of the management and they never worked under the management. There is no relationship of master and servant with the management and the concerned persons.

9. Considering the above facts and circumstances I hold that the action of the management of Sendra Bansjora Colliery of M/S. BCCL in not regularising the services of S/Sri Arjun Pandit and 15 others, who are engaged for the supply of domestic coal to the staff of the Sendra Bansjora Colliery from 1981 till date is legal and justified. Hence, the concerned persons are not entitled to any relief.

This is my Award.

H. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2202 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार में जेट एयर वेज के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चैन्सई के पंचाट (संदर्भ संख्या 61/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/29/2009-आई आर (सीएम-1)]  
डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2202 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 61/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Jet Airways and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11012/29/2009-IR (CM-I)]

J. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

**ANNEXURE**  
**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT**  
**INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,**  
**CHENNAI**

Monday, the 30th April, 2012

**PRESENT : A.N. Janardanan, Presiding Officer**

**INDUSTRIAL DISPUTE NO. 61/2009**

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of M/s. Sahara Airlines Ltd. and their Workman)

**BETWEEN**

Sri P. Udaya Kumar

I Party/Petitioner

Vs.

1. M/s. Sahara Airlines  
Limited L-70/329,  
Mahipalpur Extension  
New Delhi-110037

2nd Respondent/1st  
Party

2. M/s. Sahara India  
Commercial Corpn. Ltd.  
Sahara India Centre, 8th  
floor No. 2, Kapoorthala  
Complex Aliganj  
Lucknow-226024

2nd Respondent/  
2nd Party

3. M/s. Jet Airways Ltd.  
SM Centre, Andheri-  
Kurla Road, Andheri East  
Mumbai-400059

2nd Respondent/3rd  
Party

**APPEARANCES:**

For the Petitioner :

In person

For the 2nd Respondent/  
1st Party :

M/s. Gupta & Ravi

For the 2nd Respondent/  
2nd Party :

M/s. V. Devraj, Auth.  
Representative

For the 2nd Respondent/  
3rd Party :

M/s. Gupta & Ravi

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour and employment vide its Order No. L-11012/29/2009-IR (CM-I) dated 19-6-2009 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is :

“Whether the demand of Sri P. Udaya Kumar for his absorption in Jet Lite by the Management of Jet Airways with reference to the Share Purchase Agreement of dated 1-4-2007 entered by the Management of Jet Airways (India) Ltd., Sahara India

Commercial Corporation Ltd. and others and Sahara Airlines Ltd. is justified and legal? (ii) To what relief is the workman concerned entitled?”

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 61/2009 and issued notices to both sides. Petitioner appeared in person. 1st and 3rd Respondent by lawyer and 2nd Respondent by Authorized Representative. Petitioner filed Claim Statement. 2nd and 3rd Respondent filed Counter Statement. 1st Respondent did not file Counter Statement.

3. Pointst for consideration are :

(i) Whether the demand of Sri P. Udaya Kumar for his absorption in Jet Lite by the Management of Jet Airways is justified and legal?

(ii) To what relief the concerned workman is entitled?

**Points (i) & (ii)**

4. After entering appearance by both sides the matter stood posted for further proceeding, the matter stood stayed by the Hon'ble High Court of Madras for sometime. Even after the vacating of stay by the Hon'ble High Court petitioner ceased to be present or represented for quite a long time and thereafter till 25-4-2012 to which the case was adjourned for his appearance as a last chance but that day also he did not turn up. Needless to say no evidence has been adduced to prove his demand for absorption as prayed for in his Claim Statement but which was requested to be rejected by the Respondents in their Counter Statements. Here the claim not being conceded to by the Respondents and the petitioner having not proved his entitlement, the demand is only to be held as not justified and legal and that the petitioner is not entitled to any relief. So ordered.

5. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 30th April, 2012)

A.N. JANARDANAN, Presiding Officer

**Witness Examined**

For the 1st Party/Petitioner

: None

For the 1, 2nd & 3rd Party/Management

: None

**Documents Marked on the petitioner's side**

Ex. No.

Date

Description

Nil

**On the Management's side**

Ex. No.

Date

Description

Nil

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2203 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार डब्ल्यू. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच,

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 82/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/3/2005-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

**S.O. 2203 .**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 82/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between management of Pench Area of WCL, and their workman, which was received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/3/2005-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI J.P. CHAND, PRESIDING OFFICER,  
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR**

Case No. CGIT/NGP/82/2005

Date: 28-5-2012

Party No. 1 : The General Manager,  
Pench Area of WCL  
Distt. Chhindwara, (M.P.)

V / s

Party No. 2 : The General Secretary,  
SKMS (AITUC), CRO Camp,  
Iklehra, Distt. Chhindwara (M.P.)

#### AWARD

(Dated : 28th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the Industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman Shri Satish Kumar, for adjudication, as per letter No. L-22012-3-2005-IR (CM-II) dated 27-10-2005, with the following schedule :—

"Whether the action of the management of Mathani Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area in terminating Sh. Satish Kumar, General Mazdoor from services is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. On receipt of the reference, parties were noticed to file their respective statement of claim and written statement, in response to which, the workman Shri Satish Kumar, ("the workman" in short) through his union, the SKMS (AITUC) ("the union" in short) filed the statement of claim and the management of WCL Pench Area ("party no. 1" in short) filed the written statement.

3. The case of the workman is that, while he was working as general mazdoor in Mathani colliery, a charge

sheet dated 29-3-1998 was issued against him by the party no. 1, but he did not receive the copy of the charge sheet and as such, there was no question of his submitting any explanation to the said charge sheet and there was no necessity of initiation of the departmental enquiry, because as he had remained absent without intimation, party no. 1, after issuance of a warning letter, dated 9-2-1998 allowed him to join his duties, which clearly shows that party no. 1 was satisfied with his clarification and for that he was allowed to join his duties and without giving him a copy of the charge sheet, the party no. 1 forced him to attend the departmental enquiry and due to such compulsion, he attended the departmental enquiry and he intimated the enquiry officer about the non-receipt of the charge sheet but the enquiry officer did not supply a copy of charge sheet and proceeded with the enquiry and as such, the enquiry is illegal. The workman has prayed for his reinstatement in service with continuity and full back wages.

4. The party no. 1 in its written statement has pleaded inter-alia that the workman was appointed on 28-1-96 as a general mazdoor, in place of Smt. Bhawati, Ex-Wagon loader and according to the terms of the appointment, the workman was required to put in at least 80% of the attendance besides other conditions and in the year of appointment, i.e. in 1996, he worked for 133 days, which was less than the stipulated condition and in 1997, his attendance was very poor due to his unauthorized absence and from July 1997 to December 1997, his attendance was nil and his attendance in other months was also very poor and the details were spelt out in the charge sheet and due to the unauthorized absence of the workman, he was charge sheeted vide charge sheet no. 98/272 dated 29-8-1998 and he was asked to submit his written explanation and he received the charge sheet, but did not file any explanation and as such, order was passed for initiation of the departmental enquiry against him and the workman was intimated about the appointment of the enquiry officer vide letter dated 21-1-1988, in which the charge sheet number and date thereof were specifically mentioned and the workman received the said letter and the enquiry officer fixed the enquiry to 11-10-1998, vide his letter dated 6-10-1998 and in that letter also, the charge sheet number was mentioned and the workman received the said letter and on 11-10-1998, the workman submitted an application before the enquiry officer for adjournment of the enquiry, on the ground of absence of his co-worker and in that application, the workman had mentioned the charge sheet number and he did not mention about non-receipt of the charge sheet and the enquiry officer adjourned the proceeding to 14-10-1998 and on 14-10-1998, the workman appeared before the enquiry officer along with his co-worker and filed an application for allowing Shri Phoolchand Navik as his co-worker and the application was allowed and before the enquiry officer, the workman told about the non-receipt of the copy of the charge sheet

by him and when the enquiry officer read over the charge sheet and asked him as to whether he admitted the same or not, the workman denied the charges and he did not demand the copy of the charge sheet from the enquiry officer and from the said facts, it was obvious that he had fully understood the charges and not feel handicapped due to the same and then the enquiry was adjourned to 16-10-1998, which was noted by the parties and on 16-10-1998, the workman and his co-worker did not appear and the enquiry was adjourned to 28-11-1998 and the date of adjournment was intimated to the workman vide letter no. 98/1248 dated 23/24-11-1998, by Registered Post, in the address recorded in Form "B" Register and on 28-11-1998, neither the workman nor his co-worker appeared before the enquiry officer and as such the enquiry officer proceeded with the enquiry ex-parte against the workman and on that day, the management representative filed documents and examined some witnesses in support of the charges and thereafter, the enquiry was closed by the enquiry officer and the enquiry officer submitted his report to the Disciplinary Authority, holding the workman guilty of the charges and while writing the report, he summed up the proceedings and analyzed the evidence in an objective manner and there is no perversity in the report and the Disciplinary Authority went through the enquiry report carefully and after being satisfied that the enquiry had been done in a fair and proper manner, terminated the services of the workman and before the termination of the service of the workman, he was supplied with a copy of the enquiry report vide letter no. 98/928 dated 28-12-1998 and he was asked to offer his comments on the same within 15 days of the receipt of the same and in the said communication, the proposed punishment was also mentioned and though the workman received the said letter, he did not submit any reply or comments and under the said circumstances and considering the serious nature of the misconduct, the services of the workman were terminated vide letter no. 98/051 dated 19-1-1999 of the Sub Area Manager with the approval of the Competent Authority and the workman did not file any appeal against the punishment imposed against him and the enquiry held against the workman was just, fair and proper and the punishment imposed against him also justified and proportionate to the charges.

It is also pleaded by the party no. 1 that the workman had received the copy of the charge sheet and no inference can be drawn from the fact that as he was allowed on duty, the same amounted to condonation of misconduct and on receipt of the letter of enquiry, the workman did not represent about the non-receipt of the charge sheet by him and he also did not demand a copy of the charge sheet and as such, the said submission is an afterthought and the workman while seeking adjournment from the enquiry officer had referred to the charge sheet no. 272 and as such, the pretext that no charge sheet was received by him is not correct and the workman was asked to appear

in the enquiry in his own interest and the workman had never expressed before the enquiry officer about his being coerced to attend the enquiry, but on the contrary, the enquiry was adjourned on the application of the workman and as such, the allegations made in paragraph seven of the statement of claim are incorrect and untenable and the enquiry officer read over the charges to the workman and the workman did not demand a copy of the charge sheet from the enquiry officer or the colliery manager, even though he had told that he did not receive the same and therefore, the workman is not entitled for any relief.

5. As this is a case of termination of the services of the workman, after holding of a departmental enquiry, the validity of the departmental enquiry was taken up as a preliminary issue for consideration and as per order dated 17-8-2011, the departmental enquiry conducted against the workman was held to be proper, legal and in accordance with the principles of natural justice.

6. At the time of argument, it was submitted by the union representative that the workman was attending the departmental enquiry and due to some reason, he could not be able to attend the enquiry on 16-10-1998, to which date the enquiry was fixed and the Enquiry Officer in violation of the principles of natural justice, proceeded with the enquiry ex-parte against the workman and from the documents produced by the management representative, it can be found that the workman was regularly attending his duties and he was not a habitual absentee and as such, the entire proceeding is illegal.

However, at the cost of repetition it is to be mentioned here that the departmental enquiry conducted against the workman has, already been held to be legal, proper and accordance with the principles of natural justice. Hence, there is no scope to consider the submission made by the union representative again in that regard.

7. On the other hand, it was submitted by the management representative that at no stage, the union has challenged about the perversity of the findings of the Enquiry Officer or the quantum of punishment and on that ground alone, the findings of the Enquiry Officer can be held to be not perverse and otherwise also, the Enquiry Officer has based his findings on the evidence adduced in the enquiry and his report is not contrary to the evidence on record and as such, the findings are not perverse. It was further submitted that commission of grave misconduct by the workman has been proved in a properly held departmental enquiry and the punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate and therefore, there is no scope to interfere with the punishment.

In support of such contentions, reliance has been placed on the decisions reported in AIR 1970 SC-1334 (M/s. Perry & Co. Ltd. Vs the Labour Court), 1996 LAB IC-467 (SC) (B.C. Chaturvedi Vs Union of India), 2003 LAB IC-757 (SC) (Regional Manager, UPSRTC, Etawah Vs Hotilal),

2005 LAB IC-4158 (SC) (V. Ramina Vs APSRTC) and 2005 LAB IC- 854 (SC) (Bharat Forge Co. Ltd. Vs Uttam Manohar).

So, keeping in view the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above, the present case in hand is to be considered.

8. Perused the record. Admittedly, there is no challenge in the statement of claim or at any stage of this case regarding the perversity or otherwise of the findings of the Enquiry Officer or regarding the proportionality of the punishment by the union. Moreover, from the materials on record, it is found that the Enquiry Officer has given his findings on the basis of evidence adduced in the departmental enquiry. He has not taken any extraneous material for consideration to reach at the findings. The Enquiry Officer has assigned cogent reasons in support of his findings, after analyzing the evidence on record in a rational manner. This is not a case of no evidence or that the findings of the Enquiry Officer are against the evidence on record. Hence, the findings of the Enquiry Officer cannot be said to be perverse.

9. So far the proportionality of the punishment is concerned, grave misconduct of remaining unauthorized absence for more than 10 days has been proved against the workman in a properly conducted departmental enquiry against him. The punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate to the proved misconduct against him. Taking into consideration the facts and circumstances of the case and applying the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above to the present case in hand, it is found that there is no scope to interfere with the punishment imposed against the workman. Hence, it is ordered:

### ORDER

The action of the management of Mathani Colliery of Western Coalfields Limited, Pench Area in terminating Sh. Satish Kumar, General Mazdoor from services is legal and justified. The workman is not entitled to any relief.

J.P. CHAND, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 जून, 2012

का.आ. 2204 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार डब्ल्यू.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नागपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 7/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 22012/253/2006-आई आर (सीएम-II)]

डी. एस. एस. श्रीनिवास राव, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th June, 2012

S.O. 2204.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 7/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Nagpur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of WCL, and their workmen, received by the Central Government on 5-6-2012.

[No. L-22012/253/2006-IR (CM-II)]

D. S. S. SRINIVASA RAO, Desk Officer

### ANNEXURE

BEFORE SHRI J. P. CHAND, PRESIDING OFFICER,  
CGIT-CUM-LABOUR COURT, NAGPUR

Case No. CGIT/NGP/07/2007

Date : 30-5-2012

Party No. 1 : The Chief General Manager,  
WCL Pench Area, PO : Parasia,  
Chhindwara. (MP)

### Versus

Party No. 2 : The General Secretary,  
Sankyukta Koyla Mazdoor Sangh  
(AITUC),  
Central Office, Iklehra,  
Pench Kanhan Area,  
Chhindwara. (MP)

### AWARD

(Dated : 30th May, 2012)

In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of section 10 of Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ("the Act" in short), the Central Government has referred the industrial dispute between the employers, in relation to the management of WCL and their workman, Shri Saalikram, for adjudication, as per letter No. L-22012/253/2006-IR (CM-II) dated 19-01-2007, with the following schedule :—

"Whether the action of the management of M/s. WCL in dismissing Shri Saalikram from services w.e.f. 24-12-2005 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Being noticed, the union Sankyukta Koyla Mazdoor Sangh (AITUC), ("the union" in short) filed the statement of claim on behalf of the workman, Shri Saalikram, ("the workman" in short) and the management of WCL, ("Party No. 1" in short) filed the written statement.

The case of the workman is that he was working as a Mazdoor in Nehariya Mine and on 12-06-2004 (wrongly mentioned as 12-06-2007 in the statement of claim), a false charge sheet was submitted against him on the allegation of his remaining unauthorized absence from 13-02-2004, even though, after a second warning, he had been allowed to join duty on 10-03-2004, and from the said fact, it was presumed that the party no. 1 was satisfied with his explanation and as such, after giving a warning, he was allowed to join his duty, but party no. 1 as per order dated 12-06-2004, instituted a departmental enquiry against him to make enquiry, which clearly shows that the party no. 1 was bent upon to dismiss him from services by hook or crook and as he had been ill, he had remained absent and he attended the departmental enquiry and one Shri J.K. Gupta was the enquiry officer and one Shri A. Dutta was the representing officer in the enquiry and Shri Gupta and Shri Dutta were also the enquiry officer and representing officer respectively in the departmental enquiry held against one Shri Patiram and the 2nd sitting of the both enquiries were posted to 09-07-2005 at 11.00 AM and it is quite natural that it is not possible for a single enquiry officer to proceed in two different enquiries at the same time and as such, it can be presumed that the enquiry was not in accordance with the principles of natural justice and the same is illegal and the 3rd sitting of the enquiry had been fixed to 18-08-2005 and in the proceedings of that sitting, though it had been mentioned that the enquiry officer and presenting officer were present had been shown, but the enquiry officer had not put any date below his signature and the presenting officer had put the date below his signature as 9-7-2005, which clearly shows that the proceeding of the 3rd sitting was signed by him on 09-07-2005 and that minutes was already prepared on 09-07-2005 itself in violation of the principles of natural justice and as such, the entire enquiry and so also the order of dismissal from service passed against him is void and illegal.

3. The party no. 1 in its written statement, by denying all the allegations made by the workman has pleaded inter-alia that the services of the workman, who was working as a timber mazdoor at Nahariya UG Mine, were terminated on the charges of proved misconduct and the workman remained absent from duty unauthorizedly from 14th February, 2004, without any intimation or sanctioned leave and the said act of the workman constituted misconduct under the relevant provision of the certified standing orders and as such, a charge-sheet dated 12-6-2004 was issued against him and he was asked to submit his written explanation and the workman submitted his written explanation stating therein that due to sickness of his son, he had gone to outside and hence he could not attend his duty, but he did not enclose any supporting certificate or document to substantiate his explanation and as such, it was decided to refer his case for departmental enquiry and accordingly, Shri G. K. Gupta

was appointed as the enquiry officer vide letter dated 11-05-2005, under intimation to the workman and the enquiry officer fixed the enquiry on 02-07-2005 at 11 am and informed and advised the workman vide his letter dt. 17-06-2005 to attend the enquiry on 2-07-2005 alongwith his witnesses, documents and co-worker, if any and on 02-07-2005, the workman appeared in the Enquiry alongwith his co-worker, Shri Bharat Singh, the General Secretary of AITUC union and the workman also submitted a written request for allowing Shri Singh to act as his co-worker, which was allowed and Shri Singh requested for adjournment of the enquiry on the ground of his attending an important meeting and accordingly, the enquiry was adjourned to 09-07-2005, with the consent of both the parties and on 09-07-2005, though the management representative was present, the workman and his co-worker remained absent and they did not send any information about the reason of their not attending the enquiry and though the presenting officer requested to proceed with the enquiry ex-parte, the enquiry officer decided to give another chance to the workman to put up his defence, in the interest of justice and deferred the enquiry to 18-08-2005 and the enquiry officer intimated the adjourned date of enquiry to the workman under registered letter dated 05-08-2005 in his home address as recorded in Form-"B" register and as on 18-08-2005, neither the workman nor his co-worker appeared in the enquiry, the presenting officer requested to proceed ex-parte against the workman and the enquiry officer decided to proceed with the enquiry ex-parte and 18-08-2005, the enquiry was closed, after production of relevant documents in support of the charges by the management representative and recording of the statement of the management representative and inadvertently, the management representative put the date 09-07-2005 below his signature given on the proceedings instead of 18-08-2005 and the enquiry officer submitted his report on 02-09-2005 and the report of the enquiry officer is based on the materials on record and the enquiry officer analyzed the documents filed before him and came to a rational and logical conclusion that charges levelled against the workman to have been proved and the copy of the enquiry report was sent to the workman, vide letter dt. 29-09-2005/ 07-10-2005, for offering comments, but the workman did not submit any comment and considering the seriousness of the misconduct and examining the past service record of the workman, the workman was terminated from services w.e.f. 24-12-2005 and the enquiry held against the workman was just, fair and proper and the punishment imposed is proportionate to the charges. It is further pleaded that though the workman was allowed to join duty with a warning, the workman did not respond to the letter of allowing him to join duty and continued to remain unauthorized absent, so his case was referred for departmental enquiry and as the workman did not raise any protest against the constitution of the enquiry, it



cannot be said that it was not justified to proceed with the enquiry on the same charges, when the workman had been allowed to join duty with a warning and according to the workman, he could not attend his duty due to the sickness of his son, but in his statement of claim, he has mentioned that he could not able to join duty due to his own sickness and as such, the same cannot be taken into consideration and more over, the workman had not intimated the management either about the sickness of his son or his own sickness and such submissions are after thought and though the enquiry against the workman and Shri Patiram were posted to 09-07-2005, the workman did not attend the enquiry initiated against him, so the enquiry against him was adjourned to another date and the enquiry against Shri Patiram proceeded and as such, there was no irregularity in the enquiry.

4. As this is a case of dismissal of the workman from services, after holding a departmental enquiry, the validity of the departmental enquiry was taken as a preliminary issue for consideration and by order dated 06-07-2011, the departmental enquiry conducted against the workman was held to be legal, proper and in accordance with the principles of natural justice.

5. At the time of argument, it was submitted by the union representative that the workman appeared in the enquiry with his co-worker and the enquiry of the workman was fixed on the same day and at the same time along with the enquiry initiated against one Patiram and as such, the same was quite illegal and from the materials on record, it can be found that the entire proceedings of the departmental enquiry was manufactured and actually there was no enquiry and the workman was not given opportunity to put forth his case and the punishment imposed against the workman is quite disproportionate and though 8 types of punishment have been prescribed in the Certified Standing Orders, the severe most punishment has been imposed against the workman and as such, it is necessary to set aside the punishment and to reinstate the workman in service.

However, at the cost of repetition, it is to be mentioned here that the departmental enquiry conducted against the workman has already been held to be legal, proper and accordance with the principles of natural justice. Hence, there is no scope to consider the submission made by the union representative again in that regard.

6. On the other hand, it was submitted by the management representative that at no stage, the union has challenged about the perversity of the findings of the Enquiry Officer or the quantum of punishment and on that ground alone, the findings of the Enquiry Officer can be held to be not perverse and otherwise also, the Enquiry Officer has based his findings on the evidence adduced in the enquiry and his report is not contrary to the evidence on record and as such, the findings are not perverse. It was further submitted that commission of grave misconduct by the workman has been proved in a properly

held departmental enquiry and the punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate and therefore, there is no scope to interfere with the punishment.

In support of such contentions, reliance has been placed on the decisions reported in AIR 1970 SC-1334 (M/s. Perry & Co. Ltd. Vs. the Labour Court), 1996 LAB IC-467 (SC) (B.C. Chaturvedi Vs. Union of India), 2003 LAB IC-757 (SC) (Regional Manager, UPSRTC, Etawah Vs. Hotilal), 2005 LAB IC-4158 (SC) (V. Ramina Vs. APSRTC) and 2005 LAB IC-854 (SC) (Bharat Forge Co. Ltd. Vs. Uttam Manohar).

So, keeping in view the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above, the present case in hand is to be considered.

7. Perused the record. Admittedly, there is no challenge in the statement of claim or at any stage of this case, regarding the perversity or otherwise of the findings of the Enquiry Officer or regarding the proportionality of the punishment by the union. Moreover, from the materials on record, it is found that the Enquiry Officer has given his findings on the basis of evidence adduced in the departmental enquiry. He has not taken any extraneous material for consideration to reach at the findings. The Enquiry Officer has assigned cogent reasons in support of his findings, after analyzing the evidence on record in a rational manner. This is not a case of no evidence or that the findings of the Enquiry Officer are against the evidence on record. Hence, the findings of the Enquiry Officer cannot be said to be perverse.

8. So far the proportionality of the punishment is concerned, grave misconduct of remaining unauthorized absence for more than 10 days has been proved against the workman in a properly conducted departmental enquiry against him. The punishment imposed against the workman cannot be said to be shockingly disproportionate to the proved misconduct against him. Taking into consideration the facts and circumstances of the case and applying the principles enunciated by the Hon'ble Apex Court in the decisions mentioned above to the present case at hand, it is found that there is no scope to interfere with the punishment imposed against the workman. Hence, it is ordered :

#### ORDER

The action of the management of M/s. WCL in dismissing Shri Saalikram from services w.e.f. 24-12-2005 is legal and justified. The workman is not entitled to any relief.

J. P. CHAND, Presiding Officer  
नई दिल्ली, 7 जून, 2012

का.आ. 2205 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक

अधिकरण/श्रम न्यायालय-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 02/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/124/2007-आई आर (सीएम-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 7th June, 2012

**S.O. 2205.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 2/2008) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/124/2007-IR (CM-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2), AT DHANBAD

Present : Shri Kishori Ram, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 2 of 2008.

**Parties:** Employers in relation to the management of Kustore Area of M/s. BCCL and their workman

#### Appearances :

On behalf of the workman : None

On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma,  
Ld. Advocate

State : Jharkhand : Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 16th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/124/2007-IR (CM-I) dated 31-12-2007.

#### SCHEDULE

“Whether the action of the management of Bera Colliery of M/s. BCCL in dismissing the services of Sh. Shankar Modi, Miner Loader w.e.f. 17-11-2003 is justified and legal? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. Non representation on behalf of the sponsoring Union/workman since the registration of the case at this

Tribunal as Ref. No. 2/2008 nor any written statement filed by them during these period despite having served altogether three Regd. Notices dtd. 3-6-2008, 17-1-2011 and 10-5-2011 respectively and one Show Cause Notice dt. 9-1-2012 on the address of the sponsoring Union mentioned in the said ‘Order of the Reference’. For the Opp-Party-Management, Mr. D. K. Verma, Ld. Advocate present on date.

On perusal the record, it shows the complete disinterestedness of the sponsoring union/workman, who did not either make any appearance or file the written statement pending since 15-3-2011. It also points that any industrial dispute does not exist in real sense. Under such circumstances, there is sufficient believable reasons that the case is closed devoid of the interest of the Union/workman—Shankar Modi, M/Loader. Accordingly, an order of no dispute as non-existent of any industrial issue, related to dismissal of the workman from service, may be passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

**का.आ. 2206 .—**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सहारा इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, चैन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 45/2009) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/13/2009-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

**S.O. 2206 .—**In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2009) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. Sahara Airlines and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11012/13/2009-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHENNAI

Monday, the 30th April, 2012

Present : A. N. Janardanan, Presiding Officer

Industrial Dispute No. 45/2009

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of

the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), between the Management of M/s. Sahara Airlines Ltd. and their Workman)

**Between**

Sri Joy Mathew	I Party/Petitioner
<b>Vs.</b>	
1. M/s. Sahara Airlines Limited L-70/329, Mahipalpur Extension New Delhi-110037	2nd Respondent 1st Party
2. M/s. Sahara India Commercial Corpn Ltd. Sahara India Centre, 8th floor No. 2, Kapoorthala Complex Aliganj Lucknow- 226024	2nd Respondent/ 2nd Party
3. M/s. Jet Airways Ltd. SM Centre, Andheri-Kurla Road Andheri East Mumbai-400059	2nd Respondent/ 3rd Party

**Appearance :**

For the Petitioner	: In person
For the 2nd Respondent/ 1st Party	: M/s. Gupta & Ravi
For the 2nd Respondent/ 2nd Party	: M/s. V. Devraj, Auth. Representative
For the 2nd Respondent/ 3rd Party	: M/s. Gupta & Ravi

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour & Employment vide its Order No. L-11012/13/2009-IR (CM-I) dated 19-06-2009 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is :

"Whether the demand of Sri Joy Mathew for his absorption in Jet Lite by the Management of Jet Airways with reference to the Share Purchase Agreement of dated 01-04-2007 entered by the Management of Jet Airways (India) Ltd., Sahara India Commercial Corporation Ltd. and others and Sahara Airlines Ltd. is justified and legal? (ii) To what relief is the workman concerned entitled?"

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 45/2009 and issued notices to both sides. Petitioner appeared in person. 1st and 3rd Respondent through Lawyer. 2nd Respondent through Authorized Representative. Petitioner filed Claim Statement. 2nd and 3rd Respondents filed Counter Statement. 1st Respondent did not file Counter Statement.

**3. Points for consideration are**

- (i) Whether the demand of Sri Joy Mathew for his absorption in Jet Lite by the Management of Jet Airways is justified and legal?

- (ii) To what relief the concerned workman is entitled?

**Points (i) & (ii)**

4. After entering appearance by both sides the matter stood posted for further proceeding, the matter stood stayed by the Hon'ble High Court of Madras for sometime. Even after the vacating of stay by the Hon'ble High Court petitioner ceased to be present or represented for quite a long time and thereafter till 25-04-2012 to which the case was adjourned for his appearance as a last chance but that day also he did not turn up. Needless to say no evidence has been adduced to prove his demand for absorption as prayed for in his Claim Statement but which was requested to be rejected by the Respondents in their Counter Statements. Here the claim not being conceded to by the Respondents and the petitioner having not proved his entitlement, the demand is only to be held as not justified and legal and that the petitioner is not entitled to any relief. So ordered.

5. The reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A., transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 30th April, 2012).

A. N. JANARDANAN, Presiding Officer

**Witness Examined**

For the 1st Party/Petitioner	: None
For the 1, 2nd and 3rd Party/Management	None

**Documents Marked on the petitioner's side**

Ex. No.	Date	Description
	Nil	

**On the Management's side**

Ex. No.	Date	Description
	Nil	

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 2207 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. एअर इंडिया के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-1, मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या 9/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/09/1999-आई आर (सी-1)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 2207.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 9/1999) of the Central Government Industrial Tribunal, Court-I Mumbai as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of

M/s. Air India and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11012/09/1999-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1**

**MUMBAI**

**Justice G. S. Saraf, Presiding Officer**

**Reference No. CGIT-1/29 of 1999**

Employers in relation to the management of Air India

And

Their workman (M.G. Solanki)

**Appearances :**

For the Management : Ms. Geeta Raju, Adv.

For the workman : Absent

State : Maharashtra

Mumbai, dated 26th April, 2012

**AWARD PART-II**

This is a reference made by the Central Government in exercise of its powers under clause (d) of sub section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act 1947. The terms of reference given in the schedule are as follows :

“क्या एअर इण्डिया के प्रबंधन द्वारा दि. 22-5-87 से श्री एम.जी. सोलंकी, क्लीनर की सेवाएँ बर्खास्त करना उचित, विधिवत एवं न्यायसंगत है? यदि नहीं तो कर्मकार किस राहत के पात्र हैं।”

According to the statement of claim filed by the second party workman he joined the first party as a sweeper in ground service department on 23-10-1978 and was confirmed on 1-5-1979. He was charged for habitual absence without permission. The enquiry started and finished on 12-5-1987 within a period of one hour. The second party workman was dismissed by letter dt. 19-6-1987 by the first party. According to the statement of claim somewhere in the month of August 1985 the wife of the second party workman was operated for stomach ailment and thereafter she was required to be taken to hospital frequently for post operation checking. The second party workman was also unwell. Due to these pressures he had to avail leave on medical grounds in the year 1985-1986. He submitted his explanation and pointed out that some of the dates on which he had been shown to be absent, he had already applied for leave as per rules. He also pointed out that due to operation of his wife he had to remain absent on some occasions. The explanation given by the second party workman was not considered by the Enquiry Committee. The findings of the Enquiry Committee are based on the alleged voluntary admission of the second party workman but the explanation given

by him clearly shows that there was no voluntary admission.

The first party filed written statement wherein it stated that the dispute raised by the second party workman suffered from gross delay and laches. According to the written statement the second party workman remained absent without leave for 87 days during the period from October 1985 to September 1986. The workman was issued a chargesheet dt. 10-11-1986 and he was charged with habitual absence without permission. The management did not receive any reply of the said chargesheet. In these circumstances the first party decided to hold an enquiry and accordingly constituted an enquiry committee. The Enquiry Committee held its proceedings on 12-5-1987 and on that day the second party workman categorically admitted the charge on his own freewill and without any coercion. Still the committee examined the representative of the Time office to verify the correctness of the charge levelled against the second party workman. The said representative produced the attendance record of the second party workman alongwith punching cards for the period from October 1985 to September 1986 and stated that the workman was not paid wages for the above period. The workman did not cross-examine the said representative in spite of opportunity accorded to him. The second party workman further submitted his final statement on the same date. The Enquiry Committee submitted its report wherein it held that the charge of habitual absence without permission levelled against the workman was established beyond doubt. By order dt. 22-5-1987, the workman was awarded the punishment of removal from service. According to the written statement the past record of the second party workman was consistently unsatisfactory during the last seven years for which he was awarded punishments. In spite of this the second party workman committed the same act of misconduct. The first party, therefore, prayed that the reference be rejected.

The second party workman filed rejoinder wherein he reiterated his stand.

Following Issues were framed :

1. Whether the enquiry is vitiated for violation of Air India Regulations or Model Standing Orders?
2. Whether the case of the workman was prejudiced for the reason the principles of natural justice and fair play were violated during the course of enquiry?
3. Whether the reference is liable to be rejected on the ground of delay and laches on the part of workman under the facts and-circumstances of the case?
4. Whether the action of the management in terminating the services of the workman is legal and justified?
5. To what relief, if any, the workman entitled to by way of this award?

By Award Part-I passed by this Tribunal on 17-1-2007 Issues no.1 and 2 were decided against the first party and in favour of the workman and the first party was given an opportunity to prove the charge against the second party workman.

The first party filed the affidavit of Dattatraya Vithoba Shinde on 28-6-2007 and thereafter the second party workman absented. Therefore, a notice was issued to the second party workman in pursuance of the ordersheet dt. 7-2-2011. In spite of service of the notice the second party workman did not turn up on the next dated i.e. 8-3-2011 and thereafter he has not appeared before this Tribunal. As per the order sheet dated 8-3-2011 cross examination of Dattatraya Vithoba Shinde was closed. The first party has also filed affidavits of V.S. Agvekar and Dattatray P. Nerurkar.

Heard M/s. Geeta Raju, learned counsel for the first party.

Now this is to be seen whether the first party has proved the charge levelled against the second party workman. Issues nos. 3 to 5 have also to be decided.

Dattatray Vithoba Shinde has participated in the enquiry as representative of the management. He has stated in his affidavit that the charge against the second party workman was that he was absent without permission for 87 days during the period from October 1985 to September 1986 and that the second party workman on 12-5-1998 categorically admitted the above charge on his freewill and without coercion before the Enquiry Committee. V.S. Agvekar who participated in the enquiry as a Typist-Clerk has also stated in the same view. The above two witnesses have not been cross examined by the second party workman. There is, therefore, no reason to disbelieve them. It is fully proved by the statements of the above two witnesses that the second party workman remained for 87 days during the period from October 1985 to September 1986.

The admission made by a party to the proceedings is binding on him and he cannot be permitted to retract from it at any subsequent stage. Here the second party workman has admitted the charge before the Enquiry Committee and, therefore, the charge stands proved against him. In view of the above discussion I am clearly of the opinion that the first party has succeeded in proving the charge against the second party workman.

#### ISSUE No. 3 :

The second party workman was removed from service in May 1987 whereas he raised the dispute in August 1998. No explanation or reason has been given for this long delay of more than eleven years. There is no doubt that the provisions of limitation Act are not applicable to these proceedings but to ignore such long delay without any reason or explanation will be violating the principles of natural justice. In the facts and

circumstances of the case I have come to the conclusion that the claim of the second party workman suffers from delays and laches and, therefore, the reference is liable to be rejected only on this ground.

Issue no. 3 is decided against the second party workman.

#### ISSUE No. 4 :

The witness of the first party Dattatray P. Nerurkar has stated in his affidavit that the workman was issued two chargesheets earlier also and was punished for unauthorised absence.

As regards this case the second party workman has remained absent unauthorisedly for 87 days in a period of one year. The conduct of remaining absent for long periods without obtaining leave is grave misconduct.

Considering all the facts and circumstances of this case I am of the opinion that the action of the first party in terminating the services of the workman is legal and Justified

Issue no.4 is decided in favour of the first party and against the second party workman.

#### ISSUE No. 5 :

The second party workman is not entitled to any relief.

Award is passed accordingly.

JUSTICE G. S. SARRAF, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 2208 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एफ.सी.आई. एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 27/2008) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/347/2007-आई आर (सी-I)]

रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 2208 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 27/2008) of the Central Government Industrial Tribunal--II Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. F.C.I.L. and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-22012/347/2007-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2)  
AT DHANBAD**

**Present :** Shri Kishori Ram, Presiding Officer  
In the matter of an Industrial Dispute under Section  
10(1)(d) of the I.D. Act, 1947  
**Reference No. 27 of 2008.**

**Parties :** Employers in relation to the management of  
Food Corporation of India, Patna and their  
workmen

**Appearances :**

On behalf of the workman : None  
On behalf of the employer : None  
State : Bihar : Industry : Consumer  
Affair, Food & Pub.  
Distribution.

Dated, Dhanbad, the 18th April, 2012

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-22012/347/2007-IR (CM-II) dt. 12-5-2008.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of FCI in recovering Rs. 105364.00 from the pay and allowances of Shri Mangleshwari Prasad Sinha, AG-I (D) is legal and justified to what relief is the workman concerned entitled?”

2. Non represented the Union concerned nor any written statement of the petitioner Mangleshwari Prasad Sinha filed, nor any represented the Management.

The perusal of the case record clearly manifests that this case has been pending for filing the written statement on behalf of the petitioner, for which five times Regd. Notices dtd. 28-1-2011, 18-5-2011, 12-10-2011, 12-1-2012 and 5-3-2012 to the Union on its address noted in the Reference case were issued and none of the Registries returns unserved, so it will legally deemed that all the Regd. Notices were served upon the Union Representative for the Petitioner. The case has been pending for it since 25-3-2011. The conduct of the sponsoring union as well as that of the petitioner in the present case related to recovery of specified amount from the Pay & Allowances of the petitioner stands their unwillingness to pursue with it. Under these circumstances, proceeding with the case for uncertainty is nothing but wastage of time and energy of the Tribunal for nothing. Hence, the case is closed and accordingly an order of non existent of any industrial dispute in the present case, is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 2209 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाद (संदर्भ संख्या 01/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/114/2003-आई आर (सी-1)]  
रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 2209 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 01/2004) of the Central Government Industrial Tribunal cum-Labour court-II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-11012/114/2003-IR (C-I)]

RAMESH SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2), AT DHANBAD**

**Present :** Shri Kishori Ram, Presiding Officer.

In the matter of an Industrial Dispute under Section  
10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

**Reference No. 01 of 2004.**

**Parties :** Employers in relation to the management of  
M/s. Govindpur Project of M/s. CCL and their workman.

**Appearances :**

On behalf of the workman : Mr. K. Chakraborty, Ld. Adv;  
On behalf of the employer : Mr. D. K. Verma, Ld. Adv;  
State : Jharkhand : Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 19th April, 2011

**AWARD**

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/114/2003-IR (C-I) dated 17-12-2003.

**SCHEDULE**

“Whether the action of the management of Govindpur Project of M/s. CCL in not providing employment to Shri Raj Kumar Rabidas, the dependent son of late

Mohan Rabidas, is justified? If not, to what relief is the said dependant of the workman concerned entitled?"

2. Mr. K. Chakraborty, the Learned Advocate/Union Representative for the petitioner Raj Kumar Rabidas neither appeared nor any witness for the evidence of the petitioner produced. Mr. D. K. Verma, the Learned Advocate for the management is present.

After going through the case record I find that the case has been pending for the evidence of petitioner since 17-1-2006, for which several notices earlier and now dated 20-12-2010, 31-5-2011 and 23-02-10 issued to the sponsoring union on its addresses noted in the Reference, even then the Union Representative has failed to produce any witness in support of the case of the petitioners' claim for his employment as dependant son of Late Mohan Rabidas. It shows the fact that the Union Representative as well as the petitioner has lost his interest in pursuing the case for its finality.

In view of the aforesaid disinterestedness of the Union Representative/petitioner to proceed with the case, the case is closed as non existent of the Industrial Dispute. In result, an order of no dispute is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 8 जून, 2012

का.आ. 2210.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. बी.सी.सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-II, धनबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 35/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-6-2012 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-20012/188/2005-आई आर (सी-1)]  
रमेश सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 8th June, 2012

S.O. 2210.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 35/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court II, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of M/s. B.C.C.L and their workman, which was received by the Central Government on 4-6-2012.

[No. L-20012/188/2005-IR (C-I)]  
RAMESH SINGH, Desk Officer

## ANNEXURE

### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 2), AT DHANBAD

Present : Shri Kishori Ram, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 35 of 2006.

Parties : Employers in relation to the management of C.V Area of M/s. BCCL and their workman.

#### Appearances :

On behalf of the workman : Mr. N.G. Arun. Rep. of the Union.

On behalf of the employer : Mr. B. M. Pd., Ld. Advocate;  
State : Jharkhand : Industry : Coal

Dated, Dhanbad, the 17th April, 2012

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the I.D. Act., 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/188/2005-IR (CM-I) dated 1-6-2006.

#### SCHEDULE

"Whether the demand of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh from the management of BCCL CV Area for payment of difference of wages w.e.f. 10-4-2001 of Cat. I & Peon to Smt. Mangli Manjhiyan is justified? If so, to what relief is the workman entitled?"

2. Mr. N.G. Arun, the Union Representative for the workman and Mr. B. M. Prasad, Ld. Advocate for the Management did not appear to represent for their respective parties nor written statement filed on behalf of the workman despite three Regd. Notices to the Union on its addresses noted in the Reference.

Perused the case record, I find the case has been all along pending for filing written statement of the workman Smt. Mangli Manjhiyan by the Union concerned since 27-12-2007, for which three Regd. Notices dtd. 29-10-2010, 8-3-2011 and 8-11-2011 to the Organisation Secretary of the Union concerned on its address noted in the Reference and none of the aforesaid Regd. Notices returned which amounts to have been served upon the Union Representative concerned. Even then non representation of the workman nor W.S. filed in behalf of the workman. The Conduct of the Union as well as the workman in the present case which is related to her claim for the payment of difference of wages clearly shows their uninterestedness to proceed with the case.

Under these circumstances, proceeding with the case for uncertainty is like carrying the burden for no result. Hence, the case is closed as non existent of the Industrial Dispute at present and accordingly order is passed.

KISHORI RAM, Presiding Officer

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

का.आ. 2211.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्र.	राजस्व ग्राम का संख्या	नाम	होबली	तालुक	जिला
1.	दोड्ड बसवनहल्ली	शांतिग्राम	हासन	हासन	
2.	नागतवल्ली	कसबा	हासन	हासन	
3.	कौशिका	शांतिग्राम	हासन	हासन	
4.	समुद्रवल्ली	शांतिग्राम	हासन	हासन	
5.	हनुमंतपुरा	कसबा	हासन	हासन	

[सं. एस-38013/20/2012-एस.एस.-1]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

S.O. 2211.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2012 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 Which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka namely :—

Sl. No.	Name of the Rev. Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1.	Doddabasa-vanahalli	Shanthi-grama	Hasan	Hasan
2.	Naga Thavalli	KasabaH	asan	Hasan
3.	Kaushika	Shanthi-grama	Hasan	Hasan
4.	Samudravalli	Shanthi-grama	Hasan	Hasan
5.	Hanumanthapura	KasabaH	asan	Hasan

[No. S-38013/20/2012-S. S. I.]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

का.आ.2212.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिनको उक्त अधिनियम के

अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

क्र.	राजस्व ग्राम का संख्या	नाम	होबली	तालुक	जिला
1.	चेलेकेरे	के.आर. पुरम	बेंगलूरु	वेंगलूरु	

[सं. एस-38013/21/2012-एस.एस. 1]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 12th June, 2012

S.O. 2212.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2012 as the date on which the provisions of Chapter IV except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Karnataka namely :—

Sl. No.	Name of the Rev. Village or Municipal Limits	Hobli	Taluk	District
1.	Chelekere	K.R. Puram	Bengaluru	Bengaluru

[No. S-38013/21/2012-S. S. I.]

NARESH JAISWAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जून, 2012

का.आ. 2213.-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 01 जुलाई, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिनको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा-(1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध गोवा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :-

1. परनेम तालुका में परनेम और मान्द्रेम के मण्डल
2. सत्तारी तालुका में वाल्पई, बिरोंदेम और पोरिम के मण्डल
3. सांगेम तालुका में कोलेम और सांगेम के मण्डल
4. कणकोना तालुका में चाँडी और पोइंगुइनिम के मण्डल
5. क्यूपेम तालुका में वाली के मण्डल

की राजस्व सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र ।

[सं. एस-38013/22/2012-एस.एस. 1]

नरेश जायसवाल, अवर सचिव



New Delhi, the 12th June, 2012

**S.O. 2213.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st July, 2012 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except Sub-Section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Goa namely :—

All the areas falling within the revenue limits of :—

1. The Circle of Pernem and Mandrem in Taluka Pernem
2. The Circle of Valpoi, Birondem and Poriem in Taluka Sattari.
3. The Circle of Colem and Sanguem in Taluka Sanguem
4. The Circle of Chaudi and Poinguinim in Taluka Canacona
5. The Circle of Bali in Taluka Quepem

[No. S-38013/22/2012-S. S. I]

NARESH JAISWAL, Under Secy.